

प्रति ३०००

ठाकुर जगजीतसिंह पाल,
वसन्त प्रिंटिंग प्रेस, गनपत रोड लाहौर

पुस्तक मिलने का पता.—

१. श्री आत्मानन्द जैन महासभा पञ्जाब,
“हैड आफिस” अम्बाला शहर (पञ्जाब)
२. श्री जैन आत्मानन्द सभा
भावनगर (काठियावाड़)

तृतीय संस्करण

प्रति ३०००


न्यायाम्भोनिधि जेनाचार्य श्रीमद्वज्रानन्द सूरि जी
(श्री आत्माराम जी महाराज)



No man has so peculiarly identified himself with the interests of the Jain Community as Mahim Atmaram Ji. He has sworn one of the noble bands from the day of initiation to the end of life to work day and night for the high mission they have undertaken. He is the high priest of the Jain community and is recognised as the highest living authority on Jain Religion and literature by Oriental Scholars.

(Page 21st of the World's Parliament of Religions)

विषयानुक्रमिका



सप्तम परिच्छेद

विषय	पृष्ठ
सम्यक्त्य के भेद	२
चार निक्षेप तथा मूर्तिपूजा	७
व्यवहार धर्म और दया के आठ भेद	२०
निग्रयधम	२४
सम्यक्चरारी के फलव्य	३७
राहु भतिचार	३८
पंचम काल की मनुष्यायु	२९
आधुनिक भूगोल तथा जैनमान्यता	२३
प्रेतपिशा	२६
शास्त्र और उनके कल्पित अथ	३२
आकाशा भतिचार	३६
पिच्छिक्किमा भतिचार	३७
मिथ्यादृष्टि प्रशान्ता भतिचार	४०
मिथ्यादृष्टि परिचय भतिचार	४१
आगार और उस के भेद	४१

अष्टम परिच्छेद

विषय	पृष्ठ
चरित्र धर्म के भेद और १२ व्रत	४५
१. प्राणातिपातविरमण व्रत	४५
हिसा के भेद	४६
मर्यादित अहिसा	४७
यतना (जयणा) का स्वरूप	५०
उक्त व्रत के पांच अतिचार	५३
२. मृपावादविरमण व्रत	५५
मृपावाद के पांच भेद	५७
उक्त व्रत के पांच अतिचार	५८
३. अदत्तादानविरमाण व्रत	६०
अदत्त के चार भेद	६१
उक्त व्रत के पांच अतिचार	६३
४. मैथुनविरमण व्रत	६५
उक्त व्रत के पांच अतिचार	६६
५. परिग्रहपरिमाण व्रत	७०
चौदह प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह	७०
नव प्रकार का इच्छापरिमाण व्रत	७१
उक्त व्रत के पांच अतिचार	७४
गुणव्रत का स्वरूप	७६

विषय	पृष्ठ
६ दिक् परिमाण व्रत	७७
उक्त व्रत के पाच अतिचार	७८
७ भोगोपभोग व्रत	७९
गार्डस अभक्ष्य	८१
मदिरापान के दोष	८२
मासभक्षण का निषेध	८४
श्रेयता, पितरादि सम्बन्धी मासपूजा का अनौचित्य	८०
मक्ष्यन खाने का निषेध	८७
मधुभक्षण का निषेध	९८
रात्रि भोजन का निषेध	१०२
घटुश्रीज फलादि का घणत	१०६
अनन्तशाय का स्वरूप	११३
चौदह नियम	११५
पद्मरह कर्मदान	१२१
उक्त व्रत के पाच अतिचार	१२६
८ अनधदण्डविरमण व्रत	१२८
भातध्यान के चार भेद	१२६
रौद्र ध्यान के चार भेद	१३०
उक्त व्रत के पाच अतिचार	१३७

विषय	पृष्ठ
आरति और मङ्गलदीवे की विधि	२१८
कैसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए ?	२२१
द्रव्यपूजा की विशेषता	२२३
पूजा का फल	२२५
चार प्रकार का अनुष्ठान	२२९
जिनमंदिर की सार संभाल	२३१
ज्ञान की आशातना	२३३
जिनमंदिर की ८४ आशातना	२३३
गुरु की ३३ आशातना	२३७
अन्य आशातना	२३९
देवादि सम्यन्धी द्रव्य का विचार	२४१
गुरुवन्दन और प्रत्याख्यान	२४९
गुरुविनय	२५२
अर्थचिन्ता	२५४
आजीविका के साधन	२५५
व्यापार और व्यवहार नीति	२६१
चार प्रकार का कर्मफल	२६६
देशान्तर में व्यापार	२६८
धन का सदुपयोग	२७२
देशादि विरुद्ध का त्याग	२७४

विषय	पृष्ठ
पिता से उचित व्यवहार	२५८
माता से उचित व्यवहार	२५९
भाई से उचित व्यवहार	२६०
स्त्री से उचित व्यवहार	२६२
पुत्र से उचित व्यवहार	२६५
स्वजन से उचित व्यवहार	२६७
गुरु से उचित व्यवहार	२६८
नगरवासी से उचित व्यवहार	२६९
परमत्त घाले से उचित व्यवहार	२६०
सामान्य शिष्टाचार	२६१
सुपात्रदान	२६३
भोजन सम्बन्धी नियम	२६७
भोजन के अनन्तर घ-दन, स्नान आदि कृत्य	३०२

दशम परिच्छेद

धायक का राष्ट्रिय	३०४
निद्रायिधि	३०५
दिन में सोना कि नहीं	३०६
विषयवासना की त्यागभावना	३०८
भयस्थिति का विचार	३०९

विषय	पृष्ठ
धर्ममनोरथ भावना	३१०
षर्वकृत्य	३११
तिथि सम्बन्धी विचार	३१२
चातुर्मासिक कृत्य	३१५
वर्षकृत्य—संघपूजा	३१६
साधर्मिवात्सल्य	३२०
यात्राविधि	३२२
स्नात्रमहोत्सव	३२४
श्रुतपूजा	३२५
उद्यापन	३२६
प्रभावना	३२६
आलोचनाविधि	३२७
आलोचना देने का अधिकारी	३२७
आलोचना के दस दोष	३२६
आलोचना से लाभ	३३०
जन्मकृत्य और अठारह द्वार	
१. निवासस्थान तथा गृहनिर्माण	३३१
२. विद्या	३३७
३. विवाह	३३८
४. मित्र	३४१

विषय	पृष्ठ
५ जिनमंदिर का निर्माण	३४१
६ जिनप्रतिमा का निर्माण	३४५
७ प्रतिमा की प्रतिष्ठा	३४८
८ परदीक्षा	३४९
९ तत्पदस्थापना	३४६
१० पुस्तकलेखन	३४८
११ पौषधशाला का निर्माण	३५०
१२ जीवन पर्यन्त सम्यक्प्रदर्शन का पालन	३५१
१३ जीवन पर्यन्त व्रतादि का पालन	३५१
१४ आत्मदीक्षा—भात्र श्रावक	३५१
१५ आरम्भ का त्याग	३५४
१६ जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य	३५४
१७ ग्यारह प्रतिमा	३५४
सलेखना	३५६
१८ आराधना के दस भेद	३५७

एकादश परिच्छेद

जैनमत सम्बन्धी भ्रातिया	३५८
कालचक्र	३५६
कुलकर और उन की नीति	३६२

विषय	पृष्ठ
श्री ऋषभदेव का जन्म	३६५
बाल्यावस्था और इक्ष्वाकु कुल	३६५
विवाह	३६६
सौ पुत्रों के नाम	३६७
राज्याभिषेक	३६८
चार वंश	३६९
भोजन पकाने आदि कर्म की शिक्षा	३७०
पुरुष की ७२ कलाएं	३७२
स्त्री की ६४ कलाएं	३७३
१८ प्रकार की लिपि	३७४
श्री ऋषभदेव ही जगत् के कर्त्ता—व्यवहार प्रवर्तक हैं	३७५
दीक्षा और छत्रस्थ काल	३७७
केवलज्ञान की प्राप्ति और समवसरण	३७६
मरीचि और सांख्यमत की उत्पत्ति	३८०
(श्रावक) ब्राह्मणों की उत्पत्ति	३८४
(आर्य) वेदों की उत्पत्ति और उच्छेद	३८८
हिंसात्मक यज्ञ और पिप्पलाद	३९०
वेदमंत्र का अर्थ और वसुराजा	३९५
महाकालासुर और पर्वत	४०४
श्री ऋषभदेव का निर्वाण	४०९

विषय	पृष्ठ
श्री अजितनाथ और सगर चक्रवर्ती -	४११
श्री सभवनाथ -	४१३
श्री अभिनन्दन नाथ, श्री सुमतिनाथ, श्री पद्मप्रभ,	
श्री सुपाश्र्वनाथ, श्री चन्द्रप्रभु, श्री सुविधिनाथ	४१४
मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण	४१५
श्री शीतलनाथ और हरिद्वार की उत्पत्ति	४१५
श्री श्रेयासनाथ और त्रिपृष्ठ वासुदेव	४१७
श्री वासुपूज्यनाथ, श्री विमलनाथ, श्री अनतनाथ	४१६
श्री धर्मनाथ श्री शातिनाथ, श्री कुशुनाथ,	
श्री अरनाथ	४२०
सुभूमचक्रवर्ती और परशुराम	४२१
श्री महिनाथ, श्री मुनिसुव्रतनाथ	४३२
विष्णु मुनि तथा नमुचिरल	४३३
राज्य और उस के दश मुल	४३८
श्री नमिनाथ, श्री नेमिनाथ	४३६
श्री कृष्ण और बलभद्र	४३६
श्री पार्वनाथ और श्री महावीर	४४२
द्वादश परिच्छेद	
श्री महावीर के गणधरादि	४४४

विषय	पृष्ठ
सत्यकी और महेश्वरपूजा	४४५
कोणिक और श्राद्ध	४५१
प्रयाग तीर्थ	४५३
श्री महावीर का निर्वाण	४५३
गौतम और संशयनिवृत्ति	४५४
अग्निभूति और संशयनिवृत्ति	४५८
वायुभूति और संशयनिवृत्ति	४६०
अव्यक्त और संशयनिवृत्ति	४६१
सुधर्म और संशयनिवृत्ति	४६२
मंडिकपुत्र और संशयानवृत्ति	४६३
मौर्यपुत्र और संशयनिवृत्ति	४६४
अकंपित और संशयनिवृत्ति	४६५
अचलभ्राता और संशयनिवृत्ति	४६६
मैतार्य और संशयनिवृत्ति	४६७
प्रभास और संशयनिवृत्ति	४६७
श्री सुधर्मा स्वामी	४६८
श्री जम्बू स्वामी और दश विच्छेद	४६९
श्री प्रभव स्वामी	४७०
श्री शय्यंभव स्वामी	४७१
श्री यशोभद्र	४७३

विषय	पृष्ठ
श्री सभूतविजय और श्री भद्रराहु	४७४
श्री स्थूलभद्र	४७५
श्री आय महागिरि और श्री सुहस्तिसूरि	४७६
सम्प्रति राजा	४७६
श्री वृद्धराक्षी और श्री सिद्धसेन	४७८
श्री सिद्धसेन और विक्रमराजा	४८०
विक्रमादित्य का समय	४८२
श्री वज्र स्वामी	४८३
श्री वज्रसेन सूरि	४८५
श्री मानदेव सूरि	४८६
श्री मानतुङ्ग सूरि	४९७
श्री उद्योतन सूरि	५००
श्री सर्वदेव सूरि	५०१
श्री मुनिचन्द्र सूरि	५०२
श्री अजितदेव सूरि	५०३
श्री हेमचन्द्र सूरि	५०३
श्री जगच्चन्द्र सूरि और तपागच्छ	५०४
श्री दशेन्द्र सूरि तथा श्री विजयचन्द्र सूरि	५०५
श्री धमघोष सूरि	५०८
श्री सोमप्रभ सूरि	५१२
श्री सोमतिलक सूरि	५१३

विषय	पृष्ठ
श्री देवसुन्दर सूरि	५१४
श्री सोमसुन्दर सूरि	५१५
श्री मुनिसुन्दर सूरि	५१६
श्री रत्नशेखर सूरि	५१७
लुंका मत की उत्पत्ति	५१७
श्री हेमविमल सूरि	५२०
श्री आनन्दविमल सूरि और क्रियोद्धार	५२०
श्री विजयदान सूरि	५२२
श्री हीरविजय सूरि	५२३
अकबर महाराजा से भेट	५२५
अकबर महाराजा के जीवहिंसा निषेधक फरमान	५२७
श्री शांतिचन्द्र उपाध्याय और अकबर बादशाह	५३१
श्री विजयमेन सूरि	५३२
दूढंक मत की उत्पत्ति	५३६
अनुयायी शिष्य परिवार	५३७
श्री यशोविजय जी उपाध्याय	५४१
श्री सत्यविजय गणि	५४१
श्री क्षमाविजय गणि की शिष्य परंपरा	५४२
लेखककालीन मत	५४२



* ॐ नमः स्वादादवादिने *

जैनाचार्यन्यायाम्मोनिधि

श्री विजयानन्द सूरीश्वर (प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी) विरचित

जैनतत्त्वादर्श

उत्तरार्द्ध



सप्तम परिच्छेद

इस परिच्छेद में सम्यग्दर्शन का स्वरूप लिखते हैं —
सम्यग्दर्शन का कुछ स्वरूप ऊपर लिख भी
सम्यक्त्व के मत आये ह, तो भी भव्य जीवों के विशेष जानने के
वास्ते कुछ और भी लिखते हैं । सम्यक्त्व के
दो भेद ह—एक व्यवहारसम्यक्त्व, दूसरा निश्चयसम्यक्त्व ।
जिनोक्त तत्त्वों में ज्ञान पूरक जो सचि है, तिसको सम्यक्त्व
कहते ह । सो सम्यक्त्व, जिन तत्त्वों में यथार्थ सचि उत्पन्न
होने से होता है, सो तत्त्व तीन ह । एक देवतत्त्व, दूसरा
गुरुतत्त्व, तीसरा धमतत्त्व । जो पुरुष इा के विषे श्रद्धा—
प्रदानि करे, सो सम्यक्त्वमान् होता है । तिस श्रद्धा के दो

भेद हैं—एक व्यवहार श्रद्धा, दूसरी निश्चय श्रद्धा । इन दोनों में प्रथम व्यवहार श्रद्धा का स्वरूप लिखते हैं ।

व्यवहार श्रद्धा में देव तो श्री अरिहंत है, जिस का स्वरूप प्रथम परिच्छेद में लिख आये हैं, सो चार निक्षेप तथा सर्व तहां से जान लेना । तथा तिस अरिहंत मूर्तिपूजन के चार निक्षेप अर्थात् स्वरूप है, सो यहां पर कहते हैं—१. नामनिक्षेप, २. स्थापनानिक्षेप, ३. द्रव्यनिक्षेप, ४. भावनिक्षेप हैं । इन चारों का स्वरूप विस्तार पूर्वक देखना होवे, तदा विशेषावश्यक देख लेना । तिन में प्रथम नाम अर्हंत, सो “-नमो अरिहंताणं” ऐसा कहना । इस पद का जाप करके अनेक जीव संसार समुद्र को तर गये है । तथा दूसरा स्थापनानिक्षेप, सो अरिहंत की प्रतिमा अर्थात् समस्त दोषयुक्त चिन्हों से रहित, सहज-सुभग, समचतुरस्रसंस्थान, पद्मासन, तथा कायोत्सर्गमुद्रारूप जिनर्षिव जानना । तिस को देख कर, तिस की सेवा पूजन करके अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हुये है ।

प्रश्नः—अरिहंत की प्रतिमा को पूजना, उस को नमस्कार करना, और स्थापना निक्षेप मान कर उस को मुक्ति दाता समझना, यह केवल मूर्खता के चिन्ह हैं । जडरूप प्रतिमा क्या दे सकती है ?

* यह नमस्कार मन्त्र का प्रथम पद है, और श्री कल्पसूत्र तथा भगवती सूत्र के आरम्भ में आया है ।

उत्तर —हे भव्य ! तू किमी शास्त्र को परमेश्वर का रचा हुआ मानता है, या कि नहीं ? जेकर शास्त्र को परमेश्वर का वचन मानता है, तथा उस को सच्चा और ससार समुद्र से पार उतारने वाला मानता है, तो फिर जिनप्रतिमा के मानने में क्यों लज्जा करता है ? क्योंकि जसा शास्त्र जडरूप है, अर्थात् उस में स्याही अरु कागज को वज कर और कुछ भी नहीं है, तैसी जिन प्रतिमा भी है। जेकर कहोगे कि कागजों पर तो स्याही के अक्षर सस्थान समुक्त लिखे जाते हैं, अतः उन के वाचने से परमेश्वर का कहना मालूम हो जाता है, तो इसी तरे परमेश्वर की मूर्ति को देखने से भी परमेश्वर का स्वरूप मालूम होता है।

प्रश्न —प्रतिमा के देखने से अर्हत के स्वरूप का तो स्मरण हो आता है, परन्तु प्रतिमा की भाक्ति करने से क्या लाभ है ?

उत्तर —शास्त्र क श्रवण करने से परमेश्वर के वचन तो मालूम हो गये, तो भी भक्त जन जैसे शास्त्र को उच्च स्थान में रखते हैं, तथा कोई शिर पर ल कर फिरते हैं, कितनेक गले में लटकाये रखते हैं, और कितनेक मजी पर, कितनेक चौकी आदि पर सुन्दर सुन्दर कमलों में लपेट कर रखते हैं, और नमस्कारादि करते हैं, ऐसे ही जिनप्रतिमा की भाक्ति, पूजा भी जान लेनी।

भी कुछ सिद्धि नहीं होगी। तब तो इस दृष्टान्त से भगवान् का नाम भी न लेना चाहिये।

प्रश्नः—प्रतिमा को कारीगर बनाता है, तब तो उन कारीगर को भी पूजना चाहिये ?

उत्तरः—वेदादि शास्त्रों को भी लिखारी लिखते हैं, तब तो उन को भी पूजना चाहिये ? तथा साधु के माता पिता को भी साधु से अधिक पूजना चाहिये।

प्रश्नः—स्थापना को कोई भी बुद्धिमान् इस काल में नहीं मानता है।

उत्तरः—बुद्धिमान् तो सर्व मानते हैं, परन्तु मूर्ख नहीं मानते।

प्रश्नः—कौन से बुद्धिमान् स्थापना मानते हैं ? तिनों का नाम लेना चाहिये।

उत्तरः—प्रथम तो सांसारिक विद्या वाले सर्व बुद्धिमान्, भूगोल, खगोल, द्वीप अर्थात् युरोप खंड, विलायत प्रमुख का सर्व चित्र स्थापना रूप मानते हैं, और बनाते हैं। तथा जो ककार आदि अक्षर है, वे सर्व पुरुष—ईश्वर के शब्द की स्थापना करते हैं। तथा जैनियों के मत में जो एक लौ आठ मणके माला में रखते हैं, अधिक न्यून नहीं रखते। इस का हेतु यह है, कि जैन बारह गुण तो अरिहंत पद के मानते हैं, अरु आठ गुण सिद्ध पद के, वत्तीस गुण आचार्य पद के, पच्चीस गुण उपाध्याय पद के, तथा सत्ताईस गुण मुनि—साधु

पद के मानते हैं। यह सब मिल कर एक सो आठ होते हैं। इस वास्ते जैनियों के मत में माला में जो मणके हैं, सो एक एक मणका एक एक गुण की स्थापना है। यह माला भी स्थापना है। इसी तरे दूसरे मतों में भी जो माला तसगी है, सो सर्व किसी न किसी वस्तु की स्थापना है। नहीं तो एक सो आठ तथा एक सो एक का नियम न होना चाहिये। तथा पादरी लोगों की पुस्तकों पर भी इसामसीह की मूर्ति उस वस्त्र की छापी हुई है, जिस अक्सर में मसीह को शूली पर देने को ले जाते थे। उस मूर्ति के देखने से ईसा मसीह की सर्व अवस्था मालूम हो जाती है। वस, स्थापना का यही तो प्रयोजन है, कि जो उस के देखने से असली वस्तु का स्वरूप याद-स्मरण हो जाता है। आश्चर्य तो यह है कि अद्य इस काल में कितने-न तुच्छ बुद्धि वाले अपनी घनाई पुस्तक में यहशाला तथा यज्ञोपकरण की स्थापना अपने हाथों से करके अपने शिष्यों को जनाते हैं, कि यज्ञोपकरण इस आकृति के चाहिये। फिर कहते हैं कि हम स्थापना को नहीं मानते ह। अद्य विचार करना चाहिये कि क्या इन से भी कोई अधिक मूल्य जगत् में है ? आप तो स्थापना करते हैं, अद्य फिर कहते ह कि हम स्थापना को मानते नहीं हैं। इस वास्ते जो पुरुष अपने शास्त्र के उपदेशक को देहधारी मानेगा, वो अवश्य उस की मूर्ति को भी मानेगा। तथा जो अपने शास्त्र के उपदेशक का देहरहित माने

हैं, वे भी थोड़ी बुद्धि वाले हैं। क्योंकि जिस के देह नहीं, वो शास्त्र का उपदेश कदापि नहीं हो सकता है। कारण कि देह रहित होना और शास्त्र का उपदेश देने वाला भी होना, इस बात में कोई भी प्रमाण नहीं है। और मूर्ति स्थापना के बिना निराकार सर्वव्यापी परमेश्वर का ध्यान भी कोई नहीं कर सकता है, जैसे कि आकाश का ध्यान नहीं हो सकता है। इस वास्ते अठारह रूपण से रहित जो परमेश्वर है, तिस की मूर्ति अवश्य माननी और पूजनी चाहिये। सो ऐसा देव तो अर्हत ही है, इस वास्ते अर्हत की प्रतिमा अवश्य माननी चाहिये। परन्तु किसी दुर्बुद्धि के कुहेतुओं से भ्रम में फंस कर छोड़नी कदापि न चाहिये।

तीसरा द्रव्यनिक्षेपः—सो जिस जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंध कीना है, तिस जीव में भावी गुणों का आरोप अर्थात् आगे को तीर्थंकर भगवान् होवेगा, ऐसा वर्तमान में आरोप करके वंदन नमस्कार और पूजन करना द्रव्यनिक्षेप है। इस से अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त हुये हैं।

चौथा भावनिक्षेपः—सो जो वर्तमान काल में सीमंघर प्रमुख तीर्थंकर केवल ज्ञानसंयुक्त, समवल्लरण में विराजमान, भव्यजीवों के प्रतिबोधक, चतुर्विध संघ के स्थापक, सो भाव अर्हत, इन के चरण कमल की सेवा करके अनेक जीव मुक्त होते हैं। यह भावनिक्षेप है। यह चार

निक्षेप करके सयुक्त, ऐसा जो अरिहत देवाधिदेव, महा गोप, महा माहण, महा निर्यामक, महा साथप्राह, महा वैद्य, महा परोपकारी, कष्टनासमुद्र, इत्यादि अनेक उपमा लायक, सो भव्य जीवों के अज्ञानाधकार को दूर करने में सूर्य के समान है, प्रमाण करके अविरोधि जिस के वचन हैं। और जो ऐसे मुनिमनमाहन, योगीश्वर, चिदानन्द घनस्वरूप, अरिहत का र्म देव अथात् परमेश्वर मानता ह, तिस की सेवा करू, तिस की आज्ञा सिर धरू, ऐसा जो माने, सो प्रथम व्यवहारशुद्ध देवतत्त्व है।

दूसरा निश्चय शुद्ध देवतत्त्व कहते हैं। जो शुद्धात्म स्वरूप को अनुभव करना, सो शुद्धात्म स्वरूप ही निश्चय देवतत्त्व है। कैसा है वा आत्मस्वरूप? कि पाच वर्ण, दो गंध, पाच रस, आठ स्पर्श, शब्द, किया इन से रहित, तथा योग से रहित, अतीन्द्रिय, अविनाशी, अनुपाधि, अवर्धी, अक्षेशी, अमूत्त, शुद्ध चेतन्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनन्त गुणों का भाजन, सच्चिदानन्द स्वरूपी ऐसी मेरी आत्मा है, सोई निश्चय देव है।

अथ दूसरा गुरुतत्त्व कहते हैं। तिस के भी दो भेद हैं, एक शुद्ध व्यवहारगुरु, दूसरा शुद्ध निश्चयगुरु। उस में शुद्ध व्यवहारगुरु का स्वरूप तो गुरुतत्त्व निरूपण परिच्छेद में लिख आये हैं तदा से ज्ञान लेना। ऐसे साधु को गुरु करके माने, ऐसे गुरु की आज्ञा से प्रवर्त्ते, ऐसे मुनि

को पात्र बुद्धि करके शुद्ध अन्नादिक देवे । यह शुद्ध व्यवहार गुरुतत्त्व है । तथा शुद्ध निश्चय गुरुतत्त्व तो शुद्धात्मविज्ञान-पूर्वक है जो हेयोपादेय में उपयोगशुक्ल परिहार प्रवृत्तिज्ञान, सो निश्चयगुरुतत्त्व है ।

अथ तीसरा धर्मतत्त्व कहते हैं । धर्मतत्त्व के भी दो भेद हैं, एक व्यवहार धर्मतत्त्व, दूसरा निश्चयधर्म-व्यवहार धर्म तत्त्व । तिन में जो व्यवहाररूप धर्म है, सो और दया दयाप्रधान है । क्योंकि जो सत्यादि मत हैं, सो सर्व दया की रक्षा वास्ते हैं । इस वास्ते दया का स्वरूप लिखते हैं । दया के आठ भेद हैं, सो कहते हैं—१. द्रव्यदया, २. भावदया, ३. स्वदया, ४. परदया, ५. स्वरूपदया, ६. अनुबंधदया, ७. व्यवहारदया ८ निश्चयदया ।

१. द्रव्यदया—यत्नपूर्वक सर्व काम करना । यह तो जैन-मत वाले के कुल का धर्म है । सब जैन लोग पानी छान के पीते हैं, और अन्न शोध के खाते हैं । जेकर कोई जैनी छल-कपट करता है, भूठ बोलता है, और विश्वासघात करता है, वो पापी जीव है । सो जैनमत को कलंकित करता है, वो सर्व उस जीव का ही दोष है, परंतु उस में जैनधर्म का कुछ दोष नहीं है । जैनधर्म तो ऐसा पवित्र है कि जिस में कोई भी अनुचित उपदेश नहीं है । यह बात सर्व सुज्ञ जनों को विदित है । इस वास्ते जो काम करना, सो यत्नपूर्वक जीवरक्षा करके करना ।

२ भावदया—दूसरे जीवा की गुणप्राप्ति के वास्ते तथा दुर्गति में पड़ते हुए जीव के रक्षण वास्ते, अन्त करण में अनुकृपा बुद्धि सयुक्त जो परजीव को हितोपदेश करना, सो भावदया है।

३ स्वदया—अनादि काल से मिथ्यात्व, अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध धर्मापूर्वक अशुद्ध प्रवृत्ति, कपायादि भावशस्त्रों करी समय समय में आत्मा के ज्ञानादि गुणरूप भावप्राणों की हिंसा होती है। ऐसे जिनधचन सुनने से पूर्वाक्त भाव शस्त्रों का त्याग करके स्वसत्ता में प्रवृत्ति करके, शुद्धोपयोग धार के विषय कपायों से दूर रहना, अरु शुभ, अशुभ कर्मफल के उदय में अव्यापक रहना अर्थात् सुख दुःख में हृष विपाद न करना, प्रतिक्षण अशुभ कर्म के निदान को दूर करने की जो चिंता, तिस का नाम स्वदया है। इस स्वदया की रचि वाला जीव अपनी परिणति शुद्ध करने वास्ते जिन पूजा, तीर्थयात्रा, रथयाना प्रमुख शुभ प्रवृत्ति करे बहुमान करके जिन गुण गावे, असत् प्रवृत्ति से चित्त को हटा करके तरंगालयी करे, पुद्गलावल्पीपना हटावे। इस शुभाश्रव में यद्यपि देपन में कितनेक जीवों की हिंसा दीप्त पड़ती है, तो भी आत्मा की अशुद्ध परिणति मिटने से आत्मा गुणप्राप्ती हो जाती है, जब गुणप्राप्ती भई, तब ज्ञानवान् हो गई। इस वास्ते सब साधक जीवों को यह स्वदया परम साधन है। इस स्वदया के वास्ते साधु भी नवन्तरी

विहार करते हैं, और उपदेश देते हैं, चर्चा करते हैं, तथा पूजन, प्रतिलेखन करते हैं। यद्यपि नदी नाले उतरने पड़ते हैं, तहां योगों की चपलता से आश्रव होता है, तो भी चेतन स्वरूपानुयायी रहता है, जिनाशा पालता है, और कपायस्थान मंद करता है, स्वच्छन्दता दूर करता है, तथा धर्म प्रवृत्ति की वृद्धि करता है। यह स्वदया के वास्ते शुभाश्रव साधु भी अपने कल्प प्रमाणे आचरण करता है। परन्तु यह आश्रव साधक दशा में बाधक नहीं है।

४. परदया—छु काय के जीवों की रक्षा करनी। जहां स्वदया है, तहां परदया तो नियम करके है, अरु जहां पर दया है, तहां स्वदया की भजना है. अर्थात् होवे भी, नहीं भी होवे।

५. स्वरूपदया—जो इहलोक परलोक के विषयसुख वास्ते तथा लोकों की देखा देखी करके जीव रक्षा करे, सो स्वरूपदया है। इस दया से विषय सुख तो मिल जाते हैं, परन्तु मैडुकचर्णवत् संसार की वृद्धि होती है। यह देखने से तो दया है, परन्तु भाव से हिंसा ही है।

६. अनुबंधदया—श्रावक बड़े आडम्बर से मुनि को वंदना करने को जावे, तथा उपकार बुद्धि से दूसरे जीवों को 'सन्मार्ग' में लाने वास्ते आक्रोश—ताडनादि करे, किसी को शिक्षा देवे। यहां देखने से तो हिंसा है, परन्तु अंत में स्वपर को लाभ का कारण है, इस वास्ते यह दया है। जैसे

साधु, आचार्य, अपने शिष्य शिष्याओं को शिक्षा देता है, किसी को भूल याद कराता है, तथा किसी को अनुचित काम से मना करता है, किसी को एक बार कहता है, अरु किसी को बारम्बार शिक्षा देता है, किसी ऊपर क्रोध भी करता है, शासन के प्रत्यनीक को अपनी लब्धि से दंड देता है, इत्यादि कामों में यद्यपि हिंसा दीखती है, तो भी फल दया का है।

७ व्यवहारदया—विधिमार्गानुयायी जीव दया पाले, सर्व क्रिया कलाप उपयोग पूर्वक करे, सो व्यवहार दया है।

८ निश्चयदया—शुद्ध साध्य उपयोग में एकत्व भाव, अभेदोपयोग साध्य भाव में एकताज्ञान, सो भावदया। इस दया सेती ऊपर के गुणस्थानों में जीव चढ़ता है, तिस वास्ते उत्कृष्ट है। इत्यादि अनेक प्रकार से दया के स्वरूप, विज्ञानपूर्वक सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णों, वृत्ति, इस पचासीसम्मत, प्रत्यक्षादि प्रमाणपूर्वक नैगमादिनय, नामादि निक्षेप, सप्तभगी, ज्ञाननय, क्रियानय, तथा निश्चय व्यवहारनय, तथा द्रव्याधिक पयायार्थिक, इत्यादि उभय भाव में यथावसरे अर्पित, अनर्पित नयनिपुणता से मुख्य गौण भावे उभयनयसम्मत, शुद्धस्याद्वादशैली विज्ञानपुत्रक, श्रीसिद्धातोरु दान, शील, तप, भावनारूप शुभ प्रवृत्ति, तिस का नाम शुद्ध व्यवहारधर्म कहिये हैं।

तथादूसरा निश्चयधर्म—सो अपनी आत्मा की आत्मता को जाने और वस्तु के स्वभाव को जाने। जो निश्चय धर्म मेरी आत्मा है, सो शुद्ध चैतन्यरूप, असंख्या-तप्रदेशी, अमूर्त्त, स्वदेहमात्रव्यापी, सर्व पुद्गलों से भिन्न, अखंड, अलिप्त, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, अव्यावाध, सच्चिदानंदादि अनंत गुणमयी, अविनाशी, अनुपाधि, अविकारी है, सोई उपादेय है। इस से विलक्षण जो परपुद्गलादिक, सो मेरे नहीं। तिस पुद्गल के पांच विकार हैं—१. शब्द, २. रूप, ३ रस, ४ गंध, ५. स्पर्श, इन पांचों के उत्तर भेद अनेक हैं। इस लोकाकाश में उद्योत तथा अंधकार, तथा जो शब्द है, तथा सर्व रूपी वस्तु की जो छाया, रत्न की कांति, शीत, धूप, नाना प्रकार के रूप, रंग, संस्थान, और नाना प्रकार की सुगंध, दुर्गन्ध नानाप्रकार के रस, तथा सर्व संसारी जीवों की देह, भाषा, और मन के विकल्प, दश प्राण, छ पर्याप्ति, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और खुशी, उदासी, कदाग्रह, हठ, लड़ाई, क्रोधादि चार कपाय, तथा साता असाता, ऊंच, नीच, निद्रा, विक्रथा. तथा सर्व पुण्यप्रकृति सर्व पाप प्रकृति, तथा रीझना, मौज, खिजना, खेद, तथा छे लेश्या, लाभालाभ, यश, अपयश, मूर्ख, चतुरता, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद, कामचेष्टा, गति, जाति, कुल, इत्यादि आठ कर्म का विपाक—फल है। यह सर्व वाते जीव के अनुभव

से सिद्ध है। अथ सूक्ष्मपुद्गल इन्द्रिय अगोचर है, सो पर-
माणु आदि लेके अनेक तरे का है। इस पूर्वोक्त पुद्गल के
सयोग से जीव चारों गति में भटकता है। यह पुद्गल मेरी
जाति नहीं, इस पुद्गल का मेरे साथ कोई वास्तव संबन्ध
नहीं, और यह पुद्गल सर्व त्यागने योग्य है, जो इस
पुद्गल का ससग है, सोइ ससार है, तथा इस पुद्गल की
सगति से ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि गुण विगड जाते हैं, जो
यह पुद्गल द्रव्य की रचना है, सो मेरी आत्मा का स्वभाव
नहीं। तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,
काल, यह चारों द्रव्य शैथिल्य रूप हैं, इन से भी मेरा स्वरूप अत्र
है। और जो मसारी जीव हैं, सो सर्व अपनी अपनी स्वभाव
सत्ता के स्वामी हैं, सो मेरे ज्ञान में शैथिल्य रूप हैं, परन्तु मैं इन
सब से अत्र हूँ, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका नहीं, मैं इनका साथी
भी नहीं, और मैं अपने स्वरूप का स्वामी हूँ, मेरा स्वभाव
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप है, वर्ण रहित, तथा गंध
रहित, रस रहित, चैतन्य गुण, अनत, अथाभाव, अत
ज्ञान, लभ, भोग, उपभोग, वीर्यादिक अनत गुण स्वरूप
हैं तिनकी अज्ञा भासन पूर्वक गुणस्वभावादिक रूप
चिदानन्द ही मेरा स्वभाव है। ऐसा जो मेरा पूर्णानन्द
स्वभाव, तिस के प्रगट करने वास्ते सबशुद्ध
व्यवहारनय निमित्तमात्र है। परन्तु मुख्य तो मेरा
स्वभाव जो है, तिस ही में जो रमणता करनी, सोइ

शुद्ध साधन है, सोई धर्म है। यह निश्चय धर्म स्वरूप जानना।

इन तीनों तत्त्वों की जो श्रद्धा—निश्चल परिणति रूप, तिस को सम्यक्त्व कहते हैं। शरु जिस जीव को इतना बोध न होवे, वो जीव जेकर ऐसे मन में धारे, पन्नपात न करे, “*तमेव सच्चं निस्संकं, जं जिणेहिं पवेइयं” इत्यादि जो जिनेश्वर देवों ने कहा है सो सर्व निःशंकित सत्य है, ऐसी तत्त्वार्थ श्रद्धा को भी सम्यग्दर्शन—सम्यक्त्व कहते हैं। इससे जो विपरीत होवे, तिसको मिथ्यात्व कहते हैं। इस मिथ्यात्व का स्वरूप नव तत्त्व में लिख आये हैं, तहां से जान लेना। इस मिथ्यात्व को त्यागे, तिस को सम्यक्त्व कहते हैं।

अथ निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप लिखते हैं। जो पूर्व में निश्चय देव, गुरु और धर्म का स्वरूप कहा है, सोई निश्चयसम्यक्त्व है। अनंतानुबंधी चार कपाय, सम्यक्त्व मोह, मिश्रमोह, शरु मिथ्यात्व मोह, इन सातों प्रकृति का उपशम करे, तथा क्षयोपशम करे, तथा क्षय करे, तिस जीव को निश्चय सम्यक्त्व होता है। निश्चय सम्यक्त्व परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। केवली ही जान सकता है, कि इसके निश्चय सम्यक्त्व है। इस सम्यक्त्व के प्रगट भये जीव नरक शरु तिर्यंच, इन दोनों गति का आयु नहीं बांधता है।

अथ सम्यक्त्य भी करनी लिखते हैं । नित्य १ योगवाहक मिलने पर, और शरीर में कोई सम्यक्त्ववारी विघ्न न होवे, तब जिनप्रतिमा का दर्शन के वस्तु करके पालु से भोजन करे । जेकर जिन प्रतिमा का योग न मिले, तो पूर्वदिशा की तरफ मुख करके वत्तमान तीर्थकरों का चैत्यघटन करे, अरु जेकर रोगादि किसी विघ्न से दर्शन न होवे, तो जिसका आगार है, उसका नियम नहीं टूटता है । और भगवान् के मंदिर में मोटी दश आशातना न करे । दश आशातना के नाम कहने हैं — १ तगोल पाग, फल प्रमुख सर्व खाने की वस्तु भगवान् के मंदिर में न खावे । २ पानी, दूध, उच्छ, अरु प्रमुख पीवे नहीं । ३ जिनमंदिर में बैठ-के भोजन न करे । ४ जूती प्रमुख मंदिर के अदर न लावे । ५ स्त्री आदि से मेथुन सेवे नहीं । ६ जिनमंदिर में शयन न करे । ७ जिन मंदिर में थूके नहीं । ८ जिनमंदिर में लघुशक्ता न करे । ९ जिन मंदिर में दिशा न जावे । १० जिन मंदिर में जूआ चौपट, शतरज प्रमुख न खले । ये दश आशातना टाले, तथा उत्कृष्टी चौरासी आशातना धर्जे । तथा एक मास में इतना फूल केसर आदि चढाऊँ । एक मास में इतना घृत चढाऊँ । एक वर्ष में इतना अगलूइना चढाऊँ । वर्ष में इतना केसर, इतना चदा, इतना भीमसेनी वरास, कपूर प्रमुख

भगवान् की पूजा वास्ते खर्व करूं। अपने धन के अनुसार प्रति वर्ष धूप, अगरवत्ती, कर्पूर चढ़ाऊं। वर्ष में इतनी अष्ट प्रकारी, सतरा प्रकारी पूजा कराऊ तथा करूं। वर्ष में इतना रुपया साधारण द्रव्य में खरचूं। प्रति वर्ष पूजा वास्ते इतना द्रव्य खरचूं। प्रति दिन एक नवशरवाली अर्थात् माला, पंच परमेष्ठि-मंत्र का मोक्ष निमित्त जाप करूं। जेकर कोई दिन जाप न होवे, तो अगले दिन दूना जाप करूं, परंतु रोगादि के कारण आगार है। प्रति दिन समर्थ होने पर नमस्कार सहित अर्थान् दो घड़ी दिन चढ़े तक चार आहार का-प्रत्याख्यान करूं। रात्रि में दुविहार प्रत्याख्यान करूं। परन्तु रास्ते चलते (सफ़र में) रोगादि के कारण से न होवे, तो आगार। वर्ष प्रति इतना साधर्मिवात्सल्य करूं—साधर्मी जिमावुं। इस रीति से सम्यक्त्व पालूं अरु सम्यक्त्व के पांच अतिचार टालूं। सो पांच अतिचार कहते हैं।

प्रथम शंका अतिचार—सो जिन वचन में शंका करनी। क्योंकि जिन वचन बहुत गंभीर हैं, शङ्का अतिचार और तिनका यथार्थ अर्थ कहने वाला इस काल में कोई गुरु नहीं। और शास्त्र जो है, सो अनंतनयात्मक है। तिसकी गिनती तथा संज्ञा विचित्र तरह की है। कई एक जगे तो कोड़ी शब्द क्रोड़ का वाचक है, और किसी जगे रूढ़ वस्तु (२० संख्या) का वाचक है। क्योंकि श्री जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण सर्व संघ के

सम्मत आचार्य, सद्ययण नामा पुस्तक में तथा विशेषणवती ग्रन्थ में लिखते हैं, कि कोइ एक आचार्य कोडी शब्द को एक क्रोड का वाचक नहीं मानते हैं, किंतु सज्ञातर मानते हैं । क्योंकि अब वर्तमान काल में भी गीस को कोडी कहते हैं । तथा सौराष्ट्र दश अर्थात् मोरठ देश में अब वर्तमान काल में भी पाच आने को एक कोडी कहते हैं । यह जैसे कोडी शब्द में मतातर है, ऐसे ही शत, सदस्र शब्द भी किसी सज्ञा के वाचक हों, तो कुछ दोष नहीं । तथा शत्रु जय तीर्थ में जहा मुनि मोक्ष गये हैं, तदा भी पाच कोडी आदि शब्दों की कोइ सज्ञा विशेष है । ऐसे ही छप्पन कुल कोडी यादव कहते हैं तदा भी यादवों के छप्पन कुलों की कोडी कोइ सज्ञा विशेष है । इसी तरह सब जगे शास्त्रों में चक्रवर्ती की सेना तथा कोणिक, चेटक राजाओं की सेना में जा कोटी, शत अरु सदस्र शब्द हैं, सो सज्ञा विशेष के वाचक मालूम हाते हैं । इस वास्ते सब शब्दों का सब जगे एक सरीया अब मानना युक्त नहीं । इस कथन में पूज्य श्री जिनभद्रगणितमाश्रमण पूरे साक्षी देने वाले हैं ।

तथा कितनेक भव्य जीवों ने सामान्य प्रकार से

पेसा सुन रक्खा है, कि पाचमे आरे में
 परम काल की उत्कृष्ट एक सौ बीस वर्ष की आयु है । जब
 मनुष्याय वो जीव किसी अग्नेज तथा और किसी के
 मुख से सुते हैं, कि डेढ सा तथा दो सौ,

तथा अढ़ाई सौ वर्ष की आयु वाले भी भोष्टानादि किसी देश में मनुष्य होते हैं, तब दृढ़ श्रद्धावाले भोले जीव तो कदापि किसी का कहना नहीं मानते हैं, चाहे वही आयु वाला मनुष्य उन के सम्मुख भी खड़ा कर दिया जावे, तो भी वे झूठ ही मानेंगे। क्योंकि वे जानते हैं, कि जो हमारे जिनेंद्र देव का कथन है, सो कदापि झूठा नहीं है। परन्तु जिन को जैन मत की दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वे कुछ सांसारिक विद्या में निपुण हैं, चाहे जैन मत वाले ही हैं, उन के मन में अवश्य शंका पड़ जायगी। क्योंकि उन्होंने भी सर्व जैन मत के शास्त्र सुने नहीं हैं। शास्त्र में जो कथन है, सो सापेक है, बाहुल्य करके कहा हुआ है। सो कथंचित् जो अन्यथा होवे, तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि बहुत से शास्त्रों में लिखा है, कि ज्योतिष-चक्र अर्थात् तारा-मंडल है, सो सर्व तारे मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। यह बात सर्व जैन मानते हैं। परन्तु ध्रुव का तारा कहीं भी नहीं जाता है, अरु ध्रुव के पास जो तारे—सप्त ऋषि रूढ़ि (लोक) में प्रसिद्ध हैं, जिन को बालक मंजी, पहरेदार, कुत्ता और चोर कहते हैं। तथा और भी कितनेक तारे ध्रुव के पार्श्ववर्ती हैं। वे सर्व ध्रुव की प्रदक्षिणा देते हैं। परन्तु मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा नहीं देते हैं। यह बात हमने आंखों से देखी है, अरु औरों को दिखा सकते हैं। तो फिर प्रथम जो शास्त्रकार ने कहा था, कि सर्व तारे मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, यह कहना जैनी क्योंकर सत्य मानते हैं ?

इसका समाधान ऐसा है, कि प्रथम जो कथन है, सो बाहुर्य की अपेक्षा से है। क्योंकि बहुत तारा मंडल ऐसा है, जो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देता है, अरु कितनेक ऐसे हैं, जो ध्रुव के ही आस पास चक्र देने हैं। यह समाधान, पूज्य श्री जिनभद्रगणित्प्रमाश्रमण जी ने सघयण तथा विशेषणवती ग्रन्थ में लिखा है—कि मेरु पर्वत के चारों ओर चार ध्रुव हैं, अरु उन चारों ध्रुवों के पास ऐसे ऐसे तारे ह, जो सदा उन चारों ध्रुवों के ही आस पास चक्र देते हैं। इस से यह सिद्ध हुआ कि जो शास्त्र का कहना है, सो बाहुल्य से अरु किसी अपेक्षा करके सयुक्त है। अरु किसी जग स्थूल व्यवहार नय के मत से कथन है, परन्तु सूक्ष्म अधिक यूनता की विवक्षा नहीं करी है। इसी तरे सो वय से अधिक आयु जो पंचम काल में कही है, सो बाहुर्य की अपेक्षा तथा आय खंड अर्थात् मध्य खंड की अपेक्षा से है। जे कर किन्ती पुरुष की १५०, २००, २५० इत्यादि वर्षों की आयु हो जावे, तो मा में जिन वचन की शका न करनी—कि क्या जाने जिन वचन सत्य हें कि जूठ हें? अर्थात् ऐसा विकल्प मन में नहीं करना। क्योंकि शास्त्र का आशय अति गम्भीर है अरु ऐसा गीतार्थ कोई गुरु नहीं हें, जो यथाथ बतला देये।

इस आयु के कहने का यह समाधान है, कि भगवान् श्री महावीर क निर्माण पीछे ५८५ वर्ष के लग भग जन मत

के आचार्य श्री आर्यरक्षित सूरि साढ़े नव पूर्व के प.ठरू, जिन के पास शक्रेन्द्र, निगोद जीवों का स्वरूप सुनने आया था। तब शक्रेन्द्र ने प्रथम वृद्ध ब्राह्मण का रूप करके श्री आर्यरक्षित सूरि को पूछा, कि हे भगवन् ! मैं वृद्ध हो गया हूं, जेकर मेरी आयु थोड़ी होवे, तो मुझे वता दीजिये, ताकि मैं अनशन करूं। तब श्री आर्यरक्षित सूरि जी ने दशमे पूर्व के यवका अध्ययन मे उपयोग दे कर देखा, तो तिस की आयु सौ वर्ष से अधिक जानी, फिर उपयोग दे कर देखा, तो दो सौ वर्ष से अधिक आयु जानी, फिर उपयोग दिया, तो तीन सौ वर्ष से अधिक आयु जानी। तब आचार्य श्री आर्यरक्षित सूरि जी ने विचार किया, कि यह भारत वर्ष का मनुष्य नहीं है। यह कथानक आवश्यक सूत्र की सामायिक अध्ययन की उपोद्धात निर्युक्ति मे है। इस कथानक से ऐसा भाव निकलता है, कि यदि भारत वर्ष के मनुष्य की आयु तीन सौ वर्ष की भी होवे, तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि श्री आर्यरक्षितसूरि जी ने जो तीन सौ वर्ष से जब अधिक आयु देखी, तब कहा, कि यह भारत वर्ष का मनुष्य नहीं। इसे कहने से तीन सौ वर्ष की आयु भी भारत वर्ष मे मनुष्य की किसी प्रकार से होवे, तो क्या आश्चर्य है ?

तथा कितनेक जीवों के मन में ऐसी भी शका होये,
तो उसका क्या समाधान है? जैसे कि
आधुनिक भूगोल जैमिन्स वाले भरत पण्ड कदा तक मानते हैं ?
तथा वेन क्यॉन्सि अमेरिका, रूम, चीन आदि जो देश
मायता इस काल में लोगों के देखने वा सुनने में
आत हैं, जैनलोक उन सब को भारत वर्ष
में ही मानते हैं । तथा अमेरिका, विलायतादि सब मुलकों के
पिच में जो समुद्र पडा है, सो ऋषभ देव और भरत चक्र
वर्ती के समय में नहीं था, किंतु जगत के बाहिर जो महा
समुद्र है, सो है था । इस कारण से अथात् समुद्र के अंदर
आजाने से असली भारत क्षेत्र का स्वरूप बिगड गया—कहीं
समुद्र हो गया, और कहीं द्वीप बन गये ।

इस विषय जैनमत का शत्रुजयमाहात्म्य नामा ग्रन्थ है,
तिसमें लिखा है, कि दूसरा सगरनामा चक्रवर्ती हुआ है,
वह इस समुद्र को भारत वर्ष में जब द्वीप के दक्षिण दिशा
के विजयत नामक दरवाजे के रास्ते से लाया है । तिसके
लाने से वर्षरादि अनेक हजारों देश तो जल में डूब कर
समुद्र की भूमिका बन गये, और जो उच्चस्थल थे, वे द्वीप
और विलायतादि देश बन गये । पीछे से असली देशों का
नाम नष्ट होने से बहुत देशों के नाम कल्पित रक्षे गये ।
भरतपण्ड कुछ और का और बन गया । कितनेक देशों के
उत्तर खंडों में वर्ष के पट जाने से, और समय के बदलने

से सर्वथा पानी जम गया। तब तो चारों ओर समुद्र ही दीखने लगा। तिस लिये आना जाना बंद हो गया। और हमारे शास्त्रकार तो प्रथम आरे में तथा ऋषभ देव और भरतचक्रवर्ती के समय में जो इन भारत वर्ष का हाल था, सोई सदा से लिखते चले आये हैं। परंतु भरत क्षेत्र के विगड़ तिगड़ के और का और वन जाने से किसी ने विस्तार पूर्वक वृत्तांत ठीक ठीक नहीं लिखा। जेकर लिखा भी होवेगा, तो भी जैनमत के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तिये आई है, उनसे लाखों ग्रंथ नष्ट हो गये हैं। इस वास्ते हम ठीक ठीक सर्व वृत्तांत बताना नहीं सकते हैं। परंतु जितनेक जैन मत के ग्रंथ हमारे वांचने में आये हैं, उनमें से जो ठीक है, सो इस ग्रंथ में लिखते हैं।

इस समय सर्वक्षेत्र अदल बदल हो गये हैं। गंगा, सिंधु असलस्थान में नहीं बहतीं। क्योंकि उनका अगला प्रवाह तो समुद्र ने रोक लिया, और पीछे से पानी आना बंद हो गया। फिर जिस पर्वत से अधिक नदी की प्रवृत्ति भई, वो नदी उसी पर्वत से निकलती लोकों ने मान लीनी। इस वास्ते गंगा और सिंधु में जुल्लक हेमवंत पर्वत से जल आना बंद हो गया, नाम मात्र से गंगा सिंधु रह गईं। और नगरियों में वनिता नगरी की कल्पना पर अयोध्या बनाई गई। कावल के परे तक्षिला अर्थात् दाहुवल की नगरी की कल्पना करी गई। इस समय में वो तक्षिला भी नहीं रही।

उस का नाम गजनी प्रसिद्ध हुआ । जैनियों की श्रद्धा के अनुसार प्रथम आरे को अरु ऋषभदेव तथा भरत राजा के समय के व्यतीत होने में असंख्य वर्ष व्यतीत हो गये हैं । तो फिर नदी, पर्वत, देश, नगरा के उल्ट पल्ट हो जाने में क्या आश्चर्य है ? और समुद्र का देशों पर फिर जाना तो तैरित ग्रन्थ से भी ठीक ठीक सिद्ध होता है । तथा पुराणादि ग्रन्थों में भी लिखा है, कि कोई ऐसा समय भी था कि समुद्र में पानी नहीं था, पीछे स्व आया है । इस वास्ते शत्रुजय माहात्म्य में जो लिखा है कि भरत क्षेत्र में समुद्र का पानी सगर चक्रवर्ती लाया है, सो कहना ठीक है ।

तथा तपगच्छ के आचार्य श्री विजयसेन सूरि अपने ग्रन्था पत्रों में लिखते हैं, कि मागध, वरदाम अरु प्रभासक नामक तीन जो तीर्थ हैं, सो जगत के बाहिर के समुद्र में हैं । इस से भी यही सिद्ध होता है, कि भरत चक्रवर्ती जब पद पण्ड अरु मागधादि तीर्थों के साधने को गये थे, तब यह समुद्र का पानी रस्ने में नहीं था । तथा शास्त्रकारों ने तो सर्व शास्त्रों की शली श्रीपरमदेव के कथनानुसार रक्खी है । इस वास्ते चक्रवर्ती आदि का कथन भरत चक्रवर्ती के सरीगा कह दिया है ।

तथा इस काल में कितनेक विद्वानों ने भूगोल के हिसाब में जो हुतब बनाये हैं, और उन के अनुसार सरद तथा

गरम देशों का विभाग किया है। यद्यपि उन के देखने सुनने सूजब तथा उन के अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में ऐसा ही होवेगा; परंतु सदा ऐसा ही था, यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि भूगोलहस्तामलक पुस्तक में लिखा है, कि रूस देश के उत्तर के पासे (तरफ) जहां वर्ष के सिवाय और कुछ भी नहीं है, तहां गरमी के दिनों में वर्ष के गलने से तथा किसी जगे वर्ष के करार गिर पड़ने से उस के हेठ (नीचे) से एक किसम के हाथी निकलते हैं, सो भी सैंकड़ों हज़ारों निकलते हैं, जिन का नाम उस देश वाले मेमाथ कहते हैं। अब बड़ा आश्चर्य तो इन मेमाथों के देखने से यह होता है, कि ये जानवर गरम मुलकों के रहने वाले हैं, अरु यह सरद मुलक में कहां से आये? अरु इन के खाने वास्ते भी कुछ नहीं। इस काल में जो एक भी हाथी उस मुलक में जा कर बांधें, तो थोड़े से काल में मर जायगा। तो ये लाखों मेमाथ इस मुलक में क्योंकर जाते होंगे? और क्या खाते होंगे? इस में यही कहना पड़ेगा कि किसी समय में यह मुलक गरम होवेगा, पीछे पवन की तासीर बदलने से सरद मुलक हो गया। इस वृत्तांत से यह सिद्ध होता है; कि जो सरद मुलक है, वे गरम हो सकते हैं, अरु जो गरम मुलक है, वे किसी काल में सरद हो जाते हैं। इस वास्ते भूगोल के अनुसार जो सरदी गरमी की व्यवस्था की कल्पना

करनी है, वह हमेशा के वास्ते दुरुस्त नहीं। क्या जाने देशों की क्या क्या व्यवस्था बदल चुकी है ? और क्या क्या बदलेगी ? इस का पूरा स्वरूप तो सर्वज्ञ जान सकता है।

तथा इस पृथ्वी को भूगोल कहते हैं। अरु यह भी कहते हैं कि सूर्य नहीं फिरता, किंतु पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। यह बात कुछ अग्रेजों ही ने नहीं निफाली है, किंतु अग्रेजों से पहिले भी इस बात के मानने वाले भारत वर्ष में थे। क्योंकि जेनमत का शीलागाचार्य जो विक्रम के ७०० वर्ष में हुआ है, वे आचार्य आचाराग सूत्र की वृत्ति में लिखते हैं,* कि कितनेक ऐसा भी मानते हैं, कि भूगोल फिरता है, अरु सूर्य स्थिर रहता है। परन्तु यह मत जैनियों का नहीं है। उन के शास्त्रों में तो प्रगट लिया है, कि सूर्य चलता है, अरु पृथ्वी स्थिर रहती है। और सूर्य के भ्रमण करने के एक सौ चौरासी मडल आकाश में हैं। उन मडलों में प्रवेश करना, अरु दिनमान, रात्रिमान का घटना बढ़ना, अरु मौसमों का बदलना, ग्रहण का लगना, सूर्य के अस्त उदय होने में मतों का विवाद, इत्यादि सर्व बातें सूर्यप्रज्ञप्ति वा चंद्रप्रज्ञप्ति शास्त्रों के पढ़ने से अच्छी तरह मालूम पड़ जाती हैं।

*भूगोल वपाचि-मतेन नित्य चलन्नेवास्ते, आदित्यन्तु भ्यवस्थित

तथा जो पृथ्वी के गोल होने में समुद्र के जहाज की ध्वजा प्रथम दीखती है, इत्यादि कहते हैं। सो यह बात कहने वालों की समझ में ऐसे आती होवेगी, परन्तु हमारी समझ में तो नहीं आती है। हम तो ऐसे समझते हैं, कि हमारे नेत्रों में ऐसी ही योग्यता है, कि जिस से वस्तु गोलादि दीख पड़ती है। क्योंकि जब हम सीधी सड़क पर खड़े होते हैं, तब हमारे पगों की जगें सड़क चौड़ी मालूम पड़ती है, अरु जब दूर नज़र से देखते हैं, तब वो ही सड़क संकुचित मालूम पड़ती है। अरु आकाश में पक्षी को जब शिर के ऊपर उड़ता देखते हैं, तब हम को ऊंचा दूर दीख पड़ता है, अरु जब उसी जानवर को थोड़ी सी दूर जाते को देखते हैं, तब धरती से बहुत निकट देखते हैं। इतनी दूर में पृथ्वी की इतनी गोलाई नहीं हो सकती है। तथा आकाश को जब देखते हैं, तब तंबू सा दिखलाई देता है। इस में जो कोई यह बात कहे कि धरती की गोलाई के सबब से आकाश भी गोल दीखता है, यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि पृथ्वी की इतनी गोलाई नहीं हो सकती है। इस वास्ते नेत्रों में जिस वस्तु के जानने की जैसी योग्यता है, वैसी वस्तु दीखती है, यही कहना ठीक मालूम होता है।

तथा यह भरतखंडादिक की पृथ्वी बहुत जगे ऊंची नीची मालूम होती है, क्योंकि श्रीहेमचन्द्रसूरि प्रमुख

अपाम सोमममृता अभूम, अगमाम ज्योतिरविदाम
देवान्, किंनूनमस्मात् तृणवदराति किमु मूर्त्तिममृतम
त्यस्येत्यादीनि ।

तथा—

को जानाति मायोपमान् गीर्वाणानिन्द्रयमवरुणकुने-
रादीन् इत्यादि ।

इन का ऐसा अर्थ तेरे मन में भासन होता है—पाप दूर
करने में समथ, ऐसे यज्ञ रूपी आयुध—यज्ञ का धारण
करने वाला यजमान शीघ्र स्वर्गलोक में जाता है । तथा हमने
सोमलता का रस पिया है, और अमृत—अमरण धम वाले
हुये हैं । ज्योति—स्वर्ग को प्राप्त हुये हैं, तथा देवता हुये हैं,
इस प्राप्ति तृण की तरे अराति—शत्रु, व्याधी, जरा अमर
पुरुष का क्या कर सकते हैं ? यह श्रुतिया न्वेसत्ता की
प्रतिपादक हैं । और इन श्रुतियों का यथार्थ अर्थ करके
और तिस का पूर्वपक्ष खण्डन करके भगवत ने इन का
सशय दूर करा, तब यह भी साढ़े तीन सौ छारों के साथ
दीक्षित भया ।

तिस पीछे आठमा अकपित जाया, उस के मन में भी
वेद की परस्पर विरुद्ध श्रुतियों के पक्षों से यह सशय उत्पन्न

जीवों ने न तो पूरे जैनमत के शास्त्र पढ़े हैं, और न सुने हैं। इस वास्ते उन के मन को जल्द अधीरज हो जाती है। परन्तु अपने घर की सर्व पुस्तकें विना वाचे, विना सुने, तुच्छ बात के वास्ते एकवारगी जिन धर्म में शंका न लानी चाहिये। क्योंकि यह पूर्वोक्त सर्व वृत्तांत इन्द्र जाल की पूर्ण विद्या जिस को आती होवे, वो दिखा सकता है। हमने किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा देखा है, कि कुमारपाल राजा के समय में एक बोधिदेव नामक ब्राह्मण था। उस ने राजा कुमारपाल की श्रद्धा जैन मत से हटाने के वास्ते कुमारपाल से जो प्रथम उन के वंश के मूलराज आदि सात राजा हो गये थे, उन को नरक कुण्ड में पड़े हुए, विलाप करते हुए, अरु ऐसे कहते हुए दीख पड़े, कि हे पुत्र ! जिस दिन से तूने जैन धर्म अंगीकार किया है, उस दिन से हम तेरे सात पुरुष नरक कुण्ड में जा पड़े हैं। जेकर तू हमारा भला चाहे, तो जैन धर्म छोड़ दे। ऐसी बात देख कर राजा कुमारपाल चित्त में धवराया, तब जाकर अपने गुरु श्रीहेमचंद्राचार्य को पूछा, कि महाराज ! यह क्या वृत्तांत है ? तब श्रीहेमचंद्र आचार्य जी ने कहा कि हे राजेंद्र ! ये सर्व इन्द्रजाल की विद्या है, आओ ! मैं भी तुम को कुछ तमाशा दिखाऊं। तब राजा कुमारपाल को मकान के अन्दर के मकान में ले जा कर दिखाया— चौबीस तीर्थंकर समवसरण में जुदे जुदे बैठे हैं, अरु कुमारपाल के वे ही सात पुरुष तीर्थंकरों की सेवा करते हैं। तथा

राजा कुमारपाल को कहते हैं, कि हे पुत्र ! तू बड़ा पुण्यात्मा है, कि जिस ने जैन धर्म अगीकार किया है। जिस दिन से तूने जैन धर्म अगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड से निकल कर स्वर्ग गयी हुए हैं। इस वास्ते तू धर्म में दृढ़ रह। उस के पीछे श्रीहेमचन्द्रसूरि राजा कुमारपाल को बाहिर लाये, तब राजा ने पूछा कि महाराज ! यह क्या आश्चर्यकारी तर्माशा है ? तब श्रीहेमचन्द्रसूरि कहते भये कि हे राजा ! यह इन्द्रजाल की विद्या जिस को जाती होवे, वो कर सकता है। क्योंकि इन्द्रजाल विद्या के सत्ताईस पीठ हैं, जिन में से सतरा पीठ ससार में प्रचलित हैं। परन्तु सत्ताईस पीठ हम जानते हैं, और कोई भी भारत वष में नहीं जानता है। अरु जिन गुरुओं ने हम को यह विद्या दीनी थी, उनों ने ऐसी आज्ञा भी करी है, कि आगे को तुम ने किसी को यह विद्या न देनी। क्योंकि इस विद्या से बड़े अनर्थ उत्पन्न हो जायगे। क्योंकि इस काल में जीव तुच्छ बुद्धि वाले हैं इसलिये उन को यह विद्या जरेगी (पचेगी) नहीं। इसी वास्ते हमारे आचार्यों ने यानिप्राभृत शास्त्र विच्छेद कर दिया है। उसी योनिप्राभृत के अनुसार यह इन्द्रजाल रचा हुआ है। इस योनिप्राभृत का कथन व्यवहारभाष्यचूर्णि में लिखा है, कि उस योनिप्राभृत में तत्र विद्या है। जिस से सर्प, घोड़े हाथी बगैरे जिंदा जानवर, वस्तुओं के मिलाने से बन जाते हैं, तथा सुवर्ण, मणि, रत्न प्रमुख बन जाते हैं।

उन मसालों में ऐसी मिलन शक्ति है, कि चाहे सो बनालो । इस वास्ते कोई आज नवी वस्तु देख कर जैन धर्म से चलायमान न होना चाहिये । तत्त्वार्थ के महाभाष्य में समंतभद्र आचार्य भी लिखते हैं, कि इन्द्रजालिया तीर्थंकर के समान बाह्य सिद्धि सर्व बना सकता है, इस वास्ते किसी बात का चमत्कार देख के जिनवचनों में शंका कदापि न करनी ।

तथा कितनेक जैनमत वालों को यह भी आश्चर्य है, कि यदा आर्यावर्त्त में दो प्रहर दिन होता शस्त्र और है, तदा अमेरिका में अर्द्धरात्रि होती है अरु उन के अर्थ यदा अमेरिका में दो प्रहर दिन होता है, तदा आर्यावर्त्त में अर्द्धरात्रि होती है । कितने लोकों ने घड़ियों के हिसाब से तथा तार की खबरों से इस बात का निश्चय अच्छी तरे से करा हुआ बतलाते हैं । इस बात का उत्तर मैं यथार्थ नहीं दे सकता हूँ । मेरी श्रद्धा ऐसी नहीं है कि पूर्व आचार्यों के अनुसरण विना समाधान कर सकूँ । क्योंकि मेरी कल्पना से कुछ जैन मत सत्य नहीं हो सकता है, जैनमत तो अपने स्वरूप से ही सत्य बनेगा । जेकर मेरी कल्पना ही सत्य का कारण होवे, तब तो किसी पूर्वाचार्यों की अपेक्षा न रहेगी । तब तो जिस के मन में जो अर्थ अच्छा लगेगा, सो अर्थ कर लेवेगा । जैसे वर्त्तमान

में किसी *पाण्डो मस्करी ने ऋग्वेदादि वेदों के स्वकपोल-कल्पित अर्थ लिखे हैं, सो हमने वाच भी लिखे हैं । उन्होंने वेदमन्त्रादिकों के ऊपर जो भाष्य बनाया है, उस में मन्त्रों के अर्थों में ऐसा लिखा है कि "अग्निरोट" अर्थात् धुएँ की कल से चलने वाले जहाज तथा रेलगाड़ी के चलने की विधि, तथा पृथ्वी गोल है, अरु सूर्य के चारों ओर घूमती है, और सूर्य स्थिर है, इत्यादि जो अग्नेजों ने अपनी बुद्धि के बल से विद्याएँ उत्पन्न करी हैं, उन सर्व विद्याओं का वेदों में भी कथन है । अपने शिष्यों को वेद का महत्त्व जनाने के वास्ते स्वकपोलकल्पित अर्थ लिख लिखे हैं । अरु पूर्व में जो महीबरादि पंडितों ने वेदों के ऊपर दीपिका तथा भाष्य रचे हैं, उन की निंदा अर्थात् मूर्खता प्रगट करी है । वे मूर्ख थे, उन को वेद का अर्थ नहीं आता था ।

प्रश्न — पिछले अर्थ छोड़ कर जो नवीन अर्थ करे गये, इस का क्या कारण है ?

उत्तर—प्रथम तो वेदों के प्राचीन भाष्य और दीपिका मानने से वेदों की सत्यता अरु ईश्वरोक्तता तथा प्राची

* यहाँ 'पाण्डो मस्करी' शब्दों से वर्तमान आर्यसमाज के जन्म दाता स्वामी दयानन्द जो सरस्वती अभिप्रेत हैं । क्योंकि उन्होंने ही दुनिया भर के विद्वानों से अनोखे, वेदों के माना मन कल्पित अर्थ किये हैं । जो कि वेद विज्ञात व सवया विरुद्ध हैं । इस के विशेष विवरण के लिये देखो । परि० न० २ प ।

नता सिद्ध नहीं होती । इसी वास्ते ईशावास्य उपनिषद् को वर्ज के सर्व उपनिषद्, और सर्व ब्राह्मण भाग, तथा सर्व स्मृति, पुरणादि शास्त्र, भाष्य, दीपिकादि मानने छोड़ दिये । उन्हीं ने यह विचार किया है, कि इन सर्व पूर्वोक्त ग्रंथों के मानने से हमारा मत दूसरे मतवाले खंडित कर देंगे । क्योंकि ये पूर्वोक्त सर्व ग्रन्थ युक्ति प्रमाण से विकल हैं । अरु प्राचीनों ने जो अर्थ करे हैं, उनमें बहुत अर्थ ऐसे हैं, कि जिन के सुनने से श्रोता जनों को भी लज्जा उत्पन्न होती है । क्योंकि महीधरकृत दीपिका जो वेद की टीका है, उसमें मंत्रादिकों के जो अर्थ लिखे हैं, जैसे कि यज्ञपत्नी घोड़े का लिंग पकड़ के अपनी योनि में प्रक्षेप करे, इत्यादि, सो हम आगे लिखेंगे । इत्यादि अर्थों के छोड़ने वास्ते अरु वेदों का खण्डन न हो, इस वास्ते स्वकपोलकल्पित भाष्य बना कर, मानो अंग्रेजों के चाल चलन और इंजील के मतानुसार अर्थ किये गये हैं । परन्तु उनको बुद्धिमान् तो कोई भी मानता नहीं है । तथा जो मानते हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं । क्योंकि जब पूर्व के ऋषि, मुनि, पंडित झूठे हैं, अरु उन के किये हुये अर्थ असत्य हैं, तो अब के बनाये हुये कदापि सत्य नहीं हो सकेंगे ? जो-जड में ही झूठे हैं, वे नवीन रचना से कदापि सत्य न होंगे । इस वास्ते अपनी बुद्धि का विचार सत्य मानना, अरु प्राचीन उन वेदों के मानने वालों का संप्रदाय झूठा मानना, इससे अधिक निर्विवेक और

अन्याय क्या है ? क्योंकि जब प्राचीनों के किये हुए अथ झूठे ठहरेंगे, तब तिन के अनाथ हुए वेद भी झूठे ही ठहरेंगे । इस वास्ते जो मतधारी हैं, या तो उन को अपने प्राचीनों के कथन करे हुए अर्थ मानने चाहिये, नहीं तो उस मत को अरु उस मत के शास्त्रों को छोड़ देना चाहिये ।

- इस वास्ते मेरी ऐसी धृद्धा है, कि जो जैन मत में प्रमाणिक अथ पचागीकारक आचार्य लिख गये हैं, उस के अनुसार ही हम को कथन करना चाहिये, परन्तु स्वकपोल कल्पित नहीं । जेकर कोई स्वरूपीलकल्पित मानेगा, वो जैनमती कदापि नहीं हो सकेगा, अरु उस की कल्पना भी सर्वथा सत्य नहीं होगी । क्योंकि जब सब मतों के पूर्ण चाय झूठ ठहरेंगे, तब नवी कल्पना करने वाले क्योंकर सचेतन बनेंगे ? इस वास्ते पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर पचागी के प्रमाण से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि—१ शास्त्र बहुत विच्छेद हो गये हैं । २-आर्यरक्षित सूरि के समय में चारों अनुयोग तोड़ के पृथक्त्वानुयोग रचा गया है ।-३ स्कन्दिल आचार्य के समय में बारह वर्ष का काल पड़ा था, उस में शास्त्र कठ से भूल गये थे । फिर सर्व साधुओं का दक्षिण मथुरा में समाज करके, जिस जिस माधु, आचार्य के जिस जिस शास्त्र का जो जो स्थल कठ रह गया, सो सो स्थल एकत्र करके लिखा गया । ४ पीछे देवद्विगाणिचमाधमण

वास्ते-यह संसार से क्योंकर तरंगे-? जेकर उष्ण जल से स्नान कर लेवे, तो कौनसा महाव्रत भंग हो जाता है ?

जेकर धर्म का फल न होवे, तो संसार की विचित्रता कदापि न होवे, इस वास्ते धर्म का फल अवश्यमेव है। तथा जो साधु मलिन वस्त्र रखते हैं, उस का तो यह कारण है कि सुन्दर वस्त्र रखने से मन शृङ्गार रस को चाहता है, अरु स्त्रिये भी सुन्दर वस्त्र वालों को देख कर उन से भोग करने की इच्छा करती है। इस वास्ते शील पालने वाले साधुओं को शृङ्गार करना अच्छा नहीं। अरु स्नान जो है, सो काम का प्रथमांग है, इस वास्ते साधुओं को उचित नहीं। अरु कोई कारण पड़ने से साधु हाथ पगादिकों को धो लेवे, तो कुछ दूषण नहीं। अरु साधुओं को अपने शरीर पर ममत्व भी नहीं है। अरु शुचिमात्र स्नान तो साधु करते हैं, परन्तु शरीर के सुख वास्ते तथा शरीर के चमकाने दमकाने के वास्ते नहीं करते हैं। क्योंकि जैनियों की यह श्रद्धा नहीं है, कि जल में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। परन्तु जल-स्नान से शरीर की मैल दूर हो जाती है, शरीर की तप्त मिट जाती है, आलस्य दूर हो जाता है, परन्तु पाप दूर नहीं होते हैं। जेकर जलस्नान से पाप मिट जावे, तो अनायास सर्व की मोक्ष हो जावेगी। ऐसा कौन है, जो जल से स्नान नहीं करना है ? अरु जो साधु को मैला समझना; यही बड़ी मूर्खता है, क्योंकि शरीर के मैले होने से आत्मा मैला नहीं

होता है, मेश तो पाप करने से होता है। अरु जगत व्यवहार में स्त्री से समोग करने से और किसी मलिन वस्तु का स्पर्श करने से मैलापना मानते हैं। परन्तु साधु तो इन सर्व धम्नुओं का त्यागी है, इस वास्ते मंला नहीं। बल्कि साधुओं को धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि यदि ताप पडता है, लू चलती है, पसीना बहता है, तो भी साधु नगे पाय अरु नगा शिर करके चलते हैं, और रात को छते हुए मकान में सोते हैं; पसा करते नहा तथा कोमल शय्या पर सोते नहीं, और रात्रि को जल पीते नहीं, दिन में भी उष्ण जल पीते हैं यह तो बड़ा भारी तप है। परन्तु जो कोई साधु तो उन रहे है, अरु जय गर्मी लगती है, तत्र मट्टिप की तरे जल में जा पड़ते हैं, ऐसे सुखशालि तो तर जायेंगे, कि जिनों के किसी बात का नियम नहीं। हाथी, घोड़े, रेल प्रमुख की सवारी करनी तथा जो फल हैं सो सर्व भक्षण करने, धन रखना मजान बांधने, गेती करनी, गौ, भैस, हाथी, घोड़े, रथ शस्त्र रखने, छल वग से लोगों के पास से धन लेना, स्त्रियों से विषय सेवन करना, अच्छा पाना, मास भक्षण करना, मदिरा पीना; भाग के रगडे, चरस की चिलमें उड़ाना, पगों को तथा शरीर को वेदया की तरे भाजना; चित्त में बड़ा अभिमान रखना, दड पलना, गस्त करने जाना, इत्यादि अनेक साधुओं के जो उचित नहीं सो काम करने; फिर श्री श्री स्वामी जी महाराज उन

चटना । हम महंत हैं, हम गद्दीधर हैं, हम भट्टारक हैं, हम श्रीपूज्य हैं, हम जगत् का उद्धार करते हैं, हम बड़े अद्वैत ब्रह्म के वेत्ता हैं, हम शुद्ध ईश्वर की उपासना बताते हैं, मूर्त्तिपूजन के पाखण्ड का नाश करते हैं ।

अब भव्य जीवों को विचार करना चाहिये कि यह पूर्वोक्त कुगुरु क्या जल के स्नान करने से संसार समुद्र से तर जायेंगे ? अरु जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री, अरु परिग्रह, इन पांचों के त्यागी, शरीर में ममत्व रहित, प्रतिबंध रहित काम क्रोध के त्यागी, महातपस्वी, मधुकर वृत्ति से भिन्ना लेने वाले, इत्यादि अनेक गुण से सुशोभित हैं, वे क्या जल में स्नान न करने से पातकी हो जावेंगे ? कदापि न होवेंगे । इस वास्ते साधु को देख के जुगुप्सा न करनी, जेकर करे, तो तीसरा अतिचार लगे ।

चौथा मिथ्यादृष्टि की प्रशंसारूप अतिचार है । मिथ्यादृष्टि उस को कहते हैं, जो जिनप्रणीत आज्ञा प्रशंसा अतिचार से बाहिर है । क्योंकि सर्वज्ञ के कहे हुए वचन को तो वो मानता नहीं, अरु असर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्रों को सच्चा मानता है । उन शास्त्रों में जो अयोग्य बातें कही हैं, उन के छिपाने के वास्ते स्वकपोलकल्पित भाष्य, टीका, अर्थ बना करके मूर्ख लोगों को वहकाते और गाल बजाते फिरते हैं । और जिन के नियम धर्म कोई नहीं, कृपण पशुओं को मारना जानते हैं, धूर्त्तपने से

सच्चा बन कर मूर्खों को मिथ्यात्व के जाल में फसाते हैं । ऐसे मिथ्यादृष्टि होते हैं । उन की प्रशंसा करनी । तथा जो अज्ञानी जिनाहा से बाहिर हैं, उन को कहना कि ये बड़े तपस्वी हैं ! महापुरुष हैं ! बड़े पण्डित हैं ! इन के बराबर कौन है ? इन्होंने धर्म की वृद्धि के वास्ते अप्तार लिया है । तथा मिथ्यादृष्टि कोई धर्म यज्ञादि करे, तब तिस की प्रशंसा करे, कि तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, तुमारा जन्म सफल है, इत्यादि प्रशंसा करे, सो चौथा अतिचार है ।

पाचमा मिथ्यादृष्टि का परिचय करना अतिचार है । मिथ्यादृष्टि के साथ बहुत मेल मिलाप रखते, एक जगें भोजन और घास करे, इत्यादि है । क्योंकि मिथ्यादृष्टि के साथ बहुत मेल रखने से मिथ्यादृष्टि की वासना लग जाने से धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इस वास्ते मिथ्यादृष्टि का बहुत परिचय करना ठीक नहीं । यह पाचमा अतिचार है ।

अब जब गृहस्थ की सम्यक्त्व देते हैं, तब उस को गुरु छ आगार बतलाते हैं । जेकर इन छ कारणों आगार से तुम को कोई अनुचित काम भी करना पड़े, तो तुमको ये छ आगार रखाये जाते हैं, जिन से तुमारा सम्यक्त्व फलकित न होवेगा । सो छ आगार कहते हैं —

प्रथम “रायाभिभोगेण”—राजा—नगर का स्वामी, जेकर धो राजा कोई अनुचित काम जोरायरी से करे, तो सम्यक्त्व में दूषण नहीं ।

दूसरा “गणाभिओगेणं”—गण नाम जाति तथा पंचायत, वे कहे, कि यह काम तुम जरूर करो, नहीं तो जाति, तथा पंचायत तुम को बड़ा दंड देवेगी, उस वक्त जेकर वो काम करना पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं ।

तीसरा “बलाभिओगेणं”—बलवंत चोर म्लेच्छादि, तिन के बश पड़ने से वो कोई अपनी जोरावरी से अनुचित काम करवावे, तो भी दूषण नहीं ।

चौथा “देवाभिओगेणं”—कोई दुष्ट देवता क्षेत्रपालादि व्यंतर शरीर में प्रवेश करके अनुचित काम करावे, तो भंग नहीं । तथा कोई देव तो मरणांत दुःख देवे, तब मन में धैर्य न रहे, मरणांत कष्ट जान कर कोई विरुद्ध काम करना पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं ।

पांचमा “गुरुनिग्गहेणं”—गुरु सो माता, पितादि उन के आग्रह से कुछ अनुचित करना पड़े । तथा गुरु कहिये धर्माचार्यादि तथा जिनमंदिर, सो कोई अनार्य गुरु को संकट देता होवे, तथा जिनमंदिर को तोड़ता होवे, जिन प्रतिमा को खण्डन करता होवे, सो गुरु निग्रह है । तिनों की रक्षा के वास्ते कोई अनुचित काम करना पड़े, तो सम्यक्त्व में दूषण नहीं ।

छठा “वित्तिकतारेणं”—जब दुष्कालादि आपदा आ पड़े, तब आजीविका के वास्ते किसी मिथ्यादृष्टि के अनुसार चलना पड़े, तथा आजीविका के वास्ते कोई विरुद्ध

आचरण करना पड़े, तो दूषण नहीं। एक तो यह छ' वस्तु के आगारों को छ' उड़ी कहते हैं। तथा चार आगार और भी हैं, सो कहते हैं —

१ 'अध्वयणाभोगेण'—कोई काय अज्ञान पने-उपयोग दिये जिना और का और हो जाये, अरु जत्र याद आ जाये, तत्र वो कार्य फिर न करे।

२ "सहस्त्रागारेण—' अकस्मात् कोई-काम करे अपने मन में जानता है यह काम मैं न नहीं करना, परन्तु योगों की चपलता से तथा नित्य के बहुत अभ्यास से जानता हुआ भी यदि विरुद्ध कार्य हो जाये, तो सम्यक्त्य में भग नहीं।

३ "महत्तरागारेण"—कोई मोटा लाभ होता है, परन्तु सम्यक्त्य में दूषण लगता है, तथा किसी मोटे धानी की आशा से कमो बेसी करना पड़े, तो यह भी आगार है।


४ "सन्वसमाहित्तिआगारेण —सर्व समाधिच्यत्यय से किसी बड़े सन्निपातादि रोगों के विकार से चावरा हो जाये, तथा अतिवृद्ध हो जाने से स्मृतिभग हो जाये, तथा रोगादि के आने पर मन में आर्त्तध्यान हो जाने से, तथा सपादि के डक मारने से, इत्यादि असमाधि में यह आगार है। इस में सम्यक्त्य तथा व्रत भग नहीं होता है। परन्तु किसी मूत्र क कह सुने से आत्तध्यान में प्राण त्यागने योग्य नहीं।

कितनेक जिनमत के अनुभिद्यों का यह भी कहना है, कि

चाहे कुछ हो जावे, तो भी जो नियम लिया है, उस को कभी तोड़ना न चाहिये । परन्तु यह कहना सर्वथा ठीक नहीं, क्योंकि जब पहिले ही आगार रखे गये, तो फिर व्रतभंग क्योंकर हुआ ? अरु जो आर्त्तध्यान में मर जाते हैं, अरु आगार नहीं रखते हैं, वे जिन मार्ग की शैली से अज्ञान है । इस वास्ते छः छंडी अरु चार आगार, सर्व वारों ही व्रतों में जानने । अरु साधु के सर्व प्रत्याख्यानो में अनशन पर्यंत यही चार आगार जानने ।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीचुद्धिविजय शिष्य मुनि
आनंदविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्शे

सप्तमः परिच्छेदः संपूर्णः



अष्टम परिच्छेद

इस परिच्छेद में चारित्र का स्वरूप लिखते हैं —

चारित्र धर्म के दो भेद हैं । एक सचचारित्र, दूसरा षेराचारित्र, उस में सर्वचारित्र धर्म तो साधु में होता है, तिस का स्वरूप गुरुतत्त्व परिच्छेद में लिख आये हैं । तथा मे जान लेना । अर षेरा चारित्र के बारह भेद हैं, जो गृहस्थ का धर्म है । अर चारह व्रतों का किंचित् स्वरूप लिखते हैं, तिन में प्रथम स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत का स्वरूप लिखते हैं ।

प्रथम प्राणातिपातविरमण व्रत के दो भेद हैं । एक द्रव्यप्राणातिपातविरमण व्रत दूसरा भाव प्राणातिपात विरमणव्रत । तिन में द्रव्यप्राणातिपातविरमण व्रत ऐसा है, कि पर जीवों को अपनी आत्मा समान जान कर तिन के दया द्रव्यप्राणों की रक्षा करे । यह व्यवहार दयारूप है । तथा दूसरा भावप्राणातिपातविरमण व्रत—सो अपना जीव कम के घरा पड़ा हुआ दुःख पाता है, अपने जो भाव प्राण—पान, दशन, चाटियादिक, तिन का मिथ्यात्व कयायादिक अशुद्ध प्रवर्त्तन से प्रतिक्षण घात हो रहा है, सो अपने जीव को कर्म शत्रु से शुद्धाने के याम्ते उपाय करना । सो उपाय यह है—कि आत्मरमणता करे, परमाव रमणता को त्यागे, शुद्धोपयोग में प्रवर्त्ते, कर्म के उदय में अन्यापक रहे, एक

स्वभावमग्नता, यही समस्त कर्मशत्रु के उच्छेद करने को अमोघ शस्त्र हैं। एतावता सकल परभाव की इष्टता दूर करी, स्वरूप सन्मुख उपयोग रक्खे, तिस का नाम भावप्राणातिपात विरमणव्रत कहिये। इसी का नाम भाव दया है। इहां स्थूल नाम मोटा-दृष्टिगोचर, हाले चाले, ऐसा जो त्रस जीव तिस को संकल्प करके न हनूंगा।

हिंसा चार प्रकार की है ! एक आकुट्टि-सो निषिद्ध वस्तु को उत्साह से करना, जैसे संपूर्ण फल का हिंसा के भेद भङ्ग्य करना श्रावक के वास्ते निषिद्ध है। अरु जिस ने जितने फल खाने में रक्खे हैं, उन फलों में से भी किसी फल का भङ्ग्य नहीं करना। अरु जो मन में उत्साह धरके भङ्ग्य करे, तो आकुट्टि हिंसा होवे। दूसरी दर्पहिंसा—सो चित्त के उन्मत्तपने से मन में गर्व धरके दौड़े, जैसे गाड़ी घोड़ा प्रमुख दौड़ते हैं, तो दर्पहिंसा होवे। तीसरी संकल्प हिंसा—जान कर काम भोग में तीव्र अभिलाषा से काम का जोश चढ़ाने के वास्ते त्रस जीव की हिंसा करे, किसी जीव को मार कर गोली, माजून प्रमुख बना कर खावे। चौथी प्रमाद हिंसा—सो अपने घर का काम काज—रांधना पीसना आदि करते समय त्रस जीव की हिंसा हो जावे। इन चारों हिंसाओं में प्रथम हिंसा तो विलकुल नहीं करनी। तिस वास्ते यहां संकल्प करके आकुट्टि तथा दर्प करके त्रस जीव के हनने का त्याग करे। जैसे

कि यह कीड़ी जाती है, इस को मैं मारू ? ऐसा सकल्प करके हने हनाये, तिस को आकुट्टि सकल्प कहते हैं । इस वास्ते निरपराध जीवों को बिना कारण के न हनूँ न हनाऊँ, ऐसा सकल्प करे । तथा साप्ताहिक आरम्भ समारम्भ करते समय तथा पुत्रादि के शरीर में कीड़े आदि जीव उत्पन्न होयें, तदा औषधादि करते समय यत्न से उपचार करे । तथा घोड़ा, बलद प्रमुख को चातुकादि मारना पड़े तो उस का आगार रक्खे । तथा पेट में कृमि, गडोला, तथा पग में नहरवा अर्थात् वाला, हरस, चमजू प्रमुख अपने शरीर में उपजे, तथा मित्रादि के—स्वजनादिके शरीर में उपजे, तिस के उपचार करने की यतना रक्खे । क्योंकि साधु की तो ब्रह्म अरु स्यावर, सूक्ष्म अरु यादर सर्व जीवों की हिंसा का नवकीटी विगुह्य प्रमाद के योगों से त्याग है । इस वास्ते साधु को तो बीस विसवा दया है, परन्तु गृहस्थ से तो केवल सवा विसवा दया पल सकती है । सो शास्त्रकार लिखते हैं —

जीवा सुहुमा धूना, सकप्पारभम्भा भवे दुविहा ।

सपराह निरवराहा, साविक्खा चेव निरविकखा ॥

अर्थ —जगत् में जीव दो प्रकार के हैं, एक थावर, दूसरे ब्रह्म । तिन में थावर के दो भेद हैं, एक मर्यादित अहिंसा सूक्ष्म, दूसरा यादर । तिनों में सूक्ष्म जीवों की तो हिंसा होती ही नहीं, क्योंकि अति

सूक्ष्म जीवों के शरीर को बाह्य शस्त्र का घाव नहीं लगता है। परंतु इहां तो सूक्ष्म शब्द, थावर जीव—पृथ्वी, पानी, अग्नि, पवन और वनस्पतिरूप जो वादर पांच थावर हैं, तिन का वाचक है। अरु स्थूल जीव, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जानना। इन दोनों भेदों में सर्व जीव आ गये। तिन सर्व की शुद्ध त्रिकरण से साधु रक्षा करता है। इस वास्ते साधु के वीस विसवा दया है। अरु श्रावक से तो पांच थावर की दया पतली नहीं है। क्योंकि सचित्त आहारादि के करने से अवश्य हिंसा होती है। इस से दश विसवा दया तो दूर हो गई, और शेष दश विसवा रह गई, एतावता एक त्रस जीव की दया रह गई। उस त्रसजीव हिंसा के भी दो भेद हैं, एक संकल्प से हनना, दूसरा आरंभ से हनना। तिस में आरम्भ हिंसा का तो श्रावक को त्याग नहीं है, किंतु संकल्प हिंसा का त्याग है। अरु आरम्भ हिंसा में ती केवल यत्न है, त्याग नहीं है, क्योंकि आरम्भ हिंसा तो श्रावक से होती है। इस वास्ते दश विसवा में से पांच विसवा फिर जाता रहा, एतावता संकल्प करके त्रस जीव की हिंसा का त्याग है। फिर इस के भी दो भेद हैं, एक सापराध है, दूसरा निरपराध है। तिन में जो निरपराध जीव हैं, उस को नहीं हनना, अरु सापराध जीव को हनने की जयणा-यतना है। इस वास्ते सापराध जीव की दया सदा सर्वथा श्रावक से नहीं पलती।

क्यों कि घर में से चोर चोरी करके घसु लिये जाता है, सो पिना मारे कूटे छोड़ना नहीं । तथा थायक की स्त्री से कोई अन्य पुरुष अनाचार सेवता हुआ देखने में आवे तो तिस को मारना पड़े । तथा कोई थायक राजा का नौकर है तथा राजा के आदेश से युद्ध करने को जावे, तब प्रथम तो थायक शत्रु चलावे नहीं, परन्तु जय शत्रु शस्त्र चलावे, मारने की आवे, तब तिस को मारना पड़े । तथा सिंहादि जनावर खाने की आवें, तब उन को मारना पड़े । तब तो सकल्य से भी हिंसा का त्याग नहीं हो सका । इस वास्ते पाच विसया में से भी अद्ध जाना रहा, पीड़े अढाई विसया दया रह गई । अथात् मात्र निरपराध भ्रम जीव वृष्टि गोत्र आवें, तिम को न मारू यह नियम रहा । इस के भी दो भेद हैं, एक सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष । इन में भी सापेक्ष निरपराध जीव की थायक से दया नहीं पलती है, क्योंकि थायक जब आप घोड़ा, घोड़ी, बैल रथ, गाड़ी प्रमुख की सयारी करके घोड़ादिक की हाकता है और घोड़े आदिक को घायुकादि मारता है । यहा घोड़े तथा बैल विक्रीने इस का कुछ अपराध नहीं करा है । उन की पीठ पर तो यह चढ़ रहा है, अरु यह जानता नहीं कि इन विगारे जीवों की चलने की शक्ति है, कि नहीं है ? जब ये जीव दृष्टुये घाते हैं तथा नहीं चलत है, तब अज्ञान के उदय से उन को गालिया मता है, और मारता भी है, यह

निरपराध को भी दुःख देता है । तथा अपने शरीर में, तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्याती, गोती के मस्तक में तथा कर्णादि अवयव में तथा अपने मुख के दांतमें कीड़ा आदि पड़े, तो तिन के दूर करने के वास्ते कीड़ों की जगा में औषधि लगानी पड़ती है । इन जीवों ने श्रावक का कुछ अपराध भी नहीं करा है, क्योंकि वो विचारे अपने कर्मों के वरा से ऐसी योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक का वुरा करने की भावना से उत्पन्न नहीं हुए हैं । परन्तु उन की हिंसा भी श्रावक से त्यागी नहीं जाती है । इस वास्ते फिर अर्द्ध जाता रहा, शेष सवा विसवा की दया रह गई । यह सवा विसवा दया भी जो शुद्ध श्रावक होवे, सो पाल सकता है । एतान्नता संकल्प से निरपराध त्रस जीवों को कारण के विना हजूं-मारूंनहीं, यह प्रतिज्ञा जहां लगी अपनी शक्ति रहे, तहां लगी पाले । निर्ध्व-सपना न करे, सदा मन में यह भावना रक्खे, कि मेरे से कोई जीव मत मर जाय ।

तथा घर में आरम्भ करते भी यत्न करे । तथा जो लकड़ी जलाने वास्ते लेवे, सो सड़ी हुई न लेवे, यतना का किन्तु आगे को जिस में जीव न पड़े, ऐसी स्वरूप पक्की, सूखी लकड़ी लेवे, और रसोई के घक्त लकड़ी को झटका कर जीव रहित करके जलावे । तथा घी, तेल, मीठा प्रमुख रस भरी वस्तु के वासन का मुख बांध कर यत्न से रक्खे, उघाड़ा न रक्खे ।

तथा चूल्हे के ऊपर अरु पानी के स्थान पर चन्द्रचा अर्थात् छत पर कपड़ा ताने । तथा गाने को जो अन्न लावे, सो भोजन हुआ न लाये, शुद्ध नया अन्न खाने को लाये । कदापि एक वर्ष के उपरांत का अन्न लावे, तो जिस में जीव न पड़े होयें, सो अन्न लाये । तथा पानी के छानने के वास्ते बहुत गाढा दृढ़ घख रक्खे । एक प्रहर पीछे पानी को फिर छान लेये, जो जीव निकले, उस को, जिस कुत्ते का पानी होवे, उसी में डाल देवे । तथा वर्षा ऋतु में बहुत से जीवों की उत्पत्ति ही जाती है, तिस वास्ते गाडी, रथ की सवारी न कर । क्योंकि जहा चक्र फिरता है, तहा असख्य जीवों का चिघ्रस होता है । हरिकाय, बहुबीज फल, प्रस सयुक्त फल न खाये । तथा घाट में माकड़ प्रमुख जीव पड़ जाते हैं, इस वास्ते धूप में न रक्खे किन्तु दूमरी घाट घदल लेवे । तथा सड़ा हुआ अन्न धूप में न रक्खे, जूठा पानी-अन्न के ससर्ग घाला मोरी में न गेरे । क्योंकि मोरी में बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अरु मोरी के सड़ जाने से घर में बीमारी हो जाती है । तथा चैत्रघदि एकम से लेकर, पत्तों घाला शाक आठ मास तक न खाये । क्योंकि पत्रशाक में बहुत प्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । उस में एक तो प्रस जीवों की हिंसा होती है, अरु दूसरे उन प्रस जीवों के खाने से अनेक रोग उत्पन्न हो जात हैं । अरु शीत काल में एक मास तथा उष्णकाल में बीस दिन, तथा वर्षा ऋतु में पंद्रह

दिन के उपरांत की बनी हुई मिठाई-पकान्न न खावे, क्योंकि उस में ब्रस स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं, अरु खाने वाले को रोगोत्पत्ति भी हो जाती है। तथा चासी अन्न-रोटी आदि न खावे, क्योंकि इन में जीवोत्पत्ति हो जाती है, रोग भी हो जाता है। और बुद्धि मंद हो जाती है। तथा घर में सावरनी अर्थात् बुहारी कोमल सण आदि की रक्खे, जिस से कि जीव न मरे। तथा स्नान भी बहुत जल से न करे, अरु रेतली भूमिका में करे, तथा मोटी परात में बैठ कर स्नान करे, और स्नान का पानी मैदान में थोड़ा थोड़ा करके गेर देवे। मोरी पर बैठ के स्नान न करे। तथा जहां तक थोड़े पाप वाला व्यापार मिले, तहां लग महापापकारी व्यापार या नौकरी आदिक न करे। तथा किसी का हक तोड़े नहीं। घर में जूठे अन्न का पानी दो घड़ी के उपरांत न रक्खे, क्योंकि उस में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तथा जो वस्तु उठावे, तथा रक्खे, तब पहिले उस जगा को नेत्रो से देख लेवे, पूंछ लेवे, पीछे से वस्तु रक्खे। मोटी मोरी में जल नहीं गेरे। तथा दीवा बत्ती जलावे, तो फानसादि के यत्न से जीव की रक्षा करे। तथा जिस पात्र से पानी पीवे तो, फिर वो जूठा पात्र जल में न डबोवे, क्योंकि उस से मुख की लाल लगने से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अरु बहुतो की जूठ खाने पीने से बुद्धि संक्रमण हो जाती है। अरु कई एक रोग ऐसे हैं कि, जिस रोगी का जूठा खावे पीवे,

उस रोगी का रोग खाने पीने वाले को लग जाता है जैसे कि कुष्ठ, क्षय, रेङ्गय, शीतला वगैरह । इस घास्ते सारी घस्तु जूठी नहीं करनी । तथा बहुतों के साथ एकठा न खावे । और मटके में से पानी काढ़ने के वास्ते दडीदार काठ का चट्टू रसरे । इत्यादि शुद्ध व्यवहार में प्रवर्त्ते, तो धायक क क्या सया बिसवा होवे । इसी रीति से धायक का प्रथम व्रत शुद्ध है । इस व्रत के पाच अतिचार अर्थात् पाच कल्क हैं, तिन को वर्जे । सो लिखते हैं ।

प्रथम घथ अतिचार—क्रोध के उदय से अठ बल के अभिमान से निर्दय होकर गाय घोड़ा प्रमुख को कूटे, मार के चलावे ।

दूसरा घथ अतिचार—गाय, बलद, बरूड़ा प्रमुख जीवों को कठिन-अगरदन्त वधन से बाधे, वो जीव कठिन वधन से अति दुःख पाते हैं, कदाचित् अग्नि का मय होवे तो जल्दी छूट नहीं सकते, और मर भी जाते हैं । इस घास्ते कठिन वधन भी अतिघार है । अतः जानवर को दूने वधन से बाधना चाहिये । तथा कोई गुनेगार मनुष्य होवे, उस को भी निर्दय हो कर गाढे वधन से न बाधना चाहिये ।

तीसरा छविच्छेद अतिचार—चैत्र प्रमुख का कान, नाक छिदावे, नत्थ गेरे खस्सी करे ।

चौथा अतिभारारोपण अतिचार—चैत्र प्रमुख के ऊपर जितना मार लाइने की रीति है, तिस से अधिक मार लावे,

तब अतिभारारोपण अतिचार होना है । श्रावक को तो सदा जिस बेल, रासम, गाड़ी प्रमुख में जितना भार लादते हों, उस से भी पांच सेर, दस सेर, कम लादना चाहिये, तभी व्रत शुद्ध रहेगा । उस में भी जेकर किसी जानवर की चलने की शक्ति कम होवे, तब विवेकी पुरुष तिस भार को भी थोड़ा कर देवे । अरु जानवर दुर्बल होवे, तो तिस के घास दाने की पूरी खबर लेवे । परन्तु मन में ऐसा विचार न करे, कि सर्व लोक जितना भार लादते हैं, तिन के बराबर मैं भी लादता हूँ, यह तो व्यवहार शुद्ध है । किन्तु अधिक बोझ होवे, तो और भाड़ा कर लेवे । श्रावकों का यह व्यवहार है ।

पांचमा अतिचार भात पानी का व्यवच्छेद करना—जो बलद घोड़े के खाने योग्य होवे, सो चन्द कर देवे, अथवा उस में से कछुक काढ़ लेवे, अरु खाने का समय लंघा कर पीछे खाने को देवे, तो अतिचार लगे । तथा किसी की आजीविका—नौकरी चन्द करे, वो भी इसी अतिचार में है । श्रावक तो दासी, दास, कुटुम्ब, चौपाये, बैलादि, इन सर्व के खाने पीने की खबर ले के पीछे आप भोजन करे । उपलक्षण से हिंसाकारी मन्त्र, तन्त्रादि किसी को करे, वे भी अतिचार जानने । यह पांच अतिचार श्रावक जान तो लेवें, परन्तु करे नहीं ।

इन बारह व्रतों के सर्व अतिचार भंग होने के संभवा-

सभ्य की विशेष चचा देखनी होवे, तो धर्मरत्न प्रकरण की श्रीदेवद्रसूरिहृत टीका है, सो देख लेनी, इहा तो मैं केवल अतिचार ही लिखूगा ।

अथ दूसरे स्थूलमृषावादविरमण व्रत का स्वरूप लिखते हैं । स्थूल नाम है मोटे का, उस मोटे झूठ मृषावादविरमण का विरमण—त्याग करना । क्योंकि झूठ व्रत चोलने से जगत् में उस की अप्रतीति हो जाती है, अपयश होता है, धर्म की निंदा होती है । तथा अपने मतलब के वास्ते कमी ब्रेश करने का जो त्याग, उस की मृषावादविरमणव्रत कहते हैं । तिस मृषावाद के दो भेद हैं, एक द्रव्यमृषावाद, दूसरा भावमृषावाद । तिन में जो जान कर तथा अजानपने से झूठ बोले, सो द्रव्य मृषावाद है । तथा सर्व परभाव वस्तु को अर्थात् पुद्गलादि जड़ वस्तु की आत्मत्व बुद्धि करके अपना कहे तथा राग, द्वेष और कृष्णादि लेश्या से आगमविरमण बोले शास्त्र का सच्चा अर्थ बुभुक्ति से नष्ट करे, उत्सृज बोले, उस की भावमृषावाद कहते हैं ।

यह व्रत सबव्रतों में मोटा है । इस के पालने में बहुत शुद्ध उपयोग और होशयारी चाहिये । क्योंकि प्रथम व्रत में तो जीव मात्र के जानने से दया पल सकती है । अथ दूसरों की वस्तु की बिना दिये न लेने से अदत्तविरमण तीसरा व्रत पल जाता है । तथा स्त्री मात्र का सग त्यागने से चौथा

व्रत पलता है। तथा नवविध परिग्रह के त्यागने से परिग्रह-व्रत भी पलता है। इसी तरे एक एक द्रव्य के जानने से यह चारों व्रत पाले जाते हैं। परन्तु मृषावादविरमण व्रत तो जहां लगी पद्द्रव्य की गुणपर्याय से तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अच्छी तरे से पिछाण न होवे, सम्मति प्रमुख द्रव्यानुयोग के शास्त्र न पढ़े, बहुत निपुण ज्ञानवान् न होवे, तहां तक पालना कठिन है। क्योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध भाषण करने से भी यह व्रत भङ्ग हो जाता है। इसी वास्ते साधुओं की बहुत बोलना शास्त्र में निषेध करा है। इन पूर्वोक्त चारों महाव्रतों में से एक महाव्रत जेकर भङ्ग हो जावे, तब तो चारित्र भङ्ग होवे, अरु नहीं भी भङ्ग होवे। क्योंकि जेकर एक ही कुशील सेवे, तो सर्वथा चारित्र भंग होवे, और शेष व्रतों के खण्डन से देश भङ्ग होवे, सर्वथा भङ्ग नहीं होवे, यह व्यवहार भाष्य में कहा है। परन्तु उस का ज्ञान, दर्शन भङ्ग नहीं होवे। अरु जब मृषावाद विरमण व्रत का भङ्ग होवे, तब तो ज्ञान, दर्शन अरु चारित्र, यह तीनों ही जड़मूल से जाते रहते हैं। जीव मर कर दुर्गति में जाता है, अनंत संसारी, दुर्लभ बोधी हो जाता है। इस वास्ते जेकर यह व्रत पालना होवे, तो पद्द्रव्य के गुण पर्याय जानने में अति उद्यम करे। जेकर बुद्धि की मन्दता होवे, तब गीतार्थ के कहने के अनुसार श्रद्धा की प्ररूपणा करे। क्योंकि द्रव्यमृषावाद के त्यागी जीव तो

पडदर्शन में भी हो सकते हैं, परन्तु भावभृगसाद का त्यागी तो एक श्रीजिनेन्द्रदेव के मन में ही मिलेगा । जो जीव, श्रद्धा—रुचि को शुद्ध धारेगा, सोई भावभृगसाद का त्यागी होयेगा । इस मृषावाद के पांच मोटे भेद हैं, सो धायक को अवश्य रजने चाहियें । सो कहते हैं —

प्रथम कन्यालीक—अपने मिलापी की कन्या है,

उस की सगाई होने लगी होवे, तब कन्या

मृषावाद के के लेने वाले पूछें कि यह कन्या कैसी है ? तब

पांच भेद वो मिलापी की प्रीति से उस कन्या में जो

दूषण होये, सो छिपाये, गुण न होये, तो भी

अधिक गुणवाली कह देवे । जैसे कि यह कन्या निदास

है, ऐसी फुलवती, लक्ष्णवती साक्षात् देवागना समान तुम

को मिलनी मुश्किल है । तथा जेकर मिलापी के साथ द्वेष

होये, तदा वो कन्या जो निर्दोष और लक्ष्णवती होये, तो भी

कहे कि इस कन्या में अ-द्वेष लक्षण नहीं हैं, पिडालनेशी है,

इस के साथ जो सवध करेगा, वो परवाचाप करेगा, ऐसे

मनहोये दूषण घोल देये । यह कन्यालीक है । प्रथम तो

मतधारी धायक किसी की सगाई के भगड़े में पड़े ही नहीं,

अरु जेकर अपना सवधी मित्रादिक होये, वो पूछे, तब यथार्थ

कहे, कि भाई ! तुम अपना निश्चय कर लो, क्योंकि जन्म पर्यंत

का सवध है । ऐसे कहे, परन्तु झूठ न बोले । कन्यालीक

में उपलक्षण से सर्व दो पग घाले का झूठ न बोले ।

दूसरा गवालीक—सर्व चौपद—हाथी, घोड़ा, बल्लद, गाय, भैस प्रमुख सम्बंधी झूठ न बोले ।

तीसरा भूम्यालीक—दूसरे की धरती को अपनी कहे, तथा और की भूमि को और की कहे । तथा घर, हवेली, वाड़ी, बाग, बगीचा वृक्षादिक सम्बंधी तथा सर्व परिग्रह संबन्धी भी झूठ न बोले ।

चौथा थापणमोसा का झूठ—कोई पुरुष श्रावक को प्रतीति वाला जान कर, उस के पास बिना साक्षी तथा बिना लिखत करे कोई वस्तु रख गया है, फिर वो मांगने आवे, तब मुकर न जावे, जैसे कि मैं तुम को जानता ही नहीं, तुम कौन हो ? ऐसा झूठ बोल के उस की वस्तु रख लेवे । यह भी श्रावक ने नहीं करना ।

पांचमा झूठी साक्षी भरनी—सो दो जने आपस में झगड़ते हैं, तिस में झूठे पासों धन लेकर अथवा उस के लिहाज से झूठी गवाही देनी । यह भी काम श्रावक ने नहीं करना । इस व्रत के भी पांच अतिचार श्रावक वर्जें ।

प्रथम सहसाभ्याख्यान अतिचार—बिना विचारे किसी को कलंक देना—तू व्यभिचारी है, झूठा है, चोर है, इत्यादि कहना । जेकर श्रावक किसी का प्रगट कोई अवगुण देखे, तो भी अपने मुख से न कहे, तो फिर कलंक देना, तो महापाप है, सो कैसे करे ।

दूसरा सहसाभ्याख्यान अतिचार—कई एक पुरुष एकांत

में बैठ कर कुछ मता करते हैं। उन को देख के कहे, कि तुम राजविरोध मता करते हो, ऐसा कह कर उन की भडी करे, राजपण्ड दिलावे।

तीसरा स्वदारमभमेद अतिचार—अपनी स्त्री ने कोई गुप्त बात अपने पति से कही है, वो बात लोको में प्रगट करे, उपलक्षण से भाई प्रमुग की कही बात को प्रगट करे। क्योंकि लज्जनीय बात के प्रगट होने से स्त्री आदि कृपादिक में डूब मरती हैं।

चौथा मृषा उपदेश अतिचार—दूसरो को भूडी चस्तु के करने का उपदेश करे, तथा विषय सेवने के चौरासी आसन सिखावे, तथा दूसरो को दुःख में पड़ने का—उपदेश करे शीर्य पुष्ट होने की औषधि बतलावे, जिस से वो बहुत विषय सेवें। जिस से विषय कषाय अधिक उत्पन्न होवें, ऐसा उपदेश को।

पाचमा कूटलेपकरण अतिचार—किसी के नाम का झुठा पत्र, यही बना लेना, अगले अफ को तोड़ के और बना देना, तथा अक्षर गुरुच देना, भूडी मीहर छाप बना लेनी, इत्यादि कूट लेप अतिचार हैं। इन पाच अतिचार अरु पाच प्रकार के पूर्वोक्त भूठ को नरकादि गति के कारण जान कर धायक धर्ज देवे।

तीसरा स्थूल अदत्तादानधिरमणवत लिपित हैं। प्रथम

मोठी चोरी-भीत फोडी कुंभल देकर अथवा
 अदत्तादान एकले को रस्ते में छल बल करके ठग लेना ।
 विरमणव्रत जवरदस्ती से किसी की वस्तु खोस लेनी ।
 नज़र बचा के किसी की वस्तु उठा लेनी ।
 अरु कोई वस्तु धर गया हो, जब वो मांगने आवे तब,
 मुकर जावे । तथा हीरा, मोती, पन्ना प्रमुख झूठे सच्चे का
 अदल बदल कर देवे, इत्यादि अदत्तादान अर्थात् चोरी का
 स्वरूप है । इस के करने से परलोक में खोटी नरकादि
 गति प्राप्त होती है । अरु इस लोक में भी प्रगट हो जावे,
 तो राज दण्ड, अपयश, अप्रतीति होवे, इस वास्ते श्रावक
 अदत्तादान का त्याग करे । इस अदत्तादान व्रत के दो भेद हैं ।
 प्रथम द्रव्य अदत्तादानविरमण व्रत—सो पूर्वोक्त प्रकार से
 दूसरों की वस्तु पड़ी और विसरी हुई लेवे नहीं, सो द्रव्य
 अदत्तादान-विरमणव्रत जानना । दूसरा भाव अदत्तादान-
 विरमण व्रत—सो पर जो पुद्गल द्रव्य, तिस की जो रचना-
 वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि रूप तेवीस विषय, तथा आठ कर्म
 की वर्गणा । यह सर्व पराई वस्तु हैं, सो वस्तु तत्त्वज्ञान में
 जीव को अग्राह्य है, तिस की जो उदय भाव करके वांछा
 करनी, सो भाव चोरी है । तिस को जिनागम के सुत्तने से
 त्यागना, पुद्गलानंदीपना मिटाना, सो भाव अदत्तादान-
 विरमणव्रत कहिये । अतः जो जो कर्मप्रवृत्ति का बंध मिटा
 है, सो भाव अदत्तविरमणव्रत है । सामान्य प्रकार से

अदत्त के चार भेद है —

१ किसी की वस्तु बिना दिये ले लेनी, इस का नाम स्वामी अदत्त है। २ सचित्त वस्तु अर्थात् अदत्त के चार भेद जीव वाली वस्तु—फूल, फल बीज, गुच्छा, पत्र, कद, मूलादिक तथा उकरा, गाय, सूअर आदिक इन को तोड़े, छेदे, भेदे, काटे, सो जीव अदत्त कहिये। क्योंकि फूलादि जीवों ने अपने शरीर के छेदने भेदने की आशा नहीं दीनी है, कि तुम हम को छेदो भेदो, इस वास्ते इस का नाम जीव अदत्त है। ३ जो वस्तु तीर्थकर अर्हत ने निषेध करी है, तिस का जो ग्रहण करना। जैसे साधु को अशुद्ध आहार लेने का निषेध है, अरु श्रावक को अभक्ष्य वस्तु ग्रहण करने का निषेध है। सो इन पूर्वोक्त को ग्रहण करे, तो इस का नाम तीर्थकर अदत्त है। ४ गुरु अदत्त—जैसे कोई साधु शास्त्रोक्त निर्दोष आहार व्यवहार गृह लगे, पीछे उस आहार को जो गुरु की आज्ञा बिना खाये, सो गुरु अदत्त है।

यह चारों अदत्त संपूर्ण में रीति तो जेन का यति ही त्याग सकता है, गृहस्थ से तो एक स्वामी अदत्त ही त्यागा जाता है, इस वास्ते इसी की यहा मुख्यता है। तिस वास्ते पराई वस्तु पूर्वोक्त प्रकार से लेनी नहीं। जेकर ले लेये, तो चोर नाम पढे राजदण्ड होये अपयश, अप्रतीति होये इस वास्ते न लेनी चाहिये। अरु जिस वस्तु की बहुत मनाई

नहीं है, लेने से चोर नाम नहीं पड़ता है, निस की जयणा करे। अरु किसी की गिरी पड़ी वस्तु मिल जावे, पीछे जेकर जान जावे कि यह वस्तु अमुक की है, तब तो उस को दे देवे। जेकर उस वस्तु के स्वामी को न जाने, अरु अपना मन दृढ रहे तो लेवे नहीं। अरु कदाचित् बहुमोली वस्तु होवे, अरु मन दृढ न रहे, तो उस वस्तु को लेकर अपने पास कितनेक दिन रक्खे। जेकर उस का मालिक कोई जान पड़े, तो उस को दे देवे, जेकर उस का स्वामी कोई मालूम न पड़े, तो धर्मखाते में उस धन को लगा देवे। जेकर लोभ अधिक होवे, तो आधा धर्म में लगा देवे। तथा अपनी ज़मीन को खोदते हुए तिस में से धन निकल आवे तो रखने का आगार है। परन्तु इसमें भी आधा भाग अथवा चौथा हिस्सा धर्म में लगावे। तथा दूसरे की जगा मोल से ली होवे, उस में से खोदते हुए धन निकल आवे, जेकर मन में संतोष होवे, तब तो उस मकान वाले को वो धन दे देवे, जेकर लोभ होवे, तब आधा धर्म में लगावे, अरु आधा अपने पास रक्खे। तथा कोई पुरुष अपने पास धन रख कर, पीछे से मर गया होवे, अरु उस का कोई वारिस न होवे, तब श्रावक उस धन को पंचों के आगे जाहिर करे, जो कुछ पंच कहे, सो करे। कदापि देश काल की विपमता से उस धन को जाहिर करते कोई राज सम्बंधी क्लेश उठता मालूम पड़े, कोई दुष्ट राजा लोभ के वश से कहे, कि तेरे घर में और भी ऐसा धन

है इत्यादि होये, तब तो मौन करके उस धन को धमस्थान में लगा देये।

तथा घर की चोरी यह है—घर की सब वस्तुओं का मालिक माता पिता है, तिन के पूत्रे विना धन वस्त्रादि लेने की जयणा रक्मे। अथवा जिस के साथ प्रेम होये, तथा जो समधी होये, जिस के घर में जाने आने का अरु खाने पीने का व्यवहार होये, उस के विना पूछे कोई फलादि वस्तु खाने में आवे उस का आगार रखे। परन्तु जेकर उस वस्तु के खाने से मालिकों का मन दुखे तो न लेये। इस रीति संतीसरा व्रत पाले। यह व्यवहार शुद्ध अदत्तादान विरमण व्रत है।

निश्चय से तो जितना अवधपरिमाण हुआ अथात् गुण स्थान की शुद्धि होने से बध का व्यवच्छेद हुआ है, सो निश्चय अदत्तादानविरमण व्रत कहिये। इस व्रत के भी पाच अतिचार हैं सो कहने हैं।

प्रथम तेनाहृत अतिचार—चोर की चुराई हुई जो वस्तु तिस को तेनाहृत कहते हैं। सो वस्तु न लेवे, एतावता चोरी की वस्तु जान करके न लेवे। क्योंकि जो चोरी की वस्तु जान कर लेता है, वो लेने वाला भी चोर है। क्योंकि जैनमत के शास्त्रों में सात प्रकार के चोर लिखे हैं। यथा—

चौरश्चौरापका मन्त्री, भेदज्ञः क्राणकक्रयी ।

अन्नदः स्थानदश्चैव, चौरः सप्तविधः स्मृतः ॥

[धर्म० प्र० टीका में संगृहीत]

दूसरा प्रयोग अतिचार—चोरी करने वालों को प्रेरणा करनी जैसे कि अरे ! तुम चुप चाप निर्व्यापार आज कल क्यों बैठ रहे हो ? जेकर तुमारे पास खरचा न होवे, तो मैं देता हूं, अरु तुमारी लाई हुई वस्तु मैं बेच दूंगा, तुम चोरी करने के वास्ते जाओ, इत्यादि वचनों करके चोरों को प्रेरणा करनी ।

तीसरा तत्प्रतिरूपक व्यवहार अतिचार—सरस वस्तु में नीरस वस्तु मिला कर बेचे, जैसे केसर में कसुंभादि मिला कर बेचे, घी में छाछादि, हींग में गूदादि, खोटी कस्तूरी खरी करके बेचे, अफयून में खोट मिलावे, पुराणा वस्त्र रंगा कर नवे के भाव बेचे, रूई को पानी से भिगो कर बेचे, दूध में पानी मिला के बेचे, इत्यादि करे ।

चौथा राजविरुद्धगमन अतिचार—अपने गाम के वा देश के राजा ने आज्ञा दी, कि फलाने गाम में जाना नहीं, इत्यादि जो राजा की आज्ञा है, उस का उल्लंघन करना, वैरी राजा के देश में अपने राजा के हुकुम के बिना जाना ।

पांचमा कूट तोलमान अतिचार—खोटा तोल, माप, करने का अतिचार है । कमती तोल से तो देना, अरु अधिक तोल से लेना ।

चौथा मैथुन त्याग व्रत कहते हैं—सो मैथुन सेवने का त्याग करना है । इस व्रत के दो भेद मैथुनविरमण व्रत है, एक द्रव्य मैथुनत्याग, दूसरा भाग मैथुन त्याग । उस में द्रव्य मैथुन तो परस्त्री तथा परपुरुष के साथ सगम करना है । सो पुरुष स्त्री का त्याग करे, अरु स्त्री पुरुष का त्याग करे, रतिक्रीडा—काम सेवन का त्याग करे तिस को द्रव्य ब्रह्मचारी तथा व्यग्रहार ब्रह्मचारी कहिये । भाव मैथुन—सो एक चेतन पुरुष के विषय विलास परपरिणतिरूप, तथा तृष्णा ममता रूप, इत्यादि बुवासना, सो निश्चय परस्त्री को मिलना तिस के साथ लालन पालनरूप कामविलास करना, सो भावमैथुन जानना । तिस का जन्म जिनजाणी के उपदेश से, तथा गुरुकी हितशिखा से ज्ञान हुआ, तब जानिहीन जान करके अनागत काल में महा दुःखदायी जान कर पूर्वकाल में इस की सगत से अनन्त जन्म मरण का दुःख पाया, इस रास्ते इस विजातीय स्त्री को तजना ठीक है । अरु मेरी जो स्वजाति स्त्री, परम भक्त उत्तम, सुकुलीन, समतारूप सुन्दरी, तिस का सगम करना ठीक है । अरु त्रिभावपरिणतिरूप परस्त्री ने मेरी सर्व विभूति हर लीनी है । तो अब सद्गुरु की सहायता से ए दुष्ट परिणाम रूप जो स्त्री, सगम लगी हुई थी, तिस का थोड़ा थोड़ा निग्रह करू—त्यागने का भाव आदरू, जिस से शुद्ध स्वभाव घटरूप घर में आजाये, तथा स्वरूप तेज की वृद्धि

होवे । ऐसी समझ पा करके जो परंपरिणति में मग्नता त्यागे, और कर्म के उदय में व्यापक न होवे, शुद्ध चेतना का संगी होवे, सो भाव मैथुन का त्यागी कहिये । इहां द्रव्यमैथुन के त्यागी तो पद् दर्शन में मिल सकते हैं, परन्तु भावमैथुन का त्यागी तो श्रीजिनवाणी सुनने से भेदज्ञान जब घट में प्रगट होता है, तब भवपरिणति से सहज उदासीनता रूप भाव मैथुन का त्यागी जैनमत में ही होता है । इहां स्थूल परस्त्रीगमनविरमण व्रत—सो परस्त्री का त्याग करना । परपुरुष की विवाहिता स्त्री, तथा पर की रखी हुई स्त्री, तिस के साथ अनाचार न सेवना, ऐसा जो प्रत्याख्यान करना, सो परदारगमनविरमण व्रत है । अरु जो अपनी स्त्री है, तिस में संतोष करूं, ऐसा जो व्रत धारण करे, तिस को स्वदारसंतोष व्रत कहिये ।

देवांगना तथा तीर्थचनी के साथ तो काया से मैथुन सेवन का निषेध है । तथा वर्तमान स्त्री को वर्ज के और स्त्री से विवाह न करे । तथा दिन में अपनी स्त्री से भी संभोग न करे, क्योंकि दिनसम्भोग से जो संतान उत्पन्न होती है, सो निर्बल होती है । जेकर कामाधिक होवे; तो दिन की भी मर्यादा कर लेवे । इसी तरे स्त्री भी पर पुरुष का त्याग करे । इस रीति से चौथा व्रत पाले । इस व्रत के भी पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं ।

प्रथम अपरिगृहीतागमन अतिचार—विना विवाही स्त्री—

कुमारी तथा विधवा, इन को अपरिग्रहीता कहते हैं क्योंकि इन का कोई भर्त्ता नहीं है। जेकर कोई अल्पमति विषयाभिलाषी मन में विचारे, कि मैंने तो परस्त्री का त्याग करा है परंतु ए तो किसी की भी स्त्रियें नहीं हैं, इन के साथ विषय सेवने से मेरा व्रतभंग नहीं होवेगा। ऐसा विचार करके कुमारी तथा विधवा स्त्री के साथ भोग विलास करे, तो प्रथम अतिचार लग जावे। तथा स्त्री भी व्रतधारक होकर कुमारे पुरुष से तथा रडे पुरुष से व्यभिचार सेवे, तो तिस स्त्री को भी अतिचार लगे।

दूसरा इत्वरपरिग्रहीतागमन अतिचार—इत्वर नाम थोड़े काल का है, सो थोड़ से काल के वास्ते, किसी पुरुष ने धन खर्च के, वेश्यादि को अपनी करके रखी है। इहा कोई अज्ञान के उदय में मन में ऐसा विचार करे कि मेरे तो परस्त्री का त्याग है, अरु इस वेश्यादि को तो मैंने अपनी स्त्री बना करके थोड़े से काल के वास्ते रखी है तो इस के साथ विषय सेवने से मेरा व्रतभंग नहीं होवेगा। ऐसे अज्ञान के विचार में उस के साथ सगम-विषय सेवन करे, तो दूसरा अतिचार लगे। तथा स्त्री भी जब अपनी सौकन की चारी के दिन में अपने भर्त्ता से विषय सेवे वो अपने मन में ऐसा विचार करे, कि अपने पति के साथ विषय सेवने से, मेरा व्रतभंग नहीं होवेगा, क्योंकि मैंने तो पर पुरुष का त्याग करा है। यह दूसरा अतिचार। इन

पूर्वोक्त दोनों अतिचारों को जो श्रावक जानता है, कि ये श्रावक को करने योग्य नहीं, अरु फिर जेकर करे, तो व्रतभंग होवे, परन्तु अतिचार नहीं ।

तीसरा अनंगक्रीडा अतिचार—अनंग नाम काम का है, तिस काम-कंदर्प को जागृत करना, आलिंगन, चुंबन प्रमुख करना, नेत्रों का हाव, भाव, कटाक्ष, हास्य, उट्टा, मष्करी प्रमुख परस्त्री से करना । वह दिल में सोचता है, कि मैंने तो परस्पर एक शय्या पर विषय सेवने का त्याग करा है, पूर्वोक्त अनंग क्रीडा तो नहीं त्यागी है । परन्तु वो मूढमति यह नहीं जानता है, कि ऐसा काम करने वाले का व्रत कदापि न रहेगा । तथा मन से उस जीव ने महापाप का उपार्जन कर लिया । निश्चय नय के मत से उस का व्रत भंग भी हो गया । तथा अपनी स्त्री से चौरासी आसनों से भोग करे, तथा पंद्रा तिथि के हिसाब से स्त्री के अंगमर्द्दनादि करके काम जगावे । तथा परम कामाभिलाषी होने से जब अपनी स्त्री का भोग न मिले, तब हस्तकर्म करे: स्त्री भी काम व्याप्त होकर गुह्यस्थान में कोई वस्तु संचार करके हस्तकर्म करे, तब स्त्री को भी अतिचार है । तिस वास्ते श्रावक को जैसे तैसे करके भी कामेच्छा घटानी चाहिये । क्योंकि विषय के घटाने से अरु वीर्य के रखने से बुद्धि, आरोग्य, दीर्घायु, बल प्रमुख की वृद्धि होती है । अधिक काम के सेवन से मन मलिन, पापवृद्धि, राजयद्मा-क्षय,

भ्रम, मूर्च्छा, क्रम और स्वेदादि रोग उत्पन्न होते हैं । इस वास्ते श्रावक को अत्यन्त विषय मग्न नहीं होना चाहिये । केवल तिस से वेदविकार शांत हो जाये तितना ही मैतुन करना चाहिये । अरु जत्र काम उत्पन्न होये, तत्र स्त्री सम्बन्धी काम सेवन की जगे को जाजरू—ट्टी समान मल मूत्र से भरी हुई विचारे । मलिन वस्तु है, मुख में दुग्ध भरी है, नाक में सिंघाण की दुग्ध है, कानों में मल है, पेट में विष्टा, मूत्र भरा है, नसों में खाये पीये का रस, रधिर हाड, चाम, चर्मा, घात, पित्त कफ, भरा है, यह महा अशुचि का पुतला है, जिम्न अग मे वास लेयेगा चहा महा दुर्गंध उछलती है, अनित्य—अशाद्वत है, मडन, पतन, विध्वंसन हो जाना इस का स्वभाव है । तो फिर ह मूढ जीव ! स्त्री को देखकर क्या कामाकुल होता है ? ऐसे विचार से काम को शांत करे ।

चौथा पगविवाहकरण अतिचार—अपने पुत्र पुत्री के पिता, यश के दास्ते, पुण्य के दास्ते, और लोकों के विवाह कराये, सो चौथा अतिचार ।

पाचमा तीवानुराग अतिचार—जो पुरुष स्त्री के ऊपर तीव्र अभिलाष धरे, पराई स्त्री का देख कर मन में बहुत चाहना करें, उस स्त्री के नेमे विना क्षणमात्र रह न सके, चलते फिरते उस स्त्री ही में चित्त रहे । अथवा वेह में काम की वृद्धि के वास्ते अफयून, भाजून, भाग, दड़ताल, पारा प्रमुख आवें, तीव्र काम से प्रीति करे । तब पाचमा अतिचार

लगे । अथवा स्त्री भी काम की वृद्धि करने के वास्ते अनेक उपाय करे, बहुत हाव भाव विषय लालसा करे, तब पांचमा अतिचार लगे । इन पांच अतिचारों को श्रावक जाने, परन्तु आदरे नहीं । इन-पांचों-अतिचारों का विगेय स्वरूप धर्मरत्न प्रकरण की टीका से जानना ।

पांचमा स्थूलपरिग्रहपरिमाण व्रत लिखने हैं—परिग्रह के दो भेद है, एक तो वाह्यपरिग्रह अधिकरण परिग्रहपरिमाण रूप, सो द्रव्यपरिग्रह नव प्रकार का है । व्रत दूसरा भावपरिग्रह, सो चौदह अभ्यंतर ग्रन्थिरूप जो परभाव का ग्रहण समस्त प्रदेश सहित सक्रपायरूप से बंध, सो भावपरिग्रह है । अरु शास्त्र में मुख्य वृत्ति करके सूछा को भावपरिग्रह कहा है । तिन में से चौदह प्रकार का जो अभ्यंतर परिग्रह है, सो लिखने हैं । १ हास्य, २. रति, ३ अरति, ४. भय, ५. शोक, ६. जुगुप्सा, ७. क्रोध, ८. मान, ९. माया, १०. लोभ, ११. स्त्री वेद १२. पुरुषवेद, १३. नपुंसकवेद, १४. मिथ्यात्व यह चौदह प्रकार की अभ्यंतर ग्रन्थि है । संसार में इस जीव को केवल अविरति के बल से इच्छा आकाश के समान अनंती है, जो कि कदापि भरने में नहीं आती । अविरति के उदय से इच्छा अरु इच्छा से कर्मबंधन में पड़ा हुआ यह जीव चार गति में भ्रमण करता है । सो किसी पुण्य के उदय से मनुष्य भव आदि सकल सामग्री का योग पाकर,

सद्गुरु की सगति से जब श्रीजिनशानी को सुना तब चेतना जागृत भई, तब विचार हुआ कि अहो मे समस्त परभाव से अय हूँ ! अयन्धि, अछेद्य, अभेद्य, अक्षयधर्मी हूँ ! परन्तु इच्छा के बश होकर समस्त छेदन, भेदन, परिभ्रमणादि दुःखों को भोगने वाला परधर्मी बन रहा हूँ ? इस वास्ते समस्त परभाव का मूल जो इच्छा है, तिस को दूर करे। तब समस्त परभाव त्यागरूप चारित्र्य आदरे, साधुवृत्ति अंगीकार करे। तथा जिस जीव के इच्छा प्रबल होने से एक साथ सर्व परिग्रह त्यागने का सामर्थ्य न होवे, अरु दोष से डरे, तब गृहस्थ, धर्म के विषय में इच्छा परिमाण रूप व्रत को आदरे, सो इच्छा परिमाण व्रत नव प्रकार का है। सो कहते हैं—

प्रथम धन परिमाण व्रत—धन चार प्रकार का है। प्रथम गणित धन—सो नारिकेल प्रमुख, जो गिनती से बेचने में आवे। दूसरा धरिम धन—सो गुड़ प्रमुख, जो तोल के बेचने में आवे। तीसरा परिच्छेद्य धन—सो सोना, रूपा, जवाहिर प्रमुख, जो परीक्षा से बेचने में आवे। चौथा मेयधन—सो दूध आदि वस्तु, जो माप के बेचने में आवे। यह चार प्रकार का धन है। इस का जो परिमाण करे, सो धन परिमाण व्रत है।

दूसरा धान्य परिमाण व्रत—सो धान्य चौबीस प्रकार का है। १ शालि, २, गेहूँ, ३ जुवार, ४ घाजरी, ५ यव,

६. मूंग, ७. मोठ, ८. उड़द, ९. छंट, १०. वोड़ा, ११. मटर, १२. तुअर, १३. किसारी, १४. कोद्रवा, १५. कंगणी, १६. चना, १७. चाल, १८. मेथी, १९. कुलय, २०. मसूर, २१. तिल, २२. मंडवा, २३. कूरी, २४. वरटी, यह खाने तथा व्यवहार वास्ते उपयोगी हैं । तथा धनियां, मिंडी, सोवा, अजवायन, जीरा, यह भी धान्य की जाति में है । परंतु ये सब औषधि आदि में काम आते हैं । तथा सामक, मणकी, भुरट, चेकरीया, ये मारवाड़ देश में प्रसिद्ध हैं । और भी जो अड़क धान्य विना बोये उगता है, जिस को लोक काल दुकाल में खाते हैं, इस सर्व जाति के अन्न—का परिमाण करे ।

तीसरा क्षेत्रपरिमाण व्रत—सो बोने का खेत, तथा वाग-वगीचा आदिक जानना । इस क्षेत्र के तीन भेद हैं, उस में एक क्षेत्र तो ऐसा है, कि जो वर्षा के पानी से होता है, दूसरा कृपादिक के जल सींचने से होता है, तीसरा पूर्वोक्त दोनों प्रकार से होता है । इन का परिमाण करे ।

चौथा वास्तुक-परिमाण व्रत—सो घर, हाट, हवेली प्रमुख; तिन के भी तीन भेद हैं । एक तो भोरा प्रमुख; दूसरा उच्छ्रित-ऊंची हवेली, एक मंजली, दो मंजली, तीन मंजली, यावत् सातभूमि तक, तीसरी नीचे भोरा प्रमुख ऊपर एक दो आदि मंजल; तिन का परिमाण करे ।

पांचमा रूप्यपत्रिह-परिमाण व्रत—सो सिक्के विना का

कच्चा रूपा, तिस के तोल का परिमाण करे ।

छठा सुवर्णपीरग्रहपरिमाण व्रत—सो विना सिक्के का सोना, तिस के तोल का परिमाण करे ।

सातमा कुप्यपरिग्रहपरिमाण व्रत—सो प्राचा, पीतल, रागा, कासा, सीसा, भरत, लोहा प्रमुख सर्व धातु के बरतनों के तोल का परिमाण करे ।

आठमा छिपदपरिग्रहपरिमाण व्रत—सो दासी, दास अथवा पगारदार—गुमास्ता प्रमुख रखना, तिन की गिनती का परिमाण करे ।

नवमा चतुष्पदपरिग्रहपरिमाण व्रत—सो गाय, महिषी, घोड़ा, बलद, बकरी, भेड़ प्रमुख, तिन की गिनती का परिमाण करे ।

अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिग्रह किस तरे रक्खे ?
सो कहते हैं । रूपा घड़ा हुआ अरु अनघड़ा तथा नगद रूपक इतना रक्खू, तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अथ रफी तथा जवाहिर इतना रक्खू, इस रीति से परिमाण करे । उपरांत पुण्योदय से धन बधे, तो धर्मस्थान में लगाये । तथा वर्ष भर में इतने, इस भात के बख्र पहिरू । तथा एक वर्ष में इतना अन्न में घर के खरच के वास्ते रक्खू, अरु इतना बणिज के वास्ते रक्खू । तिस का स्वरूप सातमे व्रत में लिखेंगे । तथा क्षेत्रपरिमाण में क्षेत्र, घाड़ी, बगीचा प्रमुख सर्व मिल कर इतने बीघे धरती रक्खूगा । तथा घर,

खिड़की वंद, अरु खुल्ली दुकान, तवेला, वुखारी, तथा परदेश संवन्धी दुकान की जयणा, तथा इतना भाड़े देने के वास्ते घर को रखने की जयणा, तथा भाड़े लिये हुये घर को समराने की जयणा, तथा कुटुंब संवन्धी घर बनाने में उपदेश की जयणा, तथा अपना सम्वन्धी अरु गुमास्ता परदेश गया होवे, पीछे से तिस के घर प्रमुख समराने की जयणा, तथा आजीविका के वास्ते किसी की चाकरी करनी पड़े, तब उस के घर प्रमुख के समरावने की जयणा । तथा कुप्यपरिमाण में तांबा, पीतल, रांग, लोहखण्ड, कांसी, भरत, सर्व मिल कर धातु के वरतन, तथा और घाट, तथा छूटा, इतने मन रखने की जयणा । तथा दुपद परिमाण में श्रावक ने दासी, दास को मोल दे कर नहीं लेना, परंतु पगार वाले नौकर गिनती में इतने रखने चाहियें, तथा गुमास्ता रखने की जयणा । तथा चौपद परिमाण में गाय, भैंस, बकरी प्रमुख रखने का परिमाण करे । अब इस इच्छा परिमाण व्रत के पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं ।

प्रथम धनपरिमाण-अतिक्रम अतिचार—सो इस रीति से होता है । जब इच्छा परिमाण से धन अधिक हो जावे, तब लोभ संज्ञा से दिल में ऐसा मनसूवा करे, कि मेरा पुत्र जो बड़ा हो गया है, तिस को भी धन चाहिये, अरु मैंने भी पुत्र को धन देना ही है । ऐसा कुविकल्प करके पुत्रके नाम के पांच हज़ारादि रूपक जुदे रक्खे । तथा अन्न प्रमुख अपने

नियम परिमाण घर में पड़ा है, तब अधिक रखने की इच्छा से दूसरे के घर में रख छोड़े। जब चाहे तब ले आवे, अरु अज्ञान से ऐसा विचारे कि मैंने तो इच्छा परिमाण से अधिक रखने का नियम करा है, अरु यह तो दूसरों के घर में रक्खा है, इस वास्ते मेरे नियम में दूषण नहीं। तथा अत लेने के उक्त में कच्चे मन के हिसाब से अन्न रक्खा है। अरु जब परदेशांतर में गया, तब पक्के मन का वहा तोल जान कर अन्न भी पक्के मन के हिसाब से रखे। ऐसे विचार वाले को प्रथम अतिचार लगता है।

दूसरा क्षेत्र परिमाण अतिक्रम अतिचार—सो जब इच्छा परिमाण से अधिक घर हाट आदिक हो जावे, तब विचली भाँत तोड़ के दो तीन घर आदि का एक घर आदि बनावे। तथा दो तीन गेत्तों की विचली डौली तोड़ के एक बना लेवे। अरु मन में यह विचारे, कि मैंने तो गिनती रक्खी है, सो तो मेरा नियम अखण्डित है, बड़ा कर लेने में क्या दूषण है? ऐसे करे, तो दूसरा अतिचार लगे।

तीसरा रूप्यसुवर्णपरिमाण अतिक्रम अतिचार—सो जब इच्छा परिमाण से अधिक होये, तब अपनी रत्नी के गहने भारी तोल के बनवावे, तथा अपने आभरण तोल में भारी बनवावे।

चौथा कुप्यपरिमाण अतिक्रम अतिचार—सो चाचा, पीतल, कासी प्रमुख के बरतन बगैरे जो गिनती में रखे

हैं, सो जब घर में संपदा होवे, तब गिनती में तो उतने ही रक्खे, परन्तु तोल में वज्रनदार दुगने तिगुने बतवावे, अरु मन में ऐसा विचारे कि मेरा व्रत तो अखंडित है: क्योंकि वरतनों की गिनती तो मेरे उतनी ही है । तथा कच्चे तोल—परिमाण रक्खे थे, फिर पक्के तोल परिमाण रख लेवे ।

पांचमा द्विपदचतुष्पद-परिमाणातिक्रम अतिचार—सो दास दासी, घोड़ा, गाय, बलद प्रमुख अपने परिमाण से जब अधिक हो जावें, तब वेच गेरे (डाले), अथवा गर्भ ग्रहण अवेरे (ढेर में) करावे, जितने गिनती में हैं, उन में से प्रथम वेच के फिर गर्भ ग्रहण करावे, अथवा भाई पुत्र के नाम करके रक्खे, तो पांचमा अतिचार लगता है ।

अथ छठा, सातमा अरु आठमा, इन तीनों व्रतों को गुणव्रत कहते हैं । तिन में छठे व्रत में दिशाओं का विचार है, इस वास्ते इस का नाम दिक्परिमाण व्रत है । अब तिस का स्वरूप लिखते हैं ।

पूर्व जो पांच अणुव्रत कहे हैं, तिन को इन तीनों व्रतों करके गुण वृद्धि होती है, इस वास्ते इन गुणव्रत का नाम गुणव्रत है । क्योंकि जब दिशा परिमाणव्रत किया, तब तिस क्षेत्र से बाहिर के सर्व जीवों को अभयदान दिया, यह पहिले प्राणातिपातविरमण व्रत में गुण पुष्टि भई । तथा बाहिर के जीवों के साथ झूठ बोलना मिट गया. यह मृपावादविरमण व्रतको पुष्टि भई । तथा

बाहिर के क्षेत्र की वस्तु की चोरी का त्याग हुआ, यह तीसरे व्रत की पुष्टि भई । तथा बाहिर के क्षेत्र की स्त्रियों के साथ मथुन सेरने का त्याग हुआ, यह चौथे व्रत की पुष्टि भई । तथा नियम से बाहिर के क्षेत्र में क्रय विक्रय का निषेध भया, यह पाचमे व्रत की पुष्टि भई । इस वास्ते पांचों अणुव्रतों को यह तीनों व्रत गुणकारी हैं ।

तथा दिक्परिमाण व्रत—सो चारों दिशा, तथा चारों त्रिदिशा, तथा ऊर्ध्व अरु अधो, इन दश दिशाओं दिक्परिमाण का परिमाण करे । तिस के दो भेद हैं । एक व्रत व्यवहार—सो अपनी काया से दशों दिशा में जाने का, तथा मनुष्य भेजने का, तथा व्यापार करने का परिमाण करे, उस को व्यवहार दिक्परिमाण व्रत कहिये । दूसरा निश्चय—सो जो कुछ नरकादि गति में गमन है, सो सर्व कर्म का धर्म है । जिस के वश पड के यह जीव चारों गति में भटकता है, परानुयायी चेतना हो रही है, इसी वास्ते जीव परमावानुसारी गतिभ्रमण करता है । परन्तु जीव तो शुद्ध चेतन्य, अगतिस्वभाव, तथा निश्चल स्वभाव है । एसा श्री जिनवाणी के उपदेश से समझ कर चेतनाशुद्धस्वरूपानुयायी होवे । तब अपना अगति स्वभाव जान कर सर्व क्षेत्र में उन्मास रहे, समस्त क्षेत्र से अप्रतिग्रहक भाव से चर्त्ते, सो निश्चय मे दिक्परिमाण व्रत कहिये । इन दशों दिशा का जो परिमाण, तिस के दो भेद हैं ।

प्रथम जलमार्ग—सो जहाज़ नावों करके इतने योजन अमुक दिशा में अमुक बंदर तथा अमुक द्वीप तक जाऊं, जेकर पवन, तथा वर्षा के बश से और दूर किसी बंदर में वह जावे तो आगार, अर्थात् व्रतभंग न होवे ; अथवा अजानपने से—भूल चूक से किसी बंदर में चला जाऊं, उस का भी आगार है ।

दूसरा स्थल का मार्ग—सो जिस जिस दिशा में जितने जितने योजन तक जाने का परिमाण करा है, तहां तक जाने की जयणा । जेकर चोर, म्लेच्छ, पकड़ के नियम-क्षेत्र से बाहिर ले जावें, तिस का आगार है । तथा ऊर्ध्व दिशा में वारां कोस तक जाने की जयणा रक्खे, तथा अधोदिशा में आठ कोस तक जाने की जयणा । परन्तु जो ऊंचा चढ़ के फिर नीचा उतरे, वो अधोदिशा में नहीं । तथा जितने क्षेत्र का परिमाण करा है, तिस से बाहिर का कोई पिछाण वाले पुरुष का पत्र आवे, सो वाच कर उस का उत्तर लिखना पड़े, तिस का आगार है । परन्तु मैं अपनी तरफ से विना कारण पत्र प्रमुख नहीं लिखूंगा, तथा परदेश की विकथा सुनने का आगार । इस व्रत के भी पांच अतिचार है, सो कहते है ।

प्रथम ऊर्ध्वदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार—सो अनाभोग से अथवा वे सुरती—वे खवरी से अधिक चला जावे, तो प्रथम अतिचार ।

दूसरा अधोदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार—पूर्ववत् ।

तीसरा तिरछीदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार—ऊपर-

वत् । जेकर नियम भग के भय से गुमास्ता भेजे, तो भी अतिचार लगे ।

चौथा क्षेत्रवृद्धि अतिचार—एक दिशा में सौ योजन रखते हैं, अरु एक दिशा में पचास योजन रखते हैं । पीछे जब एक ही दिशा में डेढ़ सौ योजन जाना पड़े, तब दूसरी तरफ़ के पचास योजन भी उसी तरफ़ जोड़ लेते, और अज्ञान से ऐसा विचारे कि मेरे नियम के ही पचास योजन हैं, इस वास्ते मेरे व्रत का भग नहीं ।

पाचमा स्मृत्यतर्धान अतिचार—सो अपने नियम क योजन को भूल जाते, क्या जाने पूर्व दिशा के सौ योजन रखते हैं ? कि पचास योजन रखते हैं ? इत्यादि, ऐसे सहाय के हुए फिर पचास योजन से अधिक जावे, तो पाचमा अतिचार लग जावे ।

अथ सातमे भोगोपभोग व्रत का स्वरूप लिखते हैं । यह दूसरा गुणव्रत है । इस व्रत के अंगीकार भोगोपभोग व्रत करने से सचित्त वस्तु खाने का त्याग करे, अथवा परिमाण करे । तथा जिस में बहुत हिंसा होवे, ऐसा व्यापार न करे । तथा जिस काम में अवश्य हिंसा बहुत करनी पड़े, तिस का त्याग करे । अभक्ष्य त्यागे, अरु चौदह नियम भी इस व्रत में गिने जाते हैं । इस वास्ते यह व्रत पूवाक पाच ही अणुव्रतों को गुणकारी है । इस व्रत के दो भेद हैं, सो कहते हैं ।

प्रथम व्यवहार—सो भक्ष्याभक्ष्य का ज्ञान करके त्यागे, दूसरा आश्रव संवर का ज्ञान करके खान पानादिक जो इन्द्रिय सुख का कारण है, उस में अपनी शक्ति प्रमाण बहुत आरंभ को छोड़ के अल्पारंभी होना, सो व्यवहार भोगोपभोग-विरमण व्रत है ।

दूसरा निश्चय—सो श्रीजिनवाणी को सुन कर वस्तु तत्त्व के स्वरूप को जान कर विचारे, कि जगत् में जो पर वस्तु है, सो सर्व हेय है, इस वास्ते तत्त्ववेत्ता पुरुष परवस्तु को न खावे, न अपने पास रखे । तब शुद्ध चैतन्यभाव को धार कर परम शांतिरूप हो कर जो वस्तु सेड़े, पेड़े, गिरे, जाती रहे; तब परवस्तु जान कर ऐसा विचार करे, कि यह पुद्गल की पर्याय है, सर्व जगत् की जूठ है, ऐसी वस्तु का भोगोपभोग करना, सो तत्त्ववेत्ता को उचित नहीं । ऐसे ज्ञान से परभाव को त्यागे, स्वगुण की वृद्धि करे, ऐसा ज्ञान पा कर आत्मा को स्वस्वरूपानदी करे, चिद्विलास का अनुभवी होवे । सो निश्चय भोगोपभोगविरमण व्रत कहिये ।

अथ भोगोपभोग शब्द का अर्थ कहते हैं । जो आहार, पुष्प, विलेपनादि, एक वार भोगने में आवे, सो भोग कहिये । जो भुवन, वस्त्र, स्त्री आदि वार वार भोगने में आवे, सो उपभोग कहिये, तथा कर्माश्रय से इस व्रत के अनेक भेद हैं, सो आगे लिखेंगे ।

तथा श्रावक को उत्सर्ग मार्ग में तो निरवद्य आहार लेना लिखा है। जेकर शक्ति न होये, तत्र सचित्त वाइस अभक्ष्य का त्यागी होये, जेकर यह भी न कर सके, तो वाईस अभक्ष्य अरु वत्तीस अनतकाय, इन का तो जरूर त्याग करे, तिन में प्रथम वाईस अभक्ष्य धस्तु का नाम लिखते हैं —

१ वड़ के फल, २ पीपल के फल, ३ पिलखण के फल, ४ कठर के फल, ५ गूलर के फल, यह पाच तो फल अभक्ष्य हैं। क्योंकि इन पाचों फलों में बहुत सूक्ष्म कीड़े अस जीव भरे हुए होते हैं, जिनों की गिनती नहीं हो सकती है। इस वास्ते धर्मात्मा जीव, इन पाचों फलों को न खावे। जेकर दुर्मिच्छ में अन्न न मिले, तो भी विप्रेकी पूर्योक्त फल भक्षण न करे।

६ मदिरा, ७ मास, ८ मधु, ९ माखन, इन चारों में तद्वर्ण असरय जीव उत्पन्न होते हैं, अरु यह चारों विगय महाविगय हैं, सो महाविकार की करने वाली हैं। तिन में प्रथम मदिरा त्यागने योग्य है, क्योंकि मदिरा के पीने में जो दूषण है, सो श्री हेमचन्द्रसूरि रत योगशास्त्र के * दश श्लोकों के अर्थ से लिखते हैं।

१. मदिरा पीने से चतुर पुरुष की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जैसे दुर्भागि पुरुष को सुंदर स्त्री छोड़ जाती है, तैमे इस पुरुष को बुद्धि छोड़ जाती है।
- मदिरापान के दोष २. मदिरापायी पुरुष अपनी माता, बहिन, बेटा को अपनी भार्या की तरे समझ के जोराजोरी से विषय भी सेवन कर लेता है, अरु अपनी भार्या को अपनी माता समझता है, मदिरा पीने वाला ऐसा निर्लज्ज और महा पाप के करने वाला होता है। ३. मदिरापायी अपने अरु पर को भी नहीं जानता। ४. मदिरापायी अपने स्वामी को अपना किंकर जानता है, अरु अपने को स्वामी जनता है, एसी निर्लज्जबुद्धि वाला होता है। ५. मदिरा पीने वाले पुरुष को चौक में लेटा हुआ देखकर, मुरदा जान कर कुत्ते उस के मुंह में मूत जाते हैं। ६. मदिरा के रस में मग्न पुरुष चौक में नंगा-मादरजात, निर्लज्ज हो कर सो जाता है। ७. मदिरा पीने वाले ने जो गम्यागम्य, चोरी, यारी, खून प्रमुख कुकर्म करे है, वो सर्व लोगों के आगे प्रकाश कर देता है। ८. मदिरा पीने से शरीर का तेज, कीर्त्ति, यश, तात्कालिकी बुद्धि, यह सब नष्ट हो जाते हैं। ९. मदिरापायी भूत लगे की तरे नाचता है। १०. मदिरा पीने वाला कीचड़ और गंदकी में लोटता है। ११. मदिरा पीने से अंग शिथिल हो जाते हैं। १२. मदिरा पीने से इन्द्रियों की तेजी घट जाती है। १३. मदिरा पीने से बड़ी मूर्च्छा आ जाती है।

१४ मदिरा पीने वाले का विवेक नष्ट हो जाता है । १५ सयम नष्ट हो जाता है । १६ ज्ञान नष्ट हो जाता है । १७ सत्य नष्ट हो जाता है । १८ शौच नष्ट हो जाता है । १९ दया नष्ट हो जाती है । २० क्षमा नष्ट हो जाती है । जैसे अग्नि से तृण भस्म हो जाते हैं, तैसे पूर्वोक्त गुण भी उस का नष्ट हो जाते हैं । २१ मदिरा चोरी अरु परस्त्रीगमन आदिक का कारण है । क्योंकि मदिरा पीने वाला कौन सा कृकम नहीं कर सकता है ? २२ मदिरा आपदा तथा घघ, वधनादिकों का कारण है । २३ मदिरा के रस में बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते दया धर्मों को मदिरा न पीनी चाहिये । २४ मद्य पीने वाला दिये को अनदिया कहता है । २५ लिये को नहीं लिया कहता है । २६ करे को न करा कहता है । २७ मद्यपी घर में तथा बाहिर पराये धन को निभय हो कर लूट लेता है । २८ मदिरा के उन्माद से घालिका, यौवनपती, वृद्धा, ब्राह्मणी, चण्डालिनी प्रमुग स्त्रियों से भोग कर लेता है । २९ मद्यप अरराट शब्द करता है । ३० गीत गाता है । ३१ लोटता है । ३२ दौड़ता है । ३३ क्रोध करता है । ३४ रोता है । ३५ हसता है । ३६ स्तम्भित हो जाता है । ३७ नमस्कार करता है । ३८ भ्रमता है । ३९ खड़ा रहता है । ४० नट की तरह अनेक नाटक करता है । ४१ ऐसी वो कौनसी दुर्दशा है, जो मदिरा पीने वाले को नहीं होती है ? शास्त्रों में सुनते हैं, कि साम्य कुमार ने

मदिरा पी कर द्वैपायन ऋषि को सताया, तब द्वैपायन ने द्वारका को दग्ध किया । ४२. मदिरा पीना सर्व पापों का मूल है । ४३. मदिरा पीने वाला निश्चय नरक गति में जावेगा । ४४. मदिरा सर्व आपदा का स्थान है । ४५. मदिरा अकीर्ति का कारण है । ४६. मदिरा नीच म्लेच्छ लोक पीते हैं । ४७. गुणी जन जो है, सो मदिरा पीने वाले की निंदा करते हैं । ४८. मदिरा पट्टे में लग जाने से तत्काल मर जाता है । ४९. मदिरा पीने वाले के मुख से महा दुर्गन्ध आती है । ५०. मदिरा सर्व शास्त्रों में निन्दित है । ५१. मदिरा पीने वाला ईश्वर का भक्त नहीं । इत्यादि मदिरा पीने में अनेक दोष हैं, इस वास्ते श्रावक मदिरा न पीवे ।

सातमा अभक्ष्य मांस है । मांस भक्षण करने में जो दूषण है, सो लिखते है । जो पुरुष मांस मासभक्षण का खाने की इच्छा करता है, वो पुरुष, दया-निषेध धर्मरूपी वृत्त की जड़-फाटता है । क्योंकि जीव के मारे बिना मांस कदापि नहीं हो सकता है । जेकर कोई कहे कि हम मांस भी खा लेवेगे, अरु प्राणियों की दया भी करेंगे । ऐसे कहने वाले को हम उत्तर देते हैं, कि सर्वदा जो मांस के खाने वाले हैं, अरु अपने मन में दयाधर्मी बनना चाहते हैं, वो पुरुष अग्नि में कमल लगाना चाहते हैं । क्योंकि जब उन्हींने मांस खाया, तब प्राणियों की दया उन के मन में कदापि नहीं हो सकती है । जैसे अब

का खाने वाला बाघरुल वेगता है, तब उस की मन्त्रा
 वर खाने ही को दौड़ती है, तैसे मासाहारी किसी गौ,
 भेड, प्रकरी, प्रमुष को देखता है, तब उन जीवों का मांस
 खाने की तर्फ उस की सुरती दौड़ती है, ऐसे पुदप को
 दया धर्म, क्योंकर समवे ? जेकर कोई कहे कि जीव के
 मारने वाला तो सौकरिक अर्थात् कसाई है, तिस के पासों
 घना प्रनाया मास लाकर खाने, तो क्या दोष है ? ऐसे मूढ़
 मति को उत्तर देते हैं, कि जो मास खाने वाला है, वो भी
 जीव का हिंसक है, क्योंकि भगवत ने शास्त्रों में सात जनों
 को घातक—हिंसक अर्थात् कसाई ही कहा है । उन के नाम
 कहते हैं—एक जीव के मारने वाला, दूसरा मास घेचने
 वाला तीसरा मास राधने वाला, चौथा मास भक्षण करने
 वाला, पाचमा मास खरीदने वाला, छठा मास की अनु-
 मोदना करने वाला, सातमा पितरों को, देवताओं को,
 अतिथियों को मास देने वाला । यह सात साक्षात् और पर-
 परा करके घातक अर्थात् जीव घथ के करने वाले हैं ।
 मनुजी भी मनुस्मृति में कहते हैं ।

अनुमता विशसिता, निहता त्रयविक्रयी ।

सस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकथेति घातका ॥

[अ० ५ श्लो० ५१]

अर्थ — १ अनुमोदक—अनुमोदन करने वाला, २ विष

सिता—मारे हुए जीव के अंग का विभाग करने वाला, ३. निहंता—मारने वाला, ४. मांस का बेचने वाला, ५. मांस को रांधने वाला, ६. मांस को परोसने वाला, ७. मांस को खाने वाला, यह सातों घातकी हैं, अर्थात् जीव के वध करने वाले हैं। दूसरा श्लोक भी मनुस्मृति का लिखते हैं.—

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां, मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

नच प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥

[अ० ५० श्लो० ४८]

अर्थः—जितना चिर जीव को न मारे, तहां तक मांस नहीं होता है, अरु जीव वध से स्वर्ग नहीं अपितु नरक गति होती है; इस वास्ते मांस खाना वर्ज्य ।

अब मांस खाने वाले को ही वधकपना है, यह बात कहते हैं। दूसरे जीवों का मांस जो अपने मांस की पुष्टता के वास्ते खाते हैं, वास्तव में वे ही कसाई हैं। क्योंकि जेकर खाने वाले न होवें, तो कोई जीव को भी काहे को मारे? जो प्राणियों को मार करके अपने को सप्राण करते हैं, वे जीव थोड़ी सी जिंदगी के वास्ते अपना नाश करते हैं। एक अपने जीवन के वास्ते कौड़ों जीवों को जो दुःख देता है, तो वो क्या सदा काल जीता रहेगा? जिस शरीर में सुन्दर मिष्टान्न विष्टा हो जाता है, अरु दूध प्रमुख अमृत वस्तुएं मूत्र हो जाती हैं, तिस शरीर के वास्ते कौन बुद्धिमान्

जीववध अथ मास भक्षण करे ।

जो कोई महामूढ़, निविनेकी यह लिख गये हैं, कि मास भक्षण करने में दूषण नहीं, वे भी म्लेच्छ थे, क्योंकि वे लिखते हैं—

न मासभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूताना, निवृत्तिस्तु महाफला ॥

[मनु० अ० १ श्लो० ५६]

इस श्लोक के कहने वालों ने व्याध, गुध, मेडिये, श्वान-
बुत्ते, व्याघ्र, गीदड़, काग प्रमुख हिंसक जीवों को अपना
धमगुरु माना है, क्योंकि जेकर ये पूर्वोक्त गुरु न होते तो
इन को मास गाना कौन सिगाता ? जिना गुरु के उपदेश
के पूज्यजन उपदेश नहीं देते हैं। इस श्लोक के धनाने वालों
की अमानता देखिये, वे कहते हैं, कि मास गाने में, मदिरा
पीने में अथ मैथुन मद्ये में पाप नहीं, परंतु 'निवृत्तिस्तु
महाफला—इन में जो निवृत्ति करे, तो महाफल है।
यह स्वयंचन विरोध है, क्योंकि जिम के करने में पाप
नहीं, उस क त्यागने में धर्मफल कदापि नहीं हो
सकता है ।

अथ निराकृति के धल से भी मास त्यागने योग्य है । सो
कहते हैं—

*मांसं भक्षयितामुत्र, यस्य मांसमिहाद्मर्षहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वे, निरुक्तं मनुरब्रवीत् ॥

[यो० श० प्र० ३ श्लो० २६]

अर्थ:—जिस का मांस मैं खाता हूँ, वो जीव मुझ को परभव में भक्षण करेगा, इस निरुक्त से * मनु जी मांस का अर्थ कहते हैं। मांसभक्षण वाले को महापाप लगता है। जो पुरुष मांस भक्षण में लंपट है, वो पुरुष जिस जिस जीव को—जलचर मत्स्यादि को, स्थलचर—मृग, सूअर प्रमुख को, खेचर—तित्तर, लाव, बटेरे प्रमुख को देखता है, तिस तिस को मार के खाने की बुद्धि करता है। डाकन की तरफ सर्व को खाया चाहता है। मांस खाने वाला उत्तम पदार्थों का परिहार करके नीच पदार्थ के लेने में उद्यत होता है। जैसे काग पंचामृत छोड़ कर विष्टे में चोंच देता है, उसी तरे जान लेना। इसी का नाम निर्विवेकता है।

ये भक्षयन्ति पिशितं, दिव्यभोज्येषु सत्स्वपि ।

सुधारसं परित्यज्य, भुंजते ते हलाहलम् ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० २८]

* मनु० अ० ५ श्लो० ५५ में नीचे का आधा भाग इस प्रकार है—

एतन्मामस्य मासत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

अर्थ —सकल धातुओं की वृद्धि करने वाला दिव्य भोजन विद्यमान हुए अर्थात् सब इन्द्रियों के आह्लादजनक दूध, क्षीर किलाट, कृर्चिका, रसाल, दधि आदिक, मोदक, मदक मडिका ग्राजे, पापड़ घेउर, इडरिका, खडबडे, पूरणवडे गुड़पापडी इशुरस, गुड़, मिसरी, द्राक्षा, अम, केले, अनार, नारियल, नारंगी, सतरे, खजूर अक्षोट, राजादनाखिरणी, फनस, अलूचे ग़ादाम, पिस्ता, इत्यादि अनेक दिव्यभोजनों को छोड़ के मूढमति विस्मगधि, मूगवाला, घमन का करने वाला, ऐसे बीभत्स मास का भक्षण करता है, वो जीव जीवितव्य की वृद्धि के वास्ते अमृत रस को छोड़ कर जीवितानकारी हलाहल-त्रिप को भक्षण करता है । गालक जो होता है, वो भी पत्थर को छोड़ कर सुवर्ण को ग्रहण करता है । परन्तु जो मासाहारी पुरुष है, वो तो मास से भी अधिक पुष्टता को देने वाला जो दिव्य भोजन, तिस को छोड़ कर मास खाता है, वो तो बालक से भी अज्ञानी है ।

। अथ और तरे से मासभक्षण में दूषण लिखते हैं । जो निदय पुरुष है, उस में धर्म नहीं, क्योंकि धर्म का मूल दया है । ये बात सर्व सत्र-जन मानते हैं । अथ मासाहारी को दया तो है नहीं, मास खाने वाले को पूर्व में फसाई कहा है, इस वास्ते मासाहारी में धर्म नहीं ।

प्रश्न —मासाहारी अपने आप को अधर्मी क्यों बनाता है ?

उत्तरः—मांस के स्वाद में लुब्ध हुआ वो धर्म दया कुछ नहीं जनता है, जेकर कडाचित्त जान भी जाता है. तो भी आप मांसलुब्ध है, इस से मांस का त्याग करने को समर्थ नहीं। इस वास्ते वो मन में विचार करता है, कि मेरे समान ही सर्व हो जावें, ऐसा जान कर औरों को भी मांसभक्षण न करने का उपदेश नहीं करता है।

अब मांस भक्षण करने वाले महामूढ हैं, यह बात कहते हैं। कितनेक मूढमति आप तो मांस नहीं खाते हैं, परन्तु देवता, पितर, अतिथि, इन को मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि उन के शास्त्रकार कहते हैं:—

क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य, *परोपहतमेव वा ।

देवान् पितृन् समभ्यर्च्य, खादन् मांसं न दुष्यति ॥

[यो० शा०. प्र० ३ श्लो० ३१]

यह श्लोक मृग पक्षियों के विषय में है, इस का अर्थ यह है। कसाई की दुकान बिना व्याध, शकुनिकादिकों से अर्थात् शिकारी और जानवरों के मारने वालों से मांस मोल से लेकर देवता, अतिथि, पितरों को देना चाहिये। क्योंकि वे लिखते हैं, कि कसाई की दुकान के मांस से देवता, पितरों की पूजा नहीं होती है, तांते आप मांस उत्पन्न करके

३- मनुस्मृति अ० ५ श्लो० ३२ में "परोपकृतमेव वा" ऐसा पाठ है।

पितृ आदिकों को देवे, तो पितृ आदि प्रसन्न होते हैं। सो इस प्रकार से मास उत्पन्न करे, कि ब्राह्मण तो माग कर मास लावे, और क्षत्रिय शिकार मारके मास लावे, अथवा किसी-ने मास भेट करा होवे, उस मास से देवता पितरों की पूजा करके मास पावे, तो दूषण नहीं। पर तु यह सर्व महामूढ और मिथ्यादृष्टियों का कहना है। क्योंकि दयाधर्मी आस्ति कमत वालों को तो मास दृष्टि से भी देयना योग्य नहीं। तो फिर देवता पितरों की पूजा मास से करनी, यह भावना तो धर्मी को स्वप्ने में भी न होयेगी। इस वास्ते देवताओं की मास चढ़ाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं। कारण कि देवता तो बड़े पुण्यवान् हैं, फल का आहार करते नहीं हैं, तो फिर जुगुप्सनीय मास क्योंकर पावेंगे? जो कहते हैं कि देवता मास पाते हैं, वे महा अज्ञानी हैं। अरु पितर जो हैं, वे तो अपने अपने पुण्य पाप के प्रभाव से अच्छी बुरी गति को प्राप्त हो गये हैं, अपने-करे हुए कर्मों का फल भोगते हैं, पुत्र के करे हुए कर्म का उन-को कुछ भी फल नहीं लगता है। तब मास देने रूप पाप का तो क्या कहना है! पुत्रादिकों का सुरुत करा हुआ भी तिन को नहीं मिलता है, क्योंकि अन्न के सींचने से केले में फल नहीं फलता है। अरु अतिथि की भक्ति के वास्ते जो मास देना है, सो तो नरकपात का हेतु। अरु महा अधर्म का कारण है। यहा कोई ऐसे कहे कि जो यात श्रुति स्मृति में है, वो

माननी चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जो बात श्रुति में अप्रमाणिक लिखी है, वो बुद्धिमान् कदापि नहीं मानेंगे। तथाहि:—

*“श्रयन्ते हि श्रुतिवचांसि—यथा पापघ्नो गोस्पर्शः,
द्रुमाणां च पूजा, छागादीनां वधः स्वर्ग्यः, ब्राह्मण-
भोजनं पितृप्रीणनं, मायावोन्यधिदैवतानि, वह्नौ हुतं
देवप्रीतिप्रदम्” ।

ऐसा कथन जो श्रुतियों में है, तिस को युक्ति कुशल पुरुष कदापि नहीं मानेंगे। तिस वास्ते यही महा अज्ञान है, जो कि मांस करके देवताओं की पूजा करनी। कितनेक कहते हैं, कि जैसे मन्त्रों करके संस्कृत अग्नि दाह नहीं करती है, तैसे ही मन्त्रों करके संस्कार करा हुआ मांस भी दोष के वास्ते नहीं होता है, यह कथन मनुजी का है। यथा—

असंस्कृतान् पशून्मंत्रैर्नाद्याद्विप्रः कथंचन ।

मंत्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥१॥

[अ० ५ श्लो०-३६]

अर्थः—मन्त्रों करके असंस्कृत पशुओं के मांस को वैदिक

* यो० शा०, प्र० ३ श्लो०-३१ के स्वोपज्ञ विवरण का पाठ ।

प्रिधि,में स्थित हुआ ब्राह्मण न खावे, अरु जो मंत्रों करके
संस्कृत पशु है तिन का मास खावे ।

परन्तु यह कथन ठीक नहीं है । मंत्र करके जो मास पवित्र
किया है, उस मास को धर्मा पुरुष कदापि भक्षण न करे,
क्योंकि मंत्र जैसे अग्नि की दाह शक्ति को रोकते हैं, तैसे मास
की नरकादि प्रापण शक्ति को दूर नहीं कर सकते । जेकर दूर
कर दें, तब तो सर्व पाप करके, पीछे पाप हुनने वाले मंत्र
के स्मरण मात्र से ही सर्व पाप दूर हो जाने चाहियें । तो
फिर जो वेदों में पाप का निषेध करा है, सो सर्व निरर्थक
हो जावेगा क्योंकि सर्व पापों का मंत्र के स्मरण से ही
नाश हो जायगा । इस गाम्ने यह भी अर्थ ही का कहना है ।

तथा कोई कहते हैं, कि जैसे थोडा सा मद्य पीने से नशा
नहीं चढ़ता है, तेमे थोडा सा मास खाने में भी पाप नहीं
लगता है । यह भी ठीक नहीं । अत बुद्धिमान् यवमात्र भी
मास न खावे, क्योंकि थोडा भी विष,जैसे दुग्धदायी होता
है, तैसे थोडा भी मास खाना दोष के तादृ है ।

अथ मास खाने में अनुत्तर दूषण कहते हैं । तत्काल ही
इस मास में समूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं, अरु अनंत
निगोद रूप जीवों का सतान—वारवार होना, तिस करके
दूषित है । यदाहु —

*आमासु अ पक्कासु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ।

सययं चिय उववाओ, भणिओ उनिगोयजीवाणं ॥

[संवो० स० गा० ६६]

अर्थः—कच्ची तथा अपक्व ऐसी जो मांस की पेशी-घोटी रंधती है, तिस में निरन्तर निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं । इस वास्ते मांस का खाना जो है, सो नरक में जाने वालों को पूरी खरची है, इस लिये बुद्धिमान् पुरुष मांस कदापि न खावे ।

अथ जिन्होंने यह मांस खाना कथन करा है, तिन के नाम लिखते हैं—१. मांस खाने के लोभियों ने, २. मर्यादा रहितों ने, ३. नास्तिकों ने, ४. थोड़ी बुद्धि वालों ने, ५. छोटे शास्त्रों के बनाने वालों ने, ६. वैरियों ने मांस खाना कहा है । तथा मांसाहारी से अधिक कोई निर्दयी नहीं । तथा मांसाहारी से अधिक कोई नरक की अग्नि का इन्धन नहीं । गन्दगी खा कर जो सूअर अपने शरीर को पुष्ट करता है, सो अच्छा है; परन्तु जीव को मार के जो निर्दयी हो कर मांस खाता है, सो अच्छा नहीं है ।

प्रश्नः—सर्व जीवों का मांस खाना तो सर्व कुशास्त्रों में लिख दिया है, परन्तु मनुष्य का मांस खाना तो कहीं

* छायाः—आमासु च पक्कासु च विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सततमेव उपपातो भणितस्तु निगोदजीवानाम् ॥

किसी शास्त्र में नहीं लिखा है; इस का क्या हेतु होगा ?

उत्तर — अपने मांस की रक्षा के वास्ते मनुष्य का मांस खाना नहीं लिया। क्योंकि वे कुशास्त्रों के बनाने वाले जानते थे, कि यदि मनुष्य का मांस खाया लिखेंगे, तो मनुष्य कभी हम को ही न खा लेंगे। इस शका से नहीं लिया। अतः जो व्यक्ति पुरुषमांस में अथ पशुमांस में विशेष नहीं मानता है, तिस के समान कोई धर्मों नहीं। अथ तिन में जो भेद मान के मांस खाते हैं, इन के समान कोई पापी भी नहीं। तथा मांस जो है, तिस की रक्षिर से उत्पत्ति होती है, अथ विष्टे के रस से वृद्धि होती है, तथा यह जिस में भरा रहता है, अथ कृमि जिस में उत्पन्न होते हैं, ऐसे मांस को कौन बुद्धिमान् खा सकता है ? आश्चर्य तो यह है, कि ब्राह्मण लोक शुचिमूलक तो धर्म कहते हैं, अथ सप्त धातु से जो मांस, हाड़ बनते हैं, तिस मांस हाड़ को मुष म दातों से चगाते हैं। अथ उन को कुत्तों के समान समझें कि शुचि धर्म वाले मानें ? जिन दुष्टों की ऐसी समझ है, कि अन्न और मांस यह दोनों एक सरीरे हैं, तिन की बुद्धि में जीवन अथ मृत्यु के देन वाले अमृत और विष भी तुल्य ही हैं।

अथ जो जड़ बुद्धि ऐसा अनुमान करते हैं, कि मांस खाने योग्य है, प्राणी का अंग होने से, ओदनादियत् । इस दृष्टांत से यह मांस भी प्राणी का अंग है, इस याम्ने मांस भी

खाने योग्य है। तब तो गौ का मूत तथा माता, पिता, भार्या, बेटा, इन का मूत पुरिष भी क्यों नहीं पीते खाते हैं? क्योंकि यह भी प्राणी के अंग हैं। तथा अपनी भार्या की तरफ अपनी माता, बहिन, बेटा को क्यों नहीं गमन करते हैं? स्त्रीत्व अरु प्राणी का अंगत्व सर्व जगह बराबर है। तथा जैसे गौ का दूध पीते हैं, तैसे गौ का रुधिर तथा माता पितादिकों का रुधिर भी क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि 'प्राणी का अंग'—हेतु तो सर्व जगह तुल्य है। इस वास्ते जो अन्न और मांस इन दोनों को तुल्य जानते हैं, वे भी महा पापियों के सरदार हैं।

तथा शंख को शुचि मानते हैं, परन्तु पशु के हाड़ को कोई शुचि नहीं मानता; इस वास्ते अन्न और मांस यद्यपि प्राणी के अंग है, तो भी अन्न भक्ष्य है, अरु मांस अभक्ष्य है। एक पंचेन्द्रिय जीव का वध करके जो मांस खाता है, जैसी तिस को नरक गति होती है, तैसी खोटी गति अन्न खाने वाले को नहीं होती है। क्योंकि अन्न मांस नहीं 'हो' सकता है, मांस की तसीरों से अन्न की तसीरें और तरें की हैं। जैसा मांस महाविकार का करने वाला है, तैसा अन्न नहीं। इत्यादि कारणों से विलक्षण स्वभाव है। इस वास्ते मांस खाने वालों की नरकगति को जान कर संत पुरुष अन्न के भोजन से रुचि मानते हैं, सरस पद को प्राप्त होते हैं। ये मांस के दूषण श्रीहेमचंद्र सूरिकृत योग शास्त्र के अनुसार लिखे हैं। तथा इस काल में भी युरोपियन लोग जो बुद्धि-

मान् हैं। उनों ने भी मास खाने में चौबीस दूयज प्रगट करे हैं। अरु मदिरा पीने से जो खराबिया होरी हैं, तिन की तो गिनती भी नहीं है। इस वास्ते मदिरा अरु मास इन दोनों प्रकार के अभक्ष्य को श्रायक त्यागे।

८ मापन अभक्ष्य है क्योंकि जैन मत के शास्त्रानुसार छाछ से बाहिर फाट्टे मापन को जय अतर भक्षण खाने का निषेध मुहूर्त्त अर्थात् दो घड़ी के लगभग काल व्यतीत हो जाता है, तब उस मापन में सूदम जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इस वास्ते मापन खाना वर्जित है। जैन लोगों को छाछ से बाहिर मापन निकाल के तत्काल अग्नि के संयोग से घी बना के, छान के, देल के, पीड़े से खाना चाहिये। क्योंकि एक तो इस रीति से शास्त्रोक्त जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, तिन की हिंसा भी नहीं होती है अरु मकड़ी, कसारी, मच्छरादि जानवरों के अग्रयण-टाग प्रमुख भी घी छानने से निकल जाते हैं। अरु मापन काम की भी घृद्धि करता है, तब मन में गीटे विकल्प उत्पन्न होते हैं; इस वास्ते भी श्रायक को मापन न खाना चाहिये। तथा एक जीव के घब करने से भी जय पाप होता है, तब तो पूर्वोक्त रीति से मापन तो जीवों का ही पिंड हो जाता है, तब मापन के खाने में पाप की क्या गिनती है।

प्रश्न—मापन में तो दो घड़ी पीड़े कोई भी जीव उत्पन्न हुआ हम नहीं देखते हैं, तो फिर मापन में दो घड़ी

पीछे हम क्योंकर जीव मान लें ?

उत्तर:—जो जैनमत के शास्त्रों को सत्य मानेगा, वो तो शास्त्रकारों के कथन को सत्य ही मानेगा, अरु जो जैन के शास्त्रों को सत्य नहीं मानता; वो चाहे सत्य माने, चाहे न माने। परन्तु हम आगम प्रमाण के बिना इस बात में और प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वस्तु दो तरफ की होती है—एक हेतुगम्य, दूसरी आगमगम्य। तो माखन, द्विदलादि में जो जीव उत्पन्न होते हैं, वे हेतुगम्य नहीं, किंतु आगम गम्य हैं। इस वास्ते जो आगम सर्वज्ञ, जिन, अर्हत वीतराग का कहा हुआ है, उसी का कहा मानना चाहिये। जेकर कोई पुरुष किसी भी शास्त्र को न माने, किन्तु आंखों से देखी वस्तु ही माने; तब तो नरक स्वर्गादि जो अदृष्ट है, उन को भी न मानना चाहिये। तथा परमेश्वर चौद्वें तथा सातवे आसमान पर रहता है, तथा पुण्य पाप करने से जीव स्वर्ग और नरक में जाता है; यह भी न मानना पड़ेगा। इस वास्ते आगम प्रमाण भी मानना चाहिये; क्योंकि सर्व वस्तु हमारी दृष्टि में नहीं आती है।

६. मधु अर्थात्-सहत अभक्ष्य है। सहत जो है, सो अनेक जीवों-का घात होने से उत्पन्न होता है, यह तो परलोक विरोध दोष है। अरु मधुभक्षण का निषेध मधु जुगुप्सनीय—निंदने योग्य है। मुख की लालवत् यह इहलोक विरुद्ध दोष है। इस

वास्ते थायक वर्मा को-मधु न गाना चोद्दिश्ये (अथ मधु
पाने वाले में पापीपत्नी दिखाते हैं । यथा —

मक्षयन् माभिक क्षुद्र, जतुनक्षयप्रोद्भवम् ।
स्तोत्रजतुनिहतृभ्यः, शौनिकैभ्योऽतिरिच्यते ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ३७]

अर्थ — लार्वा सुद्र जन्तु—छोटे जीवों अथवा हाड रहित
जीवों, उपलक्षण से बहुत जीवों का जय विनाश होता है, तब
मधु उत्पन्न होता है । जब मधु भक्षण करना है, तब थोड़े पशु
मारने वाले कर्माई से भी उस को अधिक पाप लगता है ।
क्योंकि जो भक्षक है, सो भी घातक है, यह बात ऊपर
लिख भाये हैं । तथा लोक में यह व्यवहार है, कि जूठा
भोजन नहीं गाना । परन्तु यह जो मधु है, सो तो महा
जूठ है । क्योंकि एक एक फूल से रस—मकरन्द पी करके
मक्खियाँ जो घमन करती हैं, सो मधु है । इस घामने धर्मो
पुरुष को जूठ न गानी चाहिये । यह लौकिक व्यवहार
में प्रसिद्ध है ।

यदि कोई कह कि मधु तो त्रिदोष का दूर करने वाला
है, इस लिये रोग दूर करने के घामने औषधि में भक्षण करे
तो क्या दोष है ? इस के उत्तर में कहत हैं —

जिनतः कादशं
 त्रयं त्रयं मानं ॥
 मधुः पवित्रं कृतं जग्धं, मधुः अन्ननिवन्धनम् ।

भाक्षिकः प्राणनाशकः; कालकृत् अपि हि ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ३६]

अर्थ—जो कोई सस्त्री लम्पटता से मधु खावे, उस की शक्त तो दूर रही, परन्तु जो औषधि के वास्ते भी मधु खावे, सो यद्यपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरक का कारण है। क्योंकि प्रमाद के उदय से, जीवन का अर्थी हो कर जो कोई कालकृत् विष का एक कण भी खायगा, सो ज़रूर प्राण नाश के वास्ते होवेगा।

प्रश्न—मधु तो खजूर द्राक्षादि रस की तरे मीठा है, सर्व इन्द्रियों को सुखकारी है, तो फिर इस को त्यागने योग्य क्यों कहते हो ?

उत्तरः—सत्य है ! मधु मीठा है, यह व्यवहार से है, परन्तु परमार्थ से तो नरक की वेदना का हेतु होने से अत्यन्त कड़ुआ है—

अव जो मंद बुद्धि जीव, मधु को पवित्र मान कर उस को देवस्नान में उपयोगी समझते हैं, तिन का उपहास्य शास्त्रकार करते हैंः—

मक्षिकामुखनिष्ठचूतं, जंतुघातोद्भवं मधु ।

अहो पवित्रं मन्वाना देवस्नाने प्रयुञ्जते ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ४१]

अथ — मस्तिष्कियों के मुख की जूठ, अथ जीनघात से अथात् हजारों बच्चों अथ अण्डों के मारने से उत्पन्न होता है, यो घबे, अडे जय मरते हैं, तय तिन के शरीर का छह पानी भी मधु के घीच मिल जाते हैं । तय तो मधु महा अशुचिरूप है । अहो यह शब्द उपहास्यार्थ में है । क्योंकि जैसे ये देवता हैं तैसी तिन को पवित्र वस्तु चढ़ायी जाती है, यह उपहास्य है । 'अहो शब्द उपहासे यथा —

करभागा विवाहे तु, रासभास्त्र गायना ।

परस्पर प्रशमति, अहो रूपमहोध्वनि ॥

१० पानी की बनी हुई बरफ अमक्ष्य है, क्योंकि यह असत्य अप्काय जीवों का पिंड है । इस के खाने से चेतना भद् होती है, अरु तत्काल सरदी करती है, कुछ बल वृद्धि भी नहीं करती है, अरु यनिराग अर्हत सयज्ञ परमेश्वर ने इस का निषेध करा है, इस यास्ने यह अमक्ष्य है ।

११ अफीम प्रमुग विष वस्तु के खाने से पेट में वृमि गडोलादिक जीव होने हैं, सो मर जाते हैं । विष खाने से चेतना मुरझा जाती है । अरु जेकर खाने का दय पड़ जाता है, तो फिर दृष्टाग मुदिकल होता है । यत् पर अमल न मिले तो ब्रौध उत्पन्न होना है । शरीर क्षिथिल हो जाता है । अरु जो अमरती हो जाता है, उस को मन नियम अगी

विलग्नश्च गले बालः, स्वरभंगाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषाः, सर्वेषां निशिभोजने ॥

[प्र० ३ श्लो० ५०—५२]

अर्थः—कीड़ी अन्नादि में खाई जावे, तो बुद्धि को मंद करती है, तथा यूका—जूं खाने से जलोद्भर करती है; मक्षी वमन करती है, मकड़ी कुष्ठ रोग करती है; अरु बेरी प्रमुख का कांटा तथा काष्ठ का टुकड़ा गले में पीड़ा करता है; तथा बटेरे आदि के व्यंजन में जेकर विच्छु खाया जावे तो तालु को वीधता है, इत्यादि रात्रि भोजन करने में दृष्ट दोष—सर्व लोगों के देखने में आते हैं । तथा रात्रि भोजन करने पर अवश्य पाक अर्थात् रसोई रात्रि को करनी पड़ेगी । तिस में अवश्य षट्काय के जीवों का वध होवेगा । भाजन धोने से जलगत जीवों का विनाश होता है । जल गेरने से भूमि में कुंथु, कीड़ा प्रमुख जीवों का घात होता है । इस वास्ते जिस को जीव रक्षण की आकांक्षा होवे, वो रात्रि भोजन न करे ।

जहां अन्न भी रांधना न पड़े, भाजन भी धोने न पड़ें ऐसे जो वने वनाये लडू, खजूर, द्राक्षादि भक्ष्य हैं; तिन के खाने में क्या दोष है ? सो कहते हैं—

नाप्रेक्ष्यसूक्ष्मजंतूनि, निश्यद्यात्प्राशुकान्यपि ।

अप्युद्यत्केवलज्ञानैर्नादृतं यन्निशाशनम् ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ५३]

अर्थ — मोदकादि, फलादि, यद्यपि प्राशुक जथात् अचेतन भी हैं, तो भी रात को न खाने चाहियें क्योंकि सूक्ष्म जीव—
कुश्यादि वेग्ये नहीं जाते हैं। केरली भी जिन को सदा सर्व
बुद्ध दीयता है, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। केरली सूक्ष्म
जीवों की रक्षा के वास्ते अरु अशुद्ध व्यवहार को दूर करने
के वास्ते रात्रि को नहीं खाते हैं। यद्यपि दीये के चादने से
कीड़ी प्रमुख दीख जाती हैं, तो भी मूलगुण की विराधना
को टालने के वास्ते रात्रिभोजन अनाचीण है।

अब लौकिक मतवालों की सम्मति देखकर रात्रिभोजन
का निषेध करते हैं —

धर्मविनैव भुजीत, कदाचन दिनात्यये ।

वाह्या अपि निशाभोज्य, यदभोज्य प्रचक्षते ॥

[यो० शा० प्र० ३ श्लो० ५४]

अर्थ — थुन धर्म का जानने वाला कदाचित् रात्रिभोजन
न करे, क्योंकि जो जिन शासन से यादिर के मत वाले हैं, वे
भी रात्रिभोजन को अभक्ष्य कहते हैं —

त्रयीतेजोमयो भानुरिति वेदविदो विदुः ।

तत्करैः पूतमखिलं, शुभं कर्म समाचरेत् ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ५५]

अर्थ — अग्नि, यज्ञ, साम लक्षण तीनों वेद, तिन का तेज

जिस में है सो सूर्य है, 'त्रयीतनु' ऐसा सूर्य का नाम है । ऐसा ब्रह्मों के जानने वाले जानते हैं । तिस सूर्य की किरणों करके पूत-पवित्र संपूर्ण शुभ कर्म अंगीकार करे । जब सूर्योदय न होवे, तब शुभ कर्म न करे । तिन शुभ कर्मों का नाम लिखते हैं:—

नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवतार्चनम् ।

दानं वा विहितं रात्रौ, भोजनं तु विशेषतः ॥

[यो० शा० प्र० ३ श्लो० ५६]

अर्थ:—आहुति—अग्नि में घृतादि प्रक्षेप करना, स्नान—अंग प्रत्यंग का प्रक्षाल करना, श्राद्ध—पितृकर्म, देवपूजा, दान देना और भोजन तो विशेष करके रात्रि में न करना । तथा परमत के यह भी दो श्लोक हैं:—

देवैस्तु भुक्तं पूर्वाह्ने, मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा ।

अपराह्णे तु पितृभिः सायाह्ने दैत्यदानवैः ॥१॥

संध्यायां यक्षरक्षोभिः, सदा भुक्तं कुलोद्ब्रह् ! ।

सर्ववेलां व्यक्तिक्रम्य, रात्रौ भुक्तमभोजनम् ॥२॥

[यो० शा० प्र० ५८, ५९]

अर्थ:—सबरे तो देवता भोजन करते हैं, मध्याह्न अर्थात् दोपहर दिन चढ़े ऋषि भोजन करते हैं, अपराह्न अर्थात्

दिन के पिछने भाग में पितर भोजन करते हैं, अथ सायान्ह-
त्रिकाळ वेग में दै प दातर भोजन करते हैं, सध्या में-रात
दिन की सवि में यक्ष, गुह्यरु, राक्षस ग्याते हैं । “कुलोद्वहेति
युधिष्ठिरस्यामत्रगम्”-हे युधिष्ठिर ! सर्ग देवतादि क वक्त का
उल्लघन करके रात्रि को जो खाना है, सो अभक्ष्य है ।
यह इन पुराणों के श्रुतियों कऱके रात्रिभोजन के निषेध
का सयाद कहा ।

अथ वैद्यक शास्त्र का भी रात्रिभोजन के निषेध का
सयाद कहते हैं —

हन्नाभिपद्मसकोचश्चडरोचिरपायतः ।

अतो नक्त न भोक्तव्य, सूक्ष्मजीवाटनाटपि ॥

[यो० शा०, ३ श्लो० ६०]

अर्थ — इस शरीर में दो पद्म अर्थात् कमल हैं । एक तो
हृदय पद्म, सो अधोमुख है, दूसरा नाभिपद्म, सो उर्ध्वमुख
है । इन दोनों कमलों का रात्रि में सकोच हो जाता है ।
किस कारण से सकोच हो जाता है ? सूय के अस्त हो
जाने से सकोच हो जाता है । इस वास्ते रात्रि को न खाना
चाहिये । तथा रात्रि को सूक्ष्म जीव ग्याये जाते हैं, इन से
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । यह परपक्ष का सयाद कहा । अथ
फिर स्यमत से रात्रिभोजन का निषेध कहते हैं —

संसजज्जीवसंघातं, भुंजाना निशिभोजनम् ।

राक्षसेभ्या विशिष्यंते, मूढात्मानः कथं न ते ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ६१]

अर्थः—जब रात्रि में खाता है, तब जीवों का समूह भोजन में पड़ जाता है । ऐसे अंधरूप, रात्रि के भोजन के खाने वालों को राक्षसों से भी क्योंकर विशेष नहीं कहना ? जब पुरुष जिनधर्म से रहित हो कर विरति नहीं करता है, तब शृंग पुच्छ से रहित पशु रूप ही है । यदुक्तं—

वासरे च रजन्यां च, यः खादन्नेव तिष्ठति ।

शृंगपुच्छपरिभ्रष्टः स्पष्टं स पशुरेव हि ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ६२]

अब रात्रिभोजन निवृत्ति के वास्ते पुण्यवंतो को अभ्यास विशेष दिखाते हैं ।

अन्हो मुखेऽवसाने च, यो द्वे द्वे घटिके त्यजन् ।

निशाभोजनदोषज्ञौऽश्नात्यसौ पुण्यभाजनम् ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ६३]

अर्थः—दिन उदय में अरु अस्त समय मे दो दो घड़ी वर्जनी चाहिये, क्योंकि रात्रि निकट होती है । इसी वास्ते आगम में—सर्व जघन्य प्रत्याख्यान मुहूर्त्त प्रमाण

नमस्कार सहित कहा है । रात्रिभोजन के दूषणों का जानकार श्रावक दो घड़ी जग शेष दिन रहे, तत्र भोजन करे । जेकर दो घड़ी में थोड़ा दिन रहे भोजन करे, तो रात्रि भोजन के प्रत्याख्यान का उस को फल नहा होता है । जेकर कोई रात्रि को न भी गावे, परतु जो उसने रात्रिभोजन का प्रत्याख्यान नहीं करा, तो उस को भी कुछ फल नहीं मिलता है । क्योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं करी है । जैसे कि कोई पुरप रुपये जमा करावे अरु व्याज का करार न करे । उस को व्याज नहीं मिलता है । इस वास्ते नियम जरूर करना चाहिये ।

अब रात्रिभोजन करने का परलोक में होने वाला बुफल कहते हैं —

उल्ककाकमानरिगृध्रशरशूकरा ।

अहिबृशिकगोपाश्च, जायते रात्रिभोजनात् ॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ६७]

अर्थ — उल्क, षाग, बिल्ली, गृध्र-चील, चारसिंगा, सूअर, सप, बिच्छू, गोह, इत्यादि तिर्यच योनि में रात्रि भोजन करने वाले मर के जाते हैं । अरु जो रात्रिभोजन न करे, उन को एक वर्ष में छ महीने के तप का फल होता है ।

१५ घण्टीजा फल भी धमक्ष्य है । जिस में गिर थोड़ा अरु धीज बहुत होवे, सो वैगण, पटोल, ग्यसखस, पपोटा

प्रमुख फल । जिस में जितने बीज हैं, उस में उतने पर्याप्त जीव हैं । जो कि खाने में तो थोड़ा आता है, अरु जीवघात बहुत होता है । तथा बहुबीजा फल खाने से पित्त प्रमुख रोगों की अधिकता होती है, अरु जिनाशा के विरुद्ध है ।

१६. संधान—अथाणा—आचार तीन दिन से उपरांत का अभक्ष्य है । सो आचार अंब का, निंबु का, पत्र का, कर्मदा का, आदे का, जिमीकंद का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक वस्तु का आचार बनता है । वह चाहे घी का होवे वा तेल का होवे वा पानी का होवे, सर्व तीन दिन उपरांत का अभक्ष्य है । परंतु इतना विशेष है, कि जो फल आप खट्टे हैं अथवा दूसरी वस्तु में खट्टा—अंबादिक जो मेल दें, वे तो तीन दिन उपरांत अभक्ष्य है, अरु जिस वस्तु में खटाई नहीं है उस का आचार एक रात्रि से उपरांत अभक्ष्य है । क्योंकि इस आचार में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । अरु चिल्ल प्रमुख तो प्रथम ही अभक्ष्य हैं, तो फिर उन के आचार का तो क्या ही कहना है ? आचार में चौथे दिन निश्चय दो इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं । तथा जूठा हाथ लग जावे तो पंचेन्द्रिय, जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं । दूसरे मतवालों के शास्त्रों में भी आचार नरक का हेतु लिखा है ।

१७ द्विदल—जिस की दो दाल हो जावें, अरु घाणी में पीले, तो जिस में से तेल न निकले, ऐसे सर्व अन्न को द्विदल कहते हैं । तिस द्विदल के साथ जो गोरस अग्नि ऊपर नहीं

चढ़ा है, ऐसा कच्चा दही, कच्चा दूध, छाछ इन के साथ नहीं जीमना। अरु जेकर दही, दूध, छाछ गरम करी होये फिर पीछे चाहे ठण्डा हो जाये, उस में जो छिदल मिला कर खाये तो दोष नहीं है।

१८ सर्ष जात के वगण एक तो बहुबीज हैं, इस वास्ते अभक्ष्य है। तिस के वीट में सूक्ष्म त्रस जीव रहते हैं। तथा वैगण काम की वृद्धि करते हैं, नींद अधिक करते हैं, कुछरु वृद्धि को भी ढीठ करते हैं। इन का नाम भी घुरा है। इन का आकार भी अच्छा नहीं है। तथा कफ रोग को करता है। इन के अधिक खाने से चौथैया तप और रई रोगादि हो जाते हैं। और सप्त जात के फल तो सूखे भी खाने में आते हैं परंतु यह तो सूखा भी खाने योग्य नहीं हैं। क्योंकि सूखे पीछे ये ऐसे हो जाते हैं, कि मारों चूहों की खलडी है। ताते यह द्रव्य अशुद्ध है, इस वास्ते अभक्ष्य है।

१९ तुच्छ फल—जो ढोंडु, पीलु, पेंचु तथा अत्यंत कोमल फल सो भी अभक्ष्य है। क्योंकि ऐसी वस्तु बहुत भी खावे, तो भी वृत्ति नहीं होती है। अरु खाने में थोडा आता है और गेरना बहुत पड़ता है। तथा फल खाया, पीछे तिन की गुठली जो मुख में चबोल के गेरते हैं, उस में असख्य पंचेंद्रिय समूच्छिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तथा जो पुरुष बहुत तुच्छ फल खाता है, तिस को तत्काल ही रोग हो जाता है।

२० अजाणा-अज्ञात फल—जिस का नाम कोई न जानता

होवे, तथा न किसी ने खाया होवे, सो फल भी अभक्ष्य है। क्योंकि क्या जाने कभी ज़हर फल खाया जावे, तो मरण हो जावे तथा बावला हो जावे।

२१. चलित रस—सो जिस वस्तु का काल पूरा हो गया होवे अरु स्वाद बदल गया होवे—सो जब स्वाद बदल जाता है, तब तिस का काल भी पूरा हो जाता है; जिस में से दुर्गंध आने लगे, तार पड़ जावे; सो चलितरस वस्तु है। यह भी अभक्ष्य है। रोटी, तरकारी, खिचड़ी, वड़ा, नरम-पूरी, सीरा, हलवा, इत्यादि रसोई की अनेक वस्तु जिन में पानी की सरसाई है, ऐसी वस्तु एक रात के उपरांत अभक्ष्य है। तथा छिदल-दाल वड़े, गुलगले, भुजिये जिन में पानी की सरसाई है, वे चार पहर के उपरांत अभक्ष्य है। जूगली की राव-घेंस जो विना विदल के और ओदन छाछ में रांधा है, सो आठ पहर उपरांत अभक्ष्य है। तथा वर्षाकाल में अच्छी रीति से जो मिठाई बनी होवे, तो पंद्रह दिन उपरांत अभक्ष्य है। जेकर पंद्रह दिन से पहिले विगड़ जावे, तो पहिले ही अभक्ष्य है। इसी तरे सर्वत्र जान लेना। तथा उष्णकाल में मिठाई की स्थिति बीस दिन की है, अरु शीत काल में मिठाई की स्थिति एक मास की है; उपरांत अभक्ष्य है। तथा दही सोलां पहर उपरांत अभक्ष्य है, छाछ भी दहीवत् जान लेनी। इस चलित रस में दो इन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते यह अभक्ष्य है।

२० बत्तीस जनत काय सर्व अमद्य है । क्योंकि सूई के अग्रभाग पर जितना टुकड़ा जनत काय जनतकाय का का आता है, उस टुकड़े में भी जनत जीव हैं त्वरूप इस वास्ते अमद्य है । तिस का नाम लिपते हैं—१ भूमि के अंदर जितना कद उत्पन्न होता है, सो सर्व जनतकाय है, २ सूरणकद, ३ बज्रकद, ४ हरी हल्दी, ५ अद्रक, ६ हरा कचूर, ७ सौंफ की जड़, तिस का नाम विराली कद है, ८ सतावरत्रेल औषधि, ९ कुआर, १० थोहर कद ११ गिलो, १२ लसन, १३ वास का करेला, १४ गाजर, १५ लाणा जिस की सज्जी बनती है, १६ लोढी पन्नानी सो लोढाकद, १७ गिरमिर-गिरिकरनी कछ देश में प्रसिद्ध है । १८ क्रिसलयपत्र—फोमल पत्र—जो नवा अकुर उगता है । सर्व वनस्पति के उगते वक्त के अकुर प्रथम अनन्तकाय होते हैं । पीछे जय बढ़ते हैं, तत्र प्रत्येक भी हो जाते हैं, अरु जनतकाय भी रहते हैं । १९ सरसूयाकद—कमेरु, २० घेग कद त्रियेग है, तथा घेग नामक भाजी, २१ हरे मोथ, २२ लवण वृक्ष की छाल, २३ खिलोढी, २४ अमृतवेल, २५ मूली, २६ भूमिरुहा सो भूमिफोड़ा छत्राकार, जिन को बालक पद्मवहेडे कहते हैं तथा सुत्रा कहते हैं, २७ बथुवे की प्रथम उगते की भाजी, २८ करुहार, २९ सूरवल्ली—जो जगल में बढी बेलढी हो जाती है, ३० पलक की भाजी, ३१ कोमल

आंवली, जहां तक उस में बीज नहीं पड़ा है, तहां तक अनंत-काय है, ३२. आलु, रतालु, पिंडालु, यह वत्तीस अनंत काय का नाम सामान्य प्रकार से कहा है, अरु विशेष नाम तो अनेक हैं। क्योंकि कोई एक वनस्पति तो पंचांग अनंतकाय है, कोई का मूल अनंत काय है, कोई का पत्र, कोई का फूल, कोई की छाल, कोई का काण्ड; ऐसे कोई के एक अंग, कोई के दो अंग, कोई के तीन अंग, कोई के चार अंग, कोई के पांच अंग अनंत काय हैं।

अब इस अनंतकाय के जानने के वास्ते लक्षण लिखते हैं। जिस के पत्ते, फूल, फल प्रमुख की नसें गूढ हों—दीखे नहीं, तथा जिस की संधि गुप्त होवे, जो तोड़ने से बराबर टूटे, अरु जो जड़ से काटी हुई फिर हरी हो जावे, जिस के पत्ते मोटे दृढदार चीकने हों, जिस के पत्ते अरु फल बहुत कोमल हों, वे सर्व अनंतकाय जाननी।

इन अभक्ष्यों में अफीम, भांग प्रमुख का जिस को पहिला अमल लगा होवे, तो तिस के रखने की जयणा करे। तथा रात्रिभोजन में चउविहार, तिविहार, दुविहार एक मास में इतने करूं, ऐसा नियम करे। तथा रोगादिक के कारण किसी औषधि में कोई अभक्ष्य खाना पड़े, तिस की जयणा रक्खे। तथा वत्तीस अनंतकाय तो सर्वथा निषिद्ध हैं, तो भी रोगादि के कारण से औषधि में खानी पड़े, तिस की जयणा रक्खे। तथा अजानप्रने किसी वस्तु में मिली हुई खाने

में भा जावे तो तिस की भी जयणा रफये ।

अथ चौदह नियम का विवरण लिखते हैं —

सचित्त दब्ध विगड, वाण्ड तवोल वत्थ कुसुमेसु ।

ग्राहण मयण त्रिलेण, उभ दिसि न्हाणभत्तेसु ॥

श्रावक के जायजीय पाच अणुवत में इच्छा परिमाण अर्थात् आगे की अनेक तरे की कम परि चौदह नियम णाति का समव जान कर अपने निर्वाह और सामथ्य के अति दुस्तर उदय का विचार करके, इच्छा परिमाण में उट्टनउस्तु सु-री रक्ष्यी हैं तिन में से फिर नित्य के आश्रय का निवारण करने के वास्ते सत्प्रेष करणार्थ चौदह नियम का धारण प्रतिदिन करना चाहिये । तिस का स्वरूप कहते हैं —

१ सचित्त परिमाण—सो मुख्य वृत्ति में तो श्रावक को सचित्त का त्याग करना चाहिये, क्योंकि अचित्त वस्तु के गाने में चार गुण हैं—१ अप्राणिक जलादिक का पीना वर्जने में सब सचित्त वस्तु का त्याग हो जाता है । जहा तक अचित्त वस्तु न होये, तहा तक मुग्य में प्रक्षेप न करे २ जिहा इन्द्रिय जीती जाती हैं । क्योंकि कितनीक वस्तु बिना राधे स्यादजाली होती हैं, तिन का त्याग हुआ ३ अचित्त जलादि पीने से काम चेष्टा मद हो जाती है, अरु चित्त में ऐसा घटका हरहमेरा रहता है, कि मेरे

को कभी सचित्त वस्तु खाने में न आ जावे । ४. जलादिक द्रव्य अचेतन करने में जो जीवहिंसा हुई है, सो तो कर्म-बन्धन का कारण बन चुकी; परंतु जो क्षण क्षणमें असंख्य-अनंत जीवों की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिट गई, तिन की हिंसा न होवेगी । अरु जो कोई मूढमति अपनी मनः-कल्पना से ऐसा विचार करे, कि अचित्त करने में षट् काय के जीवों की हिंसा होती है, अरु सचित्त जलादिक पीने में तो एक जलादिक की हिंसा है; इस वास्ते सचित्त का त्याग न करना चाहिये; और ऐसा विचार कर सचित्त त्यागे नहीं । सो मूर्ख जिनमत के रहस्य को नहीं जानता । क्योंकि सचित्त के त्यागने से आत्मदमनता, औत्सुक्य निवारणता, विषय कषाय की मंदता होती है । अरु इस में स्वदयागुण बहुत हैं, यह भी वो नहीं जानते । इस वास्ते सचित्त त्यागने में बहुत लाभ है ।

२. द्रव्य नियम—सो धातु वा शिला, काष्ठ, मट्टी का पात्र प्रमुख तथा अपनी अंगुली प्रमुख विना, मुख से खाने में जो आवे सो द्रव्य कहते हैं—“परिणामांतरापन्नं द्रव्यमुच्यते”—तिन में खिचड़ी, मोदक, पापड़, बड़ा प्रमुख तो बहुत द्रव्यों से बनते हैं, तो भी परिणामांतर से एक ही द्रव्य है । तथा एक ही गेहूं की बनी रोटी, पोली, गूगरी, घाटी प्रमुख है, तो भी यह सर्व भिन्न द्रव्य हैं; क्योंकि नामांतर, स्वादांतर, रूपांतर, परिणामांतर से द्रव्यांतर हो

जाते हैं। तथा कई एक आचार्य और तरे भी द्रव्य का स्वरूप कहते हैं, परन्तु जो ऊपर लिखा है, सो ही बहुत से बृद्ध आचार्यों को सम्मत है। इस वास्ते द्रव्यों का परिमाण करे कि आज मैं इतने द्रव्य खाऊंगा।

३ विगय नियम—सो विगय दश प्रकार का है, तिन में—
१ मधु, २ मास, ३ माखन, ४ मदिरा, यह चार तो महा विगय हैं, इन चारों का त्याग तो चाहीस अभक्ष्य में लिख आये हैं, शेष छ विगय रहों, तिन का नाम कहते हैं—
१ दूध, २ दही, ३ घृत, ४ तैल, ५ गुड़, ६-सर्वजात का पक्वान्न। इन छ विगय में से नित्य एक दो, तीनादि विगय का त्याग करे, अरु एक एक विगय के पांच पांच निवीता भी विगय के साथ त्यागना चाहिये। जेकर निवीता त्यागने की मन में न होये, तत्र प्रत्याख्यान करने के अवसर में मन में धारे कि मेरे विगय का त्याग है परन्तु निवीता का त्याग नहीं।

४ उपानह—जूता पहिरने का नियम करे। पगरगी, खड़ावा, मौजा, घूट प्रमुख सब का नियम करे, क्योंकि यह सर्व जीवहिंसा के अधिकरण हैं। तिन में श्रायक ने जिन पूजादि कारण बिना खड़ावा तो कदापि नहीं पहरनी, क्योंकि इन के हेठ जो जीव आ जाता है, वो जीता नहीं रहता है। अरु गृहस्थ लोगों को जूते के बिना सरता नहीं, इम वास्ते मर्यादा कर लेये। फिर दूसरे के जूते में पग न देवे,

भूल चूक हो जावे तो आगार ।

५. तंबोल—सो चौथा स्वादिम नामा आहार है, उस का नियम करे । उस में पान, सोपारी, लवंग, इलायची, तज, दारचीनी, जातिफल, जावत्री, पीपलामूल, पीपर, प्रमुख करियाने की चीजें, जिन से मुख शुद्ध हो जावे, परन्तु उदर भरण न होवे, तिस को तंबोल कहते हैं । तिस का परिमाण करे ।

६. वस्त्र नियम—सो पुरुष के पांचों अंगों के वस्त्रों का वेप पहरने की संख्या करे, कि आज के दिन में मेरे को इतने वेप रखने हैं, तथा इतने खुल्ले वस्त्र ओढ़ने हैं । तथा रात्रि को पहिरने के वस्त्र तथा स्नान समय पहिरने के वस्त्र की वेप में गिनती नहीं । समुच्चय वस्त्र की संख्या रख लेवे । अज्ञान पने भेल संभेल हो जावे तो आगार ।

७. फूलों के भोग का नियम करे—सो मस्तक में रखने वाले, अरु गले में पहिरने वाले, तथा फूलों की शय्या, फूलों का तकिया, फूलों का पंखा, फूलों का चंद्रवा, जाली प्रमुख जो जो वस्तु भोग में आवें, फूल की छड़ी सेहरा, कलगी, अरु जो सूंघने में आवें, तिन का तोल-परिमाण रखना ।

८. वाहन का नियम करे—सो रथ, गाड़ी, घोड़ा, पालकी, अंड, बलद्, नाव प्रमुख, जिस के ऊपर बैठ के जहां जाना होवे, तहां जावे । सो वाहन सर्व तीन तरें का है—१. तरता, २. फिरता, ३. उड़ता, तिन की संख्या का नियम करे कि

इस तर्र की सगारी में आज चढना ।

९ शयन-शय्या का नियम करे—सो छाट, चौकी, पाट तगन, कुरसी, पालकी, सुखासन प्रमुख जितने रखने हों, सो मन में धार लेवे ।

१० विलेपन का नियम करे—सो भोग के वास्ते केसर, चदन, चोगा, अतर, फुलेल, गुलाबादिक जो वस्तु अग में लगानी होवे तिस का नाम मन में धार लेवे, तथा अगलूहणा भी इसी मे रख लेना । इस में इतना विशेष है, कि देवपूजा, देवदशन, इत्यादि धर्म करनी करते समय हाथ में धूप, अगर बत्ती लेनी पड़े, तथा अपने मस्तक में तिलक करना पड़े, तिस का श्रावक को नियम नहीं है ।

११ ब्रह्मचर्य का नियम करे—सो दिन में अरु रात्रि में इतनी धार स्वस्त्री से मैथुन सेवना, उपरांत स्वस्त्री से भी नहीं सेवना, अरु हास्य, विनोद, आलिंगन, चुबनादिक करने का भाग रखे ।

१२ दिशा का नियम करे—अमुक दिशा में आज मैंने इतने कोस उपरांत नहा जाना । इस में आवेश, उपदेश, माणस मेजना, चिट्ठी लिखनी, ये सब नियम आ गये । जैसे पाल सके, तैसे नियम करे ।

१३ स्नान का नियम करे—सो आज के दिन तैल मर्दन पूर्वक तथा विन मर्दन पूवक कितनी वक्त स्नान करना, सो धार लेवे । इस में देव पूजा के वास्ते नियम मे अधिक स्नान

करना पड़े, तो व्रत भंग नहीं ।

१४. भात पानी का नियम—सो चार आहार में से स्वादिम का तो तंबोल के नियम में परिमाण रक्खा है, शेष तीन आहार हैं । तिन में प्रथम अशन—सो भात, रोटी, कचौरी, सीरा प्रमुख; तिस का परिणाम करे, कि आज के दिन में इतना सेर मेरे को खाना है, उपरांत का त्याग है । जहां घर में बहुत परिवार होवे, तिस के वास्ते बहुत अशनादि कराने पड़ें, तिस की जयणा रक्खे । तथा औरों के घरों में पंचायत जीमे, तहां जाना पड़े, वहां बहुत अदमियों की रसोई बना रक्खी है, उस का दूयण नियमधारी कों नहीं । क्योंकि नियमधारी ने तो अपने ही खाने की मर्यादा करी है, परन्तु न्याति के खाने की मर्यादा नहीं करी है । इस वास्ते अपने खाने का परिमाण करे, कि इतने सेर के उपरान्त मैं आज नहीं खाऊंगा । तथा दूसरा पानी—तिसके पीने का परिमाण करे, कि इतने कलसों के उपरांत पानी मैं ने आज नहीं पीना । तथा तीसरा खादिम—सो मिठाई अथवा मिष्टान्न—मोदकादिक, तिन का परिमाण करे । यह चौदह नियम हैं । इहां अधिक भाव वाला श्रावक होवे, सो सचित्तादि परिमाण में द्रव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर रक्खे, तो बहुत निर्जरा होवे ।

अथ पदरा कर्मादान का स्वरूप लिखते हैं । इन पदरह व्यापार का श्रायक को निषेध है, सो करना पदरह कर्मादान नहीं । क्योंकि इन के करने से बहुत पाप लगता है । जेकर श्रायक की आजीविषा न चलेती होये तो परिमाण कर लेये । सो अथ पदरा कर्मादान का नाम कहते हैं —

१ इगाल कर्म—सो कोयले बना कर बेचने, ईंटें बनाकर बेचनी, भाँडे, पिलौने बना पका करके बेचे । लोहार का कर्म सोनार का कर्म, बगड़ीकार सीसकार फलाल, भठियारा, भड़भूजा, हलयाइ, धातुगालक, इत्यादि जो व्यापार अग्नि के द्वारा होयें, सो सर्व इगाल कर्म हैं । इस में पाप बहुत लगता है, अरु लाभ थोड़ा होता है, इस यास्ते यह कर्म श्रायक न करे ।

२ घन कर्म—सो छेया अनछेया घन बेचे, बगीचे के फल पत्र बेचे, फल, फूल, कदमूल, तृण, फाण्ड, लकड़ी, घसादिक बेचे, तथा जो हरी घनस्पति बेचे । यह सब घन कर्म हैं ।

३ साडीकर्म—गाड़ी, घदिल तथा मशारी का रथ, नाया, जहाज, तथा हल, दातार, चरगा, घाणी का अग, तथा धूसरा, घणी, उगली मूसल प्रमुख बना करके बेचे यह सब साडी-वषट्कर्म हैं ।

४ भाडीकर्म—गाढ़ा, धलद, ऊट भेम, गधा खरार,

घोड़ा, नाव, रथ प्रमुख से दूसरों का चोड़न वहे-ढोवे, भाड़े से आजीविका करे ।

५. फोड़ीकर्म—आजीविका के वास्ते कूप, वावड़ी तालाव, खोदावे, हल चलावे, पत्थर फोड़ावे, खान खोदावे, इत्यादिक स्फोटिक कर्म है । इन पांचों कर्मों में बहुत जीवों की हिंसा होती है, इस वास्ते इन पांचों को कुकर्म कहते हैं ।

अब पांच कुवाणिज्य लिखते हैं:—

६. प्रथम दंतकुवाणिज्य—हाथी का दांत, उल्लू के नख, जीभ, कलेजा, पक्षियों के रोम, तथा गाय का चमर, हरण के सींग, वारासिंगे के सींग, कृमि—जिस से रेशम रंगते हैं, इत्यादिक जो त्रस जीव के अंगोपांग वेचना है; सो सर्व दन्तकुवाणिज्य है । जब इन उक्त वस्तुओं को लेने के वास्ते आगर में जावेंगे, तब भिल्लादिक लोग तत्काल ही हाथी, गैंडा प्रमुख जीवों की हिंसा में प्रवृत्त होवेंगे, और महा पाप अनर्थ करेंगे । तथा, वहां जाने से अपने परिणाम भी मलिन हो जाते हैं । कदाचित् लोभ पीड़ित हो कर भिल्ल व्याधों को कहना भी पड़े, कि हम को मोटा भारी दांत चाहिये, तब वो लोग तत्काल हाथी को मार के वैसा दांत लावेंगे । इस वास्ते जेकर वस्तु लेनी भी पड़े, तो व्यापारी के पास से लेवे, परन्तु आगर में जाकर न लेवे । क्योंकि आगर में जाकर एक चमर लेवे, तो एक गाय मरे । इस वास्ते विचार करके वाणिज्य करे ।

७ दूसरा लाखकुशाणिज्य—लोहा, धावडी, नील, सजी खार, सावन, मनसिल, सोहागा तथा लाख, इत्यादि, ये सर्व लाख कुशाणिज्य हैं । प्रथम तो प्रस जीवों के समूह ही से लाख बनती है, अरु पीछे जब रंग काढ़ते हैं, तब तिस को अन्न से सड़ाते हैं, तब प्रस जीव की उत्पत्ति होती है, अरु महा दुर्गन्ध युक्त रुधिर सरिंग्वा घर्ण दीप्तता है । तथा धावडी में प्रस जीव उपजते हैं, कुथुये भी बहुत होते हैं, अरु यह मदिरा के अंग हैं । तथा नील को जब प्रथम सड़ाते हैं तब प्रस जीव उत्पन्न होते हैं, पीछे भी नील के कुण्ड में प्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं, अरु नीला बख्र पहिरने से उस में जू लीलादि प्रस जीव उत्पन्न होते हैं । तथा हर ताल मनसिल को पीसती बक यज्ञ न करे; तो मक्खी प्रमुख अनेक जीव मर जाते हैं ।

८ तीसरा रस कुशाणिज्य—मदिरा, मास, इत्यादि वस्तु का व्यापार महा पापरूप है, तथा दूध, दही, घृत, तेल, गुड़, घाड प्रमुख जो ढीली वस्तु है, इस का जो व्यापार करना सो रसकुशाणिज्य है । इस में अनेक जीवों का घात होता है । इस वास्ते यह व्यापार थावक न करे ।

९ चौथा केशकुशाणिज्य है—द्विपद जो मनुष्य, दास, दासी प्रमुख खरीद कर बेचने । तथा त्रिपद जो गाय, घोड़ा, भैंस प्रमुख खरीद के बेचने । तथा पक्षियों में तीतर, मोर, तोता, मैना, घटेरा प्रमुख बेचने । इस शाणिज्य में पाप

बहुत है, इस वास्ते यह व्यापार श्रावक न करे।

१०. पांचमा विप कुवाणिज्य—संख्या-सोमल, वच्छ-नाग, अफीम, मनासिल, हरताल, चरस, गांजा प्रमुख तथा राख—धनुष, तलवार, कटारी, छुरी, चरछी, फरसी, कुहाड़ी, कुशी, कुद्दाल, पेशकवज, बंदूक, ढाल, गोली, दारु, बक्तर, पाखर, जिलम, तोप प्रमुख, जिन के द्वारा संग्राम करते हैं, तथा हिल, मूसले, ऊखल, दंताली, कर्तत, दात्री, गोला, हवाई, पकाटा, कुहक, रातघ्नी प्रमुख सर्व हिंसा ही के अधिकरण हैं। इन का जो व्यापार करना, सो सब विपवाणिज्य हैं। इस में बहुत हिंसा होती है। ये पांच कुवाणिज्य है।

अब पांच सामान्य कर्म कहते हैं—

११. प्रथम यन्त्रपीलन कर्म—तिल, सरसों, इशु आदि पीलाय करके बेचना, यह सर्व जीवहिंसा के निमित्त रूप यन्त्रपीलन कर्म है।

१२. दूसरा निर्लोछन कर्म—वैल, घोड़ों को खस्सी करना, घोड़े, बलद, ऊंट प्रमुख को दाग देना, कोतवाल की नौकरी, जेलखाने का दरोगा, ठेका लेना, मसूल इजारे लेना, चोरों के गाम में वास करना, इत्यादि जो निर्दयपने का काम है, सो सर्व निर्लोछन कर्म है।

१३. तीसरा दावाग्निदान कर्म—कितनेक मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव धर्म मान के वन में आग लगा देते हैं, वो अपने मन में जानते हैं, कि नवा घास उत्पन्न होवेगा, तब गाँव

चरेंगी, भिह्लादिक लोग सुग मे रहेंगे, अन्न उपजेगा, इत्यादि काय अमानपने से धर्म जान के करे । आग लगाने मे लाग्या जीव मर जाते हैं, इस वास्ते आग नहीं लगानी चाहिये ।

१४ चौथा शोषणकर्म—घात्रडी, तलात्र सरोवर इन का जल अपने गेत में नये । जय पानी को प्रहार पादे, तय लाग्या जीव जल रहित तड़फ २ कर मर जाते हैं, इस वास्ते सब पानी शोषण न करना ।

१५ पाचमा असतीपोषणकर्म—कुतूहल क वास्ते कुत्त, यिल्ले, द्विसक जीवों की पोष । तथा दुष्ट भाया अरु दुराचारी पुत्र का मोह मे पोषण करे । साचा भूटा जाने नहीं, जो मन मं धाये सो करे, तिन को राजी रकने । तथा येचने के वास्त दुराचारी दास दामी को पोषे । सो असतीकर्म कहिये । तथा माटी, कसाई, घागुरी, चमार प्रमुग यह आरमी जीवों के साथ व्यापार करे, तिन को इव्य तथा खरची प्रमुग देखे, यह भी दुष्ट जीवों का पोषण है । जेकर अनुकपा करके ज्ञान—कुत्ते प्रमुग किसी जीव की पुण्य जान कर दये, तो उस का निषेध नहीं । तथा अपने महल्ल मं जो जीव द्योय, तिस की खयर लेनी पड़े, तथा अपने कुट्टय का पोषण करना पड़े, इस मं पूयोंत् दोष नहीं । क्योंकि यह लोकनीति रामनीति का रास्ता है ।

अथ इस मानमे भोगोपभोग मत के पात्र भण्डार निगते हैं —

प्रथम सचित्त आहार अतिचार—मूल भांगे में तो श्रावक सर्व सचित्त का त्याग करे। जेकर नहीं करे, तो परिमाण कर लेवे। तहां सर्व सचित्त के त्यागी तथा सचित्त के परिमाण वाले जो अनाभोगादिक से सचित्त आहार करे। तथा जल तीन उकाली आ जाने से शुद्ध प्रायुक होता है, तिन में एक उकाला, दो उकाला का पानी तो मिश्र उदक कहा जाता है, तिस पानी को अचित्त जान के पीवे। तथा सचित्त वस्तु अचित्त होने में देर है, उस वस्तु को अचित्त जान कर खावे। तो प्रथम अतिचार लगे।

दूसरा सचित्त प्रतिवद्धाहार अतिचार—जिस के सचित्त वस्तु का नियम है, सो तत्काल खैर की गांठ से गूद उखेड़ के खावे। गूद तो अचित्त है, परन्तु सचित्त के साथ मिला हुआ था, सो दूषण लगता है। तथा पके हुए अंब, खिरनी, बेर प्रमुख को मुख से खावे, अरु मन में जानता है, कि मैं तो अचित्त खाता हूं, सचित्त गुठली को तो गेर दूंगा, इस में क्या दोष है ? ऐसा विचार करके खावे तब दूसरा अतिचार लगे।

तीसरा अपकौषधिभक्षण अतिचार—चिना छाना आटा, अग्नि संस्कार जिस को करा नहीं, ऐसा कच्चा आटा खावे। क्योंकि श्री सिद्धांत में आटा पीसे पीछे विना छाने कितने ही दिन तक मिश्र रहता है, सो कहते हैं। श्रावण अरु भाद्रपद मास में अनछाना आटा पीसे पीछे पांच दिन मिश्र

रहता है, आश्विन और कार्तिक मास में चार दिन मिथ्य रहता है, मगसिर और पौष मास में तीन दिन मिथ्य रहता है। माघ अथ फागुण मास में पाच प्रहर तक मिथ्य रहता है, चैत्र अथ वैशाख मास में चार प्रहर तक मिथ्य रहता है, ज्येष्ठ अथ आषाढ मास में तीन प्रहर मिथ्य रहता है। पीत्रे अचित्त हो जाता है। सो मिथ्य गाये, तो नीमरा अतिचार लगे।

चौथा दुष्पक्षाधिभक्षण अतिचार—कटुक कषा, कटुक पक्षा, जैसे सूर्य जान के पौष अथात् सिद्धे जो मझी, जघार, यानरे, गोट प्रसुग के बीजों से भरे हुए होते हैं; इन को अग्नि का सम्हार करने पर कटुक कषे पक्षे हो जाने से अचित्त जान कर गाये, तो चौथा अतिचार लगे।

पाचमा तुच्छाधिभक्षण अतिचार—तुच्छ नाम इहा अमास का है। जिन के गाने से एति १ होये तिस के गाने में पाप बहुत है; जैसे चना का फूल गाये, तथा घेर की गुठली में से गिरी निकाल के गाये। तथा यात्र, समा, भृगु चण्डला की पत्नी गाये। इस के गाने से प्रसंग कृपण भी खग जात हैं, क्योंकि कोई घाम्पति अगिर्कोमल अग्रम्भा में अंतपाय भी होती है, तिस के गाने से अनतपाय का मतभग हो जाता है।

अष्टमे भनधदण्डधिरमण प्रत का म्यरूप लिगन है —
१ भनधदण्ड उग्र को कहत है, कि जो अपने प्रयोपन के याम्ने

कामन, मोहन, वशीकरण करे, तिस को झूठा कलंक देवे, बलिदान देने के वास्ते त्रस जीव को मारे, यह सब कुछ अपने शत्रु के निग्रह के वास्ते करे तथा मूठ चला के मारा चाहे । परन्तु वो मूर्ख यह नहीं विचारता कि—जेकर तू अपने दिल से सच्चा है, तो तुझे क्या फ़िकर है ? अरु जहां तक अगले के पुण्य का उदय है, तहां तक तू यंत्र मन्त्र से उस का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है । ये सर्व संसारी जीव की मूर्खता है । यह सर्व अनर्थदण्ड है । तथा प्रथम अपनी आतुरता से मन में कुविकल्प करे, कि मेरे वैरी के कुल में अमुक ज़वरदस्त उत्पन्न हुआ है, सो मेरे को दुःख देवेगा । इस की राजदरवार में आवरू जावे, अरु दण्ड होवे, तो ठीक है । तथा इस का कोई छिद्र मिले तो सरकार में कह कर इस को गाम से निकलवा देउं, तो ठीक है । ऐसा विचार मूठ अज्ञानी करता है । तथा यहां चोर बहुत पड़ते हैं, सो पकड़े जांय, फांसी दिये जांय, तो बड़ा अच्छा काम होवे । तथा अमुक पुरुष मेरे ऊपर हो कर चलता है, इस हरामज़ादे का कुछ बन्दोस्त करना चाहिये, ताकि फिर कदापि सिर न उठावे । इत्यादि खोटे विकल्पों करके अनर्थदण्ड करे । क्योंकि किसी की चिंतवना से दूसरों का विगाड़ नहीं होता है । जो कुछ होना है, सो तो सब पुण्य पाप के अधीन है । तो फिर तू काहे को विल्लीवत् मनोरथ करता है ? क्योंकि यह विना प्रयोजन के पाप लगता है,

सो अनर्थदण्ड है ।

३ रोगनिदानार्त्त ध्यान—मेरे शरीर में किसी एक रोग होता है, वो न होवे तो अच्छा है । लोगों को पूछे कि अमुक रोग क्योंकर न होवे ? जय कोई कहे कि अमुक अमुक अमक्ष्य घन्तु गाने से नहीं होता है, तत्र अमक्ष्य भी रा लेवे । तथा जय शरीर में रोग होवे, तत्र बहुत हाय २ शब्द करे, बहुत आरम्भ करे, घडी घडी में ज्योतिषी को पूछे कि मेरा रोग क्या जायगा ? तथा वैद्य को बार बार पूछे । तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू करा है, ऐसी शका करे । अरु रोग दूर करने के घास्ने कुल विशुद्ध, धमविशुद्ध आचरण करे तथा अमक्ष्य गाने में तत्पर होवे । रोग दूर करने के घास्ने औषधि, जड़ी, वृष्टी, मन्त्र, यन्त्र, तत्र सीने तथा सीने हुए किसी एक मेरे काम आवेंगे ।

४ अप्रशोत्र नामा आत्तध्यान—अनागत काल की चिन्ता करे, कि आवता थप में यह प्रियाह करूंगा तथा ऐसी हाट, हयेली यनाऊंगा, कि जिस की देग पर सब गोग आश्चर्य करे । तथा अमुक क्षेत्र में यगीचा लगाता है, जिस के आगे सर्व याग निषम्मे हो जावें, सब बुन्नों की छाती जने । तथा अमुक घस्तुफा मेंने सौदा करा है, सो यन्तु भागे को मटगी होजाये तो टीक है, ताकि मुझे बहुत नफा मिल जावे । इत्यादि अनागत काल की अपेक्षा अनेक पुषिकल्प गेणविल्ली की

तरें चिंतते, इस का नाम अग्रशोच नामा आर्त्तध्यान है ।

अब रौद्रध्यान का स्वरूप कहते हैं । १. हिसानंद रौद्र—
 त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करके मन में आनंद
 रौद्रध्यान के माने । तथा बहुत पाप करके सुंदर हाट, हवेली,
 चार भेद वाग प्रमुख बनावे । उस को देख के
 जब लोक प्रशंसा करें, तब मन में सुख
 माने, कि मैं ने कैसी हिकमत से बनाया है, मेरे समान अकल
 किसी मे भी नहीं है । तथा जब रसोई प्रमुख खाने की वस्तु
 बनावे, तब बहुत मसाले डाले, भक्ष्य वस्तु को अभक्ष्य
 सदृश बना के खावे । तथा मान के उदय से ऐसी जमणवार-
 ज्योनार करे, कि जिस को सर्व लोक सराहें । तथा राजाओं
 की लड़ाई सुन कर खुशी माने । एक राजा का पक्षी बन
 कर महिमा करे, दूसरे की निंदा करे । तथा अमुक योधा
 ने एक तलवार से सिंहादि को मारा है, वाह रे सुभट ! ऐसी
 प्रशंसा करे । तथा अपने दुशमन को मरा सुन कर राजी
 होवे, मुख मरोड़े, मूँछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अरु मुख से
 कहे कि यह हरामखोर मेरे पुण्य से मर गया; ऐसी ऐसी
 खोटी चिंतवना करके कर्म बांधे । परन्तु ऐसा न विचारे कि
 दूसरा कोई किसी का मारने वाला नहीं है, उस की आयु
 पूरी हो गई, इस वास्ते मर गया । एक दिन इसी तरे तूं
 भी मर जायगा, भूटा अभिमान करना ठीक नहीं । ऐसा
 विचार न करे ।

० मृगानन्द रौद्र ध्यान—सो झूठ बोल के खुशी होये अरु मन में ऐसा चिन्ते कि मैं ने कैसी बात बना के करी, किसी को भी खबर न पड़ी। मैं बड़ा अकलमद हूँ, मेरे समान कौन है, मेरे न मुग्य कौन जराय करने को समर्थ है। बोलना है, सो तो करामात है, बोलना किसी को ही आता है। इस अखसर में जेरुट मे न होता, तो देयते क्या होता। इस प्रकार मन में फूले और अपने दुश्मन को सकट में गेर कर मन में आनन्द माने अरु कहे कि देजा मैं ने कैसी हिम्मत करी। राज दरवार में लोगों की चुगली करके स्थानभ्रष्ट करे, मन में खुशी माने।

६ चाँयानन्द रौद्र—भद्रक जीर्णों से कृद् कपट की रातें बना कर बहु मूल की वस्तु थोड़े दाम में ले लेये, तथा पराया धन लेगे से अधिक लेये। तथा चोरी करके किसी की बही में अधिक कमती तिर देये, और आप पैसा खा जाये। अनेक कपट की फला से सेठ को राजी कर देये, और पीछे से प्रिया कि मैं कैसा चतुर हूँ, कि पैसा भी खाया अरु सेठ के आगे सच्चा भी बन गया। तथा जय व्यापार करे, तत्र गोटी—ब्रुठी साँगद खाये मीठा बोल कर दूसरों को प्रियास उपजा कर न्यून अधिक देये लेये, अरु मन में राजी होके कहे कि मेरे समान कमाऊ कौन है। तथा चोरी करके मन में आनन्द माने कि मैं ने कैसी चोरी करी, कि निम्न की किसी को खबर भी नहीं पड़ी। तथा झूठ गन पत्र बनाकर

सरकार से फते पावे, तब मन में बड़ा आनंदित होवे, कि मैं बड़ा चलाक हूँ मैं ने हाकम को भी धोखा दिया ।

४ संरक्षणानंद रौद्र—परिग्रह—धन, धान्य, बहुत बढ़ावे, पीछे और भी इच्छा करे, कुटुंब के पोषण के वास्ते परिग्रह की वृद्धि करे, बहुत कुबुद्धि करे; जैसे तैसे काम को अंगीकार करे; लोक विरुद्ध, राजविरुद्ध, कुलविरुद्ध, धर्मविरुद्धादि काम की उपेक्षा न करे । ऐसे करते हुए पूर्व पुण्योदय से पाप परिग्रह पावे, धन बहुत हो जावे, तब मन में बहुत खुशी माने कि इतना धन मैं ने अकेले ने पैदा किया है; ऐसा और कौन होशयार है, जो पैदा कर सके । ऐसा अहंकार करे, अहंकार में मग्न रहे । रात दिन मन में चिंता रहे, कि मत्त कभी मेरा धन नष्ट हो जावे । रात को पूरा सोवे भी नहीं, हाट हवेली के ताले टटोलता रहे, सगे पुत्र का भी विश्वास न करे । लोगों को कुबुद्धि सिखावे । ये आर्त्त अरु रौद्र मिला कर प्रथम अपध्यानार्थदण्ड के भेद है । सो नहीं करने चाहिये ।

अब दूसरा पापकर्मोपदेश अनर्थ दण्ड कहते हैं—हरेक अवसर में घर सम्बंधी दाक्षिण्य वर्ज के पापोपदेश करे । जैसे कि तुमारे घर में बछड़े बड़े हो गये हैं, इन को बधिया करके समारो, नाक में नाथ गेरो । घोड़े को चाबुकसवार के सुपुर्द करो वो इस को फेर कर सिखावे । तथा तुमारे क्षेत्र में सूड़ बहुत हो रहा है, उस को काटना तथा जलाना चाहिये ।

इत्यादि जो पापकारी काम है, तिन का बिना प्रयोजन अज्ञान पने से उपदेय करे, यह दूसरा पापकर्मोपदेश अनर्थदण्ड है ।

तीमरा हिंस्रप्रदान अनर्थदण्ड—हिंसाकारी वस्तु—गाड़ी, हल, यन्त्र तलपारादि । अग्नि, मूसल, ऊपल, धनुष, तरकश, चाकू, छुरी, दात्री प्रमुख दूसरों को दक्षिणता बिना देवे सो हिंस्र प्रदान अनर्थदण्ड है ।

चौथा प्रमादाचरण अनर्थदण्ड—कुतूहल से गीत, नाटक, तमाशा, मेला प्रमुख सुनने देखने जाना, इन्द्रियों के विषय का पोषण करना । यहा कुतूहल कहने से जिनयात्रा, सघ, अठाईमहोत्सव, रथयात्रा, तीथयात्रा, इन के देखने के वास्ते जाये, तो प्रमादाचरण नहीं । किंतु ये तो सम्यक्त्व पुष्टि के कारण हैं । तथा वात्स्यायनादिकों के काम शान्तों में अत्यन्त गृद्धि—उन का शर २ अभ्यास करना । तथा जूआ खेलना, मद्य पीना, शिकार मारने जाना । तथा जलक्रीडा—तलाव प्रमुख में कूदना, जल उछालना । तथा वृद्ध की राया के साथ रस्सा बाध कर झुलना, द्विडोले झुलना । तथा लाल, तीनर, बटेरे, कुकड़, माढे, भसैं, हाथी, बुलबुल, इन को आपस में लड़ाना । तथा अपने शत्रु के घटे पोते से घेर रचना, घेर लेना । तथा भक्तकथा—मास, कुलमाय, मोदक, ओदनादि बहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उन कों यड़ा स्वाद आता है, अत यह हम भी खायेंगे, इत्यादि कहना । तथा स्त्री कथा—स्त्रियों के पहनने तथा रूप और भगवत्प्रिय

हावभावादि का कथन यथा—“कर्णाटी सुरतोपचारकुशला, लाटी विदग्धा प्रिये” इत्यादि । तथा स्त्री के रूपोत्पादन, कुचकठिनकरण और योनिसंकोच, इत्यादि स्त्री सम्बन्धी विषयों का विचार करना स्त्री कथा है । तथा देशकथा जैसे दक्षिण देश में अन्न, पानी अरु स्त्रियों से सम्भोग करना बहुत अच्छा है, इत्यादि । तथा पूर्वदेश में विचित्र वस्तु—गुड़, खाण्ड, शालि, मद्यादि प्रधान चीजें होती हैं । तथा उत्तर देश के लोग सूरमे हैं । वहां घोड़े बड़े शीघ्र चलने वाले अरु दृढ़ होते हैं । और गेहूं प्रमुख धान्य बहुत होता है । तथा केसर, मीठी दाख दाड़िमादि वहां सुलभ हैं, इत्यादि । तथा पश्चिम देश में इंद्रियों को सुखकारी सुख स्पर्श वाले वस्त्र हैं, इत्यादि । तथा राजकथा—जैसे हमारा राजा बड़ा सूरमा है, बड़ा धनवान् है, अश्वपति है, इत्यादि । जैसे यह चार अनुकूल कथा कही हैं, ऐसे ही चारों प्रतिकूल कथा भी जान लेनी । तथा ज्वरादि रोग अरु मार्ग का थकेवां, इन दोनों के विना संपूर्ण रात्रि सो रहना—निद्रा लेनी । इस पूर्वोक्त प्रमादाचरण को श्रावक वर्जें । तथा देश विशेष में भी प्रमाद न करना । तथा जिनमन्दिर में काम-चेष्टा, हांसी, लड़ाई, हसना, थूकना, नीद लेना, चोर परदारिकादि की खोटी कथा करनी, चार प्रकार का आहार खाना, यह चौथा अनर्थदण्ड है । इस व्रत के भी पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं ।

प्रथम कदपचेष्टा—मुखविकार, भ्रूविकार नेत्रविकार, हाथ की सहा बताये, पग को विकार की चेष्टा करके औरों को हसाये। किसी को क्रोध उत्पन्न हो जाये, कुछ का कुछ हो जाये, अपनी लघुता होये, धर्म की निन्दा होये, ऐसी कुचेष्टा करे।

दूसरा मुगारिचन अतिचार—मुप से मुपरता करे, असम्बद्ध वचन गोले, जिससे दूसरों का मर्म प्रगट होवे, कष्ट में गेरे, अपनी लघुता करे, वैर वधे, ढीठ, लयाड, चुगल खोर, इत्यादि नाम धरावे, लोगों में लजनीय होये, इसी तरे बहुत वाचालपना करना।

तीसरा भोगोपभोगानिरिक्त अतिचार—यहा स्नान, पान, भोजन, चन्दन, कुकुम, कम्बूरी, चख, आमरणादिक अपने शरीर के भोग से अधिक करने, सो अनर्थदण्ड है। इहा वृद्ध आचार्यों की यह सप्रदाय है, कि तेल, आमले दही प्रमुख, जेकर स्नान के वास्ते अधिक ले जाये, तो सौख्यता करके स्नान वास्ते बहुत से लोग तालाव आदि में जायगे। तहा पानी के पूरे, तथा अप्काय के जीवों की बहुत विराधना होवेगी। इस वास्ते श्रावक को इस प्रकार से स्नान न करना चाहिये। क्योंकि श्रावक के स्नान की यह विधि है—श्रावक को प्रथम तो घर में ही स्नान करना चाहिये, तिस के अभाय से तेल, आमले, आकादि से घर में ही सिर घिस करके, मैल गेर करके तालाव के काठे-पर बैठ के

अंजलि से पानी सिर में डाल करके स्नान करना । तथा जिस फूलादिक में जीवों की संसक्ति का ज्ञान होवे, तिन को परिहरे । ऐसे सर्व जगे जान लेना ।

चौथा कौकुच्य अतिचार—जिस के बोलने-करने से अपनी तथा औरों की चेतना काम क्रोधरूप हो जावे, तथा विरह की बात संयुक्त कथा, दोहा, साखी, चैत, झूलना, कवित्त, छन्द, परजराग, श्लोक, शृंगाररस की भरी हुई कथा कहनी । यह चौथा काममर्मकथन अतिचार है ।

पांचमा संयुक्ताधिकरण अतिचार—ऊखल के साथ मूसल, हल के साथ फाला, गाड़ी से युग, धनुष से तीर, इत्यादि । इहां श्रावक ने संयुक्त अधिकरण नहीं रखना, क्योंकि संयुक्त रखने से कोई ले लेवे, तो फिर ना नही करी जाती है, अरु जब अलग अलग होवे, तब उस को सुख से उत्तर दे सकेगा ।

अथ नवमे सामायिकव्रत का स्वरूप लिखते हैं । इन पूर्वोक्त आठों व्रतों को तथा आत्मगुणों को सामायिक व्रत पुष्टिकारक अविरति कषाय में तादात्म्यभाव से मिली हुई अनादि अशुद्धता रूप विभाव परिणति, तिस के अभ्यास को मिटाने के वास्ते अरु आत्मा का अनुभव करने के वास्ते तथा सहजानंद-स्वरूपरस को प्रगट करने के वास्ते यह नवमा शिचाव्रत है; अर्थात् शुद्ध अभ्यासरूप नवमा सामायिक व्रत लिखते हैं । दो घड़ी काल

प्रमाण समता में रहना, राग द्वेष रूप हेतुओं में मध्यस्थ रहना, तिस को पण्डित जन सामायिक व्रत कहते हैं। 'सम' नाम है रागद्वेष रहित परिणाम होने से ज्ञान दर्शन चारित्ररूप मोक्ष मार्ग, तिस का 'आय नाम लाभ-प्रणमसुख रूप, इन का जो एक भाग सो सामायिक है। मन, वचन और काय की छोटी चेष्टा-एतावता आत्तध्यान तथा रौद्रध्यान त्याग के तथा सावद्य मन वचन, काया, पाप चिंतन, पापोपदेश, पापकरणरूप घर्ज के श्रावक सामायिक करे। इहा * आवश्यक शास्त्र में लिखा है, कि जब श्रावक सामायिक करता है, तब साधु की तरे हो जाता है। इस वास्ते श्रावक सामायिक में देवस्नात्र, पूजादिक न करे। क्योंकि भावस्तव के वास्ते ही द्रव्यस्तव करना है, सो भावस्तव सामायिक में प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते श्रावक सामायिक में द्रव्यस्तव रूप जिन पूजा न करे।

सामायिक करने वाला मनुष्य बत्तीस दूपण व्रज के सामायिक करे सो बत्तीस दूपण में प्रथम काया के द्वारा दूपण कहते हैं।

१ सामायिक में पग पर पग चढ़ा करके ऊंचा आसन (पाल्ठी) लगा कर घंटे, सो प्रथम दूपण है। कारण कि

* सामाहमि उ कए समणो इय सावधो हवइ जम्हा।

एएण कारणेण बहुसो सामाहय पुज्जा ॥

[अ० ६ श्रावकप्रताधिकार]

गुरुविनय की हानि का हेतु होने से यह अभिमान का आसन है। इस वास्ते जिस बैठने से विनयगुण रहे, और उद्धता न होवे, तथा अजयणा न होवे, ऐसे आसन पर बैठे।

२. चलासन दोष—आसन स्थिर न रखे, बार बार आगे पीछे हिलावे, चपलाई करे। मुख्य मार्ग तो यह है, कि श्रावक एक जगह एक ही आसन पर सामायिक पूरा करे, अडिग पने से रहे। कदापि रोग निर्वलतादि के कारण से एक आसन पर टिका न जाय, फिरना पड़े, तो उपयोग संयुक्त जयणा पूर्वक चरवला से जहां तहां पूंजना प्रमार्जना करके आसन फिरावे। यह पूर्वोक्त विधि न करे, तो दूसरा दूषण लगे।

३. चलदृष्टि दोष—सामायिक करे पीछे नासिका ऊपर दृष्टि रखे, अह मन में शुद्ध उपयोग रखे, मौनपने से ध्यान करे। यदि सामायिक में शास्त्राभ्यास करना होवे, तो यत्न पूर्वक मुख के आगे मुखवास्त्रिका देकर, दृष्टि पुस्तक पर रख कर पढ़े, अह सुने। तथा जब कायोत्सर्ग करे, तब चार अंगुल पीछे पग चौड़ा राखे, ऐसी योग मुद्रा से खड़ा हो कर दोनों बाहु प्रलंबित करे, दृष्टि नासिका पर रखे, अथवा सज्जे—दहिने पग के अंगूठे पर रखे। यह शुद्ध सामायिक करने की विधि है। इस विधि को छोड़ के चपल पने से चाकितमृग की तरे चारों दिशा में आंखें फिरावे, सो तीसरा दोष है।

४ सावद्यक्रियादोष—क्रिया तो करे, परन्तु तिस में कञ्चुक सावद्य क्रिया करे, अथवा सावद्य क्रिया की सहा करे, सो चौथा दोष ।

५ आलस्यन दोष—सामायिक में भीतादिक का आलस्यन, अर्थात् पीठ लगा कर बैठे । क्योंकि त्रिना पूजा भोंत में अनेक जीव बैठे हुए होते हैं, सो मर जाते हैं, तथा आलस्यन से नींद भी आ जाती है ।

६ आकुचन प्रसारण दोष—सामायिक करके विना प्रयोजन हाथ, पग, सकोचे, लगा करे । क्योंकि सामायिक में तो किसी मोटे कारण के विना हिलना नहीं जरूरी काम में चरवला से पूजन प्रमार्जन करके हिलाये ।

७ आलस्य दोष—सामायिक में आलस्य से अग मोटे, अगुलियों के कड़ाके काढे, कमर घासी करे । ऐसी प्रमाद की बहुलता से अत में अनादर होना है, काया में अरति उत्पन्न हो जाती है । जय उठे, तब आलस्य मोड़ कर अति अशोभनिक रूप से उठे । यह सातमा आलस्य दोष है ।

८ मोहन दोष—सामायिक में अगुली प्रमुख टेढ़ी करी कड़ाका काढे, ए पण प्रमाद की प्रवृत्ता से होता है ।

९ मल दोष—सामायिक ले करके राज करे । मुख्यवृत्ति से तो सामायिक में राज नहीं करनी, परन्तु जय लाचार होवे तब चरवला प्रमुख से पूजन प्रमार्जन करके हलुने हलुने राज करे, यह शैली है ।

१०—विषमासन दोष—सामायिक में गले में हाथ देकर बैठे ।

११. निद्रा दोष—सामायिक में नींद लेवे ।

१२. शीत प्रमुख की प्रबलता से अपने समस्त अङ्गोपांग को वस्त्र से ढाँके ।

यह वारां दोष काया से उत्पन्न होते हैं, इन को सामायिक में वर्ज्य । अब वचन के जो दश दोष हैं, सो लिखते हैं:—

१ कुबोल दोष—सामायिक में कुवचन बोले ।

२. सहसात्कार दोष—सामायिक ले करके विना विचारे बोले ।

३. असदारोपण दोष—सामायिक में दूसरों को खोटी मति देवे ।

४. निरपेक्ष वाक्य दोष—सामायिक में शास्त्र की अपेक्षा विना बोले ।

५ संक्षेप दोष—सामायिक में सूत्र, पाठ, संक्षेप करे, अक्षर पाठ ही न कहे, यथार्थ कहे नहीं ।

६. कलह दोष—सामायिक में साधर्मियों से क्लेश करे । सामायिक में तो कोई मिथ्यात्वी गालियां देवे, उपसर्ग करे, कुवचन बोले, तो भी तिस के साथ लड़ाई नहीं, करनी चाहिये, तो फिर अपने साधर्मियों के साथ तो विशेष करके लड़ाई करनी ही नहीं ।

७. विकथा दोष—सामायिक में बैठ के देशकथादि चार विकथा करे । सामायिक में तो स्वाध्याय अरु ध्यान ही

करना चाहिये ।

८ हास्य दोष—सामायिक में दूसरों की हसी करे, मशकरी करे ।

९ अशुद्ध पाठ दोष—सामायिक में सामायिक का सूत्र पाठ शुद्ध न उच्चारे, हीनाधिक उच्चारे, थडा तडा सूत्र पढे ।

१० मुनमुन दोष—सामायिक में प्रगट स्पष्ट अक्षर न उच्चारे, दूसरों को तो जैसा मच्छर भिनभिनाट करता होवे, ऐसा पाठ मालूम पडे, पद अरु गाथा का कुछ ठिकाना मालूम न पडे, गडगड़ करके उतापल से पाठ पूरा करे ।

अत्र मन के दश दोष लिखते हैं —

१ अविवेक दोष—सामायिक करके सब क्रिया करे, परन्तु मन में विवेक नहीं, निविवेकता से करे । मन में ऐसा विचारे कि सामायिक करने से कौन तरा है ? इस में क्या फल है ? इत्यादि विकल्प करे ।

२ यशोमाछा दोष—सामायिक करके यश कीर्ति की इच्छा करे ।

३ धनमाछा दोष—सामायिक करने से मुझे धन मिलेगा ।

४ गरदोष—सामायिक करके मन में गर्व करे, कि मुझे लोग धर्मी कहेंगे । मैं कैसे सामायिक करना हूँ, ये मूर्ख लोग क्या समझें ?

५ भय दोष—लोगों की निंदा से डरता हुआ सामायिक करे । क्योंकि लोग कहेंगे कि देखो थावक के कुल में उत्पन्न

हुआ है, बड़ा पुरुष कहने में आता है, परन्तु धर्म कर्म का नाम भी नहीं जानता, धर्म तो दूर रहा, परन्तु हर रोज सामायिक भी नहीं करता। ऐसी निंदा से डरता हुआ करे।

६. निदान दोष—सामायिक करके निदान करे, कि इस सामायिक के फल से मुझे धन, स्त्री, पुत्र, राज्य, भोग, इन्द्र, चक्रवर्ती का पद मिले।

७ संशय दोष—क्या जाने सामायिक का फल होवेगा कि नहीं होवेगा? जिस को तत्त्व की प्रतीति न होवे, सो यह विकल्प करे।

८. कपाय दोष—सामायिक में कपाय करे, अथवा क्रोध में तुरत सामायिक करके बैठ जाय। सामायिक में तो कपाय को त्यागना चाहिये।

९. अविनय दोष—विनय हीन सामायिक करे।

१० अवहुमान दोष—सामायिक बहुमान भक्तिभाव, उत्साह पूर्वक न करे।

यह दश मन के दोष कहे, और पूर्वोक्त चारह काया के तथा दश वचन के मिला कर बत्तीस दूषण रहित सामायिक करे। इस सामायिक व्रत के पांच अतिचार टोले। सो अब पांच अतिचार कहते हैं।

प्रथम कायदुष्प्रणिधान अतिचार—सो शरीर के अवयव हाथ, पग प्रमुख विना पूंजे प्रमार्जे हिलावे, भीत से पीठ लगा कर बैठे।

दूसरा मनोदुष्प्रणिधान अतिचार—सो मन में कु-यापार चिंतन, क्रोध, लोभ, द्रोह, अभिमान, ईर्ष्या, व्यासंग सभ्रमचित्त सहित सामायिक करे ।

तीसरा वचनदुष्प्रणिधान अतिचार—सो सामायिक म सायध वचन बोले, सूत्रात्तर हीन पढे, सूत्र का स्पष्ट उच्चार न करे ।

चौथा अनग्रन्था दोषरूप अतिचार—सो सामायिक वक्त सर न करे । जेकर करे भी तो भी वे मर्यादा से आदर बिना उतापल से करे ।

पाचमा स्मृतिविहीन अतिचार—सो सामायिक करी, कि नहीं ? सामायिक पारी कि नहीं ? ऐसी भूल करे ।

अग्न दशमा दिशावकाशिक ग्रन लिखते हैं—

छठे ग्रत में जो दिशाओं का परिमाण करा है, सो जहा तक जीये तहा तरु है । उस में तो क्षेत्र दिशावकाशिक बहुत छूटा रम्बा है तिस का तो रोज काम ग्रत पड़ता नहीं, इस चाम्ते दिन दिन के प्रति सक्षेप करे । जेमे आज के दिन दस कोस वा पन्द्रस कोस वा पाच कोस, अथवा नगर के दरगाजे तक, कोस वा अद्धकीम, बाग बगीचे तर, घर की हद तक जाना आना है, उपरात नियम करना, सो दिशावकाशिक ग्रन है । ए छठे ग्रत का सक्षेप रूप है । उपरक्षेप से पाच अणुवतादिक का सक्षेप थोड़े काल का, सो भी इसी ग्रत

में जान लेना । यह व्रत चार मास, एक मास, बीस दिन, पांच दिन, अहोरात्र, अथवा एक दिन, एक रात्रि, तथा एक मुहूर्त्तमात्र भी हो सकता है । इस का नियम ऐसे करे कि मैं अमुक ग्रामादिक में काया करके जाऊंगा, उपरांत जाने का निषेध है । इस व्रत वाले जिस प्राणी के देश परदेश का व्यापार होवे, सो ऐसे कहे कि मुझ को काय करके इतने क्षेत्र उपरांत जाना नहीं । परन्तु दूर देश का कागज प्रमुख लिखा हुआ आवे, सो वांचूं, अथवा कोई मनुष्य भेजना पड़े, उस का आगार है । परदेश की बात सुनने का आगार है । अरु जिस का दूर का व्यापार नहीं होवे, सो चिट्ठी—खत पत्र भी न वांचे, अरु आदमी भी न भेजे, तथा चित्त की वृत्ति से जेकर संकल्प विकल्प न होवे, तो परदेश की बात भी न सुने । जेकर नहीं रहा जावे, तो आगार रक्खे । परन्तु जान करके दोष न लगावे । यह देशवकाशिक व्रत सदा सवेरे के वक्त चौदह नियम की यादगीरी में उपयोग से रक्खे, अरु रात्रि को जुदा रक्खे । यह व्रत गुरुमुख से जैसे धारे तैसे पाले, अरु इस व्रत के पांच अतिचार शाले । सो कहते हैं:—

प्रथम आणवण प्रयोग अतिचार—नियम की भूमिका से बाहिर की कोई वस्तु होवे, तिस की गरजे पड़े, तब विचारे कि मेरे तो नियम की भूमिका से बाहिर जाने का नियम है, परन्तु कोई जाता होवे, तो तिस को कह करके वो वस्तु

मगजा लेने, अरु मन में यह विचारे कि मेरा व्रत भी भग नहीं हुआ, अरु वस्तु भी आ गई, यह प्रथम अतिचार है।

दूसरा पेसण प्रयोग अतिचार—दूसरे आदमी के हाथ नियम से बाहिरली भूमिका में कोई वस्तु भेजे, सो दूसरा अतिचार है।

तीसरा सद्गणुनाय अतिचार—नियम की भूमिका से बाहिर, कोई आदमी जाता है, तिस से कोई काम है, तत्र तिस को खुग्वारादि शब्द करके बोलावे, फिर कहे कि अमुक वस्तु ले आना, तब तीसरा अतिचार लगे।

चौथा रूपानुपाती अतिचार—कोई एक पुरुष उस के नियम की भूमिका से बाहिर जाता है। तिस के साथ कोई काम है, तब हाट हवेली पर चढ के उस को अपना रूप दिखावे। तब वो आदमी उस के पास आवे, पीछे अपने मतलब की बातें करे, तत्र चौथा अतिचार लगे।

पाचमा पुट्टलाक्षेप अतिचार—नियम की भूमिका से बाहिर कोई पुरुष जाता है। तिस के साथ कोई काम है, तब तिस को ककरा मारे। जब वो देखे, तत्र तिस के पास आवे, तब उस के साथ बात चीत करे। यह पाचमा अतिचार है।

अथ ग्यारहवा पौषधोपवास नामा व्रत लिखत हैं। इस पौषधव्रत के चार भेद हैं, उस में प्रथम पौषधव्रत आहार पौषध है, तिस के भी दो भेद हैं, एक देशत दूसरा सर्वत। तहा देश से तो तिवि

हार उपवास करके पौषध करे, अथवा आचाम्ल करके पौषध करे, अथवा तिविहार एकाशना करके पौषध करे, यह तीन प्रकार से देश पौषध होता है । तिस की विधि लिखते हैं—

पौषध करने से पहिले अपने घर में कह रखे, कि मैं आज पौषध करूंगा, इस वास्ते आचाम्ल अथवा एकाराना करा है । भोजन के अवसर में आहार करने को आजंगा, अथवा तुम ने पौषधशाला में ले आना । पीछे से पौषध करने को जावे । तहां पौषध करके देववंदन करके, पीछे चरवला, मुखवस्त्रिका, पूंछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चादर ओढ़ करके साधु की तरे-उपयोग संयुक्त मार्ग में यत्न से चल कर भोजन के स्थान में जा करके, इरियावहिया पडिक्रमे—गमनागमन की आलोचना करे । पीछे पूंछणा के ऊपर बैठ के आहार करने का भाजन प्रतिलेख के, पीछे अपने लेने योग्य आहार लेवे । साधु की तरे रसगृद्धि से रहित आहार करे । मुख से आहार को अच्छा बुरा न कहे । आहार की जूठ गेरे नहीं, किन्तु आहार करे पीछे उष्ण जल से आहार का बरतन धो कर पी जावे । बरतन शुद्ध करके, सुखा करके उपयोग संयुक्त पौषधशाला में आवे । पूर्वस्थान में जा कर बैठे, परन्तु मार्ग में जाते आते किसी के साथ बात न करे । इस रीत से स्वस्थानक में आवे । इरियावही पडिक्रम के, चैत्यवंदन करके धर्म क्रिया में प्रवर्त्ते, तथा

आहार अपना कोई सम्बन्धी अथवा सेवक ले आवे, तो भी पूर्वोक्त रीति से आहार करके वरतन पीछे दे देवे । पीछे धर्मक्रिया र्म प्रवर्त्तें । तिस को देश से पौषध कहते हैं । तथा जो चउविहार करके पौषध करे, सो सर्व से पौषध कहिये ।

दूसरा शरीरसत्कार पौषध—सर्वथा शरीर का सत्कार-स्नान, धोवन, धावन, तैलमदन, वस्त्राभरणादि शृंगार प्रमुख कोई भी शुश्रूषा न करे । साधु की तरे अपरिक्र्मित शरीर रह । तिस को सर्वथा शरीरसत्कार पौषध कहते हैं । तथा पौषध में हाय, पग प्रमुख की शुश्रूषा करनी, तिस का आगार रक्खे, उस को देशसत्कार पौषध कहते हैं ।

तीसरा अब्रह्मपौषध—त्रिकरण शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत पाले, वो सर्वथा ब्रह्मचर्य पौषध है अरु मन, वचन, दृष्टि प्रमुख का आगार रक्खे । अथवा परिमाण रक्खे, सो देश से ब्रह्मचर्य पौषध है ।

चौथा सर्वथा सावध व्यापार का त्याग—सर्व से अब्यापार पौषध है । अरु जो एकादि व्यापार का आगार रक्खे, सो देश से अब्यापार पौषध जानना ।

एव चार प्रकार के पौषध के दो दो भेद हैं । सो प्रथम जब आगम व्यवहारी गुरु होते थे, अरु थावक भी शुद्ध उपयोग वाले होते थे । तब जो जो प्रतिज्ञा लेते थे, सो सो प्रतिज्ञा अखण्डित तैसी ही पालते थे, भूलते नहीं । थे, अरु

न्यूनाधिक भी नहीं करते थे। और गुरु भी अतिराय ज्ञान के प्रभाव से योग्यता जान कर देश, सर्व पौषध का आदेश देते थे। तथा श्रावक कदाचित् भूल भी जाते थे, तो भी तत्काल प्रायश्चित्त ले लेते थे। परन्तु इस काल में तो ऐसे उपयोगी जीव हैं नहीं, दुष्काल के प्रभाव से जड़बुद्धि जीव बहुत हैं। इस वास्ते पूर्वाचार्यों ने उपकार के वास्ते आहारपौषध तो दोनों करने, अरु शेष तीन पौषध जीत-व्यवहार के अनुसार निषेध कर दिये हैं। यही प्रवृत्ति वर्तमान संघ में प्रचलित है। पौषध श्रावक को ज़रूर करना चाहिये, कारण कि कर्मरूप भावरोग की यह औषधि है, ताते जब पर्व दिन आवे, तब ज़रूर पौषध करे। इस के पांच अतिचार टाले, सो कहते हैं:—

प्रथम अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिज्जासंथारक अति-चार—जिस स्थान में पौषध संस्थारक करा है, तिस भूमि की तथा संथारा की पडिलेहणा न करे, एतावता संथारे की जगा अच्छी तरें निगाह करके नेत्रों से देखे नहीं अरु कदापि देखे, तो भी प्रमाद के उदय से कुछ देखी कुछ न देखी जैसी करे।

दूसरा अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय सिज्जासंथारक अति-चार—संथारा को रजोहरणादि करके पूंजे नहीं, कदापि पूंजे, तो भी यथार्थ न पूंजे. गड़ वड़ कर देवे, जीव रक्षा न करे, तो दूसरा अतिचार लगे।

तीसरा अस्पटिलेहिय दुष्पडिलेहिय उच्चारपासरण भूमि अतिचार—सो लघुशका, गडीशका, परिठरने की भूमि का नेत्रों से अवलोकन न करे, अरु अवलोकन करे, तो भी अलसु पलसु करके काम चलाये, जीवयत्ता विना करे परिठरे तो तीसरा अतिचार लगे ।

चौथा अष्पमज्जिय दुष्पमज्जिय उच्चारपासरणभूमि अतिचार—सो जहा मूत्र, विघ्ना करे, उस भूमिका को उच्चार प्रस्ररण करने से पहिले पूजे नहीं, जेकर पूजे, तो भी यद्वा तद्वा पूजे, परन्तु यत्न से न पूजे ।

पाचमा पोसहविहिविपरीप अतिचार—सो पौषध में सुधा लगे, तत्र पारणे की चिंता करे जैसे कि प्रभात में अमुक रसोई अथवा अमुक वस्तु का आहार करूगा । तथा अमुक कार्य करना है, तद्वा जाना पड़ेगा, अमुक पर तगादा करूगा । तथा प्रभात में पौषध पार के अच्छी तरें तेल मर्दन कराऊगा, अच्छे गरम पानी से स्नान करूगा, तथा अमुक पोसाक पहरूगा, स्त्री के साथ भोग करूगा, इत्यादि सावध चिंतना करे । तथा सध्या समय में पौषध के मटल शोधन न करे, सूर्य रात्रि सोता रहे, विक्रया करे । पौषध के अठारह दूषण हैं, सो धर्जे नहीं । सो अठारह दूषण लिखते हैं —

१ विना पोसे घाले का लाया हुआ जल पीये । २ पौषध

के वास्ते सरस आहार करे । ३. पौषध के पौषध के दोष अगले दिन त्रिविध प्रकार का संयोग मिलाय के आहार करे । ४. पौषध के निमित्त अथवा पौषध के अगले दिन में विभूषा करे । ५. पौषध के वास्ते वस्त्र धोवावे । ६. पौषध के वास्ते आभरण घड़ा कर पहिरे । स्त्री भी नथ, कंकणादि सोहाग के चिन्ह वर्ज के दूसरा नवा गहना घड़ा के पहिरे । ७. पौषध के वास्ते वस्त्र रंगा कर पहिरे । ८. पौषध में शरीर की मैल उतारे । ९. पौषध में विना काल निद्रा करे । १०. पौषध में स्त्री कथा करे-स्त्री को भली बुरी कहे । ११. पौषध में आहार कथा करे-भोजन को अच्छा बुरा कहे । १२. पौषध में राजकथा करे-युद्ध की बात सुने, वा कहे । १३. पौषध में देशकथा करे-अच्छा बुरा देश कहे । १४. पौषधमें लघुशंका अरु बड़ीशंका भूमिका पूजे विना करे । १५. पौषध में दूसरों की निंदा करे । १६ पौषध में स्त्री, पिता, माता, पुत्र, भाई प्रमुख से वार्त्ता लाप करे । १७, पौषध में चोर की कथा करे । १८. पौषधमें स्त्री के अंगोपांग, स्तन; जघनादि को देखे, यह अठारह दूषण पौषध में वर्जे. तो शुद्ध पौषध जानना । अन्यथा पांचमा अतिचार लगे ।

अथ वारहवां अतिथिसंविभागव्रत लिखते हैं । अतिथि

उस को कहते हैं, कि जिस ने लौकिक पत्रों
 अतिथिसविभाग त्समादि तिथियों को त्याग दिया है, सो
 वन अतिथि है। जैसे प्राहुणा विना तिथि आता
 है, एतावता तिथि देख के नहीं आता है।
 ऐसे ही जो साधु अनर्चिता ही आ जाये, सो अतिथि
 जानना। ऐसे मधुकर वृत्ति वाले से जो विभाग करे, एता
 वता शुद्ध व्यवहार व्यायोपाजित बन करके अपने उत्तर
 पूरणे योग्य जो रमोई करी है, उत्तम कुल आचारपूधक
 पूर्वकर्म, पञ्चात्कमादि दोष रहित, ऐसा शुद्ध निर्दोष
 आहार भक्तिपूर्वक जो देवे, सो अतिथिसविभाग व्रत है।
 तथा प्रथम दान देने वाले में पात्र गुण हों, तो जो दाता
 शुद्ध होता है। सो पात्र गुण लिखते हैं —

१ जैनमार्गी दाता को, शुद्ध पात्र की प्राप्ति पा करके
 अपने घर में मुनि का दर्शन मात्र होने से, अतरंग में बहुत
 दिन की चाहना के उल्लास से आनन्द के आसु आवें, जैसे
 अपना प्यारा अति द्विन्द्वकारी बल्लभ विच्छेद के परस्पर म
 गया है, उस को मन से कभी विसारता नहीं, मिला ही
 चाहता है, उस मित्र के अरुस्मात् मिलने से आनन्द आसु
 आवें, तेसे मुनि को घर में आया देख के आनन्द आसु लाये।
 अरु मन में विचारे कि मेरा बड़ा भाग्य है, कि ऐसा मुनि
 मेरे घर में आया है। अरु मैं कैसा हूँ ? अनादि का भूग, द्रव्य
 सखल रहित, दग्धि पीडित, ज्ञान लोचन रहित, अधमायकरी

पीड़ित. अपार संसार चक्र में भटकता हुआ, बहुत अकथनीय दुःख संयुक्त देख कर, मेरे पर परम दया दृष्टि करके प्रथम मेरे को ज्ञानांजन शलाका से ज्ञान रूप—देखने वाला नेत्र खोल दीना, अरु तीन तत्त्व-सेवा रूप व्यापार सिखलाया, तथा मुझ को रत्नत्रयीरूप पंजी-रास दे कर मेरा अनादि दृष्टि दूर करा, मुझे भले आदमियों की गिनती में करा। ऐसे गुरु मुनिराज, बिना गरज के, परोपकारी मेरे घरांगन में आये। ऐसी पुष्ट भावना—प्रशस्त राग भाव के उल्लास से आनंद के आंसु आवे; यह दाता का प्रथम गुण है।

२. जैसे संसार में जीव को अत्यंत इष्ट वस्तु के संयोग से रोमावली खड़ी होती है, तैसे बड़ी भक्ति के प्रभाव से मुनि को देख के रोमावली विकस्वर होवे, हृदय में हर्ष समावे नहीं। यह दूसरा गुण है।

३. मुनि को देख के बहुमान करे, जैसे किसी गरीब के घर में राजा आप चल कर आवे, तब वो गरीब गृहस्थ जैसा राजा का आदर करे, अरु मन में विचारे कि महाराज मेरे घर मे आये हैं, तो मैं अच्छी वस्तु इन को भेट करूं तो ठीक है, क्योंकि राजा का आना वारंवार मेरे घर में कहां है? ऐसा विचार के जैसे वस्तु भेट करे, तैसे श्रावक भी साधु को घर में आया देख के बहुत मान करे। अरु मन में ऐसा विचारे कि यह ऐसा निःस्पृहियों में शिरोमणि, जगद्वंधु,

जगत् द्वितकारी, जगद्गतसल, निष्कामी, आत्मानदी, करुणा सागर, ससारजलधि उद्धरण, परोपकार करनी में चतुर, क्रोधादि कषाय निवारक, स्व और पर का तारक, ऐसा मुनिराज, मेरे घर में चल कर आया, इस से मेरा अहो भाग्य है ! ऐसा जान कर सभ्रम सयुक्त समुख जाये, त्रिकरण शुद्ध परिणाम से कहे कि हे स्वामी ! दीनदयाल ! पधारो मेरे गृहागन को पवित्र करो, ऐसे बहुमान देकर घर में पधारो । मन में विचारे कि मेरा बडा पुण्योदय है, कि साधु आहार पानी का अनुग्रह करते हैं । क्योंकि साधु के आहार लेने में बड़ी विधि है । साधु शुद्ध भात पानी जाने, तो लेवे, इस वास्ते, मत मरे से कोई दोष उपजे । ऐसा विचार कर त्रिकरण शुद्ध, बहुमान पूर्वक उपयोग सयुक्त विधि पूर्वक आहार लाये, अथ मधुर स्वर से विनति कर, कि हे स्वामी ! यह शुद्ध आहार है, इस वास्ते सेवक पर परम कृपा करके, पात्र पसार के मेरा निस्तार करो, ऐसे बचन बोलता हुआ आहार देवे । मुनि भी उस आहार को योग्य जान कर ले लेवे, अथ थायक भी जितनी दान देने योग्य वस्तु है, उस सर्व की निमग्नणा करे । इस विधि से दान देकर हाथ जोड़ के पृथ्वी पर मस्तक लगा कर नमस्कार करे । पीछे भीठे बचनों से विनति करे कि हे कृपानिधान ! सेवक पर बड़ी कृपा करी, आज मेरा घर पवित्र हुआ, क्योंकि पुण्योदय विना मुनि का योग कहा

होता है ? फिर भी हे स्वामी ! कृपा करके अग्न, पान, खादिम, स्वादिम. औषध, वस्त्र. पात्र, शय्या, संस्तारकादि से प्रयोजन होवे, तब अवश्य सेवक पर अनुग्रह करके पधारना । आप तो मुनिराज, गुणवान्, वेपरवाह हो, आपको किसी बात की कमी नहीं, किसी के साथ प्रतिबन्ध नहीं, पवन की तरे प्रतिबन्ध से रहित हो, तो भी मेरे ऊपर जरूर कृपा करनी, ऐसे मुख से कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुंचावे । यह तीसरा गुण है ।

४. तहां से वन्दना करके पीछे आ कर भोजन करे, परंतु मन में आनंद समावे नहीं । विचारे कि मेरा बड़ा भाग्योद्भय हुआ, आज कोई भली बात होवेगी, क्योंकि आज मुनि, निःस्पृही, सहज उदासी, स्वसुखविलासी को मैंने विनति करी, आहार दिया, अरु आहार देते बीच में कोई विघ्न नहीं हुआ, इस वास्ते मेरा बड़ा भाग्य है, क्या फिर भी कभी ऐसे मुनि का योग मिलेगा ? ऐसी अनुमोदना वारं-वार करे । यह चौथा गुण है ।

५. जैसे कोई मंदभाग्यवान् व्यापार करते हुए थोड़ा थोड़ा कमाता है. तिस को किसी दिन कोई सौदे में लाख रुपये की प्राप्ति हो जावे, तब वो कैसा आनंदित होवे है । अरु फिर उस व्यापार की कितनी चाहना रखता है । इस से भी अधिक साधु को दान देने की चाहना श्रावक रखे । यह

पाचमा गुण है। इन पाच गुणयुक्त शुद्ध दान देवे, तो अतिथि सविभाग व्रत होवे।

इस व्रत के पाच अतिचार वर्ज, सो लिखते हैं —

प्रथम सचित्तनिक्षेप अतिचार—सो सचित्त—सजीव पृथ्वी, जल, कुम्भ, चूल्हा, इन्धनादिकों के ऊपर न देने की बुद्धि से आहार को रख छोड़े। अह मन में ऐसा चिन्तारे कि ए आहार साधु तो नहीं लेवेगा, परन्तु निमन्त्रणा करने से मेरा अतिथिसविभाग व्रत पल जावेगा।

दूसरा सचित्तपीहण अतिचार—सो सचित्त करके ढक छोड़े। सूरणकद, पत्र, पुष्प, फलादि करके, न देने की बुद्धि से ढक छोड़े।

तीसरा फालातिक्रम अतिचार—सो साधुओं के भिक्षा का काल लघ करके अथवा भिक्षा के काल से पहिले अथवा साधु आहार कर चुके, तब आहार की निमन्त्रणा करे।

चौथा परव्यपद्रामत्सर अतिचार—सो जब साधु मागे तब शोध करे। तथा वस्तु पास में है, तो भी मागने पर न देवे, अथवा इस फगाल ने ऐसा दान दिया, तो मैं क्या इस से हीन हूँ, जो न देऊँ ? इस भावना से देवे।

पाचमा—गुड़ गण्ड प्रमुख अपनी वस्तु है, सो न देने की बुद्धि से औरों की कहे।

यह सम्यग्भूतत्व पूर्वक वारह व्रतरूप गृहस्थधर्म का स्वरूप धर्मरत्न प्रकरण तथा योगशास्त्रादि ग्रन्थों से संक्षेप में लिखा है। जेकर विशेष देखना होवे, तो धर्मरत्नशास्त्रवृत्ति तथा योगशास्त्र देख लेना।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीवृद्धिविजय शिष्य मुनि

आनंदविजय—आत्माराम विराचिते जैनतत्त्वादर्शे

अष्टमः परिच्छेदः संपूर्णः



नवम परिच्छेद

इस परिच्छेद में श्रावक के छे कृत्यों [दिनकृत्य, रात्रिकृत्य, पर्वकृत्य, चातुर्मासिककृत्य, सप्तसरकृत्य, श्रावकदिनकृत्य, जन्मकृत्य, यह छ प्रकार के कृत्य हैं ।] में से प्रथम दिनकृत्य विधि, श्राद्धविधि ग्रन्थ तथा श्रावक कौमुदी शास्त्र के अनुसार लिखते हैं ।

प्रथम तो श्रावक को निद्रा थोड़ी लेनी चाहिये । जब एक प्रहर रात्रि शेष रहे, तब निद्रा छोड़ के जागन की विधि उठना चाहिये । जेकर किसी को बहुत नींद आती होवे, तब जघन्य चीन्मे ब्राह्म मूहत्त में तो जरूर उठना चाहिये, क्योंकि सपने उठने से इस लोक जरू परलोक के अनेक फाय सिद्ध होते हैं । उस अवसर में बुद्धि टिकी हुई अरु निमल होती है । पूर्वापर का अच्छी तरे से विचार कर सकता है । तथा ग्रन्थकार ऐसे भी कहते हैं, कि जिस के नित्य सोते हुए के सूर्य उग जाये, तिस की आयु अल्प होती है, इस वास्ते ब्राह्म मूहत्त में अवश्य उठना चाहिये । जब सोता उठे, तब मन में विचारे कि मैं श्रावक हूँ, अपने घर में तथा परघर में, इन दोनों में से कहा सोया था ? तथा हेठले मकान में सोया था कि चौपारे प्रमुक्त में सोया था ? दिनमें सोया था कि रात्रि को सोया था ? इत्यादि विचार करते भी जेकर निद्रा का घेग न मिटे तो नाक

अरु मुख का उच्छ्वास रोके, उस से निद्रा तत्काल दूर हो जाती है। पीछे दरवाजा अच्छी तरे से देव के लघुशंकादि करे। तथा रात्रि में किसी को कुछ कहना पड़े, तब मन्द स्वर से कहे, ऊंचे स्वर से न कहे। क्योंकि रात्रि में ऊंचा शब्द करने से छपकली प्रमुख हिंसक जीव जाग जाते हैं, फिर वो मक्खी आदिक जीवों की हिंसा करते हैं। तथा कसाई जाग जावे तो गौं, बकरी, भेड़ प्रमुख को मारने के वास्ते चला जावे। तथा माछी जाल ले कर मछली मारने को चला जावे। तथा चावरी, अहेडी, खून करने वाला, मदिरा बनाने वाला, परस्त्रीगमन करने वाला, तस्कर, लुटेरा, धाडी, धोवी, कुम्भार अरु जुआरी प्रमुख अनेक हिंसक जीव जाग कर अनेक तरें के पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। रात्रि में ऊंचे शब्द से बोलने वालों को यह सर्व पाप लगे, इस वास्ते रात्रि मे ऊंचे शब्द से न बोलना चाहिये।

जब सवेर के वक्त निद्रा भंग होवे, तब तत्त्वों के जानने वाले श्रावक को तत्त्वों का विचार करना शुभाशुभ तत्त्व चाहिये। सो तत्त्व पांच हैं, तिस का नाम और स्वर कहते हैं—१ पृथ्वी, २. जल ३, अग्नि, ४. वायु. ५. आकाश। निद्रा-छेद के समय में जेकर पृथ्वी तत्त्व अरु जल तत्त्व वहे, तब तो शुभ है, अरु जेकर अग्नि. वायु तथा आकाश तत्त्व वहे, तो दुःखदायक है। शुक पक्ष की पडवा के दिन जेकर त्रामी नासिका का स्वर

चले, तो पदरा दिन तक आनन्द आरोग्य रहे, अरु कृष्ण पक्ष की एकम के दिन जेकर दक्षिण नासिका का स्वर बहे, तो पदरा दिन तक सुख आनन्द रहे । इस से विपर्यय हो, तो विपर्यय फल होवे ।

तथा शुक्ल पक्ष के प्रथम तीन दिन वामी नासिका भयेरे उठते बह, तो शुभ है, अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले तो शुभ है, फिर अगले तीन दिन वाम स्वर चले तो शुभ है ऐसे ही क्रम से पदरा दिन तक जान लेना । अरु कृष्ण पक्ष की पड़वा के दिन से ले कर जेकर तीन दिन तक दक्षिण स्वर चले तो शुभ है, अगले चौथे दिन से ले कर तीन दिन तरु वाम स्वर चले तो शुभ है, फिर अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले तो शुभ है, ऐसे पदरा दिन तक जान लेना । तथा चन्द्रस्वर में सूर्य उगे अरु सूर्यस्वर में सूर्य अस्त होवे तो शुभ है । तथा सूर्यनाडी में सूर्य उदय होवे अरु चन्द्रनाडी में अस्त होवे, तो भी शुभ है । किसी शास्त्र के मत में रवि, मंगल, गुरु, अरु शनि, इन चार चारों में दक्षिण स्वर में सूर्यनाडी दिन उगते चले, तो शुभ है, अरु सोम, बुध तथा शुक्र, इन तीनों चारों के दिन सोते, उठते चन्द्रस्वर-वामस्वर चले, तो शुभ है, विपर्यय चले, तो अशुभ है ।

तथा किसी के मत में सक्राति के क्रम से सूर्य चन्द्र नाडी बहे तो शुभ है । जैसे मेष सक्राति के दिन सूर्यस्वर चले, अरु वृषसक्राति के दिन चन्द्र नाडी चले, तो शुभ जाननी,

इत्यादि । तथा किसी के मत में चन्द्रमा राशि पलटे तिस क्रम करके अढ़ाई घड़ी तक एक नाड़ी बहती है, इत्यादि । परन्तु जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रादिकों का तो प्रथम जो लिखा है, सो मत है । छत्तीस गुरु अक्षरों के उच्चारण करने में जितना काल लगता है, उतना काल वायु नाड़ी को दूसरी नाड़ी में संचार करते लगता है ।

अब पांच तत्त्वों की पहिचान कहते हैं । नासिका की पवन जेकर ऊंची जावे, तब तो अग्नि तत्त्व है; जेकर नीची जावे तो जल तत्त्व है, तिरछी जावे तो वायुतत्त्व; जेकर नासिका से निकल के सीधी, तिरछी जावे तो पृथ्वी तत्त्व; है जेकर नासिका, के दोनों पुटों के अन्दर बहे, बाहिर नहीं निकले तो आकाश तत्त्व जानना ।

पंहिले पवन तत्त्व बहता है, पीछे अग्नि तत्त्व बहता है, पीछे जल तत्त्व बहता है, पीछे पृथ्वी तत्त्व बहता है, पीछे आकाश तत्त्व बहता है, इन का क्रम सदा यही है । दोनों ही नाड़ियों में पांचों तत्त्व बहते हैं । उस में पृथ्वी तत्त्व पचास पल प्रमाण बहता है, जल तत्त्व चालीस पल प्रमाण बहता है, अग्नि तत्त्व तीस पल प्रमाण बहता है; वायु तत्त्व बीस पल प्रमाण बहता है, आकाश तत्त्व दस पल प्रमाण बहता है ।

पृथ्वी अरु जल तत्त्व में शांति कार्य करना । अग्नि, वायु, तथा आकाश, इन तीन तत्त्व में दीप्तिमान् अरु स्थिरकार्य करना, तब फलोन्नति शुभ होवे है । तथा जीवने का प्रश्न

पूछना, जय प्रश्न, लाभ प्रश्न, धन उत्पन्न करने का प्रश्न, मेघ वर्षने का प्रश्न, पुत्र होने का प्रश्न, युद्ध का प्रश्न, जाने आने का प्रश्न, इतने प्रश्न, जेकर पृथ्वी अरु जल तत्त्व में करे, तो शुभ होये । जेकर अग्नि तत्त्व अरु वायु तत्त्वके ग्रहते हुए ये प्रश्न करे तो शुभ नहीं । पृथ्वी तत्त्व में प्रश्न करे तो कार्य की सिद्धि स्थिरपने होये अरु जल तत्त्व में शीघ्र काय होये ।

जय पहल पहिले जिन पूजा करे, तथा धन कमाने के वास्ते जाये, पाणिग्रहण—विवाह की बेला, गढ़ लेने की बेला, नदी उतरने की बेला, तथा जो गया है सो आयेगा कि नहीं ? ऐसे प्रश्न करती बेला । जीवन के प्रश्न में तथा घर चोरादि लेती बेला करियाना लेते बेचते, धप के प्रश्न में, नौकरी करने की बेला, गेती करने के वक्त, शत्रु के जीतने में, विद्यारम्भ में, राज्याभिषेक में, इत्यादि शुभकार्य में चन्द्रनाडी वहे, तो कल्याणकारी है ।

प्रश्न के समय कार्य के आरम्भ में पूर्ण यामी, नाडी प्रवेश करती होये तो निश्चय काय की सिद्धि जाननी, इस में सदेह नहीं । तथा कैद में फर छूटेगा ? रोगी फर अच्छा होयेगा ? अरु जो अपने स्थान से भ्रष्ट हुआ है, तिसके प्रश्न में तथा युद्ध करने के प्रश्न में, चैरी की मिलती वक्त, अक स्मात् भय हुआ, स्नान करने लगे, भोजन पानी पीने लगे, सोने लगे, गई वस्तु के खोज करने में, मैथुन करने लगे, विवाद करने में, कष्ट में, इतने कार्यों में स्वयं नाडी शुभ है ।

कोई एक आचार्य ऐसे भी कहते हैं, कि विद्यारम्भ में, दीक्षा में, शास्त्राभ्यास में, विवाद में, राजा के देखने में, मन्त्र यन्त्र के साधने में मूर्धनाडी शुभ है । अथवा जो चंद्रादि स्वर निरन्तर चलता होवे, तो तिस पामे का पग उठा के प्रथम चले तो कार्य सिद्धि होवे ।

पापी जीवों के शत्रुओं के चोर प्रमुख जो क्लेश के करने वाले हैं, तिन के सन्मुख जो नासिका चन्द्र होवे. सो पासा इन के सामने करे । जो सुख लाभ जयार्थी है, उस में प्रवेश करना हुआ पूरा स्वर, वामा पग शुक्ल पक्ष में, अरु जमणा पग कृष्ण पक्ष में, शय्या से उठते हुए धरती पर रखे । इस विधि से श्रावक नाँद त्यागे ।

अरु श्रावक अत्यन्त बहुमान पूर्वक मंगल के वास्ते पंच-परमेष्ठी नमस्कार मन्त्र का स्मरण करे, नमस्कार मन्त्र शय्या में बैठे हुआ तो मन में पंचपरमेष्ठी और जपविधि नमस्कारमन्त्र का स्मरण करे, वचन से उच्चारण न करे । जेकर मुख से उच्चारण करे, तो शय्या छोड़ कर धरती पर बैठ कर नमस्कार मन्त्र को पढ़े । ऐसे नमस्कार मन्त्र का हृदय में स्मरण करता हुआ शय्या से उठे, पवित्र भूमि के ऊपर बैठे, तथा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा रह कर चित्त की एकाग्रता के वास्ते कमलबंध कर जपादि से नमस्कार मन्त्र पढ़े । तहां आठ पांखड़ी के कमल की कल्पना करके उस

की कर्णिका में अरिहत पद को स्थापन करे, पूर्व पाखडी में सिद्ध, दक्षिण पाखडी में आचार्य, पश्चिम पाखडी में उपाध्याय, उत्तर पाखडी में सागु पद को स्थापन करे। अथवा की चूलिका के जो चार पद हैं, सो अनुक्रम से अग्न्यादि चारों कोनों में स्थापन करे। “उक्तचाष्टमप्रकारे योगशास्त्रे श्रीहेमचन्द्रमूरिभिः” —

अष्टपत्रे मिताभोजे, कर्णिकाया कृतस्थितिम् ।

आद्य सप्ताक्षर मन्त्र, पवित्र चिंतयेत्ततः ॥१॥

सिद्धादिकचतुष्क च, दिग्पत्रेषु यथाक्रमम् ।

चूनापादचतुष्क च, त्रिदिक्पत्रेषु चिंतयेत् ॥२॥

त्रिशुद्धया चिंतयस्तस्य, शतमष्टोत्तर मुनि ।

भुजानोऽपि लभेत्तत्र, चतुर्थतपस फलम् ॥३॥

[श्लो० ३४, ३५, ३६]

हाथ के आर्त में पंच मंगल मन्त्र का जो नित्य स्मरण करे, उस को पिशाचादिक नहीं छलते हैं। यचनादि कष्ट में विपरीत शम्भुआर्तकादि में अक्षरों करके अथवा विपरीत पदों करके जो पंचमंगल मन्त्र का लक्षादि जाप करे, तो शीघ्र श्रेयादिकों का नाश होवे। जेकर हाथ पर जाप न कर सके तो सूत की, रत्न की, रुद्राक्षादि की माला पर जाप करे। माला वाला हाथ, हृदय के सामने रखे, शरीर में तथा

शरीर के वस्त्रों से तथा भूमिका से माला न लगने देनी। अंगुठे के ऊपर माला रख करके तर्जनी अंगुली से नख बिना लगाये मनका फेरे और मेरु उल्लंघन न करे। शास्त्रकार लिखते हैं कि जो अंगुली के अग्र से जाप करे, अरु जो मेरु उल्लंघ के जाप करे, तथा जो चिन्बरे हुए चित्त से जाप करे, यह तीनों जाप थोड़ा फल देते हैं। जाप करने वाला बहुतों से एकला अच्छा शब्द करके जाप करने से मौन करके करे, सो अच्छा है। जेकर जप करते थक जावे, तो ध्यान करे ध्यान करने से थक जावे, तो जप करे: दोनों से थक जावे, तो स्तोत्र पढे।

श्रीपादलिप्त आचार्यकृत प्रतिष्ठाकल्पपद्धति में लिखा है कि जाप तीन तरे का है—एक मानस, दूसरा उपांशु, तीसरा भाष्य। इन तीन में मानस उस को कहते हैं कि जो मन की विचारणा से होवे, स्वसंवेद्य होवे। अरु उपांशु उस को कहते हैं कि जो दूसरा तो न सुने, परन्तु अन्तर्जल्प रूप होवे। तथा जो दूसरों को सुनाई देवे, सो भाष्य। यह तीनों क्रम करके उत्तम, मध्यम, अरु अधम जान लेने। उस में मानस से शांति होती है, एनावता शांति के वास्ते मानस जाप करना अरु, पुष्टि के वास्ते उपांशु जाप करना, तथा आकर्षणादिक में भाष्य जाप करना।

नमस्कार मन्त्र के पांच पद, नवपद, अथवा अनानुपूर्वी को चित्त की एकाग्रता के वास्ते गुणे। तथा इस

नमस्कार मन्त्र का एक अक्षर अथवा एक पद भी जपे, तो भी जाप हो सकता है। योगशास्त्र के अष्टमप्रकाश में कहा है, कि पच परमेष्ठी मन्त्र के “अरिद्वत सिद्ध आयरिय उवज्जाय साहु” इन सोळा अक्षर का जाप करे, तथा “अरिद्वत सिद्ध” इन पंद्रह वर्ण का जाप करे, तथा ‘अरिद्वत’ इन चार अक्षर का जाप करे, तथा ओंकार जो वर्ण है, सी भी मन्त्र है, इस के जाप से स्वर्ग मोक्ष का फल होता है। व्यवहार फल ऐसे जानना, कि पंद्रह वर्ण का जाप तीन सौ बार करे, तथा चार वर्ण का जाप चार सौ बार करे, अथ सोळा अक्षर का जाप दो सौ बार करे तो एक उपनाम का फल होता है। तथा नाभि कमल में स्थित अकार को ध्याये, अथ सि वर्ण को मस्तक कमल में ध्याये, तथा आकार को मुख कमल में ध्याये। हृदय कमल में स्थित उकार को ध्याये, तथा साकार को कण्ठ पिंडर में ध्याये। यह सब कल्याणकारी जाप है। “अ सि आ उ सा” यह पाच बीज हैं। इन पाचों बीजों का ओंकार घनता है।

तथा और बीज मंत्रों का भी जाप करे, जैसे “नम सिद्धेम्य” जेकर इस लोक के फल की इच्छा होये तब तो ओंकार पूरक पढ़ना चाहिये, अथ मोक्ष वास्ते जपे, तो ओंकार रहित पढ़ना चाहिये। इस जपादि के करने में बहुत फल होता है। यत् —

पूजाकोटिसमं स्तोत्रं, स्तोत्रकोटिसमो जपः ।
जपकोटिसमं ध्यानं, ध्यानकोटिसमो लयः ॥

[उप० त०, त० ३ श्लो० १६]

ध्यान की सिद्धि के वास्ते श्रीजिन-जन्म-दीक्षादि कल्याणक भूमिरूप तीर्थ में जावे, अथवा और कोई विविक्त स्थान होवे, तहां ध्यान करे । ध्यान का स्वरूप देखना होवे, तो आवश्यक सूत्रांतर्गत ध्यानशतक में देख लेना । नमस्कार मंत्र का जो जाप है, सो इस लोक तथा परलोक में बहुत गुणकारी है । महानिशीथ में कहा है:—

नासेइ चोर सावय विसहर जल जलण वंधण भयाइं ।
चितिज्जंतो रक्खस रण राय भयाइं भावेण ॥

अर्थ:—चोर, सिंह, सर्प, पानी, अग्नि, बंधन, संग्राम, राजभय, इतने भय पंचपरमेष्ठी मंत्र के स्मरण से नष्ट हो जाते हैं । परन्तु एकाग्रता भाव से जपे, तो यह फल होता है । पंचपरमेष्ठी मंत्र सर्व जगे पढ़ना चाहिये, नमस्कार मंत्र का एक अक्षर जपे, तो सात सागरोपम का करा हुआ पाप नष्ट होता है । जेकर संपूर्ण पंचपरमेष्ठी मन्त्र को जपे, तो पांच सौ सागर का करा हुआ पाप नष्ट हो जाता है । तथा जो पुरुष एक लक्ष बार पंचपरमेष्ठी मंत्र का जाप करे, अह तिस की विधि से पूजा करे, तो तीर्थंकर नामकर्म गोत्र का

वच करे, इस गत में सदेह नहीं। तथा जो जीव आठ कोठी, अठ लाख, आठ हजार, आठ सौ आठ धार, इस पंच परमेष्ठी मन्त्र का जाप करे, वो जीव तीसरे भव में सिद्ध हो जाता है। इस वास्ते सोते, उठते प्रथम नमस्कार मन्त्र का स्मरण करना। तिस के पीछे धर्मजागरणा करनी।

यथा—म कौन हूँ, क्या मेरी जाति है, क्या मेरा कुल है, कौन मेरा इष्ट देव है, कौन मेरा गुरु है, धर्मजागरणा क्या मेरा धर्म है, क्या मेरे अभिग्रह हैं, क्या मेरी अवस्था है क्या मैंने सृष्टतादि करा है, क्या मैंने दुष्टतादि नहीं करा है, क्या मैं करने समर्थ हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझ को कोई देयता है कि नहीं, अपनी भूल को आत्मा जानता है, फिर क्यों नहीं छोड़ता तथा आज कौनसी तिथि है, क्या अर्द्धत का कल्याणक दिन है, आज मेरा क्या कृत्य है, मैं किस देव में तथा किस काल में हूँ। सप्रेरे उठ के ऐसे स्मरण करने से जीव सावधान हो जाता है। जो विरुद्ध कृत्य हैं, उन का परिहार करता है तथा अपने नियम का निर्वाह अरु नवीन गुण की प्राप्ति होती है। इसी धर्मजागरणा से प्रतिबुद्ध होकर आनन्द, कामदेवादि श्रावकों ने प्रतिमादि त्रयोप धर्मकरनी का अनुष्ठान किया है।

तिस पीछे जो श्रावक प्रतिश्रमण करने वाला होवे, तो प्रतिश्रमण करे। अरु जो प्रतिश्रमण न करे, स्वप्नविचार सो भी रागादिमय, कुस्यम प्रहेयादिमय अनिष्ट फट का सूचक, तिस के दूर करने

के वास्ते, तथा स्वप्न में खी मे प्रसंगादि करने के खोटे स्वप्न का उपलंभ हुआ होवे, तब एक सौ आठ उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे, अन्यथा सौ उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे। चार लोगस्स का काउस्सग करे। यह कथन व्यवहार भाष्य में है। तथा = विवेकविलासादि ग्रन्थों में तो ऐसे लिखा है, कि स्वप्न देखने के पीछे फिर नहीं सोना, अरु स्वप्न को दिन में सद्गुरु के आगे कहना, जेकर खोटा स्वप्न आवे तो फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कहना न चाहिये। तथा समधातुवाला, प्रशान्तचित्तवाला, धर्मी और नीरोगी, जितेंद्रिय, इन को जो शुभाशुभ स्वप्न आवे, सो सत्य ही होता है। स्वप्न जो आता है, सो नव कारणों से आता है। सो नव कारण कहते हैं।

१. अनुभव करी हुई वस्तु का स्वप्न आता है, २ सुनी हुई वान का, ३. देखा हुआ, ४. प्रकृति—वात, पित्त अरु कफ के विकार से, ५. चिंतित वस्तु का, ६. सहज स्वभाव से, ७ देवता के उपदेश से, ८. पुण्य के प्रभाव से, ९. पाप

= सुस्वप्नं प्रेष्य न स्वप्न, कथ्यमहि च सद्गुरोः ।

दुःस्वप्न पुनरालोक्य, कार्यं प्रोक्तविपर्ययः ॥

समधातोः प्रशान्तस्य, धार्मिकस्यपि नीरुजः ।

स्याता पुंनो जिताक्षस्य, स्वप्नौ सत्यौ शुभाशुभौ ॥

के प्रभाव से । इनमें आदि के छ कारणों से जो स्वप्न आये, सो निरर्थक है, अरु अगले तीन कारणों से जो स्वप्न आये तो सत्य होता है ।

रात्रि के पहिले पहर में स्वप्न आवे, तो एक वष में फल देवे, अरु दूसरे पहर में स्वप्न आये, तो छ महीने में फल देवे, तीसरे पहर में स्वप्न आये, तो तीसरे महीने में फल देवे, चौथे पहर में स्वप्न आवे, तो एक मास में फल देवे, सवेरे दो घड़ी रात्रि मे स्वप्न आवे, तो दस दिन मे फल देवे, सूर्योदय में स्वप्न आये, तो तत्काल फल देवे ।

१ जो स्वप्न मे ऋतु आल जजाल देखे, २ जो रोगोदय से स्वप्न आवे तथा ३ जो मलमूत्र की बाधा से स्वप्न आये, यह तीनों स्वप्न निरर्थक हैं । जेकर पहिले अशुभ स्वप्न आवे, अरु पीछे से शुभ स्वप्न आवे, तो शुभ फल देवे । तथा पहिले शुभ स्वप्न आवे, पीछे अशुभ आवे, तो अशुभ फल देवे । जेकर खोटा स्वप्न आवे तो शांति अर्थात् देवपूजा दानादि करना । तथा स्वप्नचिंतामणि नामक ग्रन्थ में भी लिखा है, कि अनिष्ट स्वप्न दब कर सो जाये, अरु किसी को कहे नहीं तो फिर वो स्वप्न, फल नहीं देता है । सोते उठ कर जिनेश्वरदेव की प्रतिमा को नमस्कार करके जिनेश्वर का ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण करे, पंचपरमेष्ठी मन्त्र पढ़े, तो खोटा स्वप्न चित्त हो जाना है । अरु जो पुरुष देव गुरु की पूजा करते हैं, तथा निजशक्ति के अनुसार

तप करते हैं, निरन्तर धर्म के रागी हैं, तिनों को खोटा स्वप्न भी अच्छा फल देता है । तथा जो पुरुष, देवगुरु का स्मरण करके अरु शत्रुंजय समेतशिखर प्रमुख शुभ तीर्थों का नाम, तथा गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी प्रमुख आचार्यों का नाम स्मरण करके सोवे. उस को कदापि खोटा स्वप्न नहीं होता है ।

थूकना होवे. तो राख में थूकना चाहिये, शरीर को दृढ करने के वास्ते हाथों करके वज्रीकरण करे, अश्रितत्व, अरु पवनतत्व, जब बहता होवे, तब धाप करके आकंठ—कंठ ताँई दुध पीवे । कई एक आचार्य कहते हैं कि आठ पसली पानी की पीवे, इस का नाम वज्रीकरण है । तथा सवेरे उठ कर माता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुख को नमस्कार करे, तो तीर्थयात्रा के समान फल होता है । इस वास्ते यह प्रति दिन करनी चाहिये । तथा जिसने बृद्धों की सेवा नहीं करी है, उस को धर्म की प्राप्ति नहीं होती है । बृद्ध उस को कहते हैं कि जो शील में, सन्तोष में, तथा ज्ञान, ध्यानादिक में बड़े होवें । तिन की सेवा अवश्य करनी चाहिये । तथा जिसने राजा की सेवा नहीं करी है, अरु जिसने उत्पन्न होते हुए अपने शत्रु को वन्द नहीं करा, तिस पुरुष से धर्म, अर्थ अरु सुख दूर है ।

श्रावक को सरेरे उठ करके चौदह नियमों को धारण करना चाहिये । तिन का स्वरूप ऊपर लिख व्रतभग का विचार आये हैं । तथा विवेकी पुंश्रुप प्रथम सम्यक्त्व पूर्वक द्वादश व्रत, विधि पूर्वक गुरु के मुख से धारण करे । अरु प्रिरति जो पलती है, सो अभ्यास से पलती है । इस वास्ते धर्म का अभ्यास करना चाहिये । विना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी तरे नहीं करी जाती है । ध्यान मौनादि सर्व अभ्यास करने से दु साध्य नहीं । जो जीर इस जन्म में अच्छा वा घुरा जैसा अभ्यास करता है, सोई प्राय अगले जन्म में पाता है । तथा पचमी अष्टमी, चतुदशी आदि के दिन में तप आदि नियम जो जो धर्मा पुरुषने अगीकार किया है, उस में तिव्यतर की भ्रात्यादि करके जो सचिन्त जलादि पान, तरोल भक्षण, कितनाक भोजन भी कर लिया है, पीछे से ज्ञान हुआ कि आज तो तप का दिन था ! तत्र जो कुछ मुख में हीरे, उस को रादा दिक में गेर देवे, और प्राशुक पानी से मुखगुद्धि कर तप करे हुए की तरे रहे, तो नियम भग नहीं होता है । अरु जेकर सपूर्ण भोजन करा पीछे जान पड़े कि आज तप का दिन है तब अगले दिन दड के निमित्त वह तप करे । समाप्ति होने पर पोरिसी, पकाशनादि तप अधिक करे । अरु जेकर तप का दिन जान कर एक दाना भी खावे, तो व्रतभग हो जाना है । जो व्रत का भग जान करके करना है, सो नर

यन, सौंफ, सोआ, राई, खसखस प्रमुख
 सचित्त और सर्व कण, सर्व पत्र, सर्व हरे फल, तथा
 अचित्त वस्तु लूण, खारी, खारक अर्थात् छुहारे, रक्त-
 लाल रंग का सेंधा लूण, खान का-
 सौचल लूण, खारा, मट्टी, खरी, हिरमची, हरी दातन,
 इत्यादि, ये सर्व व्यवहार से सचित्त-सजीव हैं। तथा पानी में
 भिंजोये हुए चने, गेहूं आदि अन्न, तथा चने, मूंग, उड़द,
 तुअर प्रमुख की दाल, जिस में नक्कू रह गया होवे, ये सर्व
 मिश्र हैं। तथा पहिले लूण लगाये विना, अग्नि की वाष्पादि
 दिये विना और तप्त बालु-रेत के गेरे विना चने, गेहूं, जुवा-
 रादि भूंजे, तथा खारादि दिरे विना मसजे-हुये तिल, होलां,
 ऊंवियां, सिद्धे, पहुंक, ईषत् सेकी फली; मिरच, राई, हींग,
 प्रमुख करके वधारे चिर्भटादि फल, तथा जिस के अन्दर बीज
 सचित्त है, ऐसे पके हुये सर्व फल; यह सब मिश्र है। तथा
 तिलवट्ट-तिलकूट जिस दिन करे उस दिन मिश्र है। अरु
 जेकर तिलों में अन्न-रोटी प्रमुख गेरके कूटे, तो एक सुहूर्त्त
 पीछे अचित्त होवे। तथा दक्षिण मालवादि देशों में बहुत
 गुड़ प्रक्षेप करने से उसी दिन अचित्त हो जाते हैं। तथा
 वृत्त से तत्काल का उखड़ा हुआ गूद, लाख, छिल्लक, तत्काल
 का फोड़ा हुआ नारियल तथा निंबू, दाडिम, अनार, अंब, नींबू,
 ईख, इन का तत्काल का काड़ा हुआ रस, तथा तत्काल का
 काड़ा हुआ तिलादि का तेल, तत्काल का भांग्या हुआ बीज,

तथा काटे हुए ललेर, सिंघाडे, सोपारी आदि, तथा गीज रहित किया हुआ पक्क फल खरबूजादि, गाढ़ मर्दन से कणरहित किया हुआ जीरादि ये सर्व अतर्मुहत्त लग मिश्र हैं । पीछे प्राशुक का व्यवहार है । तथा और भी प्रचल अग्नि के योग विना प्राशुक करे हुए अतर्मुहत्त तक मिश्र हैं, पीछे प्राशुक का व्यवहार है । तथा अप्राशुक पानी, कच्चा फल, कच्चा जड़, इन को जेकर बहुत मर्दन भी करें, तो भी लवण अग्न्यादिक प्रचल शस्त्र विना ये प्राशुक नहीं होते हैं । क्योंकि श्रीपचमाग भगवती सूत्र के उन्नीसमे शतक के तीसरे उद्देशे में लिखा है । कि धज्जमयी शिला पर धज्जमयी लोहा से आमले प्रमाण पृथ्वीकाय लेकर इक्कीस बार पीसे, तब कितनेक पृथ्वी के जीवों को लोहे का स्पर्श भी नहीं हुआ है, ऐसी उन जीवों की सूक्ष्म काया है । तथा सी योजन से उपरात आये हुए हरडा गारक, किममिस, लाल द्राक्षा, मेवा गजूर, काली मिरच, पीपर, जायफल, बदाम, अपरोट, न्योजा जर गोजा पिस्ता, सीतलचीनी, स्फटिक समान उज्ज्वल संधा लूण, सजी, भट्टी में पकाया हुआ लूण, यनाग्रट का चार पुमार की कमाई हुई भट्टी, इलायची, लवण, जायत्री, सूखी मोथ, कोकण त्रेष प्रमुष के केले, बदलीफल, उयाले हुए सघाडे, सोपारी, इन सर्व का प्राशुक व्यवहार है । साधु भी कारण पडे तो ले लेंगे । यह बात कपमाध्य में भी लिखी है । यथा—

जोयगासयं तु गंतुं. अगाहारेणं तु भंडसंकती ।

वायागगिाध्रमेण य, विद्धत्थं होइ लोगाई ॥

इन में से हरड, पीपल प्रमुख तो, आचीर्ण हैं, इस वास्ते लेते हैं, अरु खर्जूर, द्राक्षा प्रमुख अनाचीर्ण हैं । तथा उत्पलकमल, पद्मकमल, धूप में रखे हुए एक पहर के अभ्यंतर ही अचित्त हो जाते हैं । तथा मोगरे के फूल, जुहि के फूल, यह धूप में बहुत चिर भी पड़े रहें, तो भी अचित्त नहीं होते हैं । तथा मगदंति का पुष्प अर्थात् मोगरे के फूल पानी में गेरे रहे, तो एक पहर के अन्दर ही अचित्त हो जाते हैं । तथा उत्पल—नीलकमल अरु पद्मकमल, ये दोनों पानी में गेरे रखने से बहुत काल में भी अचित्त नहीं होते हैं । “शीन-थोनिकत्वात्’ । तथा पत्रों का, फूलों का, जिन फलों में अभी तक गुठली बनी नहीं है, तिन का तथा वथुआ प्रमुख हरित वनस्पति का, इन सब का वृन्त-डण्डी ही कुमलाय जावे, तत्र ये जीव रहित हुए जानने । यह कथन श्रीकल्पभाष्य-वृत्ति में है ।

तथा श्रीपंचमांग के छठे शतक के पांचमे उद्देशे में सचित्ताचित्त वस्तु का स्वरूप ऐसा लिखा सचित्ताचित्त की है—शालि, व्रीहि, गेहूं, जव, जवजवः ये कालमर्यादा पांच धान्य की जाति कौठार में, तथा ठेके पाले में तथा मंचा, माला, कौठार विशेषों में

मुग ढाक के रफवे, लीपा होवे तथा चारों तफ से लीपा होवे, ऊपर षोई और ढकना दिया होवे, मुद्रित, लाठिन करके रफवे, तो कितने काल ताइ जीवयोनि रहे ? ऐसा प्रश्न पूछने से भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! जघन्य तो अतर्मुहूर्त्त रहे, अरु उत्कृष्ट तो तीन वर्ष रहे, फिर अचित्त हो जाये । तथा भद्रर मसूर, तिल, मूग, उड़द, घाल, कुलथी, चण्डा, तुभर, गोल चणे इत्यादि धान्य सर्व ऊपरवत् जानना । * नवर उत्कृष्ट से पाच वर्ष उपरात अचित्त होते हैं । तथा अलसी, कुसुमे की फरड, षोडु कगुनी, घरटी, राल, कोरडसक, सण, सरसों, मूली के बीज, इत्यादि धान्य भी ऊपरवत्, नवर उत्कृष्ट से सात वर्ष उपरात अचित्त हो जाते हैं । तथा कर्पास के विनाँले, उत्कृष्ट तीन वर्ष से उपरात अचित्त—जीव रहित हो जाते हैं । यह कथन भी कल्पनाभाष्यवृत्ति में है । तथा विना छना आटा धारण माद्यों के महीने में पाच दिन तक मिथ्र रहता है, पीछे अचित्त होता है । आसोज, कात्तिक मास में चार दिन तक मिथ्र रहता है, पीछे अचित्त हो जाता है । मगसिर, पौष मास में तीन दिन मिथ्र रहता है, पीछे अचित्त होता है । माघ, फाल्गुन मास में पाच पहर मिथ्र रहता है । चैत्र, वैशाख मास में चार पहर मिथ्र रहता है । तथा ज्येष्ठ आषाढ़ में तीन पहर मिथ्र रहता है उपरात अचित्त

हो जाना है । जेकर तत्काल छान लेवे, तब अन्तर्मुहूर्त्त लग मिश्र रहे, पीछे अचित्त होवे ।

शिष्य प्रश्न करता है, कि पीसा हुआ आटा कितने दिन का अचित्तभोजी श्रावक को खाना चाहिये ?

उत्तर.—सिद्धांत में हम ने आटे की मर्यादा का नियम नहीं देखा है । परन्तु बुद्धिमान् नवा, जीर्ण अन्न, तथा सरस नीरस क्षेत्र, तथा वर्षा, शीत, उष्णादि ऋतु, तिन में तिस आटे का पन्द्रा दिन मासादि काल में वर्ण, गंध, रस स्पर्शादि विगड़ा देखे, तथा सुरसली प्रमुख जीव पड़ा देखें, तब न खावे. जेकर खावे, तो जीव हिंसा अरु रोगोत्पत्ति का कारण है ।

तथा मिठाई की मर्यादा, अरु विदल का निषेध, ऊपर सातमे व्रत में लिख आये हैं, तहां से जान लेना । तथा दही में सोलां पहर उपरांत जीव उत्पन्न होते हैं । तथा विवेकी जीव को बैंगन, टींवरु, जामन, विल्व, पीलूं, पक करमद, पका गूदा, लसूड़ा, पेंचु, मधुक-महुवा, मोर, वालोल, वडे चार. झाड़ी के चोर, कच्चा कौठफल, खसखस, तिल, इत्यादि न खाने चाहियें । इन में त्रस जीव होते हैं । तथा जो फल रक्त-लालरंग देखने में बुरा लगे, पक. गोल, कंकोड़ा, फणस, कटेण्ड प्रमुख भी बुरी भावना के हेतु होने से न खाने चाहियें । तथा जो फल जिस देश में खाना विरुद्ध होवे, जैसे कड़वा तूदा. कूमांड अर्थात् कोहडा—हलुवा कहु, सो भी न खाना

चाहिये । अरु अमक्षय, अनन्तकाय, कदमूल, परधर के अचित्त करे, राधे हुये भी न खाने चाहिये । क्योंकि एक तो नि शूकता अरु दूसरी रस लपटता तथा वृद्ध्यादि दोष का प्रसंग होता है, इस वास्ते न खाना चाहिये । तथा उकाला हुआ मेलरा, राधा हुआ आर्द्रादि कद, सूरण, घैंग नादि, यद्यपि अचित्त हैं, तो भी श्रावक, प्रसंग दूषण त्यागने के वास्ते न खाये । तथा मूली तो पचाग ही खाने योग्य नहीं 'निपिद्धत्वात्'—निपिद्ध होने से । तथा सोंठ, हल्दी, नाम अरु स्वाद के भेद होने से अमक्षय नहीं हैं । तथा उष्ण जल, तीन उवाले आ जावें, तब अचित्त होता है, यह कथन पिंडनिर्मुक्ति में है । चावलों के धोवन का पानी जब निरर के निमल हो जावे, तब अचित्त होता है । तथा उष्ण जल की मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रंथों में ऐसे लिखी है—त्रिदण्टोद्धृत उष्ण जल, उष्णकाल के चारों मास में पाच प्रहर अचित्त रहता है । यह चूल्हे से उतारे पीछे की मर्यादा है । तथा वर्षा के चारों मास में तीन प्रहर अचित्त अरु शीत काल के चारों मास में चार प्रहर अचित्त रहता है । पीछे सचित्त होता है । जेकर ग्लान, बाल, वृद्धादि साधु के वास्ते मर्यादा उपरात रखना होवे, तब चारादि वस्तु का प्रक्षेप करके रखना । फिर सचित्त नहीं होता है । यह कथन प्रवचनसारोद्धार के १३६ द्वार में है । तथा कोकडु मोठ, मूग अरु हरडादिक की मीजी-गिटक यह यद्यपि अचेतन हैं,

तो भी योनि रखने के वास्ते तथा निःशुक्रतादि के परिहार के वास्ते दांतों से तोड़ना-भांगना न चाहिये । इत्यादि सच्चित्त वस्तु का स्वरूप जान कर सानमा व्रत अंगीकार करना चाहिये ।

श्रावक को प्रथम तो निरवद्य-द्रूपण रहित आहार खाना चाहिये । ऐसे न कर सके तो सर्व सच्चित्त प्रत्याख्यान खाने का त्याग करे । ऐसे भी न कर सके तो विधि बावीस अभक्ष्य अरु वत्तीस अनंतकाय तो अवश्यमेव त्यागने चाहियें, तथा चौदह नियम धारने चाहियें । ऐसे सोता उठ कर यथा शक्ति नियम ग्रहण करे । पीछे यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे । नमस्कार सहित पौरुष्यादि प्रत्याख्यान काल जो है, सो जेकर सूर्य उगने से पहिले उच्चारण करिये, तब तो शुद्ध है, अन्यथा शुद्ध नहीं । अरु शेष प्रत्याख्यान सूर्योदय से पीछे भी हो सकते हैं । तथा यह नमस्कार सहित प्रत्याख्यान जेकर सूर्योदय से पहिले उच्चारण करा हुआ होवे, तब तिस को पूर्व होने से तिस के बीच ही पौरुषी साढ़ पौरुष्यादि काल प्रत्याख्यान हो सकता है । जेकर नमस्कार सहित सूर्योदय से पहिले उच्चारण न करिये, तब तो कोई भी काल प्रत्याख्यान करना शुद्ध नहीं । अरु जेकर प्रथम नमस्कारादि प्रत्याख्यान मुष्टिसहितादि करे, तब सर्व काल प्रत्याख्यान करे, तो शुद्ध है ।

तथा रात्रि मं चौविहार करे अर दिन में एकासना करे, पीछे ग्रथि सहित प्रत्याख्यान करे, तब तिस को प्रतिमास उनतीस उपवास का फल होता है । दो बार भोजन उक्त रीति से करे, तो अठावीस उपवास का फल होता है । क्योंकि दो घड़ी का काल भोजन करते लगता है, शेष काल तप में व्यतीत हुआ । यह कथन पञ्चचरित्र में है । प्रत्याख्यान उपयोग पूर्वक पूरा हो जाने, तब पारे ।

चार प्रकार के आहार का विभाग ऐसे है । एक तो अन्न, पक्वान्न, मण्डक, सन्नू आदि जो शुद्धा दूर करने को समर्थ होने, सो प्रथम अशन नामक आहार है । दूसरा छाछ का पानी, तथा उष्ण जलादि, यह सर्व पानक नामक आहार है ।

तीसरा फल, फूल, इक्षुरस, पहुक, सूगडी आदिक यह सर्व ग्वादिम नामक आहार है । चौथा सूंड, हरडें पिंपली, कार्जी मिरच, जीरा, अजमक, जायफल, जायत्री, अमेलक, कत्था, चैरगडी, मधुयष्टि-मुलठी, तज, तमालपत्र, एलायची, कुठ, त्रिडग, चिडलगण, अजमोद, कुलजण, पिप्पलामूल, कवारचीनी, कचूर, मुस्ता, कर्पूर सांचल, हरड, बहेड़ा, चतूल, धत्र, गदिर, खेज की छाल, पान, सोपारी हिंगुला एक, हिंगु, त्रैवीसओ पचल, पुष्करमूल, जवासामूल, वायची, तुलसी, कपूरिकदादिक, जीरा, यह सर्व भाष्य अथ प्रवचन सारोद्धारान्तिक ग्रंथों के लेख से ग्वादिम नामक आहार

है। अरु कल्पवृत्ति में इन को खादिम लिखा है। कोई एक अजवायन को भी खादिम कहते हैं। यह मतांतर है। यह सर्व स्वादिम नामक आहार है। तथा एलायची कर्पूरादि वासित जल द्विविध आहार प्रत्याख्यान में पीना कल्पता है। तथा वेसण, सौफ, सोय, कोठवड़ी, आमलागांठ, अंब की गुठली, निंबू के पत्र प्रमुख खादिम होने से द्विविध आहार प्रत्याख्यान में नहीं कल्पते हैं। त्रिविध आहार प्रत्याख्यान में तो जल ही पीना कल्पता है। तिस में भी फूंकारा हुआ पानी, साकर, कर्पूर, एलायची, कत्था, खदिर, चूर्णक, सेलक, पाड़लादि वासित जल, जेकर नितार अरु छान के लेवे तो कल्पे, अन्यथा नहीं।

तथा शास्त्रों में मधु, गुड़, साकर, खांड आदि भी स्वादिम कहे हैं। अरु द्राक्षा, शर्करादि, जल, तक्र-छाछादि को पानक कहा है। तो भी द्विविध आहार प्रत्याख्यान में नहीं कल्पते हैं। नागपुरीय गच्छ प्रत्याख्यानभाष्य में कहा है:—

दक्ष्णा पाणार्इयं, पाणं तद् साइमं गुडार्इयं ।

पठियं सुयंमि तहवि हु, तित्तो जणगंति नायरिअं ॥

स्त्री के साथ भोग करने से चौविहार भंग नहीं होता है, परन्तु बालक तथा स्त्री के होठ मुख में लेकर चर्वण करे, तो भङ्ग होवे। अरु द्विविध आहार प्रत्याख्यान में यह भी करे तो भंग नहीं होता। प्रत्याख्यान जो है सो कवल आहार

का है, परन्तु रोम आहार का नहीं है । इस वास्ते लेपादि करने स भग नहीं ।

तथा निम्नलिखित इतनी वस्तु किसी आहार में भी नहीं हैं—पचाग नाँव गोमूत्र, गिल्लोय, कड़ु, चिरायता, अतिविष, कुडे की छाल, चीड, चदन, राख, हरिद्रा, रोहणी ऊपलोट, वच, त्रिफला बबूल की छिलक, धमासा नादि, शसगध, रींगणी, पलुवा, गुगल, हरटा, दाल, कर्पास की जड घेरी, कथेरी करीर, इनकी जड़ पुआड, मोढथोहर, आछी, मजीठ, थोड, बीजकाष्ठ, कुआर, चित्रक, कुदरु प्रमुख जो वस्तु ग्याने में अनिष्ट लगे वो सर्व अनाहार है । यह अनाहार वस्तु रोगादि कष्ट में चौविहार प्रत्याग्यान में भी खा लेवे, तो भग नहीं । इस तरह आहार के भेद जान के प्रत्याग्यान करे ।

पीछे मलोत्सग, दत्तधायन, जिह्वालेपन, कुरला करना,

यह सर्व देश स्नान करके पवित्र होवे, यह

मलोत्सर्गविधि कहना अनुवाद रूप है । क्योंकि यह पूवाक्त

कम सपेरे उठ के प्राय सब गृह थ करते हैं ।

इस में शास्त्रोपदेश की अपेक्षा नहीं, स्वत ही सिद्ध है । परन्तु

इनकी विधि शास्त्र कहता है । उसमें प्रथम मलोत्सग की

विधि यह है, कि मलोत्सर्ग मौनसे करना चाहिए, और

निद्रूपण-योग्य स्थान में करे । यत —

मूत्रोत्सर्गं मलोत्सर्गं, मैथुनं स्नानभोजने ।

संध्यादिकर्म पूजा च, कुर्याज्जापं च मौनवान् ॥

अर्थः—मूतना, दिशा फिरना, मैथुन करना, स्नान, भोजन संध्यादि कर्म, पूजा, जाप, यह सर्व मौनपने करने । तथा दोनों संध्या वस्त्र पहिर के करे । तथा दिन में उत्तर के सन्मुख हो करके, अरु रात्रि को दक्षिण दिशा के सन्मुख हो, करके लघुशंका उच्चार करे । तथा सर्व नक्षत्रों का तेज सूर्य करके जब भ्रष्ट हो जावे, जहां तक सूर्य का आधा मांडला उगे, तहां तक सवेरे की संध्या करनी । तथा सूर्य आधा अस्त होवे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक नजर न पड़ें, तहां तक सायंकाल कहते हैं । तथा राख का ढेर, गोबर का ढेर, गौ के बैठने के स्थान में, सर्प की बंवी पर तथा जहां बहुत लोग पुरीपोत्सर्ग करते होवें, तथा उत्तम वृक्ष के हेठ, रस्ते के वृक्ष के हेठ, रस्ते में, सूर्य के सन्मुख, पानी की जगह में, मसानों में, नदी के कांठे पर, तथा जिस जगह को स्त्री पूजती होवे, इत्यादि स्थानों में मलोत्सर्ग न करे । परन्तु जहां बैठने से कोई मार पीट न करे, पकड़ के न ले जावे, धर्म की निंदा न होवे, तथा जहां बैठने से गिरे, फिसले नहीं, पोली भूमि न होवे, घासादि न होवे, ब्रस जीव बीज न होवे, इत्यादि उचित स्थान में मलोत्सर्ग करे । गाम के तथा किसी के घर के समीप मलो-

त्सग न करे । तथा जिस तरफ़ से पत्र आती होये, तथा गाम, सूर्य, पूर्व दिशा की तरफ़ पीठ करके मलोत्सग न करे । दिशा अरु मूत्र का वेग रोकना नहीं, क्योंकि मूत्र के वेग रोकने से नेत्रों में हानि होती है । तथा दिशा का वेग रोकने से काल हो जाता है । तथा वमन रोकने से कुष्ठ रोग हो जाता है । जेकर ये तीनों बात न होवेंगी तो रोग तो जरूर हो जायेगा । श्लेष्मादि करके ऊपर धूलि गेर देवे । क्योंकि श्रीप्रज्ञापनोपाग के प्रथम पद में लिखा है, कि चौदह जगे में समूर्च्छिम जीव उत्पन्न होते हैं । सो चौदह स्थानक कहते हैं —

१ पुरीष में, २ मूत्र में, ३ मुखके थूक में, ४ नाक के मेल में ५ वमन में, ६ पित्तों में, ७ वीथ में, ८ वीथ रुधिर दोनों में, ९ राध में, १० वीथ का पुद्गल अलग निकल पडे, उसमें, ११ जीव रहित कलेवर में, १२ स्त्री पुरुष के संयोग में, १३ नगरी की मोरी में १४ सर्व अगुच्छि स्थान में, फान की मैल में, आस की गीद में, फान की मैल प्रमुख में, यह सब चौदह बोल मनुष्य के ससग बाने ग्रहण करने । अरु जय ये शरीर से अलग होयें, नत्र इनमें जीव उत्पन्न होते हैं ।

तथा दातन भी निरपच स्थान में धरे । दातन अचित्त

जाने हुए वृत्त की कोमल करे । तथा दांतों दंतधावन विधि को दृढ करने के वास्ते तर्जनी अंगुली से दांतों की वीड घिसे । जो दांतों की मैल पड़े, उसके ऊपर धूलि गेर देवे । तथा दातन भी कैसी करे ? जो दातन सीधी होवे, बीच में गांठ न होवे, कूर्च अच्छा होवे, आगे से पतली होवे, चँट्टी अंगुली समान मोटी होवे, सुभूमि की उत्पन्न हुई होवे, ऐसी दातन कनिष्ठा, अनामिका के बीच लेकर करे । पहिले दाहिनी दाढ घिसे, फिर वामी घिसे । उपयोगवंत स्वस्थ दांत अरु वीड के मांस को पीड़ा न देवे । उत्तर तथा पूर्व सन्मुख हो करके निश्चलासन, मौन युक्त हो कर दातन करे । दुर्गंध, पोली, सूखी, खट्टी, खारी वस्तु से दांत को न घिसे, तथा व्यतिपात, रविवार, संक्रांति के दिन, ग्रहण लगे में, नवमी, अष्टमी, पड़वा, चौदश, पूर्णमासी, अमावस, इन दिनों में दातन न करे । जेकर दातन न मिले, तब मुखशुद्धि के वास्ते वारां कुरले करे । अरु जिह्वा उल्लेखन तो सदा करे । दातन की फांक से जिह्वा का मैल हलुवे हलुवे सर्व उतार के शुचिस्थान में दातन धो करके अपने मुख के सामने गेरे । तथा खांसी, श्वास, तप, अजीर्ण शोक, तृषावाला, मुख पके वाला, मस्तक, नेत्र, हृदय, कान, इनके रोग वाला, दातन न करे ।

मस्तक के केशों को सदा समारे, जिस से कि जूआं न पड़ें । जेकर तिलक करके आरीसा देखे, उस में मुख नहीं

दीये, सिर नहीं दीये, तो पाच दिन के अन्दर उस का मरना जानना । अह जिस ने उपवास पौरुष्यादिक प्रत्याग्यान करा होवे, वो दात धोये रिना भी शुद्ध है, क्योंकि तप का बड़ा फल है । लौकिक शास्त्रों में भी उपवासादि करे, तो दातन रिना ही देवपूजा करते हैं । इस चास्ते लौकिक शास्त्रों में भी उपवासादि में दातन करने का निषेध है ।
यदुक्त विष्णुभक्तिचन्द्रोदयग्रथे —

प्रतिपदशपष्ठीषु, मध्याह्ने नवमीतिथौ ।

सक्रातिदिवसे प्राप्ते, न कुर्यादतथावनम् ॥१॥

उपवासे तथा श्राद्धे, न कुर्यात् दतथावनम् ।

दताना काष्ठसयोगो, इति सप्त कुनानि वै ॥२॥

तथा जत्र स्नान करे, तत्र उत्तिंग, पनक कुथु आदि जीवों से रहित भूमि में करे । सो भूमि ऊची स्नानविधि नीची, पोली न होवे । प्रथम तो उष्ण प्रागुक्त जल से स्नान करे, जेकर उष्ण जल न मिले, तत्र घर से छान करके प्रमाण सयुक्त शीतल जल से स्नान करे । तथा व्यवहार शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नम्र हो कर तथा रोगी तथा परदेस से आया हुआ, भोजन करे पीछे, आभूषण पहिर के, किसी को विदा करके पीछे आ करके, मगल कार्य करके स्नान न करे । तथा अनजाने पानी में, दुग्धप्रयेस जल में, मूले जल में, घृत्नों करके

पूजा जो जिनराज की है, सो सम्यक्त्व निर्मल करने वाली है; इस वास्ते जिनपूजा निरवध है। अतः देवपूजा के वास्ते गृहस्थ को स्नान करना कहा है। तथा शरीर के चैतन्य सुख के वास्ते भी स्नान है। परन्तु जो स्नान करने से पुण्य मानते हैं, सो बात मिथ्या है। क्योंकि जो कोई तीर्थ में भी जान कर स्नान करता है, तिस को भी शरीर शुद्धि के सिवाय और कुछ फल नहीं होता है। यह बात अन्य दर्शन के शास्त्रों में भी कही है। उक्तं च स्कंद पुराणे काशीखण्डे पष्ठाध्याये:—

मृदो भारसहस्रेण, जलकुंभशतेन च ।

न शुध्यन्ति दुराचाराः, स्नानतीर्थशतैरपि ॥१॥

जायन्ते च म्रियन्ते च, जलेष्वेव जलौकसः ।

नच गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥२॥

चित्तं शमादिभिः शुद्धं, वदनं सत्यभाषणैः ।

ब्रह्मचर्यादिभिः कायः, शुद्धौ गंगां विनाप्यसौ ॥३॥

चित्तं रागादिभिः क्लिष्टमलीकवचनैर्मुखम् ।

जीवहिंसादिभिः कायो गंगा तस्य पराङ्मुखी ॥४॥

परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराङ्मुखः ।

गंगाप्याह कदागत्य, मामयं पात्रयिष्यति ॥५॥

जल से स्नान करने से असह्य जीवों की विराधना होती है इस वास्ते पुण्य नहीं है। जल में जीवों का होना भीमासा शास्त्र से भी सिद्ध होता है। यदुक्त उत्तर भीमासायाम् —

लृतास्यततुगलिते, ये * शुद्रा. सति जतव* ।

मृक्ष्मा भ्रपरमानास्ते, नैव माति त्रिप्रिष्टपे ॥

किसी के स्नान करे भी जेकर गुमडादि में से राख जादि स्रये, तो तिस ने अगपूजा फूलादिक से आप नहीं करनी, वह दूमरों से कराये। अरु अग्रपूजा तथा भागपूजा आप भी करे, तो कुछ दोर नहीं। थोडा ना भी अपवित्र होये, तब देव का स्पर्श न करे।

स्नान करके पवित्र मृदु गध, कापायिकादि द्रव्य अग लृहना, पोतिया छोड करके पवित्र वस्त्रातर पूजा के तन्त्र पहिरने की युक्ति से पानी के भोजे पगों से धरती की अस्पर्शता हुआ पवित्र स्थान में आ करके उत्तर के समुग्न हो करके अच्छी तरे मनोहर नया वस्त्र जो फटा हुआ तथा सिला हुआ न होये, अथ वण में धवल होये, ऐसा वस्त्र पहिरे। तथा जो वस्त्र कटि में पहिरा होये, तथा जिस वस्त्र से दिशा गया होये, तथा जिस वस्त्र से मैथुन सेवया होये, तिस वस्त्र को पहिर के पूजादि न करे।

* बिन्दी' एसा पाठान्तर है।

तथा एक वस्त्र पहिन के भोजन तथा देवपूजादि न करे ।
 तथा स्त्री, कंचुकी विना पहने देवपूजा न करे । इस रीति
 से पुरुष को दो वस्त्र तथा स्त्री को तीन वस्त्र के विना पूजा
 करनी नहीं कल्पे है । देवपूजा में धोती अतिविशिष्ट धवल
 करनी चाहिये । निशीथचूर्णी तथा श्राद्धदिनकृत्यादि
 शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है । तथा पूजाषोडश में ऐसा भी
 लिखा है, कि रेशमी आदि जो सुन्दर वस्त्र लाल पीला
 होवे, सो भी पूजा में पहिरे तो ठीक है, तथा * “एगसाडियं
 उत्तरासंगं करेइ” इत्यादि आगम के प्रमाण से उत्तरासंग
 अखण्ड वस्त्र का करे, सिये हुए दो टुकड़ों का वस्त्र न कल्पे ।
 तथा जिस रेशमी कपड़े से भोजनादि करे; अरु मन में समझे
 कि यह तो सदा पवित्र है, तो भी तिस से पूजा न करे ।
 तथा जिस वस्त्र को पहिर के पूजा करे, उस को भी वारंवार
 पहिनने के अनुसार धोवावे, धूप देकर पवित्र करे । धोती
 थोड़े ही काल तक पहननी चाहिये । उस धोती से पसीना
 श्लेष्मादि न दूर करना चाहिये । क्योंकि उस से अपवित्रता
 हो जाती है । तथा पहिने हुए वस्त्रों के साथ पूजा के वस्त्र
 छुआने नहीं चाहियें । दूसरों की पहनी हुई धोती पहननी
 न चाहिये । तथा बाल, वृद्ध, स्त्री के पहनने में आई होवे,
 तो विशेष करके न पहननी चाहिये ।

तथा भले स्थान से ज्ञातगुण मनुष्य के पासों पवित्र
 1 भाजन मे आच्छादित करके रस्ते में लाने की
 पूजासामग्री विधिसयुक्त पाणी अरु फूल, पूजा के वाम्ते
 मगायने चाहियें । अरु फूलादि लाने वाले
 की अच्छी तरें मोल देकर प्रसन्न करना चाहिये । इस प्रकार
 मुग्न कोय बाध के पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीव
 पड़ा न होये, ऐसा शोधा हुआ केसर कर्पूरादिक से मिश्र
 चन्दन को युक्ति से घिसे । शोधा हुआ सुन्दर धूप, प्रदीप,
 अरण्ड चावलादि, दूत रहित, प्रशसा करने योग्य ऐसा
 नैवेद्य फलादि सामग्री मेल के, इस प्रकार द्रव्य मे शुचि कर
 के अरु भाव से शुचि तो राग, द्वेष, कषाय, ईष्या रहित, तथा
 इस लोक परलोक के सुगों की इच्छा रहित हो कर अरु
 कुतूहल, चपलता आदि का त्याग करके एकाग्र चित्तता रूप
 भाव शुद्धि करे । कहा भी है —

मनोवाधायवस्त्रोर्वापूजोपकरणस्थिते ।

शुद्धिं सप्तविधा कार्या, श्रीमूर्हत्पूजनक्षणे ॥

ऐसे द्रव्य भाव करके शुद्ध हो कर जिनघर—दहरे में
 दक्षिण तर्फ मे पुरुष अरु वाम दिशा मे
 जिनमन्दिर-प्रवेश स्त्री, यज्ञ पूर्वक प्रवेश करे । प्रथम के अयसर
 और पूजाविधि में दक्षिण पग पहिले धरे । पीछे सुगंध
 घाने मीठे सरस द्रव्यों करके पराङ्मुख

वाम स्वर चलते हुए मौन से देव पूजा करे। तीन नैपेधिकीकरण, तीन प्रदक्षिणा, इत्यादि विधि से शुचि पाट के ऊपर पद्मासनादि सुखासन पर बैठ के, चन्दन के भाजन से चंदन ले कर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में तिलक करके हस्तकंकण, श्रीचंदनवर्चित, धूपित हाथों करी जिन ग्रहों की पूजा करके अर्थात् १, अंगपूजा, २ अग्रपूजा, ३. भावपूजा आदि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्याख्यान करा था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी में उच्चारण करे, तब पीछे विधि से बड़े पंचायती मन्दिर में जा कर पूजा करे। सो इस विधि से करे.—

यदि राजादि महर्द्धिक होवे, सो तो ऋद्धि, सर्वदीप्ति, सर्वयुक्ति, सर्वसैन्य, सब उद्यम से जिनमत की प्रभावना के वास्ते महा आडम्बर पूर्वक जिनमन्दिर में पूजा करने को जावे। जैसे दशार्णभद्र राजा श्रीमहावीर भगवंत को वंदना करने गया था, तैसे जावे।

अरु जो सामान्य ऋद्धि वाला होवे, सो अभिमान रहित लोकोपहास्य को त्याग के यथायोग्य आडंबर—भाई, मित्र, पुत्रादिकों से परिवृत हो कर जावे। ऐसे जिनमंदिर में जा कर—१. पुष्प, तंबोल, सरस, दुर्वादि त्यागे। २ छुरी पावडी, मुकुट, हाथी प्रमुख सच्चित्ताचित्त वस्तु शरीर के भोग की त्यागे। ३. मुकुट वर्ज के शेष आभरणादि अचित्त वस्तु न त्यागे, अरु एक बड़े वस्त्र का उत्तरासग करे।

४ जिनेश्वर की मूर्ति जब दीसे तब अजलि बाध के मस्तक पर चढा के 'नमोजिणाण' ऐसा कहे । ५ मन एकाग्र करे । इस रीति से पाच अभिगम सम्भाल के नैपेधिकी पूर्णक प्रवेश करे ।

जेकर राजा जिनमदिर में प्रवेश करे, तब, तत्काल राज चिन्हों को दूर करे । १ तलवार, २ छत्र, ३ सगरी, ४ मुकुट, ५ चामर, ये पाचों चिन्ह राजा के हैं, इन को त्यागे । अग्रद्वार में प्रवेश करते हुए घर के व्यापार का निषेध करने के वास्ते तीन नैपेधिकी करे, परन्तु तीनों निस्सही की एक नैपेधिकी गिनती में करनी, क्योंकि एक ही घर व्यापार का निषेध क्रिया है । तब पीछे मूल विंश को नमस्कार करके सर्व श्रुत्य, कल्याणवाछक पुरष ने दक्षिण के पासे करना । इस वास्ते मूलविंश को दक्षिण के पासे करता हुआ ज्ञान, दर्शन अरु चारित्र्य, इन तीनों के आराधनाय तीन प्रदक्षिणा देवे । प्रदक्षिणा देता हुआ समयसरणस्थ चार रूप सयुक्त जिनेश्वर देवको ध्याये । गभारे में पृष्ठ, वाम, और दहिने पासे जो विंश होयें, तिन को वन्दे । इसी वास्ते सब मन्दिर में चारों तर्फ समयसरण के आकार में तीन तर्फ तीन विंश स्थापे जाते हैं । ऐसे करने से जो अरिहत के पीछे बसने में दीय था, सो दूर हो गया, पीठ किसी पासे भी न रही । तिस पीछे चैत्यप्रमाजनादि जो आगे लियेंगे, सो करे । पीछे सब प्रकार की पूजा सामग्री के

प्रति तथा देहरा के समारने के काम के निषेध करने के वास्ते मुखमंडपादिक में दूसरी नैषेधिकी करे । पीछे मूलविंव को तीन प्रणाम करके पूजा करे । भाष्यकार ने भी ऐसा कहा है, कि तीन निस्सही करके प्रवेश करी मण्डप में जिनेश्वर के आगे धरती पर हाथ गोडे स्थापन करके, विधि से तीन वार प्रणाम करे । तिस पीछे हर्ष से उल्लास युक्त हो करके मुखकोश बांध करके जिनप्रतिमा का निर्माल्य, फूल प्रमुख मोर पीछी से दूर करे । जिनमन्दिर का प्रमार्जन आप करे, अथवा औरों से करावे । पीछे जिनविंव की पूजा विधि से करे । मुखकोश आठ पुड़ का करे, जिस से नासिका अरु मुख का निःश्वास निरोध होवे । वरसात में निर्माल्य में कुंथु आदि जीव भी होते हैं । इस वास्ते निर्माल्य अरु स्नात्र जल न्यारा न्यारा पवित्र स्थान में गेरे, गिरावे । ऐसे आशातना भी नहीं होती है । कलशजल से पूजा करता हुआ जैसी भावना मन में लावे, सो लिखते हैं ।

हे स्वामिन् ! बालपने में मेरु शिखर पर सुवर्ण कलशों से इन्द्र आदि देवताओं ने आप को स्नान कराया था, सो धन्य थे, जिनों ने तुमारा दर्शन करा था, इत्यादि चिंतवना करके पीछे सुर्यत्न से बालकूंची से जिनविंव के अंग पर से चंद्रनादि उतारे । पीछे जल से प्रक्षालन करके दो अंगलूहनों से जिनप्रतिमा को निर्जल करे । अनन्तर पग, जानु, कर, अंस और मस्तक में यथाक्रम से नव अंग में श्रीचन्द्र-

नादि चर्च, पूजा करे। जोई आचार्य कहते हैं, कि पहिले मस्तक में तिलक करके पीछे नमः पूजा करनी। श्रीजिन प्रभसूरिहून पूजाविधि ग्रन्थ में ऐसा लिखा है—सरस सुरभि चन्दन कगी देव के दाहिने जानु, दाहिने स्कन्ध, निलाड, वामा स्कन्ध, वामा जानु, इस क्रम से पूजा करे, हृदय प्रमुख में पूजा करे, तब नमः अग की पूजा होती है। अर्गों में पूजा करके पीछे सरस पाच उर्ण के प्रत्यम फूलों कर के चन्दन सुगन्ध वास करी पूजे। जेकर पहिले किसी ने बडे मण्डाण से पूजा करी होये, अरु अपने पास बंसी सामग्री पूजा की न होये, तब पहिली पूजा उतारे नहीं। क्योंकि विशिष्ट पूजा देवने से भयों की जो पुण्यानुबन्धी पुण्य होता था, तिस की अतराय हो जाती है। किन्तु तिसी पूजा को शोभनीक करे, यह कथन पृहद्गाप्य म है।

तथा पूजा के ऊपर जो पूजा करनी है, सो निर्माल्य के लक्षण न होने से निर्माल्य नहीं। क्योंकि जो भोगविनष्ट द्रव्य है, सोई निर्माल्य गीतार्थों ने कहा है। आभूषण चार चार पहराये जाते हैं, परन्तु निर्माल्य नहीं होते हैं। नहीं तो कपाय चम्ब करके एक सौ आठ जिनप्रतिमा के अग क्योंकर लूहे ? इस वास्ते जिनधिंवारोपित जो वस्तु शोभा रहित, सुगन्ध रहित दीप पडे, अरु भव्य जीवों को प्रमोद का हेतु न होये, तिस ही को घदुर्धृत निर्माल्य कहते हैं। यह कथन सघाचारभृत्ति में है। चढे हुए चात्रादि निर्माल्य

नहीं। कोई आचार्य निर्माल्य भी कहते हैं। तत्त्व तो केवली ही जाने कि वास्तव में क्योंकर हैं।

चंदन फूलादि से ऐसे पूजा करनी, जिस से भगवान् के नेत्र मुखादि ढके न जावें, अरु बहुत शोभनीक दीखें, जिस में देखने वालों को प्रमोद और पुण्यादिक की वृद्धि होवे।

तथा १. अंगपूजा, २. अग्रपूजा, ३. भावपूजा, यह तीन प्रकार की पूजा है। तिन में जो निर्माल्य अंगपूजा दूर करना, प्रमार्जना करना, अंगप्रक्षालन करना, बालकूची का व्यापार, पूजना, कुसुमांजलिमोचन, पंचामृतस्नात्र, शुद्धोदकधारा देनी, धूपित स्वच्छ मृदुगंध कापायकादि वस्त्र से अंगलूहन करना, कपूर कुंकुमादि मिश्र गोशीर्ष चंदन विलेपन से आंगी रचनी, तथा गोरोचन, कस्तूरी से तिलक करना; पत्र, बेल, फूल प्रमुख की रचना करनी, बहुमोळ रत्न सुवर्ण, मोती, रूपे के, पुष्पादि के आभरण-अलंकार पहिराने। जैसे श्री वस्तुपाल ने अपने कराये हुये सवालक्ष विंवाँ के तथा श्रीशत्रुंजयतीर्थ में सर्व विंवाँ के रत्न, सुवर्ण के आभरण कराये थे। तथा दमयंती ने पिछले भव में अष्टापद पर्वत पर चौबीस अर्हतों के तिलक कराये थे। क्योंकि प्रतिमा जी की जितनी उत्कृष्ट सामग्री होवे, उतने ही अधिक भव्य जीवों के शुभ भावों की वृद्धि होती है। तथा पहरावणी, चन्द्रवादि विचित्र

दुकुलादि वस्त्र पहिरावें । तथा १ ग्रथिम, २ वेष्टिम, ३ पूरिम, ४ सघातिम रूप, चतुर्विध प्रधान अम्लान विधि से लाया हुआ शतपत्र, सहस्रपत्र, जाई, केतकी, चपकाटि विशेष फूलों करी माला, मुकुट, मेहरा, फूलधरादिक की रचना करे । तथा जिन जी के हाथ में धिजोरा, नारियल, सोपारी, नागयल्ली, मोहर रुपया, लड्डू प्रमुख रखना । अरु धूपक्षेप, सुगंध, घासप्रक्षेपादि, यह सर्व अंगपूजा की गिनती में है । महामाध्य में भी कहा है —

पहवग विलेवण आहरण वत्थ फल गध धूव पुप्फेठिं ।

कीरइ जिणगपूया तत्थ विठी एस नायव्यो ॥

वत्थेण बधिऊण नास अहवा जहा समाहीए ।

वज्जेयव्व तु तथा देहमि वि कडुअणमाई ॥

अन्यथापि —

कायकडुयण वज्जे, तदा खेनविगिंचण ।

गुडधुत्तभणण चेव, पृअतो जगनधुणो ॥

देव पूजन के अक्षर में मुख्यवृत्ति से तो मौन ही करना चाहिये । जेकर न कर सके तो भी पापहेतु वचन तो सवधा ही त्यागे । नैवेधिकी करने में गृहादि व्यापार का निषेध होने से पाप की सश्रा भी बर्जे । मूलार्थि की विस्तार सहित पूजा करे । पीछे अनुक्रम से अन्य सर्व धिर्वा की पूजा करे ।

द्वारविंश और समवसरण विंशों की पूजा भी मूल विंश की पूजा करने के पीछे. गंगारा मे निकलती वक्त करनी चाहिये । परन्तु प्रवेश करते समय तो मूलविंश की ही पूजा करनी उचित मालूम होती है । संघाचार में ऐसे ही लिखा है । इस वास्ते मूलनायक की पूजा, सर्व विंशों मे पहिले और सविशेष करनी चाहिये । कहा भी है:—

उचिञ्चत्तं पूआए, विसेसकरणं तु मूलविंशस्स ।

जं पडइ तत्थ पढमं, जगस्स दिट्ठी सहमणेणं ॥

[चेइ० महा०, गा० १६७]

शिष्य प्रश्न करता है, कि चंद्रनादि करके प्रथम एक मूलनायक को पूजिये और दूसरे विंशों की पीछे पूजा करनी, यह तो स्वामी सेवक भाव ठहरा, सो तो लोकनाथ तीर्थंकर में है नहीं । क्योंकि एक विंश की बहुत आदर से पूजा करनी, और दूसरे विंशों की थोड़ी पूजा करनी, यह बड़ी भारी आशातना मुझ को मालूम पड़ती है ।

गुरु उत्तर देते हैं । अर्हत प्रतिमाओं में नायक सेवक की बुद्धि ज्ञानवंत पुरुष को नहीं होती है, क्योंकि सर्व प्रतिमा जी के एक सरीखा ही परिवार—प्रातिहार्य प्रमुख दीख पड़ता है । यह व्यवहार मात्र है, कि जो विंश पहिले स्थापन किया गया है, सो मूलनायक है । इस व्यवहार से शेष प्रतिमाओं का नायक भाव दूर नहीं होता है ।

एक प्रतिमा को वदन करना, पूजा करनी, नैवेद्य चढ़ाना, यह उचित प्रवृत्ति वाले पुरुष को आशातना नहीं है। जेमे माटी की प्रतिमा की पूजा फूलादि रहित उचित है, अरु सुरणादिक की प्रतिमा को स्नान विलेपनादि उचित है, तथा कल्याणक प्रमुख का महोत्सव एव ही विंय का विशेष करके किया जाता है, परन्तु वो महोत्सव दूसरी प्रतिमाओं की आशातना का कारण नहीं होता है। जैसे धर्मी पुरुष को पूजते हुए और लोगों की आशातना नहीं। इस प्रकार की उचित प्रवृत्ति करते हुए जैसे आशातना नहीं होती है, तैसे ही मूलविंय की विशेष पूजा करते भी आशातना नहीं होती है। जिनमन्दिर में जिनविंय की जो पूजा करते हैं, सो तीर्थकरों के वास्ते नहीं करते हैं, किंतु अपने शुभ भावों की वृद्धि के निमित्त करते हैं। जिस निमित्त से आत्मा का उपादान समर जाता है, अरु दूसरों को बोध की प्राप्ति होती है। कोई जीव तो श्रीजिनमन्दिर को देय के प्रति बोध को प्राप्त हो जाता है, अरु कोई जीव जिनप्रतिमा का प्रयातरूप देय के प्रतिबोध को प्राप्त हो जाता है, कोई पूजा की महिमा देय के, अरु कोई गुरु के उपदेश से प्रतिबोध को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते चेत्य—जिनविंय की रचना बहुत सुंदर बनानी चाहिये। अरु अपनी शक्ति के अनुसार मुख्य विंय की विशेष अद्भुत शोभा करनी चाहिये।

तथा घर देहरासर तो अब भी पीतल ताम्र रूपामय

करावने को समर्थ है । यदि पीतलादिक का बनाने का सामर्थ्य न होवे, तदा दांत आदि मय पीतल सिंगरफ की रंगावे, कोरणी विशिष्ट काष्ठादिमय करावे । घर चैत्य तथा चैत्य समुच्चय में प्रति दिन सर्व जगे प्रमार्जन, तैलादि से काष्ठ को चोपड़े, जिस से घुण न लगे, तथा खडिया से धवल करे । श्रीतीर्थकर के पंचकल्याणकादि का चित्राम करावे, समग्र पूजा के उपकरण समरावे । पड़दा, कनात, चन्द्रवा आदि देवे । ऐसे करे कि, जैसे जिनमंदिरादि की अधिक अधिक शोभा होवे । घर देहरे के ऊपर धोती प्रमुख न गरे । घर देहरे की भी चौरासी आशातना डाले । पीतल पाषाणादि-मय जो प्रतिमा होवे, तिन सर्व को एक अंगलूहने से सर्व विंवो का पानी लूहे । पीछे निरन्तर दूसरे सुकोमल अंगलूहने से वारंवार सर्व अंगों पर फेर के पानी की गिलास विलकुल रहने न देवे । ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्वल हो जाती है । जहां जहां प्रतिमा के अंगोपांग पर जल रह जावे, तहां तहां प्रतिमा के श्यामता हो जाती है । इस वास्ते पानी की स्निग्धता सर्वथा डाले । केसर बहुत अरु चन्दन थोड़ा, ऐसा विलेपन करने से प्रतिमा अधिक अधिक उज्ज्वल हो जाती है ।

तथा पंचतीर्थी, चौबीसी का पट्टादि में स्नात्र जल का प्रतिमा जी को परस्पर स्पर्श होने से आशातना होती है ? ऐसी आशंका न करनी चाहिये, अशक्य परिहार होने से ।

१ एक अहत की प्रतिमा होये, तिस का नाम व्यक्त है ।
 २ एक ही पापाणादिक में भरत ऐरवत क्षेत्र की चौवीसी
 बनवाये तिन का नाम क्षेत्रप्रतिमा है । ३ ऐसे ही एक
 सौ सित्तेर प्रतिमा को माहाप्य कहते हैं । ४ फूल की वृष्टि
 करने वाला जो मालाधर देवता है, तिस का रूप पच तीर्थों
 के ऊपर बनाते हैं । जिनप्रतिमा को न्हवण करते हुए पहिले
 मालाधर को पानी स्पश के पीछे जिनविंश पर पड़ता है,
 सो दोष नहीं है । यह वृद्धों का आचरण है । इसी तरे
 चौवीसी गट्टे आदिक में भी जान लेना । ग्रंथों में भी ऐसी
 ही रीति देखने में आती है । यहा माप्यकार लिखते हैं—
 जिनराज की ऋद्धि देखने के वास्ते कोई भक्तजन एक प्रतिमा
 बनवाता है । उस को प्रगट पने अष्ट प्रातिहार्य, श्वागम से
 सुशोभित करता है । दूसरा दशान ज्ञान, चारित्र की
 आराधना के वास्ते तीनतीर्थी प्रतिमा बनवाता है । कोई
 भक्त पचपरमेष्ठी के आराधनार्थ उद्यापन में पचतीर्थी प्रतिमा
 भरता है । कोई चौवीस तीर्थकरों के कल्याणक तप उजमने
 के वास्ते भरत क्षेत्र में जो ऋषभादि चौवीस तीर्थकर
 हुए हैं, तिन के बहुमान वास्ते चौवीसी बनवाता है ।
 कोई भक्ति करके मनुष्य लोक में उत्कृष्ट, एक काल में एक
 सौ सत्तर तीर्थकर विहरमान की एक सौ सत्तर प्रतिमा
 बनवाता है । तिस वास्ते तीनतीर्थी, पाचतीर्थी, चौवीसी
 आदिक का बनाना युक्तियुक्त है, यह पूर्वोक्त सर्व

अंगपूजा है ।

अथ अग्रपूजा लिखने हैं । रूपे के, सुवर्ण के चावल धवल सरसव प्रमुख अक्षतों करके अष्टमंगल का अग्रपूजा आलेखन करे । जैसे श्रेणिक राजा रोज की रोज एक सौ आठ सोने के यवों से त्रिकाळ में भगवान् की प्रतिमा के आगे साथिया करता था । अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना के वास्ते क्रम से पट्टा-दिक में चावलों के तीन पूंज करने, तथा एक भात प्रमुख अशन, दूसरा शक्कर गुड़ादि पान, तीसरा पक्वान्न फलादि खादिम, चौथा तंबोलादि स्वादिम, इन का चढ़ाना, तथा गोशीर्ष चन्दन के रस करी पंचांगुली तले से मंडील आलेखनादि पुष्पप्रकार आरति प्रमुख करनी, यह सर्व अग्रपूजा की गिनती में है । यद्भाष्यम्:—

गंधव्वनट्टुवाइय लवणजलारत्तिआइ दीवाई ।

ज किच्चं तं सर्व्वपि ओअरई अगपूआए ॥

नैवेद्य पूजा तो दिन दिन प्रति करनी सुखाली है, अरु इस में फल भी मोटा है । कोरा अन्न सावत तथा रांधा हुआ चढावे । लौकिक शास्त्रों में भी लिखा है:—

धूपो दहति पापानि, दीपो मृत्युविनाशकः ।

नैवेद्यं विपुलं राज्यं, सिद्धिदात्री प्रदक्षिणा ॥

नैवेद्य का चढ़ाना, आरति करनी आदि आगम में भी लिखा है। "कीरइ बलि" ऐसा पाठ आवश्यक नियुक्ति में है। तथा निशीथचूर्णों में भी गलि चढ़ानी लिखी है। तथा कल्पभाष्य में भी लिखा है, कि जो जिनप्रतिमा के आगे चढ़ाने के वास्ते नैवेद्य करा है, सो साधु को न कल्पे। तथा प्रतिष्ठाप्राप्त से रची हुई श्रीपादलित आचार्य वृत्त प्रतिष्ठा पद्धति में भी लिखा है, कि आरति उतारनी, मंगलदीपा करके पीछे चार स्त्री मिल कर गीतगान विधि से करें। तथा च माहानिशीथे तृतीय अध्ययने —

अरिहताण भगवताण गधमल्लपर्पसमज्जणोवलेपण-
धिचित्तमलित्यधूमाइएहिं पूआमक्कारेहिं पइट्ठिणमब्भच्च-
णपि कुव्वाणा तित्थुञ्छप्पण करेमो ति ।

भावपूजा जो है, सो द्रव्यपूजा का जो व्यापार है, तिस के निषेधने वास्ते तीसरी निस्सही तीन बार भावपूजा करे। श्रीजिनेश्वर जी के दक्षिण के पामे पुरुष अरु वामी दिशा में स्त्री रह कर, आयातना टालने के वास्ते मंदिर में भूमि के समतल हुये, जघन्य नय हाथ प्रमाण, अरु घर देहरे में जघन्य एक हाथ प्रमाण अरु उत्कृष्ट से तो साठ हाथ प्रमाण अवग्रह है। तिससे बाहिर बैठ के चैत्यगना, विगिष्ट काव्यों करके करे। श्री निशीथ में तथा वसुदेवहिंडि में तथा अन्य राश्रों में भावकों

ने भी कायोत्सर्ग थुइ आदि करी चैत्यवंदना करी है, ऐसा उल्लेख है। चैत्यवंदना तीन तरह की भाष्य में कही है, सो कहते हैं। एक तो जघन्य चैत्यवंदना, सो अंजलि बांध कर शिर नमा कर प्रणाम करना, यथा 'नमो अरिहंताणं' इति। अथवा एक श्लोकादि पढ़ के नमस्कार करना, अथवा एक शक्रस्तव पढ़े, तो जघन्य चैत्यवंदना होवे। दूसरी मध्यम चैत्यवंदना, सो चैत्यस्तवदंडक युगल 'अरिहंत चेइयाण' इत्यादि कायोत्सर्ग के पीछे एक स्तुति कहनी, यह मध्यम चैत्यवंदन है। अरु तीसरा उत्कृष्ट चैत्यवंदन, सो पंचदंड १. शक्रस्तव, २. चैत्यस्तव, ३. नामस्तव, ४. श्रुतस्तव, ५. सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयवीयराय, इत्यादि यह सर्व उत्कृष्ट चैत्यवंदना है। तथा कोई आचार्य का ऐसा मत है, कि एक शक्रस्तव करी जघन्य चैत्यवंदना होती है, दो तीन शक्रस्तव करी मध्यम चैत्यवंदना होती है, तथा चार अथवा पांच शक्रस्तव करी उत्कृष्ट चैत्यवंदना होती है। इसकी विधि चैत्यवंदन भाष्य से जान लेनी।

अब यह चैत्यवंदना नित्य प्रति सात वार करनी, महा-निशीथ में साधु को कही है, तथा श्रावक को भी उत्कृष्ट सात वार करनी कही है। यथा—एक प्रतिक्रमण में, दूसरी मंदिर में, तीसरी आहार करने से पहिले करनी, चौथी दिवसचरिम करते, पांचमी देवसी पडिक्रमणे में, छठी सोती वक्त, और सातमी सोकर उठे, उस वक्त, यह

सात बार चैत्यवदन साधु को करनी कही है । तथा जो श्रावक आठों पहर में प्रतिक्रमण करना होवे, वो तो निश्चय से सात बार चैत्यवदन करे, दो प्रतिक्रमण में दो चैत्यवदन करे, तीसरी सोते वक्त, चौथी उठते वक्त, तथा तीन काल पूजा करने के पीछे तीन बार, एव सात बार श्रावक चैत्यवदन करे । तथा जो श्रावक एक ही बार पडिक्मणा करे, सो छ बार चैत्यवदन करे । तथा जो पडिक्मणा न करे, सो पाच बार चैत्यवदन करे । तथा जो सोते वा उठते समय भी चैत्यवदन न करे सो तीन बार करे । जेकर नगर में बहुत जिनमदिर होवें, तदा सात से अधिक भी करे । तथा जेकर त्रिकाल पूजा न कर सके, तो त्रिकाल चैत्यवदना करे । क्योंकि महानिशीथ में लिखा है कि जिसको गुरु प्रथम जनमत की श्रद्धा करावे, उसको प्रथम ऐसा नियम करावे, कि सपेरे के वक्त जिन प्रतिमा का दर्शन करे बिना पानी भी नहीं पीना, तथा मध्याह्न काल में जहा तक देव-जिनप्रतिमा अरु साधुओं को वदना न करे, तहा तक भोजनक्रिया न करे । तथा सध्या के समय चैत्यवदन करे पिना शय्या पर पग न देवे ।

तथा गीत, नृत्य, जो अग्रपूजा में कहे हैं, सो भावपूजा में भी बन सकते हैं । सो गीत, नृत्य, मुख्यवृत्ति करके तो श्रावक आप करे, जैसे निशीथचूणा में उदयनराजा की रानी प्रभावती का कथन है । तथा पूजा करने के अवसर में

१४. शुभ फल का ढौकन, १५. गीतपूजा, १६. नाटक करना, १७. वाजंत्र । यह सतरह भेदों करी पूजा है । अथ पूजा के इक्कीस भेद लिखते हैं ।

तहां प्रथम पूजा करने की विधि लिखते हैं:—१. पूजा करने वाला पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा सम्बन्धी स्नान करे । २. पश्चिम दिशा को मुख करके नियम दातन करे । ३. उत्तर दिशा के सन्मुख श्वेत वस्त्र पहिरे । ४. पूर्वोत्तर मुख करके पूजा करे । ५. घर में प्रवेश करते वामे पासे शल्य रहित भूमि में देहरासर करावे । ६. डेढ़ हाथ भूमिका से ऊंचा देहरासर करावे । जेकर देहरासर नीची भूमिका में करावे, तब तिस का संतान दिन दिन नीचा होता जावेगा । ७. दक्षिण दिशा तथा विदिशा के सामने मुख न करे । ८ घर देहरे में पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करे, तो चौथी पेढी में सन्तानोच्छेद होवे । ९. दक्षिण दिशा की तर्फ मुख करे, तो संतानहीन होवे । १०. अग्निकोण मे करे, तो धन हानि होवे । ११. वायु कोण में करे, तो संतान न होवे । १२. नैऋत्यकोण में करे तो कुलक्षय होवे । १३. ईशानकोण मे करे, तो एक जगे रहना न होवे । १४. दोनों पग, दोनों जानु, दोनों हाथ, दोनों स्कंध, मस्तक, ये नव अंग में क्रम से पूजा करे । १५. चंदन विना पूजा नहीं होती है । १६. मस्तक में, कण्ठ में, हृदय में, पेट में,

तिलक करे । १७ नव अंग में, नव तिलक करके निरंतर पूजा करे । १८ सरेरे पहिले वास पूजा करे । १९ मध्यान्ह में फलों में पूजे । २० सध्या को धूप, दीप करके पूजा करे । २१ जो फूल हाथ से धरती में गिर पड़े तथा पर्गों को लग जाये, तथा जो मस्तक से ऊचा चला जाये, तथा जो मैले वस्त्र में रक्ष्या होये, तथा जो नाभि से नीचे रक्ष्या होये, तथा जो दुष्ट जनों ने स्पर्शा होये, जो बहुत ठिकानों—स्थानों में हत होये, जो जीवों ने पाया होये ऐसा फूल, फल, भक्त जनों ने जिन पूजा में नहीं रखना । २२ एक फूल के दो टुकड़े न करे । २३ कली को छेदे नहीं । चपक, उत्पल, फूल के भागने से बड़ा दोष है । २४ गध, धूप, अक्षत, फूलमाला दीपक, नैत्रेद्य पानी, प्रधान फल, इनों करके जिनराज की पूजा करे । २५ शांति कार्य में श्वेत वस्त्र पहिर के पूजा करे । २६ त्रयलाम के वास्ते पीत वस्त्र पहिर के पूजा करे । २७ शत्रु को जीतने के वास्ते काले वस्त्र पहिर के पूजा करे । २८ मागलिक कार्य के वास्ते लाल वस्त्र पहिर के पूजा करे । २९ मुक्ति के वास्ते पाच वर्ण के वस्त्र पहिर के पूजा करे । ३० शांति कार्य के वास्ते पचामृत का होम, दीपा, घी, गुड़, लवण का अग्नि में प्रक्षेप, शांति पुष्टि के वास्ते जानना । ३१ फटा हुआ, जोड़ा हुआ, छिद्र वाला, काटा हुआ, जिस का भयानक रक्तवण होवे, ऐसे वस्त्र पहिर के दान, पूजा, तप, होम अरु सामायिक प्रमुख करे, तो

निष्फल होवे । ३२. पद्मासन बैठ के, नासाग्र लोचन स्थापन करके मौन धारी हो कर वस्त्र से मुखकोश करके जिनराज की पूजा करे ।

अथ इक्कीस प्रकार की पूजा का नाम लिखते हैं —
 १. स्नात्रपूजा, २. विलेपनपूजा, ३. आभरणपूजा, ४. फूल, ५. वासपूजा, ६. धूप, ७. प्रदीप, ८. फल, ९. अक्षत, १०. नागरवेल के पान, ११. सोंपारी, १२. नैवेद्य, १३. जलपूजा, १४. वस्त्रपूजा, १५. चामर, १६. छत्र, १७. वार्जित्त, १८. गीत, १९. नाटक, २०. स्तुति, २१. भंडारवृद्धि । यह इक्कीस प्रकार की पूजा है । जो वस्तु बहुत अच्छी होवे, सो जिनराज की पूजा में चढानी चाहिये । यह पूजा प्रकार, श्री उमास्वाति वाचककृत पूजाप्रकरण में प्रसिद्ध है ।

तथा ईशानकोण में देवघर बनाना यह बात विवेक विलास में है । तथा विपमासन बैठ के, पग ऊपर पग धरके, उकडु आसन बैठ के, वामा पग ऊंचा करके तथा वामे हाथ से पूजा न करे । सूखे हुए फूलों से पूजा न करे, तथा जो फूल धरती में गिरे होंवें, तथा जिन की पांखडी सड़ गई होवे, नीच लोगों का जिन को स्पर्श हुआ होवे, जो शुभ न होंवें, जो विकसे हुए न होवे, जो कीड़े ने खाये हुए, सड़े हुए, रात को वासी रहे, मकड़ी के जाले वाले, जो देखने में अच्छे न लगें, दुर्गन्ध वाले, सुंगन्ध रहित, खट्टी गन्ध वाले मल-मूत्र की जगा में उत्पन्न हुये होंवें, अपवित्र करे हुए; ऐसे

फलों से जिनेश्वर देव की पूजा नहीं करनी । तथा विस्तार सहित पूजा के अघसर में, तथा नित्य, अरु विशेष करके पवदिन में, सात तथा पाच कुसुमाजलि चढावे । पीछे भगवान् की पूजा करे । तहा यह विधि करे ।

प्रभात समय पहिले निर्माल्य उतारे । पीछे प्रक्षाल करे, सक्षेप से पूजा करे आरति मंगल दीया स्नात्रविधि करे । पीछे स्नात्रादि विस्तार सहित दूसरी बार पूजा का प्रारम्भ करे । तब देव के आगे केसर जल सयुक्त कलश स्थापन करे । पीछे यह आर्या कह कर अलक्षार उतारे —

मुक्तालकारविकारमारसौम्यत्वकातिकमनीयम् ।

महजनिजरूपनिर्जितजगत्त्रय पातु जिनत्रियम् ॥

पीछे यह कह कर निर्माल्य उतारे —

अवगिअ कुमुमाहरण, पयइपइट्टियमनोहरन्धाय ।

जिणस्स मज्जणपीठसठिय वो मिय दिमउ ॥

पीछे प्रागुक्त कलश ढालन और पूजा करे, कलश धो कर, धूप दे कर, उन में स्नात्र योग्य सुगंध जल का प्रक्षेप करे । पीछे श्रेणीय देव स्थापन करे धूप दे कलश सुन्दर धरत्र से ढक देने । पीछे साधारण केसर, चदन, धूप करके हाथ पवित्र करे । मस्तक में तिलक, हाथ में चदन का कक्षण करे,

हाथ धूपन करके श्रेणीबन्ध स्नात्री श्रावक कुसुमांजलि का पाठ पढ़े । यथा—

सयवत्तकुंदमालइ, बहुविहकुसुमाइं पंचवन्नाइं ।

जिगानाहन्हवणकाले, दिंति सुरा कुसुमंजली द्विद्धा ॥

यह कह कर देव के मस्तक पर पुष्पारोपण करे—

गंधायद्विअमहुयरमणहरझंकारसद्संगीआ ।

जिगचलणोवरि मुक्का, हरउ तुम्ह कुमुमंजली दुरियं ॥

इत्यादि पाठ करके जिन चरणों पर एक श्रावक कुसुमांजलि चढावे । सर्व कुसुमांजलि के पाठों में तिलक करना, फूल, पत्र, धूपादि सर्व एकत्र करी चढाना । पीछे उदार मधुर स्वर करके जिस जिनेश्वर का नाम स्थापन करा होवे, तिस ही जिनेश्वर का जन्माभिषेक कलश का पाठ कहना । पीछे घी, इक्षुरस, दूध, दही, सुगन्ध जल रूप पंचामृत करी स्नात्र करावे । स्नात्र के बीच में धूप देवे । स्नात्रकाल में भी जिनराज का शरीर फूलों करके शून्य न करना । वादिवेताल श्रीशांतिसूरि कहते हैं, कि जहां तक स्नात्र की समाप्ति न होवे, तहां तक भगवान् का मस्तक शून्य न रखना, निरन्तर पानी की धारा अरु उत्तम फूलों की वृष्टि भगवान् के मस्तक पर करे, तथा स्नात्र करती वक्त चामर, संगीत, तूर्याद्याडम्बर सर्व शक्ति से करे ।

सब श्रावक, जब स्नात्र कर चुकें, पीछे निर्मल जल की वारा ड्रेनी । तिस का पाठ यह है —

अभिपेकतोयधारा, धारेव यानमडलाग्रस्य ।

भवभवनभित्तिभागान्, भूयोऽपि भिनक्तु भागवती ॥

पीछे अगलूहे । विलेपनादि पूजा, पहली पूजा से अधिक करनी । सर्व प्रकार का धाय पकान, शाक, विष्टति, फलादि, करके नैवेद्य ढोये । तानादि तीनों सहित तीन लोक के स्वामी भगवान् के आगे भक्त जन श्रावक तीन पुज करके पीछे स्नात्रपूजा करे । पहिले बड़ा श्रावक तीन पुंज करे, पीछे छोटा श्रावक करे, पीछे श्राविका करे । क्योंकि निज जन्ममहोत्सव में भी पहिला अन्त्युत्तैद्र अपने देवता सयुक्त स्नात्र करता है, पीछे यथाक्रम से दूसरे इन्द्र स्नात्र करत हैं । स्नात्रजल को जेकर श्रावक अपने मस्तक में प्रक्षेप करे, तो दोष नहीं । यदुक्त श्रीहेमचन्द्राचार्य श्रीरीरचरिते —

अभिपेकजन नक्तु, मुरामुरनरोरगा ।

बवढिरे मुहुर्मुहु, सर्वांग परिचित्तिपु. ॥

तथा श्रीपद्मचरित्र के उन्तीसवें उद्देश्य में लिखा है कि राजा दशरथ ने अपनी रानियों को स्नात्र जल भेजा है । तथा गृहदूशातिस्तोत्र में “पातिपानीय मस्तके दानव्यमित्यु

क्तम्" । तथा सुनते है कि जरासन्ध ने जब जरा विद्या छोड़ी, तब तिस करके पीड़ित निज सेना को देख के श्रीनेमिनाथ के कहने से श्रीकृष्ण ने धरणेंद्र को आराधा । धरणेंद्र ने पाताल में रही श्रीपार्श्व प्रतिमा शंखेश्वर पुर में ला करके तिस के स्नात्र का जल छिड़कने से सेना सचेत करी । तथा श्रीजिनदेशना के पीछे राजा प्रमुख जो चावलों की बली उछालते हैं, तिस में से आधे चावल धरती में पड़ने से पहले देवता ले लेते हैं, तिस का अर्ध उछालने वाला लेता है, अरु बाकी का चावल सर्व लोक लूट लेते है । उस में से एक दाना भी जेकर मस्तक में रक्खे, तो सर्व रोग उपशांत हो जाते है । अरु छ महीने आगे को रोग न होवे; यह कथन आवश्यक शास्त्र में है । पीछे सद्गुरु की प्रतिष्ठी हुई बहुत सुन्दर वस्त्र की मोटी ध्वजा, बड़े उत्सव पूर्वक तीन प्रदक्षिणा करके विधि से देवे । सर्व संघ यथाशक्ति परिधापन का नैवेद्य प्रमुख चढ़ावे ।

अब जो आरति, मंगलदीवा श्रीअरिहंत जी के सन्मुख करना, सो लिखते हैं । मंगलदीवे के पास आरति अग्नि का पात्र स्थापन करना । तिस में लवण जल गेरना, पीछे:—

उवणेउ मंगलं वो, जिणाण मुहलालिजालसंवलिआ ।
तित्थपवत्तणसमए, तियसविमुक्का कुसुमवुट्ठी ॥

यह पढ़ कर प्रथम कुसुमवृष्टि करे । अनन्तर—

उग्रह पडिभग्गपसर, पयाहिण मुणिवड करेऊण ।

पडइ स नोणत्तेण, लज्जिअ व लोण हुअवहमि ॥

इत्यादि पाठ से विधि पूर्वक जिनराज के तीन धार फूल सहित लक्षण जल उत्तरणादि करना । तिस पोछे अनुक्रम से पूजा करके आरात्रिक धूपोपक्षेप सहित दोनों पामे कलश के पानी की धारा देते हुए धायक फूलों को घग्गेरे, और —

मरगयमणिप्रडियप्रिमानथालमाणिक्कमडिअपर्डय ।

ण्डयणयरकरुसित्त, भमउ जिणाररिअ तुम्ह ॥

इत्यादि पाठ पूर्वक प्रधान भाजन में रत्न के उत्सव सहित तीन धार उतारे । यह कहना ब्रह्मसठयलाका पुरुष चरित्रादिक में है । मंगल दीपक की भी आरति की तरे पूजे और यह पाठ पढे —

भामिज्जतो मुरमुदरिहिं तुह नाह ! मंगलपइयो ।

कणयायलस्म नज्जइ, भाणुव्य पयाहिण दिंतो ॥

इस पाठ पूर्वक मंगलदीपा उतार के दीप्यमान जिन चरणों के आगे रत्न देना । आरति को बुझा देने में दोष नहीं । आरति अरु मंगलदीवा मुख्यवृत्ति से घृत, गुड़,

कपूरादिक से करे, विशेष फल होने से । यहां मुक्तालंकार इत्यादि जो गाथा है, सो श्री हरिभद्रसूरि जी की करी हुई मालूम होती है । क्योंकि श्री हरिभद्रसूरि कृत समरा-दित्य चरित्र नामक ग्रंथ की आदि में “उवणेउ मंगलं वो” इस प्रकार नमस्कार किया देखने में आता है । तथा यह गाथा तपगच्छ में प्रसिद्ध है. इस वास्ते सर्व गाथा इहां नहीं लिखी ।

स्नात्रादिक में सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की विधि के देखने से व्यामोह नहीं करना । क्योंकि सर्व आचार्यों को अर्हद्भक्ति रूप फल की सिद्धि के वास्ते ही प्रवृत्त होने से, गणधरादि सामाचारियों में भी बहुत भेद होता है । तिस वास्ते जो धर्म से विरुद्ध न होवे, अरु अर्हत भक्ति का पोषक होवे, वो कार्य किसी को भी असम्मत नहीं । ऐसे ही सर्व धर्म कार्य में जान लेना । यहां लवण, आरति प्रमुख का उतारना संप्रदाय से सर्व गच्छों में अरु परदर्शनों में भी करते हुवे दीखते हैं । तथा श्रीजिनप्रभसूरि कृत पूजाविधि शास्त्र में तो ऐसे लिखा है:—

लवणाइउत्तारणं, पालित्तयसूरिमाइपुव्वपुरिसेहिं ।

संहारेण अणुन्नायंपि, संपयं सिद्धिए कारिज्जइ ॥

अर्थ:—लवणादि उतारना श्रीपादलित्तसूरि प्रमुख पूर्व पुरुषों ने एक वार करने की आज्ञा दीनी है । हम इस

काल में उन के अनुसार कराते हैं। स्नात्र के करने में सर्व प्रकार विस्तार सहित पूजा प्रभावनादिक के करने से परलोक में उत्कृष्ट मोक्ष प्राप्ति रूप फल होता है। जैसे चौंसठ इन्द्रों ने जिन जन्मस्नात्र करा है, तिस ही के अनुसार मनुष्य करते हैं। इस वास्ते इस लोक में पुण्य निर्जरा अरु परलोक में मोक्ष फल होता है। यह कवन राजप्रश्रीय उपाग में है।

प्रतिमा भी अनेक प्रकार की है। तिन की पूजा की विधि सम्यक्त्व प्रकरण में ऐसे कही है —

गुरुकारिआड केइ, अने सयकारिआड त विंति ।

विहिकारिआड अने, पडिमाए पूअणविहाण ॥

व्याख्या — गुरु कहिये माता, पिता, दादा, पड़दादा प्रमुग तिन की कराइ हुई प्रतिमा पूजनी चाहिये, कोई ऐसे कहते हैं। तथा कोई कहते हैं कि अपनी कराई-प्रतिष्ठी हुई पूजनी चाहिये। कोई कहते हैं, कि विधि से कराई-प्रतिष्ठी प्रतिमा पूजनी चाहिये। इन में यथार्थत्व तो यह है, कि मम स्मरहित सर्व प्रतिमा को विशेष—भेद रहित पूजना चाहिये। क्योंकि सर्व जगें तीर्थकर वा आफार देखने से तीर्थकर बुद्धि उत्पन्न होती है। जेकर ऐसे न मानें, तब तो जिनरिय की अज्ञा से उन को दुरत ससार में भ्रमण रूप निश्चय यही दृष्ट होवेगा।

ऐसा भी बुद्धिकल्प न करना, कि जो अविधि से जिन

मन्दिर, जिनप्रतिमा बनी है, उस के पूजने से अविधि मार्ग की अनुमोदना से भगवन्त की आज्ञा का भंग रूप दूषण लगता है । इस प्रकार का कुविकल्प करना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस में आगम प्रमाण है । तथाहि श्रीकल्पभाष्येः—

निस्सकडमनिस्सकडे अ चेइए सव्वहिं थुई तिन्नि ।

वेलंवचइआणिय, नाउं इक्किक्किया वावि ॥

व्याख्याः—एक निश्राकृत जो कि गच्छ के प्रतिबन्ध से बना हो, जैसे कि यह हमारे गच्छ का मन्दिर है । दूसरा अनिश्राकृत, सो जिस पर किसी गच्छ का प्रतिबन्ध नहीं है । इन सर्व जिनमंदिरों में तीन थुइ पढनी । जेकर सर्व मन्दिरों में तीन तीन थुइ देता बहुत काल लगता जाने, तथा जिनमन्दिर बहुत होवें, तदा एक एक जिनमन्दिर में एक एक थुइ पढे । इस वास्ते सर्व जिनमंदिरों में विशेष रहित भक्ति करे ।

जिनमंदिर में मकड़ी का जाला लग जावे, तो तिस के उतारने की विधि कहते हैं । जिन के सुपुर्द जिनमन्दिर होवे, तिन को साधु इस प्रकार निर्भर्त्सना—प्रेरणा करे, तुम लोग जिनमन्दिर की नौकरी खाते हो, तो सार सम्भाल क्यों नहीं करते हो ? मकड़ी का जाला भी तुम नहीं उतारते हो । तथा जिन की कोई सार सम्भाल न करे, तिन को असंविग्र—देवकुलिक कहते हैं । तिन मन्दिरों में जो

मकड़ी का जाला होये, तिम के दूर करने के वास्ते मेत्रकों को प्रेरणा करे, कि तुम जिनमन्दिर को मरगफलक की तरे चमक दमक वाला रखो । जेकर वे सेवक लोग न मानें, तत्र निर्भर्त्सना करे, और पीछे साधु जयणा से वाप दूर करे । तात्पर्य नि जिनमन्दिर और ज्ञानभण्डारादि की सर्वथा साधु भी उपेक्षा न करे ।

यह पूर्वोक्त चैत्यगमन, पूजा, स्नात्रादि विधि जो कही है, सो मत्र धनवान् श्रात्रक की अपेक्षा कही है । अरु जो श्रात्रक धनवान् न होये, वो अपने घर में सामायिक करके किसी के साथ लेने देने का झगड़ा न होये, तो उपयोग सयुक्त साधु की तरे ईया को शोधता हुआ तीन नैपेधिकी करी भाव पूजानुयायी विधि से जावे । पूजादि सामग्री के अभाव से द्रव्यपूजा करने में असमर्थ है, इस वास्ते सामायिक पार के काया से जो कुछ फूल गुयनादिक वृत्य होवे सो करे ।

प्रश्न —सामायिक त्याग के द्रव्यपूजा करनी उचित नहीं ?

उत्तर —सामायिक तो तिस के स्वाधीन है, चाहे जिस वक्त कर लेवे । परंतु पूजा का योग उस को मिलना दुर्लभ है । क्योंकि पूजा का मडाण तो सघ समुदाय के अधीन है, और यह कमी २ होता है । इस वास्ते पूजा में विशेष पुण्य है । यदागम —

जीवाण बोहिनाभो, सम्मदिट्ठीण होइ पिअकरणं ।

आणा जिणिंदभत्ती, तित्थस्स पभावणा चेव ॥

इस वास्ते इस में अनेक गुण हैं, ताते चैत्यकार्य करे । यह कथन दिनकृत्य सूत्र में है—दश त्रिक, पांच अभिगम, इत्यादि विधि प्रधान ही सर्व देवपूजा वंदनकादि धर्मानुष्ठान का महाफल होता है, अन्यथा अल्प फल है । तथा अविधि से करने पर उपद्रव भी हो जाता है । उक्तं च—

धर्मानुष्ठानवैतथ्यात्प्रत्यवायो महान् भवेत् ।

रौद्र दुःखौघजननो, दुष्प्रयुक्तादिवौषधात् ॥

तथा अविधि से चैत्यवन्दनादि करने वाले के वास्ते आगम में प्रायश्चित्त कहा है । महानिशीय के सातमे अध्ययन में अविधि से चैत्यवन्दना करे, तो प्रायश्चित्त कहा है । देवता, विद्या मन्त्र भी विधि से ही सिद्ध होते हैं ।

यदि कोई कहे कि विधि न होवे, तब न करना ही श्रेष्ठ है ? यह कहना सर्वथा अयुक्त है । यदुक्तम्—

अविहिकया वरमकयं, असूयवयणं भणंति समयन्नू ।

पायच्छिक्तं अकए, गुरुअं वितहं कए लहुअं ॥

अर्थः—अविधि करने से न करना अच्छा है, ऐसे जो कहता है, सो असूया वचन है । यह कहने वाला जैन

सिद्धात को जानना नहीं। क्योंकि जैनशास्त्र के ज्ञाता तो ऐसे कहते हैं, कि जो न करे, उस को गुरु प्रायश्चित्त जाता है अरु जो अविधि से करे, उस को लघु प्रायश्चित्त जाता है। इस वास्ते धम जरूर करना चाहिये। अरु विधिमाग की अन्वेषणा करनी। यही तत्त्व है, यही श्रद्धावन्त का लक्षण है। सर्व कृत्य करके अविधि, अशातना के निमित्त मिथ्या दुष्कृत नेना।

अग अग्रादि तीनों पजा के फल, शास्त्र में ऐसे लिखत है। विघ्न उपशात करने वाली अगपूजा है पूजाफल तथा मोटा अभ्युदय—पुण्य के साधने वाली अग्रपूजा है, तथा मोक्ष की दाता भागपूजा है। पूजा करने वाला ससार के प्रधान भोगों को भोग कर पीछे सिद्धपद को पाता है। क्योंकि पूजा करने से मन शांत होता है, अरु मन की शांति से उत्तम शुभ ध्यान होता है, अरु शुभध्यान से मोक्ष होता है, मोक्ष हुए अवाच सुख है।

तथा श्रीजिनराज की भक्ति पाच प्रकार से होती है।

पुष्पाद्यर्चा तदाज्ञा च, तद्द्रव्यपरिरक्षणम्।

उत्सवास्तीर्थयात्रा च, भक्ति पचविधा जिने ॥

द्रव्यपूजा आभोग तथा अनाभोग भेद से दो प्रकार की है। तिस में श्रीवीतराग देव के गुण जान कर वीतराग की

भावना करके आदर संयुक्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो आभोगद्रव्य पूजा है। इस में चारित्र्य का लाभ होता है, कर्म का नाश होता है। इस वास्ते बुद्धिमान् ऐसी पूजा अवश्य करे। तथा जो पूजा की विधि जानता नहीं तथा श्रीजिनराज के गुण भी नहीं जानता, सो दूसरी अनाभोग पूजा है। यह शुभ परिणाम पुण्य का कारण, बोधिलाम का हेतु है और पापक्षय करने का साधन है। उस पुरुष का जन्म भी धन्य है, आगामी काल में उस का कल्याण है। यद्यपि वो वीतराग के गुण नहीं भी जानता, तो भी भक्ति प्रीति का उल्लास उस के अन्दर अवश्य उछलता है। अरु तिस पुरुष को अरिहंत विंव मे द्वेष है, वो पुरुष भारी कर्मा तथा भवाभि-
नन्दी है। जैसे रोगी को अपथ्य में रुचि अरु पथ्य में द्वेष होवे, तो उस का वह मरण का समय होता है। ऐसे ही जिन विंव में जिस को द्वेष है, तिस को भी दीर्घ-संसारी जानना।

इहां जो भाव पूजा है, सो श्रीजिनाज्ञा का पालना है। जिनाज्ञा दो प्रकार की है, एक अंगीकार करने रूप, दूसरी त्यागने रूप। तहां सुकृत का अंगीकार करना, अरु निषेध का त्याग करना। परन्तु स्वीकार-पक्ष से परिहार-पक्ष बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि जो निषिद्ध आचरण करता है, उस का सुकृत भी बहुत गुणदायक नहीं होता है। जेकर दोनों वाते होवें, तब तो पूर्ण फल है। द्रव्य पूजा का फल अच्युत देव

लोक है। अरु भाव पूजा का फल अतर्मुहर्त्त में मोक्ष है।

द्रव्य पूजा में यद्यपि पदकाय की किंचित् विराधना होती है, तो भी कृप के दृष्टांत से वह गृहस्थ को अवश्य करने योग्य है। तात्पर्य कि करने वाले अरु देखने वालों को गिनती रहित पुण्य बचन का कारण होने से करने योग्य है। जैसे नये गाम में स्नान पानादि के वास्ते लोक कृशा खोदते हैं। और उस समय तिन को प्यास, थम अरु कीचड़ से मलिन होना पड़ता है, परन्तु कुँ के जल निकलने से तिन की तथा औरों की तृणादि अगला विद्वज्ञा सर्व मैज दूर हो जाता है, अरु सर्पांगीण सुग हो जाता है। ऐसे ही द्रव्य पूजा में जान लेना। यह कथन* आग्र्यक नियुक्ति में है। तथा और जगे भी लिगा है —

आरभपमत्ताण, गिहीणछजीवह अविरयाण ।
 भयअडनिनिवडियाण, दव्वत्थओ चेर आलओ ॥
 स्थेयो वायुमलेन निर्धृतिकर निर्माणनिर्घातिना,
 स्वायत्त बहुनायमेन सुबहुस्वल्पेन सार परम् ।
 निःसारेण धनेन पुण्यममल कृत्वाजिनाभ्यर्चन,
 यो गृह्णाति वणिर् स एव निपुणो वाणिज्यकर्मण्यलम् ॥

* अरुसिध्दपवत्तगानं, विरयाविशयाय एव गच्छ उता ।

सत्तारपयउररे दव्वत्थए कृषदिठ्ठतो ॥

यास्याम्यायतनं जिनस्य लभते ध्यायंश्चतुर्थं फलम्,
षष्ठं चोत्थित उद्यतोऽष्टममथो गंतुं प्रवृत्तोऽध्वनि ।

श्रद्धालुर्दशमं बहिर्जिनगृहात्प्राप्तस्ततो द्वादशं,

मध्ये पात्निकमीक्षते जिनपतौ, मासोपवासं फलम् ॥

पद्म चरित्र में तो ऐसे लिखा है, कि १. जब जिन मंदिर में जाने का मन करे, तब एक उपवास का फल होता है, २. यदि उठे, तो बेले का फल होता है, ३. चल पड़ने के उद्यमी को तेले का फल होता है, ४. चल पड़े, तो चोंले का फल, ५. किंचित् गये को पंचौले का फल, ६. अर्ध मार्ग में गये को एक पत्त के उपवास का फल होता है, ७ जिनराज के देखे से एक मास के तप का फल होता है, ८. जिन भुवन में संप्राप्त हुए को छमासी तप का फल होता है, ९. जिनमंदिर के दरवाजे पर स्थित हुए को एक वर्षके तप का फल होता है, १०. जिनराज को प्रदक्षिणा देने से सौ वर्ष के तप का फल होता है, ११. पूजा करे तो हजार वर्ष के तप का फल होता है, १२. स्तुति करे तो अनंतगुणा फल होता है, १३. जिनमंदिर पूजे, तो सौ गुणा पुण्य होता है, १४. लीपे, तो हजार गुणा पुण्य होता है, १५. फूल माला चढ़ावे, तो लाख गुणा पुण्य होता है, १६. गीत वार्जित् पूजा करे, तो अनंतगुणा पुण्य होता है ।

पूजा प्रति दिन तीन संध्या में करनी चाहिये । यतः—

जिनस्य पूजन हति, प्रातःपार्ष निशाभवम् ।
 आजन्मविहित मध्ये सप्तजन्मकृतं निशि ॥
 जन्नाहारौषधस्वापविद्योत्तमर्गकृपिक्रिया ।
 मत्फला स्वस्वकाले स्युगेव पूजा जिनेश्वरे ॥

तथा—

जिण पृअण तिमझ कुणमाणो सोहए य समत्त ।
 तित्थयरनामगुत्त, पानइ मेणिअनरिंदुच्च ॥
 जो पूएइ तिमझ, जिणिदराय सया विगयट्ठोम ।
 सो तईय भेरे सिज्जइ, अहया सत्तट्ठमे जम्मे ॥
 सत्त्रायरेण भयय, पूइज्जतोपि देवनाहेहिं ।
 नो होइ पूइओ खनु, जम्हा णतगुणो भयव ॥३॥

यह गाथा सुगम है ।

तथा श्रेय पूजादिक में हृदय में यद्गुमान धारि पूर्ण भक्ति भाव रखने । तथा जिनमत में चार प्रकार का अनुष्ठान कहा है । एक प्रीति सहित, दूसरा भक्ति सहित तीसरा ध्यान प्रधान, अथ चौथा असंग अनुष्ठान । तिन में जिस के प्रीति का रस बढ़े, अथ फलु भद्रक स्वभाव वाला होवे जैसे बालकों में रत्न को देख कर प्रीति होती है, ऐसी जिस को प्रीति होवे, वो प्रीति अनुष्ठान है । तथा यद्गुमान सयुक्त

शुद्ध विवेक वाला होवे, अरु वाकी शेष पहिले अनुष्ठान की तरे करे, सो भक्ति अनुष्ठान है । यद्यपि स्त्री का अरु माता का पालन पोषण एक सरीखा है, तो भी स्त्री पर प्रीतिराग है, अरु माता पर भक्तिराग है । यह प्रीति अरु भक्ति का स्वरूप कहा है । तथा जो जिनेश के गुण का जानकार, सूत्रोक्त विधि से जिनप्रतिमा को वन्दना करे, सो वचनानुष्ठान है । यह अनुष्ठान चारित्रवान् को निश्चय करके होता है । तथा जो अभ्यास के, रस से सूत्रालोचना के बिना ही फल में निःस्पृह हो कर करे, सो असंगानुष्ठान है । जैसे कुंभार चक्र को पहिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे से दण्ड दूर करे, तो भी चक्र फिरता है । यह दृष्टांत वचनानुष्ठान अरु असंगानुष्ठान में है ।

इन चारों में प्रथम तो भावना के लेश से प्रायः बालक प्रमुख को होता है । आगे अधिक अधिक जान लेना । यह चारों प्रकारका अनुष्ठान बहुमान विधिसंयुक्त करे । तो रुपया भी खरा अरु खरें सन् के समान, प्रथम भेद है । दूसरा जो पुरुष, भक्तिराग बहुमान संयुक्त होवे, अरु विधि जानता न होवे, तिसका कृत्य एकांत दुष्ट नहीं । अराठ—सरल पुरुष का अनुष्ठान अतिचार सहित भी शुद्धि का कारण है । क्योंकि जो रतन अन्दर से निर्मल है, उस का बाह्यमल सहज में दूर हो सकता है । यह रुपया तो खरा, परंतु सन् खोटा के समान, दूसरा भेद है । तथा जो पुरुष कपट भूट

आदि देव सयुक्त है, अरु अपनी महिमा पूजा के वास्ते तथा लोगों को ठगने के वास्ते विधिपूर्वक सर्वानुष्ठान करता है, उस को बड़ा अनर्थ फल होता है, यह रुपया खोटा, अरु सन् परा के समान तीसरा भेद जानना । तथा ब्रह्मानी मिथ्यादृष्टि जीव का जो वृत्त्य है, सो तो रुपया भी खोटा अरु सन् भी खोटा क-समान चौथा भेद है । इस वास्ते जो देव पूजादिक करण को बहुमान अरु विधिपूर्वक करे, उस को संपूण फल होता है ।

तथा उचित चिंता से मन्दिरप्रमाजन करना । जिस जगे से मन्दिर गिर कर बिगड़ गया होवे, उस जिनमन्दिर की साह समान प्रतिमा, प्रतिमा के परिवार को निमज करना, विशिष्ट पूजा दीपोत्सव फूल प्रमुख की शोभा करना तथा जो आगे लिंगों से सर्व अशातना धर्जना; तथा अक्षत नैत्र्यादि की चिंता करना, चन्दन, केसर धूप, नीप, तेल का सप्रह करना । विनाश न होवे, ऐसी रीति से चैत्यद्रव्य की रक्षा करे । तीन चार धावकों के सामने नेवद्रव्य की उघराणी करे । देवद्रव्य को बहुत यत्न से अच्छी जगे स्थापन करे । देवद्रव्य के लाम अरु सरच का नाम प्रगट पने लिये । आप तथा औरों से देवद्रव्य देवे, देवावे । देव द्रव्य किसी पासों लेना होवे, तहा देव के नौकर को भेज कर जिस रीति से देवद्रव्य जावे नहीं, तेने करे । उघराणी के वास्ते नौकर

रखे । इस तरे देवद्रव्य की चिंता सार सम्भाल करे ।

देहरा प्रमुख की चिंता अनेक तरे की है, तिन में धनाढ्य को धन से, तथा स्वजन के बल से चिंता सुकर है । अरु धन रहित को अपने शरीर तथा स्वजन के बल से साध्य है । जिस का जहां जैसा बल होवे, वो विशेष तैसा यत्न करे । जो चिंता थोड़े काल में हो सके तिस को दूसरी निस्सही से पहिले करे, शेष को यथा योग्य पीछे करे । ऐसे ही धर्मशाला, गुरुज्ञानादि की भी यथोचित सर्व शक्ति से चिंता करे । क्योंकि देव गुरु आदि की सार सम्भाल श्रावक के विना और कोई करने वाला नहीं । इस वास्ते श्रावक को देवादि की भक्ति और सार संभाल में शिथिल न होना चाहिये । जेकर देव गुरु प्रमुख की भक्ति, सेवा, सार संभाल श्रावक न करे, तो उस का सम्यक्त्व कलंकित हो जाता है । अरु जो श्रावक देव गुरु का भक्त है, उस से कदाचित् कोई आशातना भी हो जावे, तो भी अत्यन्त दुःखदायी नहीं । इस वास्ते चैत्यादि कृत्य में नित्य प्रवृत्त होवे । कहते भी हैं:—

*देहे द्रव्ये कुटुंबे च, सर्वसंसारिणां रतिः ।

जिने जिनमते संघे, पुनर्मोक्षाभिलाषिणम् ॥

* भावार्थः—द्रव्य शरीर और कुटुम्ब मे तो सर्व संसारी लोगों की प्रीति है, परन्तु जिन, जिनधर्म और संघ मे प्रीति तो केवल मोक्षभिलाषी पुरुषों की होती है ।

देव गुरु प्रमुख की आशातना जो है सो जघन्यादि भेद

करके तीन प्रकार की है, तहा प्रथम ज्ञान ज्ञानकी आशातना की आशातना कहते हैं। पुस्तक, पट्टी टीपणी,

जपमालादिक को मुख का धूक लेखमात्र लग जाये हीनाधिक अक्षर उच्चारै, ज्ञानोपकरण—पाटी, पोथी नवकारावली प्रमुख पास हुए, अधोगत नि सगादि होये, सो जघन्य आशातना है। तथा अकाल में पठनादि, उप धान के बिना सूत्र पढ़ना, भ्राति करके अर्थ की अन्यथा कल्पना करना, पुस्तकादि को प्रमाद से पगादिक का स्पर्श करना, भूमि में गेरना, ज्ञानोपकरण के पास हुए आहार तथा मूत्रादि करना, सो मध्यम आशातना है। तथा धूक करके अक्षर माजे, पाटी, पोथी प्रमुख ज्ञानोपकरण के ऊपर बैठना, आदि करे, ज्ञानोपकरण के पास हुए उच्चारदिक करे, तथा ज्ञान की, ज्ञानी की, निंदा, प्रत्यनीकपना उपधान करे, उत्सूत्र भाषणादि कर, सो उत्कृष्ट आशातना है।

अथ नेत्र की आशातना कहते हैं। तहा जघन्य देवाशातना

सो वास, बरस, केसर प्रमुख के डब्बे को

जिन गन्दिर की बजाये श्वास तथा वस्त्र के छेडे से नेत्र का स्पर्श आशातना—स्पर्श करे, सो जघन्य आशातना है। तथा

पवित्र वस्त्र, धोती प्रमुख करे बिना पूजा करे, पूजा के वस्त्र भूमि में गेरे, इत्यादि मध्यम आशातना है तथा प्रतिमा को पग से सघटना, श्लेष्म अथ धूक का

लगाना, प्रतिमा का भंग करना, जिनेश्वर देव की अवहेलनादि करना । सो उत्कृष्ट आशातना है । अथ देव की जघन्य दश आशातना, अरु मध्यम चालीस आशातना तथा उत्कृष्टी चौरासी आशातना है, सो क्रम करके कहते हैं ।

प्रथम जघन्य दश आशातना न करनी, सो लिखते हैं ।
जिन मन्दिर में १. पान सोपारी खावे, २. पानी पीवे, ३. भोजन करे, ४ पगरखा पहिरे, ५. स्त्री से संभोग करे, ६. सोवे, ७. श्रुके, ८. सूत्रे, ९. उच्चार करे, और १०. जूआ खेले जघन्य से यह दश आशातना जिन मन्दिर में वर्जें ।

दूसरी मध्यम चालीस आशातना वर्जें, तिन का नाम कहते हैं । १. मूतना, २. दिशा जाना, ३. जूता पहरना, ४. पानी पीना, ५. खाना, ६. सोना, ७. मैथुन सेवना ८. तंबोल खाना, ९. श्रुकना, १०. जूआ खेलना, ११. जूआं देखे, १२. विकथा करे, १३. पाखठी से बैठे, १४. जुदा जुदा पग पंसारे, १५. झगड़ा करे, १६. हांसी करे, १७. किसी के ऊपर ईर्ष्या करे, १८. अंचे आसन पर बैठे, १९. केश शरीर की विभूषा करे, २०. शिर पर छत्र लगावे, २१. खड्ग रक्खे, २२. मुकुट धरना, २३. चामर कराने, २४. स्त्री से काम-विलास सहित हांसी करनी, २५. धरना लगाना, २६. क्रीड़ा—खेले करना; २७. मुख कोश के विना पूजा करनी, २८. मैले शरीर से और मैले वस्त्रों से पूजा करनी, २९. पूजा करते समय मन को चपल करना, ३०. शरीर के भोग सेवित्त द्रव्य को

विना उतारे मन्दिरमें जाना, ३१. अचित्त द्रव्य-आभूषणादि उतार के जाना, ३२ एक साडी का उत्तरासग न करे, ३३ भगवान् को देख के हाथ न जोडे, ३४ शक्ति के हुये पूजा न करे, ३५ अनिष्ट फुलें से पूजा करे, ३६ पूजा प्रमुख आदर रहित करे, ३७ जिन प्रतिमा के निंदक को हटाये नहीं, ३८ मन्दिर के द्रव्य की सार समाल न करे ३९ शक्ति के हुये भी सवारी पर चढ़ के मन्दिर में जाये, ४० देहरे में यहाँ से पहिले चतुस्रदण करे । जिनेन्द्र भवन में तथा जहा प्रतिमा होये, तहा यह चातीस मध्यम आशातना टाले ।

अत्र उत्कृष्ट चौरासी आशातना का नाम कहते हैं । १ जिन मन्दिर में खेल गप्पार गेरे, २ जूए आदिक की मीड़ा करे, ३ कलह करे, ४ धनुष्यादि फला सीये, ५ कुरला करे, ६ तयोळ पावे ७ तयोळ का उगाल गेरे, ८ गाली देये, ९ दिशा मात्रा करे, १० हस्तादि अंग धोये, ११ केश समारे १२ नख समारे, १३ रुधिर गेरे, १४ सुपडी प्रमुख देहरे में खाये, १५ गुमडे आदिक की त्वचा गेरे, १६ औषधि खाके पित्त गेरे १७ घमन करे, १८ दात गेरे, १९ हाथ पग मसलाये, २० घोड़ादि याधे, २१ दात का मैल गेरे, २२ आस का मैल गेरे, २३ नख का मैल गेरे, २४ गाल का मैल गेरे, २५ नाक का मैल गेरे, २६ माथे का मैल गेरे, २७ शरीर का मैल गेरे, २८ कान का मैल गेरे, २९ भूतादि के कीलने के वास्ते मंत्र साधे, अथवा राजा प्रमुख का काम होवे, पिस

का विचार करे, ३०. मन्दिर में विवाहादिक की पंचायत करे, ३१. व्यापार का लेखा करे. ३२. राज का काम बांट के देवे, अथवा भाई प्रमुख को धन का हिस्सा बांट के देवे, ३३ घर का भंडार मन्दिर में रखे, ३४. पगोपरि पग रख के दुष्टासन करके बैठे, ३५. मंदिर की भीत से छाणा लगावे— गोबर का ढेर लगावे, ३६ वस्त्र सुखावे, ३७. दाल दले, ३८. पापड़ बेली सुखावे, ३९. बड़ा बनावे, उपलक्षण से कयर, चीमड़ा, शाक प्रमुख सुकाने के वास्ते गेरे, ४०. राजा, भाई और लेनदार के भय से मांग कर मूलगंभारे में लुक जावे, ४१. पुत्रकलत्रादि के मरण से मन्दिर में रोवे, ४२. स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा, यह चार विकथा करे, ४३. वाण, ईशु का गन्ना घड़े, तथा धनुष्यादि शस्त्र घड़े, ४४. गाय बैलादि को मन्दिर में रखे, ४५. शीत दूर करने को अग्नि तापे, ४६. धान्यादि रांधे, ४७. रुपये परखे, ४८. विधि से नैवेधिकी न करे, ४९. छत्र, ५०. पगरखी, ५१. शस्त्र, ५२. चामर, यह चार, मंदिर के बाहिर न छोड़े, ५३ मन एकाग्र न करे, ५४. तैलादिक का मर्दन करे, ५५. शरीर के भोग के साचित्त फूलादिक का त्याग न करे, ५६. हार, मुद्रा, कुंडलादि, तिन को बाहिर छोड़ आवे [तो आशातना लगे, क्योंकि लोगों में ऐसा कहना हो जावे, कि अर्हत के भक्त सर्व कंगाल भिक्षाचर हैं, इसी तरे जिनमत की लघुता होनी है] ५७. भगवान् को देख के

हाथ न जोड़े ५८ एक साडी का उत्तरासग न करे, ५९ मुकुट मस्तक में रखे, ६० मौलि—सिर का लपेटना रखे, ६१ फूल का सेहरा रखे, ६२ नारियल आदिक का छोट गेरे, ६३ गेंद से ग्वेले, ६४ पिता प्रमुख को जुहार करे, ६५ भाड चेष्टा करे, ६६ तिरस्कार के वास्ते रेकारा तुकारा देवे, ६७ लेने वास्ते धरना देवे, ६८ सग्राम करे, ६९ मस्तक के केश सुखावे, ७० पालठी मार कर बैठे, ७१ काष्ठ, पादुकादि पग में रखे, ७२ पग पसारे, ७३ मुख के वास्ते पुडपुडी दगावे, ७४ शरीर का अग्रयन धोके कीचड़ कूड़ा करे, ७५ पगादि में लगी हुई धूल झाडे ७६ मैथुन कामक्रीडा करे, ७७ जूआ गेरे, ७८ भोजन जीमे, ७९ गुह्य चिह्न को ढक के न बैठे, ८० बचक का काम करे, ८१ क्रय विक्रय रूप वाणिज्य करे, ८२ शय्या बना के सोवे, ८३ पानी पीने के वास्ते जल का मटका रखे, तथा मन्दिर के पत नाले का पानी लेवे, ८४ स्नान करने की जगा बनावे । यह उत्कृष्ट चौरासी आशातना जिनमन्दिर में वर्जें ।

अथ गुरु की तेत्तीस आशातना लिखते हैं । १ गुरु के आगे चले, तो आशातना है । जेकर रस्ता गुरु की ३३ बतावने के वास्ते चले, तो आशातना नहीं आशातना होती है । २ गुरु के बराबर चले, ३ गुरु के पीछे अड़के चले, यह जैसे चलने की तीन आशातना बही हैं, ऐसे ही बैठने की भी तीन आशातना

जान लेनी । तथा खड़ा होने की भी तीन आशातना जान लेनी । यह सर्व नव आशातना हुई । १०. भोजन करते गुरु से पहिले शिष्य चुलु करे । ११. गमनागमनं गुरु से पहिले आलोचे । १२. रात्रि में कौन जागता है, ऐसे गुरु के कहे को सुन कर जागता हुआ भी शिष्य उत्तर न देवे, तो आशातना लगे, १३. जब किसी को कुछ कहना होवे, तो गुरु से पहिले ही शिष्य कह देवे । १४. दूसरे साधुवों के आगे पहिले अशनादि आलोवे पीछे गुरु के आगे आलोवे । १५. ऐसे ही अशनादि पहिले दूसरे साधुवों को दिखा के पीछे गुरु को दिखावे । १६. अन्नादिक की पहिले औरों को निमन्त्रणा करके पीछे गुरु को निमन्त्रणा करे । १७. गुरु के विना पूछे स्वेच्छा से औरों को स्निग्ध मधुरादि आहार दे देवे । १८ गुरु को यत्किंचित् अन्नादि देकर पीछे यथेच्छा से स्निग्धादि आहार आप खावे । १९. गुरु बोलावे, तव बोले नही । २०. गुरु को बहुत कर्कश—कठोर वचन बोले, २१. जब गुरु बोलावे, तव आसन पर बैठा ही उत्तर देवे । २२. गुरु बोलावे तव कहे, क्या कहते हो ? २३. गुरु को तूंकारा देवे, २४. गुरु ने कोई प्रेरणा करी हो, तव गुरु की प्रेरणा को उत्तर करके हने । जैसे गुरु कहे कि हे शिष्य ! तुमने ग्लान की वैयावृत्य क्यों नहीं करी ? तव शिष्य कहे कि तुम क्यों नहीं करते ? २५. गुरु की कथा कहते हुए मन में प्रसन्न न होवे, किंतु विमन होवे, २६. सूत्रादि कहते

गुरु को कहे तुम को अर्थ याद नहीं है, यह अर्थ ऐसे नहा होवे है । २७ गुरु कथा कहता है, तिम कथा को बीच-में छेद करे, अरु कहे कि मैं कथा करूंगा । २८ पपदा को भागे, जैसे कहे कि अब भिक्षा का अवसर है, इत्यादि कहे । २९ पपदा के विना उठे गुरु की कही कथा को अपनी चतुराई दिखलाने के वास्ते प्रियेप करके कहे । ३० गुरु की शय्या—सथारकादि को पगों से सघटा करे । ३१ गुरु की शय्यादि उपर बैठना आदि करे । ३२ गुरु से ऊचे आसन पर बडे । ३३ गुरु के बराबर आसन करे ।

यह गुरु की आशातना भी तीन प्रकार की है, एक पगादि से सघटा करे, सो जघन्य आशातना, दूसरी श्लेष्म शूकादि गुरु के लग्नमात्र लगाये, तो मध्यम आशातना है । तीसरी गुरु का आदेश न करे, जेकर करे, तो भी उलटा करे, कठोर वचन बोले, गुरु का कहा न सुने, इत्यादि उत्कृष्ट आशातना है ।

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकार की है ।

१ इधर उधर हलाये, पगों का स्पर्श करे, अन्य आशातना तो जघन्य आशातना, २ भूमि में गेरे, अवज्ञा से धरे, सो मध्यम आशातना ३ स्थापना चार्य को सोये, तथा तोडे तो उत्कृष्ट आशातना है । ऐमे ही ज्ञानोपकरण, दशनोपकरण, तथा चारित्रोपकरण रजो-हरणादि, मुसत्रखिका, दडक, दडिका प्रमुग्ग की भी आशातना

पहिले टाले ।

श्रावक को, सर्व धर्मोपकरण-चरवला मुख वास्त्रिकादि, विधि पूर्वक स्वस्थान में स्थापना करनी चाहिये, अन्यथा धर्म की अवज्ञादि दूषणों की आपत्ति होवे । शास्त्र में लिखा है कि जो सत्सूत्र भाखे, तथा अर्हंत की अरु गुरु की अवज्ञादि महा आशातना करे, तो उस को सावद्याचार्य, मरीचि, जमाली, कूलवालकादि की तरें अनंत जन्म मरण की वृद्धि होवे । यतः—

उस्मुत्तभासगाणं, बोहीनासो अणंत संसारो ।
पाणाच्चएवि धीरा, उस्मुत्तं ता न भासंति ॥
तित्थयरपवयणसुयं, आयरियं गणहरं महिद्धियं ।
आसायंतो बहुसो, अणंत संसारिओ होइ ॥

इन का अर्थ सुगम हैः—

ऐसे ही देव, ज्ञान, साधारण द्रव्य का तथा गुरु द्रव्य-वस्त्र, पात्रादि का विनाश, तिन की उपेक्षादिक जो करनी है, सो भी महा आशातना है ।

चेइअदव्वविणासे इसिघाए पवयणास्स उड्डाहे ।

संजइचउत्थ भंगेसूलंगी बोहिलाभस्स ॥

तथा श्रावकदिनकृत्य दर्शनशुद्धि आदि शास्त्रों में भी लिखा हैः—

चेददद्व साधारण च जो दुहड मोहिअमईओ ।

धम्म च सो न यागाड, अहवा बद्धाउओ नरण ॥

अर्थ—चैत्यद्रव्य तथा साधारण द्रव्य को नाश करे,
या तो वो धर्म नहीं जानता है, अथवा उस ने
दवादि सम्बन्धी नरक का आयु याधा है, इस धाम्ने ही ऐसा
द्रव्य अयोग्य काम करता है। तथा चैत्यद्रव्य का
नाश, भक्षण, उपेक्षण कोई करे, तिस को
जेकर साधु न हटाये, तो वो साधु भी अनत ससारी
हो जाये।

प्रश्न—मन, घचन अरु पाया करके तिस ने सावय
कर्म को त्यागा है, ऐसे यति को चैत्यद्रव्य की रक्षा में
क्या अधिकार है ?

उत्तर—जेकर राजा तथा यजीर को याचना करके,
तिनों के पास से घर, हाट, गामादि लेकर विधि से नयीं
पैदायश-उत्पन्न करे, तय तो यह विवक्षित दूषण आ सकता
है, परन्तु किसी-यथा भद्रकादि ने धम के धाम्ने पहिले
दिया दोये; उस का नाश देग्र कर रक्षा करे, तो कोई दूषण
नहीं होता है, बल्कि जिन भाषा की आराधना होने से धम
की पुष्टि होती है।

तथा नये तिनमदिर के बनाने से जो पूय बना हुआ है,
उस के प्रतिपत्थी अथात् शत्रु को जो साधु हटाये; तो उस

साधु को न प्रायश्चित्त है, तथा न उस साधु की प्रतिष्ठा भंग होती है। आगम भी ऐसा ही कहता है। इस वास्ते जो श्रावक जिन द्रव्य को खावे, उपेक्षा करे, वो श्रावक, अगले जन्म में बुद्धिहीन, अरु पाप कर्म से लेपायमान होता है।

आथाणं जो भंजइ, पडिवन्नथणं न देइ देवस्स ।

नस्संतं समुविक्खइ, सो वि हु परिभमइ संसारे ॥

अर्थ:—जो पुरुष मंदिर की आमदनी भांगे, अरु जो मुख से कह कर जिनद्रव्य न देवे, सो भी संसार में भ्रमण करे।

तथा:—

जिणावयणावुद्धिकरं, पभावगं नाणदंसणगुणाणं ।

भवखतो जिणदव्वं, अणंतसंसारिओ होइ ॥

अर्थ:—जो जिनमत की वृद्धि करे, चैत्यपूजा, चैत्यसमारना, महापूजा सत्कारादि से ज्ञान दर्शन की प्रभावना करे, परन्तु जिनद्रव्य का नाश करे, तो अनंत संसारी होवे। अरु जेकर जिनद्रव्य की रक्षा करे, तो अल्प संसारी हो जावे। देवद्रव्य की वृद्धि करे, तो तीर्थंकर नामकर्म बांधे। परन्तु पंदरा कर्मादान, खोटा वाणिज्य वर्ज के सद्व्यवहार से जिन द्रव्य की वृद्धि करे। यत:—

जिणवरआणारहियं, वद्धारंतावि केवि जिणादव्वं ।

बुद्धंति भवसमुदे, मूढा मोहेण अन्नाणी ॥

इस का अर्थ सुगम है—

कोई कहते हैं कि श्रावण बिना औरों का अधिक गहना रक्षण कालांतर में व्याज की वृद्धि करे, सो उचित है। ऐसा कहना भी ठीक है। क्योंकि सम्यक्त्व पच्चीसी आदिक ग्रन्थों में सकारण की कथा में तैसे ही लिखा है। चैत्यद्रव्य के खाने से बहुत कष्ट होते हैं सागर श्रेष्ठीवत्। यह कथा श्राद्धविधि ग्रन्थ से जान लेनी। ज्ञानद्रव्य भी देवद्रव्य की तर अकल्पनीय है, अर्थात् नारा करना, मक्षण करना, विगडते की सार सभाल न करनी। ऐसे ही साधारण द्रव्य भी सघ का दिया हुआ ही कल्पता है, बिना दिया काम में लाना न कल्पे। सघ को भी सात क्षेत्र में ही 'साधारणद्रव्य लगाना चाहिये। मागने वालों को उस में से देना न चाहिये। ऐसे ही ज्ञान सम्यग्धी कागज पत्रादि साधु का दिया हुआ वाचक ने अपने कार्य में नहीं लगाना। अपनी पोथी में भी न रखना। स्थापनाचार्य अरु जपमालादि ले लेने का व्यवहार तो दीखता है। तथा गुरु की आज्ञा के बिना साधु साध्वी को लिखारी से लिखाना अरु घस्त्र सूत्रादि का लेना भी नहा कल्पता। इत्यादि विचार लेना। तिम घास्ते योड़ा सा भी ज्ञानद्रव्य अरु साधारणद्रव्य का उपभोग न करना चाहिये।

जो द्रव्यदेय के नाम का बोले, सो तत्काल दे देवे, क्योंकि देयद्रव्य जितना शीघ्र देवे, उतना अच्छा है। कदापि विलम्ब करे, तो पीछे क्या जाने धनहानि मरणादि हो जायें

तो देवद्रव्य का ऋण रह जाय । और संसारी का देना भी श्रावक को शीघ्र दे देना चाहिये, तो फिर देवद्रव्य का क्या कहना है ? जिस वक्त माला पहराई तथा और कुछ द्रव्य देव के भंडारे में देना करा, उसी वक्त से वो देवद्रव्य हो चुका । उस द्रव्य में जो लाभ होवे, सो भी देवद्रव्य है । उस द्रव्य को श्रावक ने भोगना नहीं । इस वास्ते शीघ्र दे देना चाहिये । जेकर मासादिक पीछे देने का कौल करे, तदा करार ऊपर बिना मांगे जरूर दे देवे । जेकर करार उल्लंघन के देवे, तो देवद्रव्य खाये का दुष्ण लगे । देवद्रव्य की उगराही भी श्रावक अपनी उगराही की तरे यत्न से करे । जेकर देवद्रव्य लेने में ढील करे, अरु कदाचित् दुर्मित्त दरिद्रादि अवस्था आ जावे, तो फिर मिलना दुष्कर हो जावे । तथा देने वाला भी उत्साह पूर्वक कपट रहित होकर शीघ्र दे देवे । नहीं तो देवद्रव्य भक्षण का दोष है ।

तथा देवज्ञान साधारण सम्बन्धी हाट, खेत, बाड़ी, पापाण, ईट, काष्ठ, वांस, मिट्टी, खड़िया, चन्दन, केसर, वरास, फूल, फूलचंगेरी, धूपपात्र, कलश, वासकूपी, छत्र सहित सिंहासन, चमर, चन्द्रोदय, झालर, भेरी, चान्दनी, तंबू, कनात, पड़दे, कंवल, चौकी, तखत, पाटा, पाटी, घड़ा, बड़ा उरसा, कज्जल, जल, दीवा प्रमुख चैत्यशाला, प्रनालादिक का पानी, ये सर्व पूर्वोक्त वस्तु देव की अपने काम में न वर्तनी चाहियें । दूट फूट अथवा मलीन हो

जाये, तो महापाप होवे । देव के आगे दीवा बाल के उस दीवे के चानणे में कोई सासारिक काम करे, तो भर के तिर्यच होवे । इस वास्ते देव के दीवे से रत-पत्र भी न वाचना चाहिये । रूपक भी न परखना । घर का काम भी देव के दीवे से न करना । तथा देव के चदन, केसर से तिलक न करे । देव के जल से हाथ न धोवे, स्नात्रजल भी थोड़ा सा लेना चाहिये । तथा देवसवधी झल्लरी, मृदग, मेरी प्रमुख गुरु के तथा सघ के आगे न बजाये । जेकर कोई देव के उपकरण झल्लरी आदिक से कोई कार्य करना होवे तो बहुत निकराना देव के आगे रख के लेवे वदाचित् कोई उपकरण टूट जाये, तत्र अपना धन रख के नया बनवावे, देव का दीवा, लालटन, फानूस प्रमुख को जुदा ही राखे । तथा साधारण द्रव्य से जो झल्लरी प्रमुख बनावे, और सवधमकाय में बसें, तो दोष नहीं जैसे भावों से करे, सोइ प्रमाण है ।

देव का तथा ज्ञान का घर आदिक भी श्रावण की नि शुक तादि दोष होने से भाडे लेना न चाहिये । साधारण सवधी घर आदि की सघ की अनुमति से लोक व्यवहार का भाड़ा देकर बरते, तो दोष नहीं, परन्तु भाड़ा करार के दिन में स्वयमेव दे देवे । उस मकान के समराने में जो धन लगे, तिस को भाडे में गिन लेवे; तो दोष नहीं । अरु जो साधर्मि सकट—निर्धनपने से दु खी होये, वो सघ की आज्ञा से

विना भाड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं। तथा तीर्थादिक में अरु देहरे में जो बहुत काल रहना पड़े, वहां सोवे, तो तहां भी लेखे के अनुसार अधिक भाड़ा देवे। थोड़ा देवे, तो दोष है। भाड़ा दिये विना देव, ज्ञान और साधारण सम्बन्धी वस्त्र नारियल, सोने रूपे की पाटी, कलश, फूल, पक्वान्न, सूखडी प्रमुख को उजमने में, पुस्तक पूजा में, नन्दी मांडने में, न मेलना चाहिये। क्योंकि उजमणादि तो उसने अपने नाम का करा है। फिर देव, ज्ञान अरु साधारण सम्बन्धी पूर्वोक्त वस्तु भाड़े विना वर्त्ते, तो स्पष्ट दोष है।

तथा घर देहरे में अक्षत, सोपारी, फल, नैवेद्यादि के वेचने से जो धन होवे, तिस से खरीदे हुए फूलादिक को घर देहरे में न चढ़ावे, तथा पंचायती वड़े मन्दिर में भी आप न चढ़ावे। पूजारी के आगे सर्व स्वरूप कहे कि यह मन्दिर ही का द्रव्य है, मेरा नहीं। पूजारी न होवे, तो संघ के समक्ष कह देवे। यदि न कहे, तो दूषण है। घर देहरे का नैवेद्यादि माली को देवे, परन्तु उस को माली की नौकरी में न गिन लेवे, जेकर पहिले ही सामग्री नौकरी में देनी करेलेवे, तो दोष नहीं। मुख्यवृत्ति से तो नौकरी चढ़ावे से अलग देनी चाहिये।

घर देहरे के चढे हुए चावलादि वड़े मन्दिर में भेज देवे, अन्यथा घर देहरे के द्रव्य से घर देहरे की पूजा होवेगी, स्वद्रव्य से नहीं होवेगी। यदि करे तो अनादर, अवज्ञादि

दोष है । ऐसा करना युक्त नहीं, क्योंकि स्वद्रव्य से ही पूजा करनी उचित है । तथा वेहरे का नैवेद्य अक्षतादि अपने धन की तरे रखने चाहिये । पूरे मूल्य से वेच के देवद्रव्यों को यथाना चाहिये । परन्तु जैसे तैने मोल से न जाने देवे, नहीं तो देवद्रव्य के नाराधरे का दूषण लग जायेगा । तथा सब तरे से रक्षा करने हुए भी चौर, अग्नि, आदिष के उपद्रव से न्यद्रव्य नष्ट हो जाये, तो चिंता कारण को दोष नहीं ।

तथा देव, गुरु, यात्रा, तीर्थ भरु सध की पूजा, साधर्मि पात्मस्य, स्नात्र, प्रभायना, धान लिखाना इत्यादिक कारणों के पास दूमरों के पास से जय धन लेने तय चार पात्र पुग्यों की माची से लेवे, फिर रखने के अयसर म भी गुरु सत्रादिक के अगे प्रगट कह ग्ये, कि यद् धन मैंने अमुक का दिया हुआ गरजा है, मेरा नहीं है ।

तथा तीथादि में भर पूजा स्नात्र धना चढ़ाने आदि आवश्यक वस्तुय में दूमरों का सिर न करे; किंतु स्वयमेव ही यथायति करे । नेकर किसी ने धम रख म धन दिया होवे, तय तिम का प्रगट नाम ले कर सर समक्ष ग्यारा ही रख करना चाहिये । यद् यद् मिल कर यात्रा साधर्मि पात्मस्य स्वयंपूजादि करे, तय जितना जितना तिम का हिस्सा होव, उतना उतना प्रगट कह ग्ये; नहीं तो पुगय का की बोदी ग्ये ।

तथा मरण के समय में माता, पितादिक जो धर्म में खर्च करना कहे तथा पुत्रादि जो खर्च करना माने सो बहुत से श्रावकों के आगे कहना चाहिये; जैसे मैं तुमारे नाम से इतने दिनों के बीच में इतना धन खर्चूंगा । तुम उस की अनुमोदना करो । पीछे सो धन सर्व समस्त अपने नाम से नहीं रखना, किन्तु माता पितादि के नाम से तत्काल खर्च कर देना चाहिये । धर्म में मुख्यवृत्ति करके तो साधारण द्रव्य ही का खर्च करना चाहिये, क्योंकि जहां जहां काम पड़े, तहां तहां खर्च में लावे । सात क्षेत्रों में जौनसा क्षेत्र सीद्धते-नष्ट होते देखे, तिस में धन खर्च के तिस को उपग्रंभ देवे । कोई श्रावक निर्धन हो जावे तो भी उस को उसी धन से उपग्रंभ देवे । लोकेप्युक्तम्:—

दरिद्रं भर राजेंद्र ! मा समृद्धं कदाचन ।

व्याधितस्यौषधं पथ्यं, नीरोगस्य किमौषधम् ॥

इस वास्ते प्रभावना और संघ पहिरावणी, सम्यक्त्व के की नाफलम्भन आदि में जो निर्धन साधर्मीं होवें, तिन को विशेष ध्यान करेनी चाहिये, अन्यथा धर्मावज्ञादि दोष होवे । यह बात सुने अल कि धनवान् से निर्धन को अधिक वस्तु देनी चाहिये । यदि के शक्ति न होवे, तदा दोनों को बराबर देवे । अपना खर्च धर्म द्रव्य से न करना । यात्रादिक के निमित्त जो धन काहे, सो सर्व देवादि निमित्त ही गया ।

जेकर वो द्रव्य अपने भोजन में अथवा गाडी आदिक के भाडे में लगायेगा, तब जरूर उस को देव द्रव्य खाने का पाप लगेगा, कदाचित् अज्ञान करके चूक के, घेसमझी से, इत्यादि कारणों से कोई श्रावकादि देवादि द्रव्य का उपभोग कर लेये, तो निम्न के प्रायश्चित्त में जितना द्रव्य खाया होये, उतना द्रव्य देव साधारण स्वध में देये । मरण अवस्था में शक्ति के अभाव से धर्मस्थान में थोड़ा ही ग्वरच । परन्तु देना किसी का न रक्खे । देवादि द्रव्य तो विशेष करके न रक्खे ।

इस रीति से श्रीजिनराज की पूजा दृढ़ भावों से करनी चाहिये ।

अथ गुरु वन्दना की विधि लिखते हैं । जो ज्ञानादि पाच आचार करके सयुक्त होये, और शुद्ध धर्म के प्ररूपक होवें, सो गुरु हैं । पाच आचार का स्वरूप देवना होये, तब श्री रत्नगेवरसूरिदत्त आचारप्रदीप ग्रन्थ देख लेना ।

यह पूर्वोक्त गुरु आचायादिक के पास, जो प्रत्याख्यान पूर्व में अपने आप करा था, सो विशेष करके गुरु वन्दन और विधि पूर्वक गुरु के मुग्ग से उचराने । क्योंकि प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीन तरों से करा जाना है, एक आत्मसाक्षिक, दूसरा नेत्र साक्षिक, तीसरा गुरुसाक्षिक । तिस की विधि यह है ।

मन्दिर में नेत्रवन्दनाथ, स्नात्रादि नेत्रने के अर्थ धर्मापदेश देने के अर्थ, गुरु जिन मन्दिर में आये होयें, तहा मन्दिर की

तरे तीन निस्सही पंचाभिगमनादि यथायोग्य विधि से जा करके गुरु के धर्मोपदेश से पहिले तथा पीछे, यथा विधि से पच्चीस आवश्यक से शुद्ध द्वादशावर्त्त वंदना देवे । वंदना का बड़ा फल कहा है । कृष्णवासुदेववत् । तथा भाष्य में वंदना तीन तरे की कही हैं, एक तो मस्तक नमावणादि सो फेटा वंदना, दूसरी संपूर्ण दो खमासमण पढ़ने से स्तोभ वंदना होती है । तीसरी द्वादशावर्त्त करने से द्वादशावर्त्त वंदना होती है । तिस में प्रथम वंदना तो सर्व संघ को करनी, दूसरी वंदना सर्व स्वदर्शनी साधुओं करनी, अरु तीसरी वंदना जो है, सो पदवीधर आचार्यादिक को करनी ।

जिस ने सवेरे का पडिक्रमणा न करा होवे, तिस ने विधि पूर्वक वंदना करनी । क्योंकि भाष्य में ऐसे ही लिखा है ।
 १. भाष्योक्तविधि—ईर्यापथप्रतिक्रमे २ पीछे कुस्वप्न का कायोत्सर्ग करे—सौ उछास प्रमाण करे । जेकर स्वप्न मे खी से संगम करा होवे, तदा अशुचि की सर्व जगा धो के पीछे एक सौ आठ श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे ।
 ३. पीछे चैत्यवंदन करे । ४. पीछे क्षमाश्रमण पूर्वक मुखवस्त्रिका प्रतिलेखे । ५. पीछे दो वंदना देवे ।
 ६. पीछे देवसि आदिक आलोवे । ७. फिर वन्दना दो देवे, ८. पीछे अब्मुट्टिओमि कहे, ९. पीछे दोवन्दना

करे, १० पीछे प्रत्याख्यान करे, ११ पीछे भगवन् अह इत्यादि चार क्षमाश्रमण वेत्ते, १२ पीछे स्वाध्याय सदि सात्रथो कहे । फिर क्षमाश्रमण पूर्वक सज्ज्ञाय करू, ऐसे कहे, पीछे स्वाध्याय करे यह सत्रे की वन्दनाविधि है ।

तथा प्रथम १ ईर्यापथ पडिक्रमे, २ पीछे चेत्यवन्दना कर, ३ पीछे क्षमाश्रमण पूर्वक मुखवखिका का प्रतिलेपन करे, ४ पीछे दो वन्दना करे, ५ पीछे दिवसचरिम का प्रत्याख्यान करे, ६ पीछे दो वन्दना करे, ७ पीछे देवसि षालोड कहे, ८ पीछे दो वन्दना करे, ९ पीछे अब्भुट्टिड कहे, १० पीछे भगवन् इ यादि चार स्तोभवन्दना करे, ११ पीछे दैवसिक प्रायश्चित्त का कायोत्सग करे, १२ पीछे पूर्ववत् दो क्षमाश्रमण देकर स्वाध्याय करे, यह सन्या की वन्दन विधि है ।

- जेकर किसी काय में प्रवृत्त होने से गुरु का चित्त और तफ होवे, तदा सत्क्षेप मात्र वन्दना करे, ऐसे वन्दना पूर्वक गुरु पासों प्रत्याख्यान करावे । क्योंकि श्रावकप्रज्ञप्तिसूत्र में लिखा है, कि प्रत्याख्यान करने के परिणाम दृढ़ भी होवे, तो भी गुरु के पासों करावे, गुरु पासों प्रत्याख्यान कराने में यह गुण है—१ दृढता होती है, २ आक्षा का पालन होता है, ३ कर्म का क्षय होता है, ४ उपराम की वृद्धि होती है ।

ऐसे ही देवसिक चातुर्मासिक नियमादि भी गुरु का सयोग होवे तो गुरु सात्त्विक ही करने चाहियें । योगशास्त्र

में गुरु की भक्ति करनी ऐसे लिखी है:—

अभ्युत्थानं तदालोकेऽभियानं च तदागमे ।
शिरस्यंजलिसंश्लेषः स्वयमासनढौकनम् ॥१॥
आसनाभिग्रहो भक्त्या, वन्दना पर्युपासनम् ।
तद्यानेऽनुगमश्चेति, प्रतिपत्तिरियं गुरौ ॥२॥

[यो० शा०, प्र० ३ श्लो०, १२५, १२६]

अर्थ:—१. गुरु को आते देख के खड़ा हो जाना, २. सन्मुख लेने जाना, ३. मस्तक पर अंजलि गुरु विनय बांध कर प्रणाम करना, ४. गुरु को आसन देना, ५. जब गुरु आसन पर बैठ जावे, तब मैं आसन पर बैठूंगा, ऐसा अभिग्रह लेवे, ६. भक्ति से वंदना पर्युपासना करे, ७. जब गुरु जावे, तब पहुंचाने जावे, ८. यह गुरु की भक्ति है । तथा १. अंड के गुरु के बराबर न बैठे, २. आगे न बैठे, ३. गुरु की तर्फ पीठ दे कर न बैठे ४. पग ऊपर पग चढ़ा करके गुरु के पास न बैठे । ५. पालठीमार के न बैठे । ६. हाथों से जंघा को लपेट के न बैठे, ७. पग पसार के न बैठे, ८. विकथा न करे, ९. बहुत हसै नही, १०. नींद न लेवे, ११. मन, वचन काया को गोप करके हाथ जोड़ भक्ति बहुमान पूर्वक उपयोग सहित सुधर्म को सुने क्योंकि गुरु पासों धर्म सुनने से इस लोक तथा

परलोक में बहुत गुण होता है ।

तथा किसी साधु को रोगादि होये तो गुरु से पूछे कि वैद्य को चोलाऊ ? औषधि का योग मिलाऊ ? इत्यादि गुरु और गच्छ की सर्व तरहे से परर सार लेये । भोजन के अग्रसर में उपाश्रय में जा कर के साधुओं को निमन्त्रणा करे । तथा औषधि पथ्यादि जो जिस को योग्य होये, सो देये । जब साधु श्रावक के घर में आवे, तब जो जो वस्तु साधु के योग्य होये, सो सो सर्व वस्तु देने के चास्ते निमन्त्रणा करे । सब वस्तुओं का नाम लेये, जेकर साधु नहीं भी लेवे, तो भी दाता को जीर्णोदरत् पुण्य फल है । रोगी साधु की प्रतिचर्या करने से जीगानद वैद्यत्त महापुण्य फल होता है । साधुओं के रहने की स्थान देये, तथा जिन शासन के प्रत्यनीक को सधशक्ति से निगारण करे । तथा साधवियों की दुष्ट, नास्तिक, दुशील जनों से रक्षा करे । अपने घर के पास चन्दोस्त गाला शुभ उपाश्रय रहने को देवे । उनों की अपनी स्त्री, धनु, वहिन, बेटी प्रमुख से सेवा भक्ति कराये । अपनी बेटियों को साधवियों से विद्या सिखलाये । जेकर किसी बेटी को वैराग्य चढे, तब साधवियों को दे देये । जेकर कोई साधवी धर्महृत्य भूत् जाये, तदा स्मरण करा देये । जेकर कोई साधवी अ पाप में प्रवृत्त होवे, तो निगारण करे । तथा आप रोज गुरु पासों नवीन नवीन शास्त्र पढे, जेकर बुद्धि थोडी होवे, तदा पेसा विचारे

कि सुरमें दानी में से थोड़ा थोड़ा अंजन निकलने से अंजन क्षय हो जाता है, तथा वर्मी का चन्दना । ऐसे परिश्रम अभ्यास करने से निष्कल दिन न जाने देवे । थोड़ी बुद्धि भी होवे तो भी पढ़ने का अभ्यास न छोड़े ।

इत्यादि धर्मकृत्य करके पीछे जेकर राजा श्रावक होवे, तब तो राजसभा में जावे, प्रधान होवे, तो अर्थचिन्ता न्याय सभा में जावे, बनिया होवे तो हट्टी बाजार में जावे, इत्यादि उचित स्थान में जा करके धर्म से विरुद्ध न होवे, उस रीति से धन उपार्जन की चिन्ता करे ।

अब प्रथम राजा किस रीति से प्रवर्त्तें, सो लिखते हैं । जो राजा होवे, सो दरिद्री, मान्य, अमान्य, उत्तम, अधम आदि सर्व लोकों का पक्षपात रहित मध्यस्थ हो कर न्याय करे । राजा के कारभारी—मंत्री आदिक तिन का धर्माविरोध यह है, राजा का अरु प्रजा का नुकसान न होवे, तैसे प्रवर्त्तें । क्योंकि जो मन्त्री राजा का हित वांछता है, उस पर प्रजा द्वेष करती है, अरु जो प्रजा का हितकारी है, उस को राजा छोड़ देता है, इस वास्ते राजमन्त्री आदि को दोनों का हितकारी होना चाहिये ।

वणिक व्यापारी लोगों का धर्माविरोध यह है, कि व्यापार की शुद्धि करे । यथा—

ववहारसुद्धि देसाइविरुद्धचायउचिअचरणेहिं ।

तो कुणइ अर्थवित निव्वाहितो निय रम्म ॥

अर्थ—व्यापार की शुद्धि, देसादि विरुद्ध का त्याग, उचित आचरण, इन तीनों प्रकार से धन उपाजन करने की चिंता करे, अरु अपने धर्म का भी निर्वाह करे। क्योंकि ऐसा कोई काय नहीं है, जो धन से सिद्ध न होत्रे। तिस वास्ते बुद्धिमान् धन के उपाजन में यत्न करे। यदाह—

नहि तद्विद्यते किंचिद्यदर्थेन न सिद्धयति ।

यत्नेन मतिमास्तमादर्थमेक प्रमाधयेत् ॥

इहा जो अर्थ चिंता है, सो अनुयादरूप है, क्योंकि धन के उपाजन की चिंता लोक में स्वत ही सिद्ध है, कुछ शास्त्रकार के उपदेश से नहीं। अरु "धर्म निर्वाहयन्" यह जो कहना है, सो विधेय—करने योग्य है, क्योंकि इस की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र का जो उपदेश है, सो अपाप्त अथ की प्राप्ति के वास्ते है, येप सर्व अनुयादादि रूप है।

अथ आजीविका चलाने के प्रकार कहते हैं—आजीविका सात प्रकार से होती है—१ व्यापार करने आजीविका के मे, २ पिद्या मे, ३ खेती करने मे, ४ साधन पशुओं के पालने से, ५ कारीगरी करने से, ६ नौकरी करने से, ७ भोग्य मागने से।

तिन में वाणिज्य करने से वणिक् लोकों की आजीविका है, २. विद्या से वैद्यादिकों की आजीविका है, ३. खेती करने से कौटुम्बिकादिकों की है, ४. पशु पालने से गोपाल अजापालादिकों की है, ५. शिल्प करके चितारादिकों की है, ६. नौकरी करने से सिपाही लोकों की है, ७. भिक्षा से मांग खाने वालों की आजीविका है ।

तिन में—१ वाणिज्य सो धान्य, घृत, तैल, कार्पास, सूत्र, वस्त्र, धातु, मणि, मोती, रुपया, सोनैया प्रमुख जितनी जात का करयाणा है, सो सर्व व्यापार है । अरु जो व्याजु देना है, सो भी व्यापार है ।

२. विद्या भी औषधि, रस, रसायन, चूर्ण, अंजनादि, वास्तुक शास्त्र, पंखी का शकुन, भूत भविष्यतादि निमित्त, सामुद्रिक, चूड़ामणि, जवाहिर परखने का शास्त्र, धर्म, अर्थ, काम, ज्योतिष, तर्कादि भेद से अनेक प्रकार की है । इस वैद्यविद्या में अतारपना, पंसारीपना करना ठीक नहीं, क्योंकि इस में प्रायः दुर्ध्यान होने से बहुत गुण नहीं दीखता है । क्योंकि जिस को जिस से लाभ होता है, वो उसी बात को चाहता है । तदुक्तं —

विग्रहमिच्छन्ति भटा वैद्याश्च व्याधिपीडितं लोकम् ।

मृतक बहुलं विप्राः, क्षेम सुभिक्षं च निर्ग्रथाः ॥

अर्थः—सुभट संग्राम चाहते हैं, वैद्य रोगपीडित लोगों

को चाहते हैं, अरु ब्राह्मण उदुन लोगा का मरण चाहते हैं, तथा निरुपद्रव सुकायको साधु निग्रह चाहते हैं। परन्तु जो धन अत्यन्त लोभी होये, धन लेने के वास्ते उल्टी औपधि जान के वेये, जिस के मन में दया न होये, जो त्यागी साधुओं की औपधि न करे, जो दरिद्री, अनायादि लोगों को मरते जान के भी धन खोस लेये, माम मद्यादि अमक्ष्य वस्तु का भक्षण करना यताये, भृष्टी औपधि यना क लोगों को उगे, जो वैद्यविद्या नरक की देने वाली है—सो न करनी चाहिये। अरु जो वैद्य सत् प्रकृति याग होये लोभी न होये, पूर्योक्त दूषण रहित होये, परोपकारी होये, ऐसे की वैद्यविद्या श्रीऋषभनेय जी के जीय जीवानन्द वैद्य की तर दोनों भयों में गुण देने वाली है। ऐसी वैद्य विद्या से आनीषिका करे, तो अच्छा है।

३ गेती—सो तीन तर से होती है, एक मघ से, दूसरी कूप नहरादि से, तीसरी शोनों से।

४ पशु पायकपा—सो गौ, महिय, बकरी, ऊट, घंग, घोड़ा, हाथी, इत की घेय घेच पर आनीषिका करनी।

गेती अरु पशुपायन, यह दोनों काम विषेकी को करने उचित नहीं। जेकर इन क करे विना नियाह न होये, तदा धीज योने का फाल जाने, भूमि की सरस्य निरक्षता को जान, अरु जो गेन पहिले याह विना बोया ग जाये, दूसरा रम्ने का क्षेत्र, यह दोनों, क्षेत्र को पने, तो धन की वृद्धि

होवे । अरु जो पशुपाल्यपना करे, तो पशुओं के ऊपर निर्दय न होवे, पशु का कोई अवयव न छेदे । इसी तरे पशुपालपना करे ।

५. शिल्प आजीविका है । सो शिल्प सौ तरे का है । मूल शिल्प तो पांच हैं—१. कुम्भार, २. लोहार, ३. चितारा, ४. बनकर, अर्थात् बुनने वाला, ५ नाई । इन पांचों के वीस वीस भेद हैं । यद्यपि इस काल में न्यूनाधिक कभी होवेंगे, परन्तु श्रीऋषभदेव जी ने प्रथम सौ तरें का शिल्प ही प्रजा को सिखलाया था, इस वास्ते सौ ही लिखा है । जो सांसारिक विद्या है, सो सर्वकोई शिल्प में है, कोई कर्म में है । शिल्प गुरु के उपदेश से आता है, अरु कर्म स्वयमेव ही आ जाता है । यह कर्म भी सामान्य से चार प्रकार का है—१. उत्तम बुद्धि से धन कमाता है, २. मध्यम हाथों से कमावे, ३. अधम पगों से कमावे, ४. अधमाधम मस्तक से बोझा ढो कर कमावे ।

६. सेवा करके आजीविका करे । सो सेवा राजा की, मंत्री की, सेठ की, सामान्य लोगों की नौकरी, यह चार प्रकार से है । प्रथम तो नौकरी किसी की भी न करनी चाहिये, क्योंकि नौकर परवश हो जाता है । जेकर निर्वाह न होवे, तदा नौकरी भी करे, परन्तु जिस की नौकरी करे, उस में यह कहे हुए गुण होवें, तो उस के वहां नौकर

रहे । जो पुख्त कानो का दुबल न होये, सूरमा होये, म्त्तब्र होये, सात्विक, गभीर, धीर, उदार, शीलवान्, गुणों का रागी होये, उस की नौकरी करे । अरु जो क्रूर प्रकृति वाला होवे, कुच्यसनी होये, लोभी होये, चतुर न होवे, सदा रोगी रहे, मूर्ख होये, अन्यायी होये, उस की नौकरी न करे । क्योंकि कामदकीय नीति शास्त्र मे लिखा है, कि जिस राजा की वृद्ध पुरुषों ने सेवा करी होवे, सो राजा अच्छा है । स्वामी को भी चाहिये कि जैसा सेवक होये, तैसा उस का सम्मान करे । सेवक भी थके हुए, भूखे हुए क्रोध में हुए, व्याकुल होये, तृषावत होये, शयन करने लगे, दूसरे के अर्ज करने हुये, इन अवस्थाओं में स्वामी को विनति न करे । तथा राजा की माता, राजा की रानी, राजकुमार, मुख्यमंत्री, अदालती, राज का दरवान, इन के साथ राजा की तर्रें वर्त्तना चाहिये । इस रीति मे प्रवर्त्ते, तो धन की प्राप्ति दुर्लभ नहीं । यथा —

इक्षुश्रेत्र समुद्रश्च, योनिपोपणमेव च ।

प्रसादोभूभुजा चैव, सद्यो घृति दृष्टिताम् ॥१॥

निंदतु मानिन मेवा, राजादीना मुसैपिण ।

स्वजनास्वजनोद्धारसद्वारौन तथा विना ॥२॥

मंत्री, श्रेष्ठी, मेनानी इत्यादि-व्यापार भी सर्व नृपसेवा

के अंतर्भूत ही है। परन्तु जेल खाने का दारोगादि, नगर का कोटवाल, सीमापाल, इत्यादि नौकरी न करनी चाहिये, क्योंकि यह नौकरी निर्दयी लोगों के करने की है; तिस वास्ते श्रावक को नहीं करनी। जेकर कोई श्रावक राज्याधिकारी हो जावे, तो वस्तु पालादिक मन्त्रियों की तरफ महाधर्म कीर्त्ति का करने वाला होवे। श्रावक मुख्यवृत्ति करके तो सम्यग्दृष्टि की ही नौकरी करे।

७. भीख मांगने से आजीविका है। सो भीख मांगने के भी अनेक भेद हैं। तिन में धर्मोपग्रह मात्र आहार, वस्त्र, पात्रादिक की भिक्षा लेवे। सो भी जिस साधु ने सर्व संसार और परिग्रह का सग त्याग है, तिस को मांगनी उचित है। क्योंकि उस की भीख मांगने के सिवाय और गति नहीं है। श्री हरिभद्रसूरि जी ने पांचमे अष्टक में भिक्षा तीन प्रकार की लिखी है। प्रथम भिक्षा सर्वसंपत्करी, दूसरी पौरुषघ्नी, तीसरी वृत्तिभिक्षा है। जो साधु परिग्रह का त्यागी, धर्म ध्यान संयुक्त, जिनाज्ञासहित होने से षट्काय के आरम्भ से रहित है तिस की भिक्षा सर्व संपत्करी है। तथा जो साधु तो बन गया है, परन्तु साधु के गुण उस में नहीं हैं, तथा जो गृहस्थावास में लघु पुष्ट षट्काय का आरम्भी पडिमावहे बिना का श्रावक, तथा और गृहस्थ जो मांग के खावे, तिस की पौरुषघ्नी भिक्षा है। वो पुरुष धर्म की लाघवता का करने वाला है, पूर्व जन्म में जिनाज्ञा का खण्डन करने वाला

है, आगे अनंत जन्म लग दुःखी रहेगा । तथा जो निर्धन, अधा, पागला, असमर्थ, और कोई काम करने में समय नहीं, वो भीष माग के पात्रे, तो तीमरी वृत्तिभित्ता है । यह भित्ता दुष्ट नहीं । इस भीष के मागने से लघुतादि धर्म के दूषण नहीं होते हैं । क्योंकि जो इन को देता है, वो अनुकपा-दया करके देता है, देने वाला पुण्य उपार्जन करता है । इस वास्ते गृहस्थ को भोजन मागनी चाहिये । धर्मी श्रावक को तो विशेष करके भीष न मागनी चाहिये । भित्ता मागने से धर्म की निंदा, अट धर्म की निंदा से दुर्लभवोधी होता है । भीष मागने से उदर पूर्ण तो हो जाता है, परन्तु लक्ष्मी नहीं होती है । यत —

लक्ष्मीर्वसति वाणिज्ये, किंचिदस्ति च कर्पणे ॥

अस्ति नास्ति च सेवाया भिक्षाया न कदाचन ॥

यह बात मनुस्मृति के चौथे अयाय में भी लिखी है ।

तथा जब वाणिज्य करे, तत्र कष्ट में सहायक, यापान और पूजा का बल, स्वभाग्योदय, देरा, काल, व्यवहार नीति देख के करे । वाणिज्य करने लगे, परन्तु पहिले थोड़ा करे, पीछे लाभ जाने, तो यथा योग्य करे । कदाचित् निर्वाह के न हुये स्वरक्रम भी करे, तो भी अपने आप को निंदा हुआ करे । विना देखा विना परीक्षा के साँदा न लेवे । जो साँदा नदेह वाला

होवे वो वहुतों के साथ मिल कर लेवे । जहां स्वचक्र परचक्रादि का उपद्रव न होवे, अरु धर्म की सामग्री होवे, तिस क्षेत्र में व्यापार करे ।

काल से तीन अठाई और पर्व तिथि के दिन व्यापार न करे । जो वस्तु वर्षा काल के साथ विरोधि होवे, सो त्यागे । भाव से जो क्षत्रिय जाति का व्यापारी, राजा प्रमुख होवे, तिस के साथ व्यापार न करे । अपने विरोधी को उधारा न देवे । तथा नट विट वेश्या, जुआरी प्रमुख को तो विशेष करके उधारा नहीं देवे । हथियारबंध के साथ तथा व्यापारी ब्राह्मण के साथ लेन देन न करे । मुख्य तो अधिक मोल का गहना रख के व्याजु देवे, क्योंकि उस से मांगने का क्लेश, विरोध, धर्महानि, धरणादिक कष्ट नहीं होते हैं । जेकर ऐसे निर्वाह न होवे, तव सत्यवादी को व्याजु उधार देवे । व्याज भी एक, दो, तीन, चार, पांच प्रमुख सैकड़े पीछे महीने में भले लोक जिस को निंदे नहीं, ऐसा लेवे ।

जेकर देना होवे, तदा करार पर विना मांगे ही देना चाहिये । कदाचित् निर्धनपने से एक बार में न दे सके, तो किशत प्रमाणे तो जरूर दे देवे । क्योंकि देना किसी का न रखना चाहिये । यदुक्तम्:—

धर्मारभे ऋणाच्छेदे, कन्यादाने धनागमे ।

शत्रुघातेऽग्निरोगे च, कालक्षेपं न कारयेत् ॥

जेकर देना न उतरे, तब उस का नौकर रहकर भी देना उतार देये। नहीं तो भगवत में उस का कर्मकर-चामर महिष, बेल, ऊट, पुर, पचर, घोड़ा प्रमुख वन कर देना पड़ेगा। लेने वाला भी जय जान लेये कि यह देने में समय नहीं, तब बिल्कुल मागना छोड़ देवे। ऐसे कहे कि जय तू देने में समर्थ होवेगा, तब दे देना, नहीं तो यह धन मैं अपने धर्म में लगाया, वही मैं लिख लेता हूँ, तेरे मे म कुछ नहीं लेऊगा।

श्रावक को मुख्यवृत्ति मे तो धर्मी जनों से ही व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि दोनों पास धन रहेगा तो धर्म में लगेगा। अरु किसी म्लेच्छ पास धन रह जावे, तदा व्युत्सर्जन कर देवे। व्युत्सर्जन करे पीछे जेकर वो म्लेच्छ फिर धन दे देवे तदा वो धन धर्म में खरचने के वास्ते सध को सौंप देये, अरु व्युत्सर्जन करा है, ऐसा भी कह देये। ऐसे ही जो कोई वस्तु खोई जावे, अरु ढूढने से न मिले, तो तिस वस्तु का भी व्युत्सर्जन कर देवे। पीछे कदाचित् अपने पास धन हानि हो जावे, धन की अप्राप्ति हो जावे, तो भी खेद न करे, क्योंकि खेद का न करना, यही लक्ष्मी का मूल कारण है।

बहुत धन जाता रहे, तो भी धर्म करने में आलस न करे, क्योंकि सपदा अरु आपत् बडे आदमी को ही होती है। सदा एक सरीखे दिन किसी के नहा जाते हैं पूर्व जन्म

जन्मांतर के पुण्यपापोद्भय से संपदा, विपदा होती है, इस वास्ते धैर्य का अवलंबन करना श्रेष्ठ है । यदा अनेक उपाय करने से भी दरिद्र दूर न होवे, तदा किसी भाग्यवान् का आधार लेवे, अर्थात् सांजी वन के व्यवहार करे, क्योंकि काष्ठ के संग से लोहा भी तर जाना है ।

जेकर बहुता धन हो जावे, तदा अभिमान न करे, क्योंकि लक्ष्मी के साथ पांच वस्तु होती है—१. निर्दयत्व, २. अहंकार, ३. तृष्णा, ४. कठिन वचन बोलना, ५. वेश्या, नट, विट, नीच पात्र, बल्लभ होते हैं । इस वास्ते बहुत धन हो जावे, तो इन पांचों को अवकाश न देवे । किसी के साथ लड़ाई न करे, जवरदस्त के साथ तो विशेष करके लड़ाई नहीं करे । तथा—१. धनवंत, २. राजा, ३. पक्षवाला, ४. बलवान्, ५. दीर्घरोमी, ६. गुरु, ७. नीच, ८. तपस्वी, इन आठों के साथ वाद न करे । जहां तक नरमाई से काम-बने, तहां तक कठिनाई न करे । लेने देने में भ्रांति भूलादिक से अन्यथा हो जावे, तो विवाद न करे, किंतु न्याय से झगड़ा मिटावे । न्याय करने वाले को भी- निर्लोभी पक्षपात रहित होना चाहिये । तथा जिस वस्तु के महंगे होने से प्रजा को पीड़ा होवे, ऐसी वस्तु-के महंगे होने की चिंता न करे । परन्तु कर्म योग से दुर्भिक्षादिक हो जावे, तब भी सौदे में दुगने तिगने लाभ हो जावे, तदा अन्न में अधिक न लेवे ।

तथा एक, दो, तीन, चार, पाँच रूपये सैंकडे मे अधिक व्याज न लेवे । किसी का गिर पडा धन न लेवे । तथा काला तर में क्रयक्रियादि में देशकालादि की अपेक्षा से उचित शिष्टजन अनिदित लाभ होवे, सो लेवे । यह कथन प्रथम पचायकसूत्र में है । तथा खोटा तौल, खोटा माप, न्यूनाधिक वाणिज्य रस मे भेल समेल न करे । वस्तु का अनुचित मोल, अनुचित व्याज, लचा अर्थात् घूस, कोड़वट्टी न लेवे । घिसा हुआ तथा खोटा रूपकादि किसी को खरे में न देवे । दूसरों के व्यापार में भग न करे-ग्राहक न बहकाये । धानगी और न दिखावे, अधेरा करके वस्तु न बेचे जाली खत पत्रादि न पनावे । इत्यादि परवचनपने को रजें । सर्वथा प्रकारे व्यवहार शुद्धि करे क्योंकि व्यवहार शुद्धि ही गृहस्थधर्म का मूल है ।

तथा स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, गालद्रोह, वृद्ध द्रोह और देवगुरुद्रोह न करे । तथा थापणमोसा न करे । ये सब महापाप के काम हैं, अत इन को रजें । तथा कुडी स्नाक्षी, रोष, विश्वासघात, वृत्तघ्नपना ये चारों कर्म चण्डा खपने के हैं । तिन को रजें । झूठ सर्व पापों मे बडा पाप है, इस वास्ते झूठ सर्वथा न बोल । न्याय से धन उपाजन करे ।

जो अन्यायी लोग सुखी दीखते हैं, वो, अन्याय से सुखी नहीं हैं, किंतु उन के पूर्वजन्म के पुण्य के फल से सुखी हैं । क्योंकि कमफल चार तरे का है । जैसे कि श्रीधर्म

घोषसूरि जी ने कहा है—एक पुण्यानुबन्धी पुण्य है, दूसरा पापानुबन्धी पुण्य है, तीसरा पुण्यानुबन्धी पाप है, चौथा पापानुबन्धी पाप है। यह चार प्रकार जो हैं, तिन को किञ्चित् विस्तार पूर्वक कहते हैं—

१. जिस ने जिनधर्म की विराधना नहीं की, किंतु संपूर्ण रीति से आराधन किया है, सो संसार में—भवांतर में महासुखी धनाढ्य उत्पन्न होवे, भरत बाहुबल की तरे, सो पुण्यानुबन्धी पुण्य है।

२. जो पुरुष नीरोगादि गुणयुक्त होवे, अरु धनाढ्य भी होवे, परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने में तत्पर होवे, यह पुण्य पूर्व भव में अज्ञान कष्ट करने से होता है, सो पापानुबन्धी पुण्य है।

३. जो पुरुष पाप के उदय से दरिद्री अरु दुःखी होवे, परन्तु श्रीजिनधर्म में बड़ा अनुरक्त होवे, धर्म करने में तत्पर होवे, सो पुण्यावन्धी पाप है। यह द्रुमकमहर्षिवत् पूर्व भव में लेश मात्र दया आदि सुकृत करने से होता है।

४ पापी प्रचण्ड कर्म के करने वाला विधर्मी, निर्दय, पाप करके पश्चात्ताप रहित, यह पुरुष दुःखी है, तो भी पाप करने में तत्पर है, सो पापानुबन्धी पाप है, काल सौकरिकादिवत्।

तथा ब्राह्म जो नव प्रकार की परिग्रह रूप ऋद्धि, अरु अन्तरंग, जो आत्मा की अनंत गुण रूप ऋद्धि है, सो पर्या-

नुरन्धी पुण्य से, होती है । अतः जेकर कोई जीव पापा
नुरन्धी पुण्य के प्रभाव से इस लोक में सुखी भी दीयता
है, तो भी अगले भव में महा आपदा को प्राप्त होगा । अरु
जो महसूल की चोरी है, सो स्वामिद्रोह में है । यह चोरी
इस लोक अरु परलोक में अनर्थ की दाना है । जिस में
दूसरों को पीडा होवे, ऐसा व्यवहार न करे । यत —

शाठ्येन मित्र कपटेन धर्म, परोपतापेन समृद्धिभाषम् ।
सुरेण विद्या परुषेण नारी, बाछति ये व्यक्तमपडितास्ते ॥

तथा जिस तरे लोगों को रागभाव होवे तेसे यत्न
करे । यत —

जितेंद्रियत्व विनयस्य कारण, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते ।
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यंत, जनानुरागप्रभवा हि सपदः ॥

तथा धनहानि, वृद्धि, सप्रहादि, गुह्य, दूसरों के आगे
प्रकारा न करे । यत —

स्वकीय दारमाहार, सुकृत द्रविण गुणम् ।
दुष्कर्म मर्म मन्त्र च, परेषा न प्रकाशयेत् ॥

तथा झूठ भी न बोले, जेकर राजा गुरु आदिक पूछे,
तो सत्य कह देवे, सत्य बोलना ही पुरुषपत्य की परम दशा है ।
तथा यथार्थ कहने से मित्र का मन हरे, तथा बाधव

जनों को सन्मान से वश करे, तथा स्त्री को प्रेम से वश करे, तथा चाकरों को दान देने से वश करे, तथा दाक्षिण्यता करके इतर लोगों का मन हरे, तथा किसी जगे अपने कार्य की सिद्धि करने के वास्ते दुष्ट जनों को भी अगुवा—अगाडी करे । तथा जिस जगे प्रीति होवे, तहां लेने देने का व्यापार न करे, यह कथन सोमनीति में भी है ।

तथा साक्षी के बिना मित्र के घर में भी धनादिक न रखना चाहिये, क्योंकि लोभ बड़ा दुर्दांत है । तथा जो धन रखने वाला मर जावे तो वो धन उस के पुत्रादि को दे देना चाहिये । जेकर धन रखने वाले का कोई भी संबंधी न होवे, तब वो धन सर्व लोगों के समक्ष धर्मस्थान में लगा देवे । तथा श्रावक, देवगुरु, चैत्य, जिनमन्दिर की चाहे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात् सौगंद न खावे । तथा दूसरों का साक्षी भी न बने, कार्पासिक ऋषि कहते हैं:—

अनीश्वरस्य द्वे भार्ये, पथि क्षेत्रं द्विधा कृषिः ।

प्रातिभाव्यं च साक्ष्यं च, पंचानर्थाः स्वयं कृताः ॥

तथा श्रावक मुख्यवृत्ति से तो जिस गाम में रहे, तहां ही व्यापार करे, क्योंकि ऐसे करने से कुटुम्ब का अवि-योग तथा घर का कार्य अरु धर्मकार्यादिक सर्व बने रहते है । कदापि अपने गाम में निर्वाह न होवे, तदा निकट देशांतर में व्यवहार करे । जहां से कोई योग्य काम पड़े,

तो शीघ्र घर में आजावे । ऐसा कौन पामर है ! कि जिस का स्वदेश में निर्वाह होवे, तो भी परदेश में जाये । कहा भी है—

जीवतोऽपि मृता पच श्रूयते किल भारत ।

दरिद्रो च्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्यसेवकः ॥

जेकर निर्वाह न होये, तदा आप तथा पुत्रादिकों को पर देश में न भेजे, किंतु सुपरीक्षित गुमास्ते को भेजे । जेकर स्वयमेव देशांतर में जाये, तदा भला मुहूर्त्त, शकुन निमित्त, देख के अह देव गुरु को घटना करके, भगलपूर्वक भाग्यवान् साथ के बीच में, निद्रादि प्रमाद वर्ज के कितनेक धपने, झातियों को साथ लेकर जाये । क्योंकि भाग्यवान् के साथ जाने से विघ्न टल जाता है । तथा लेना, देना, गड़ा हुआ धन, सर्व, पिता, भाई, पुत्रादिकों को कह जावे । अपने सम्बन्धियों को भली शिक्षा दे जावे । बहुमान पूर्वक सब को बोल के जावे । परन्तु जो जीवने की इच्छा होवे, तो देव गुरु का अपमान करके, किसी को निर्भर्त्स के, स्त्री आदि को ताड़ना कूटना करके, बालक को खून करवा करके न जावे । कदापि कोई पर्व महोत्सवादि का दिन निकट होवे, तदा उत्सव करके जावे । यत —

उत्सवमशनं स्नानं प्रगुणं चोपेक्ष्य मंगलमशेषम् ।

असमापिते च मृतकयुगेंऽगनत्तौ च नो यायात् ॥

तथा दूध पीके, मैथुन करके. स्नान करके, अपनी स्त्री को मारपीट करके, वमन करके, थूक के, रुदन करके, कठिन शब्द सुन के, गालियां सुन के प्रदेश को न जावे । तथा शिर मुंडन करवा के, आंसु गिरा के खोटे शुकन के हुये ग्रामांतर को न जावे ।

तथा कार्य के वास्ते जय चले, तब जौनसा स्वर बहता होवे, उस पासे का पग पहिले उठा के धरे, जिस से कार्य सिद्धि होवे । तथा रोगी, बूढ़ा, ब्राह्मण, अंधा, गौ, पूजनिक, राजा, गर्भवती स्त्री, भार उठाने वाला, इन को कुछ दे कर ग्रामांतर में जावे । तथा धान्य पक्का वा कच्चा पूजा योग्य मंत्र मंडल, इन को त्यागे नहीं । तथा स्नान का जल, रुधिर, मुरदा, थूक, श्लेष्म, विष्टा, मूत्र, चलती अग्नि, सांप, मनुष्य, शस्त्र, इन को उल्लंघे नहीं । तथा नदी के काठे, गौओं के गोकुल में, बड़ बृत्त के हेठ, जलाश्रय में, अरु कूप काठे में विष्टा न करे, तथा रात्रि को बृत्त हेठ न रहे, उत्सव, सूतक पूरा हुये परदेश को जावे । विना साथ के न जावे, दास के साथ न जावे, मध्यान्ह में तथा अर्ध रात्रि में मार्ग में न चले । तथा क्रूर प्रकृतिवाला मनुष्य, कोटवाल, चुगल, दरजी, धोवी प्रमुख अरु कुमित्र, इतनों के साथ गोष्ठि न करे । इनों

के साथ अकाल में चले नहीं। तथा महिष, गर्दभ अथ गौ, इन की सजारी न करे। तथा हाथी से हजार हाथ, गाडे से पाच हाथ अथ घोडे तथा साँग वाले जनावरों से भी पाच हाथ दूर रहे। तथा पत्थरी विना रास्ते में न चले। बहुत सोये नहीं। रास्ते में किसी का विद्वास न करे। अकेला किसी के घर में न जाये। जीर्ग नाम पर चडे नहीं। एकला नदी में प्रवेश न करे। कठिन जगामें उपाय विना न जाये। अगाध पानी में प्रवेश न करे। जहा बहुते क्रोधी होय, अथ बहुते सुखों के इच्छुक होयें, तथा जहा घणे सूम होयें ऐसे साथ के साथ कदापि परदेश में न जावे। तथा याधने के, मरने के, जूआ खेलने के, पीडा के, यजाने के, अतेउर के स्थान में न जाये। तथा बुरे स्थान में, श्मशान में, शून्यस्थान में, चौक में, सूखे घास में, ऊडे में, ऊची नीची जगामें, उकरुडी में वृक्षाग्र में, पर्वताग्र में नदी के काठे में कुप के काठे में, पैडे नहीं। तथा जो जो वृत्त्य जिस जिस काल में करना है, सो करे, परन्तु छोडे नहीं।

तथा पुरुष को जो भले वस्त्रादि पहरने का आडम्बर चाहिये सो न छोडे। पन्वेश में तो विशेष करके आडम्बर नहीं छोड़ना, क्योंकि आडम्बर से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तथा जो काय करना हो सो पचपरमेष्ठिस्मरण पूजक तथा शौतमादि गणधरों का नामग्रहण पूजक करे। तथा देव गुरु की भक्ति के वास्ते धन की कल्पना करे। क्योंकि

श्राद्ध दिनकृत्य सूत्र में लिखा है, कि व्यवहारशुद्धि जो है, सो ही धर्म का मूल है। जिस का व्यापार शुद्ध है, उस का धन भी शुद्ध है, जिस का धन शुद्ध है, उस का आहार शुद्ध है, जिसका आहार शुद्ध है उस की देह शुद्ध है, जिस की देह शुद्ध है, वो धर्म के योग्य है, ऐसा पुरुष जो जो कृत्य करे, सो सर्व ही सरुद्ध होवे। अरु जो व्यवहार शुद्ध न करे, वो धर्म की निन्दा कराने से स्वपर को दुर्लभबोधी करे। इस वास्ते व्यवहार शुद्धि जरूर करनी चाहिये।

तथा देशादि विरुद्ध को त्यागे, अर्थात् देश, काल, राज-
विरुद्धादि को परिहारे। यह कथन हितो-
देशादि विरुद्ध पदेश माला में भी है, कि देश, काल, राज,
का त्याग अरु धर्म विरुद्ध जो त्यागे, सो पुरुष
सम्यग् धर्म को प्राप्त होता है। तिन में—

१ देशविरुद्ध—जैसे कि सौवीर देश में खेती करनी।
लाट देश में मदिरा बनानी, यह देश विरुद्ध है। तथा और
भी जो जिस देश में शिष्टजनों के अनाचीर्ण है, सो तिस
देश में विरुद्ध जानना। जाति कुलादि की अपेक्षा जो अनु-
चित होवे, सो भी देशविरुद्ध है। जैसे ब्राह्मण जाति को
सुरापान करना, तिल लवणादि बेचना, सो कुत्रापेक्षा विरुद्ध
है। तथा जैसे चौहाण को मद्यपान करना, तथा और देश
वालों के आगे और देशवालों की निन्दा करनी, यह भी
देशविरुद्ध है।

२ कालविरुद्ध—सो जमे हिमालय के पास अत्यन्त शीत में, गर्मी के समय जगल तथा मरुदेश में, बसात में अत्यन्त पिच्छल—पक सयुक्त दक्षिण समुद्र के पर्यंत भागों में, तथा अति दुर्भिक्ष में, दो राजाओं के परस्पर विरोध में, तथा धाड ने जहा रस्ता रोका होये, दुरुत्तार महा अट्टी में, साक्ष की बेला भय स्थान में, इतने स्थानकों में तैसा सामर्थ्य सहायादि दृढ बल विना जाये, तो प्राण धन नारादि अनथकारी है । तथा फागुण मास पीछे तिलों का व्यापार, तिल पीजाने, तिल भक्षण करने । घषा ऋतु चौमासे में पत्र शाक का ग्रहण करना, तथा बहुजीवाकुल भूमि में हल फिराना, यह महा दोष के कारण हैं । यह सर्व कालविरुद्ध जान लेना ।

३ राजविरुद्ध यह है कि राजा के दोष गोलना, जिस को राजा माने तिस को न मानना, तथा राजा के वैरियों से मेल करना, राजा के शत्रु के स्थान में लोभ सं जाना, स्थान पर आये हुए राजा के शत्रु के साथ व्यापार करना, राजा के काम में अपनी इच्छा से विधि निषेध करना ।

४ लोकविरुद्ध यह है कि नगर निवासियों के साथ प्रतिकूलता करनी, तथा स्वामिद्रोह करना, लोगों की निन्दा करनी, गुणवान् अरु धनवान् की निन्दा करनी अपनी बढ़ाई करनी, सरल की हासी करनी, गुणवान् में अतसर रखना, वृत्तगता करना, बहुत लोगों का जो विरोधी

होवे, उस की संगति करनी, लोकमान्य की अवज्ञा करनी, भले आचार वाले को कष्ट पड़े, तब राजी होना, अपनी शक्ति के हुये साधर्मों के कष्ट को दूर न करना, देशादि उचित-आचार का लंघन करना, थोड़े धन के हुए गुण्डों का सा घेप रखना, मैले वस्त्र पहिरने, इत्यादि लोक विरुद्ध है। यह सर्व इस लोक में अपयश का कारण है।

यदुवाच वाचकमुप्यः—

लोकः खलवाधारः सर्वेषां धर्मचारिणां यस्मात् ।

तस्माल्लोकविरुद्धं धर्मविरुद्धं च संत्याज्यम् ॥

अर्थः—उमास्त्राति पूर्वधारी आचार्य कहते हैं, कि सर्व धर्म करने वालों का लोक-जन समुदाय आधार है, तिस वास्ते लोक विरुद्ध अरु धर्म विरुद्ध यह दोनों, त्यागने योग्य हैं। क्योंकि ऐसे करने से धर्म का सुखपूर्वक निर्वाह होता है। लोक विरुद्ध के त्यागने से सर्व लोगों को बल्लभ होता है, अरु जो लोगों को बल्लभ होना है, सोई सम्यक्त्वतरु का बीज है।

५. धर्म विरुद्ध—मिथ्यात्व की करनी, सर्व गो आदिक को निर्दय हो के ताड़ना, बांधना, जूं, माकड़ादि को निराधार गेरना, धूप में गेरना, सिर में कंघी से लीख फोड़नी।—उष्ण काल में तथा शैव काल में चौड़ा, लम्बा, गाढ़ा गलना पानी गलने के वास्ते न रखना। पानी छान के पीछे जीवों को

युक्ति से पानी में न गेरना । तथा अन्न, इधन, शाक, दाल, ताबूल, अरु फलादिकों को विना शोधे खाना । तथा अक्षत, सोपारी, खारीक, बाल्ह, उलि, फलि प्रमुख सम्पूर्ण मुख में गेरे । दूरी के रास्ते तथा पानी आदिक को धारा बाध कर पीये । तथा चलते में, बैठने में, स्नान करते, हरेक वस्तु रखते, लेते, राधते, धान छड़ते, पीसते, औषधि घिसते, तथा मूत्र, श्लेष्म, कुरलादि का जल, तबोल का उगाळ गेरते, उपयोग न करे । तथा धर्म में अनादर करे । देव गुरु, अरु साधर्मों से द्वेष करे । जिनमदिर का धन खावे । अधर्मों की सगति करे । धर्मियों का उपहास करे । कपाय बहुलता होये । तथा बहुत पापकारी क्रय विक्रय रर कर्म करना, पाप की नौकरी करनी । इत्यादि सर्व धर्मविरुद्ध है । यह प्राच प्रकार का विरुद्ध श्रावक को त्यागना चाहिये ।

। अथ उचित आचरण कहते हैं । उचित आचरण पिता आदि त्रिपर्य भेद से नव प्रकार का है । तथा स्नेहवृद्धि और कीर्त्यादि का हेतु है । सो द्वितोपदेश माला ग्रथ से लिखते हैं । एक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ उचित, तीसरा भाइयों के साथ, चौथा स्त्री के साथ, पाचमा पुत्र के साथ, छठा स्वजन के साथ, सातमा गुरु के साथ, आठमा नगर वालों के साथ, नवमा परतीर्थी अर्थात् दूसरे मतवालों के साथ, इन नव के साथ उचित आचरण करना ।

पिता के साथ उचित आचरण—सो मन, वचन अरु काया करके तीन प्रकार से है । तिस में काया पिता से उचित करके तो पिता के शरीर की गुथ्र्या करे, किंकर व्यवहार दास की तरे विनय करे । विना मुख से निकला ही पिताका वचन प्रमाण करे । पिता के शरीर की गुथ्र्या करे, पिता के चरण धोवे, मुट्टी चांपी करे, उठावे, बैठावे । देश काल उचित भोजन, शय्या, वस्त्र, शरीर विलेपनादिका योग मिलावे । विनय से करे, आग्रह से न करे, आप करे, नौकरों से न करावे । पिता के वचन को प्रमाण करने के वास्ते श्रीरामचन्द्र जी राज्याभिषेक छोड़ के वनवास में गये । तथा पिता का वचन सुना अनसुना न करे । मस्तक धुनना और कालक्षेप भी न करे । पिता के मन के अनुसार प्रवर्त्त । तथा सर्व कृत्यों में यत्न पूर्वक जो अपने मन में कार्य करना उत्पन्न हुआ है, सो पिता के आगे कह देवे । पिता के मन को जो कार्य गमे, सो करे । क्योंकि माता, पिता, गुरु, बहुश्रुत, ये आराधे हुये सर्व कार्य का रहस्य प्रकाश देते हैं । माता, पिता, कदाचित् कठिन वचन भी बोले, तो भी क्रोध न करे । जो जो धर्म का मनोरथ माता पिता के होवे, सो सो पूरा करे । इत्यादि माता पिता के साथ उचित आचरण करे ।

माता के साथ उचित आचरण—सो भी पितावत् करे,

परन्तु माता के मनोरथ पिता से भी, अधिक माता से उचित पूरे । देवपूजा, गुरुसेवा, धर्म सुनना, व्यवहार देश विरति अंगीकार करनी, आचश्यक करना, सात क्षेत्रों में धन लगाना, तीर्थ यात्रा, अनाथ दीन का उद्धार करना, इत्यादि माता के मनोरथ विशेष करके पूर्ण करे । क्योंकि यह करने योग्य ही है । ये पूर्वोक्त कृत्य भले-मपून पुत्रों के हैं । इस लोके में गुरु, माता पिता हैं, सो माता पिता को जो पुत्र श्री अर्हत के धर्म में जोड़े, तो ऐसा और कोई उपकार जगत् में नहीं है । उस पुत्र ने माता पिता का सर्व ऋण दे दिया, और किन्ही प्रकार से भी माता पिता का देना पुत्र नहीं ले सकता है । यह कथन श्रीस्थानाग सूत्र में है ।

अब इस मान पिता के उचिताचरण में जो विशेष है, सो लिखते हैं । माता के रिक्त के अनुसार प्रवर्त्त क्योंकि स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है, कि जल्दी पीडा को प्राप्त हो जाना । इन वास्ते जिस काम से माना को पीडा होये, सो काम न करे । क्योंकि पिता से भी माता विशेष पूज्य है ।

यमनु —

उपाभ्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शत पिता ।

सहस्र तु पितॄन् माता, गौरवेणातिरिच्यते ॥

[अ० २ श्लो० १४५]

तथा औरों ने भी कहा है कि जहां तक दूध पीवे, तहां तक यह अपनी माता है, ऐसे पशु जानते हैं, तथा जब तक स्त्री की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक अधम पुरुष माता जानते हैं. तथा जहां तक घर का काम करे, तहां तक मध्यम पुरुष माता जानते हैं, अरु जहां तक जीवे, तहां तक तीर्थ की तरे माता को उत्तम पुरुष मानते हैं । पशुओं की माता पुत्र से सुख मानती है । धन का उपार्जन करे तो मध्यम पुरुष की माता सुख मानती है । तथा पुत्र वीर होवे, संपूर्ण धर्माचरण से युक्त होवे, निर्मल चरितवाला होवे, तब उत्तम पुरुष की माता संतोष पावे है ।

३. अथ सहोदर के साथ उचित आचरण लिखते हैं—

बड़े भाई को तो पिता समान जाने, अरु भाई से उचित छोटे भाई को सर्व कार्यों में माने । तथा व्यवहार जेकर दूसरी माता का वेदा होवे, तो जैसे श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण की परस्पर प्रीति थी, तैसी प्रीति करनी चाहिये । ऐसे ही बड़े भाई अरु छोटे भाई की स्त्रियों के साथ तथा पुत्र पुत्रियों के साथ भी उचिताचरण यथायोग्य करे । पृथग्भाव न करे । भाई को व्यापार में पूछे, - उस से कोई छानी बात न रक्खे, तथा धन भी भाई से गुप्त न रक्खे । अपने भाई को ऐसी शिक्षा देवे, जिस से उस को कोई धूर्त्त न छल सके । जेकर भाई को खोटी संगति लग जावे, तथा अविनीत होवे, तदा

आप शिक्षा देते, तथा भाई के मित्र पासों उलासा दिवाते ।
 तथा सगे सम्बन्धियों से शिक्षा दिवाते, काका से, मामा
 से, सुसरासे, इन के पुत्रों से अविनीत भाई को शिक्षा
 दिवाते, अन्योक्ति करके शिक्षा दिवाते, परन्तु आप तर्जना
 न करे । अरु जेकर आप तर्जना करे, तत्र क्या जाने निर्लज्ज
 हो कर निर्मयाद हो जाते, समुप बोल उठे । तिस वास्ते
 हृदय में स्नेह सहित ऊपर से जब भाई को द्ये, तत्र ऐसे
 जान पड़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज है । जब भाइ विनय
 माग में आ जाते, तदा निष्कपट मीठे वचन बोल के प्रेम
 यताये । कदाचित् भाई अविनीतपना न छोडे, तब चित्त
 में ऐसा विचारे कि इस की प्रकृति ही ऐसी है, तब उदा
 सीनपने से प्रवर्त्ते । तथा भाई की स्त्री अरु पुत्रों के साथ दान
 सन्मान देने में समदृष्टि होते । तथा विमाता के पुत्र के साथ
 विशेष करके दान समान प्रेमादि करे, क्योंकि उस के
 साथ थोड़ा भी अतर करे, तो उस को घेप्रतीति हो जावे,
 अरु लोगों में निन्दा होवे । ऐसे ही माता पिता अरु भाई के
 समान जो और जन हैं, तिनों के साथ भी यथोचित उचि
 ताचरण विचार लेना । यत —

जनकश्चोपकर्त्ता च, यस्तु विद्या प्रयच्छति ।

अन्नदः प्राणदश्चैव, पचेते पितर स्मृता ॥१॥

राजपत्नी गुरोः पत्नी, पत्नीमाता तथैव च ।

स्वमाता चोपमाता च, पंचैता मातरः स्मृताः ॥२॥

सहोदरः सहाध्यायी, मित्रं वा रोगपालकः ।

मार्गे वाक्यसखा यश्च, पंचैते भ्रातरः स्मृताः ॥३॥

इन का अर्थ सुगम है । तथा अपने भाई को धर्म कार्य में अवश्य प्रेरणा करे । भाई की तरे मित्र के साथ भी उचिताचरण करे ।

४. अथ स्त्री के साथ उचित कहते हैं—स्त्री विवाहिता के साथ स्नेह संयुक्त वचन बोल के स्त्री को अभिमुख करे । बल्लभ और स्नेह संयुक्त व्यवहार वचन, निश्चय प्रेम का जीवन है । तथा स्त्री पासों स्नान करावे, अपना स्नान पग-चंपी प्रमुख में स्त्री प्रति प्रवृत्तवि । जब स्त्री विश्वास पा करके सच्चा स्नेह धरेगी, तब कदापि बुरा आचरण न करेगी । तथा देश काल कुटुंब के अनुसार धनादि उचित वस्त्राभरण देवे; क्योंकि अलंकार संयुक्त स्त्री लक्ष्मी की वृद्धि करती है । तथा स्त्री को रात्रि में कहीं जाने न देवे, तथा कुशील पुरुष की अरु पाखण्डी भगत योगी योगिनियों की संगति न करने देवे । स्त्री को घर के काम में जोड़ देवे । तथा राजमार्ग में वेश्या के पाड़े में न जाने देवे ।

यदि धर्मकृत्य पडिकमणा सामायिकादिक करने के वास्ते धर्मशाला—उपाश्रय में जाये, तदा माता बहिनादि सुशील धर्मिणी स्त्रियों की टोली में जावे भाये, घर का काम, दान देना, सगे सम्बन्धी का स मान करना, रसोइ का करना, यह सब करे । तथा प्रभात समय में शय्या से उठावे घर प्रमाजन करे, दूध के वर्त्तन धोये चौकादि चुल्हे की क्रिया करे तथा भाड़े धोने, अन्न पीमना, गौ, भैरव दोहनी, दही विलोना, रसोई करनी, खाने वालों को परोमना, जूठ वर्त्तन शुचि करने । सासु भरतार, ननद देवर इतना का विनय करना, इत्यादि पूवाक्त कामों में स्त्री को जोडे अर्थात् काम करने में तत्पर करे । जेकर स्त्री को पूवाक्त कामों में न जोडे, तत्र स्त्री चपलता से विकार को प्राप्त हो जाती है । काम में लगे रहने से स्त्री की रक्षा, गोपना होती है । तथा भरतार स्त्री के सन्मुख देगे, रोलाये, गुणकीर्त्तन करे वन, वस्त्र, आभूषण देये । जिस तरे स्त्री कहे, उस तरे करे । स्त्री को दूर न छोडे । तत्र उस स्त्री का भरतार के ऊपर अत्यत प्रेम हो जाता है, तथा स्त्री को न देखने से, अति देग्ने से, देग् कर न गुलाने से, अपमान करने से, अहकार करने से, इन पूवाक्त बातों से प्रेम टूट जाता है ।

तथा भरतार बहुत परदेश में रहे तत्र स्त्री कदाचित् अनुचित काम कर लेवे, इस वास्ते बहुत काल परदेश में

भी न रहना चाहिये । तथा स्त्री का अपमान न करे । स्त्री भूल जावे, तो शिक्षा देवे । रुस जावे, तो मना लेवे । तथा धन की हानि वृद्धि, घर का गुह्य, स्त्री के आगे प्रगट न करे । तथा क्रोध में आ करके दूसरी स्त्री न विवाहे, क्योंकि दो स्त्री करनी महा दुःखों का कारण है । कदाचित् संतानादिक के वास्ते दो स्त्री भी कर लेवे, तदा दोनों पर समभाव से प्रवर्त्त । तथा स्त्री किसी काम में भूल जावे, तदा ऐसी शिक्षा देवे, कि फिर वो स्त्री उस काम को न करे । तथा रूसी स्त्री को जेकर नहीं मनावे, तो सोममट्ट की भार्या अंबावत्त कूवे में गिर पड़े, इत्यादि अनर्थ करे । इस वास्ते स्त्री से सर्व काम, स्नेहकारी वचनों से करावे, न कि कठिनता से ।

जेकर निर्गुण स्त्री मिले, तब विशेष करके नरमाई से प्रवर्त्त, परन्तु स्त्री को घर में प्रधान न करे । जिस घर में पुरुष की तरे स्त्री प्रधानपना करे, वो घर नष्ट हो जाता है । यह कहना, बाहुल्य से है, क्योंकि कोई स्त्री तो ऐसी बुद्धिमती होती है, कि जेकर उस को पूछ के कार्य करे, तो बहुत गुण के वास्ते होता है । जैसे तेजपाल की भार्या अनूप देवी को तेजपाल अरु वस्तुपाल पूछ के काम करते थे । तथा स्त्री जब धर्म कार्यों में तप करे, चारित्र्य लेवे, उद्यापन करे, दान देवे, देवपूजा, तीर्थयात्रादि करे, तथा इन बातों के करने का मन में उत्साह धरे, तब धन देवे, सुशील सहायक दे के

उस का मनोरथ पूर्ण करे, परन्तु अतराय न करे । क्योंकि स्त्री जो धर्मकृत्य करेगी उस में से पति को भी पुण्य होगा, क्योंकि पति उस कृत्य करने में बहुत राजी रहे है ।

५ अथ पुत्र के साथ उचिताचरण लिखते हैं—पिता अपने पुत्र को बाल अवस्था में बहुत मनोश पुत्र से उचित पुष्टाहार से पोषे, स्वेच्छा पूर्वक नाना प्रकार व्यवहार की क्रीडा कराये । क्योंकि मनोह पुष्ट आहार देने से बालक के बुद्धि बल, अरु कात्तिकी वृद्धि होती है । स्वेच्छा क्रीडा कराने से शरीर पुष्ट होता है । अरु अगोपाग सङ्घटित नहीं होते हैं । नीति में कहा भी है—

लालयेत् पञ्च वर्षाणि, दश वर्षाणि ताडयेत् ।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, पुत्र मित्रप्रदाचरेत् ॥

तथा गुरु, देव, धर्म अरु सुग्री स्वजन, इन की सगति कराये । भली जाति, कुल आचार, शीलवान् ऐसे पुरुष के साथ मित्राचार कराये । क्योंकि गुरु आदि का परिचय होने से बाल्यावस्था में भली वासना बाला हो जाता है, बलकल चीरीवत् । जाति कुल, आचारशील सयुक्त की मित्रता से, देवयोग से कदापि धनर्थ भी आ पड़े, तो भी भले मित्र की सहायता से कष्ट दूर हो जाता है । जैसे अभयकुमार के साथ मित्रता करने से आद्रकुमार को भली वासना हो गई । तथा जय अठारा वर्ष का पुत्र हो जावे, तब उस का मित्राह

करे, क्योंकि बाल्यावस्था में वीर्यक्षय हो जाने से बुद्धि, पराक्रम अरु आयु अधिक नहीं होता है । सर्व जैनमत के शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, कि जब पुत्र को भोगसमर्थ जाने, तब पुत्र का विवाह करे । तथा जिस कन्या से विवाह करावे, उस कन्या का कुल, जन्म, रूप, सरीखा होवे, तब विवाह करावे । तथा पुत्र के ऊपर घर का भार सर्व गेरे, घर का स्वामी बना देवे । तथा जिस कन्या में सरीखे गुण न हों, उस के साथ विवाह करना महा विडम्बना है । विवाह के भेद आगे लिखेंगे । जब पुत्र के ऊपर घर का भार होवेगा, तब चिंताक्रांत होने से कोई भी स्वच्छंद उन्मादादि न करेगा, क्योंकि वो जान जावेगा कि धन, बड़े क्लेश से प्राप्त होता है, इस वास्ते अनुचित व्यय न करना चाहिये । ऐसा वो आप से आप जान जावेगा । परन्तु पुत्र की परीक्षा करके पीछे उस के ऊपर घर का भार डाले; जैसे प्रसेनजित राजा ने श्रेणिक पुत्र को दिया । तथा पुत्र की तरें पुत्री के साथ अरु भतीजादिक के साथ भी यथायोग्य उचित जान लेना । ऐसे ही बेटे की बहु के साथ भी धनश्रेष्ठी की तरें उचिताचरण करे । तथा प्रत्यक्षपने पुत्र की प्रशंसा न करे । तथा जब कष्ट पड़े, तब दुःख सुख की बात कहे । तथा आय व्यय का स्वरूप कहे । तथा पुत्र को राज समा दिखावे । क्योंकि क्या जाने बिना विचारे कोई कष्ट आ पड़े, तब क्या करे । तथा

कोई दुष्टजन उपद्रव कर देवे, तब राजसमा विना छुटकारा नहीं होता है। यथा —

गतव्य राजकुले, द्रष्टव्या राजपूजिता लोकाः ।

यद्यपि न भक्त्यर्थास्तथाप्यनर्था विनीयते ॥

तथा पुत्र को परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार करे। क्योंकि प्रयोजन के घर से किसी काल में देशांतर में भी जाना पड़े, तो कोई क्षण न होवे। तथा विमाता के पुत्र के साथ विशेष उचित करे।

६ अब सगों के साथ उचित करना लिखते हैं—पिता, माता, स्त्री के पक्ष के जो लोग हैं, तिन को स्वजन से उचित स्वजन कहते हैं। इन स्वजनों का कोई घर-यवहार के बड़े काम में तथा सदा काल समान करे। तथा आप भी स्वजनों के काम में अग्रेसवरी घने, जो स्वजन धनहीन होवे, रोगातुर होवे, तिस का उद्धार करे। क्योंकि स्वजन का जो उद्धार करना है, सो तत्त्व से अपना ही उद्धार करना है। तथा स्वजन के परोक्ष उन की निंदा न करे तथा स्वजन के वैरियों से मित्राचारी न करे। स्वजनादिक से प्रीति करनी होवे, तदा शुष्क फलह, हास्यादि, वचन की लड़ाई न करे। स्वजन घर में न होवे, तो उस के घर में अकेला न जावे,

देव गुरु, धर्म अरु धन के कार्य में स्वजन के साथ शामिल रहे। जिस स्त्रि का पति परदेश में गया होवे, ऐसे स्वजन के घर में अकेला न जावे। तथा स्वजनों के साथ लेने देने का व्यापार न करे। तथाहि—

यदीच्छेद्विपुनां प्रीतिं, त्रीणि तत्र न कारयेत् ।

वाग्वादमर्थसम्बन्धं, परोक्षे दारदर्शनम् ॥

तथा इस लोक के कार्य में स्वजनों के साथ एक चित्त रहे, अरु जिनमन्दिरादि कार्य में तो विशेष करके स्वजन से ही मिल के करे। क्योंकि ऐसे कार्य जेकर बहुतों से मिल के करे, तो ही शोभा है।

७. अब गुरु उचित कहते हैं—धर्माचार्य के साथ उचित भक्ति अन्तरंग का बहुमान, वचन, काया गुरु से उचित का आवश्यक प्रमुख कृत्य करना। गुरु के व्यवहार पास शुद्ध श्रद्धा पूर्वक धर्मोपदेश श्रवण करना। गुरु की आज्ञा माने। मन से भी गुरु का अपमान न करे, गुरु का अवर्णवाद किसी को चोलने न देवे। गुरु की प्रशंसा सदा प्रगट करे, गुरु की प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्तुति करे। गुरु स्तुति जो है, सो अगणित पुण्यबंधन का कारण है। गुरु के छिद्र कदापि न देखे। गुरु से मित्र की तरे अनुवर्त्तन करे। गुरु के प्रत्य-नीक-निंदक को सर्व शक्ति से निवारण करे। कदाचित्त

गुरु प्रमाण के वश से कहीं चूक जावे, तब एकान्त में हित शिक्षा देवे, और कहे कि हे भगवन् ! तुम सरीसों से यह काम करना उचित नहीं । गुरु का विनय करे, गुरु के सम्मुख जावे, गुरु निकट आवे तो आसन छोड़ के गड़ा हो जावे, गुरु को आसन देवे, गुरु की पगचपी करे । गुरु को शुद्ध, निर्दोष, वस्त्र, पात्राहारादि देवे । यह त्रयोपचार है । और भावोपचार, सो गुरु का परदेश में सदा स्मरण करे ।

८ अत्र नगर निवासी जनों का उचित कहते हैं—जिस नगर में रहे उस नगर के निवासी जनों के नगरवासी से उचित साथ उचित इस प्रकार से करना । अपने यवहार सरीसों जिन व्यापारियों की वृत्ति होवे, उन के साथ जो एकचित्त में सुख, दुःख, असन, कष्ट, राज के उपद्रवादि में परापर रहे, उन के उत्साह में उत्साहवान् होवे । राजदरबार में किसी की चुगली न करे । तथा नगर निवासियों से फटे नहीं । सर्व से मिल कर राज का हुकुम करे । क्योंकि जब निराल पुरुष बहुत शकटे हो के कार्य कर, तब तृणरज्जुवत् चलवान् हो जाते हैं । जब विवाद हो जावे, तब निष्पक्ष हो के कार्य करे । किसी से लाच ले कर झूठा काम न करे । तथा किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो जावे, तो उस की राज में पुकार न करे । तथा राजा के कारमारियों से लेने देने का व्यापार न करे । क्योंकि उन लोगों को नाणा देने के अवसर में क्रोध

आजाता है, तब वो कोई और अनर्थ कर देते हैं। तथा समान-वृत्ति नागरों की तरे असमान वृत्ति वाले नगरनिवासियों के साथ भी यथायोग्य उचिताचरण करे।

६. अथ परतीर्थी—परमत वालों के साथ उचिताचरण लिखते हैं—जो पर मतवाला साधु भिक्षा के परमत वाले में वास्ते घर में आवे, तो उस का उचित सत्कार उचित व्यवहार करे। तथा राजा के माननीय का विशेष उचित करे। उचित कृत्य सो यथायोग्य दान देना। जेकर उन साधुओं के मन में भक्ति नहीं भी होवे, तो भी घर में मांगने आये को देना चाहिये, क्योंकि दान देना यह गृहस्थ का धर्म ही है। तथा महंत कोई घर में आ जावे, तो आसन, दान, सन्मुख जाना, उठ के खड़ा होना प्रमुख सत्कार करे। तथा परमत वाला किसी कष्ट में पड़ा होवे, तदा उस का उद्धार करे। दुःखी जीवों पर दया करे। पुरुषापेक्षा मधुर आलापादि करे। तथा अन्य-मत वाले को काम का पूछनादि करे, जैसे कि आप का श्राना किस प्रयोजन के वास्ते हुआ है? पीछे जो कार्य वो कहे, सो कार्य जेकर उचित होवे, तो पूरा कर देवे, तथा दुःखी, अनाथ, अन्धा, वधिर, रोगी प्रमुख दीन लोगों की दीनता को यथाशक्ति दूर करे।

जो श्रावकादि पूर्वोक्त लौकिक उचिताचरण में कुशल नहीं होवे, तो वो जिनमत में भी क्योंकि कुशल होवेगे?

तिस रास्ते अवश्य धमार्थियों को उचिताचरण में निपुण होना चाहिये ।

अथ अपसर में उचित बोलना यह बड़ा गुणकारी है, तथा और भी जो कुशोभाकारी होये, सो सामान्य शिष्टाचार त्यागे । विवेकविलास आदि में कहा है—जभाई, छोरु, डकार, तथा हसना, यह सब मुग ढाक के करे । समा के नीच नाक में अगुली डाल के मल न फाड, हाथ मोडे नहों पर्यस्त्रिका न करे, पग न पसारे, निद्रा प्रिकथा न करे, समा में कोई घुरी चेग नकरे । जो कुलीन पुरुष है सो अपसर में हसे, तो होठ फरकने मात्र हसे, परन्तु मुग फाडके न हसे । अपना अग प्रजावे नहों, तृण तोडे नहों, व्यथ भूमि में लिये नहों । नगा करके दात घिसे नहों, दातों करी नप न तोड़े । अभिमान न करे, भाट चारण की करी हुई प्रशसा सुन के गव न करे । अपने गुणों का निश्चय करे । घात को समझ के बोले । नीच जन जो अपन को हीन घचन कह, तो उस को बदले का हीन घचन न बोले । जिस घस्तु का निश्चय न होये, सो घात प्रगट न कहे । जो कोई पुरुष काय करे, अथ उम काय के करने में वो समथ न होये । तिस को पहिले बर्ज देये, कहे कि यह काम तुम न करो । तथा किसी का घुरा न बोले, जेकर घरी का घुरा बोले, तो उसका घटकाय नहों, परन्तु सो भी अन्यासि करके बोले । तथा माता, पिता रोगी, आचाय, परादुणा, अभ्यागत,

भाई, तपस्वी, वृद्ध, बाल, स्त्री, वैद्य, पुत्र, गोत्री, पामर, बहिन, बहिनोई, मित्र, इन सर्व के साथ वचन की लड़ाई न करे। सदा सूर्य को न देखे। तथा चन्द्र सूर्य के ग्रहण को न देखे। ऊँडे-गहरे कूवें को भुक के न देखे। संध्या समय आकाश न देखे। तथा मैथुन करते को, शिकार मारते को, नंगी स्त्री को, यौवनव्रती स्त्री को, पशुकीड़ा को और कन्या की योनि को न देखे। तथा तेल में, जल में, राख में, मूत में, रुधिर में, इतनी वस्तुओं में अपना मुख न देखे, क्योंकि इस काम से आयु टूट जाती है। तथा अंगीकार करे को त्यागे नहीं। नष्ट हो गई वस्तु का शोक न करे, किसी की निद्रा का छेद न करे। बहुतों से वैर न करे, जो बहुतों को सम्मत होवे, सो बोले। जिस काम में रस न होवे, सो न करे। कदापि करना पड़े, तो भी बहुतों से मिल के करे। तथा धर्म, पुण्य, दया, दानादि शुभ काम में बुद्धिमान् मुख्य होवे—अग्रेसवरी बने। तथा किसी के बुरे करने में जलदी अग्रेसवरी न बने। तथा सुपात्र साधु में कदापि मत्सर ईर्ष्या न करे। तथा अपने जाति वाले के कष्ट की उपेक्षा न करे। किन्तु मिल कर आदर से उस का कष्ट दूर करे। तथा माननीय का मान भंग न करे। तथा दरिद्रपीडित, मित्र, साधर्मिक, न्याति में बुद्धि वाला होवे, तथा गुणों करके बड़ा होवे, बहिन संतान रहित होवे, इन सर्व की पालना करे। अपने कुल में जो काम करने

योग्य न होवे, सो न करे। तथा नीति शास्त्रोक्त तथा और शास्त्रों में जो उचिताचरण होवे, सो करे, अरु अनुचित होवे, सो बर्जे।

मध्याह्न में पूर्वोक्त विधि से विशेष करके प्रधान शाल्यो दनादि निष्पन्न निशेष रसगती होवे। दूसरी वार जिन पूजा, जो मध्याह्न की पूजा, अरु भोजन, इन दोनों का कालनियम नहीं। क्योंकि जत्र भूष लगे, सोई भोजन काल है। इस वास्ते मध्याह्न से पहिले भी प्रत्याख्यान पार के देव पूजा पूर्वक भोजन करे, तो दोष नहीं। वैदिक ग्रंथों में भी लिखा है, कि एक प्रहर में दो वार भोजन न करे, तथा दो प्रहर उल्लंघने नहीं, क्योंकि एक प्रहर में दो वार खाने से रसोत्पत्ति होती है, अरु जेकर दो प्रहर पीछे न खाये, तो बलक्षय होता है।

अब सुपात्रदानादि की युक्ति लिखते हैं। सो ऐसे है—
 भोजन घेला मं भक्ति सहित साधुओं की
 सुपात्रदान निमंत्रणा करके, साधु के साथ घर में आवे,
 अथवा साधु स्वयमेव आता होवे तब
 ससुप्र जा के आदर करे। दिनय सहित सविश्र भावित
 अमात्रित क्षेत्र देगे, तथा सुमित्र दुर्मित्रादिक काल देगे
 तथा सुत्रम दुर्लभादि देने योग्य वस्तु देते, तथा आचार्य,
 उपाध्याय, गीताथ, तपस्वी, घाल, पृथ्व, ग्लान, सह असहादि
 अपेक्षा करके महत्त्व, स्पष्टा, मत्सर, स्नेह, लज्जा, भय,

दाक्षिण्य, परानुयायिपना, प्रत्युपकार, इच्छा, माया विलंब, अनादर, बुरा बोलना, पश्चात्तापादि, ये सर्व दान के दूषण वर्ज के आत्मा को संसार से तारने के वास्ते, ऐसी बुद्धि से वैतालीश दूषण रहित जो कुछ घर में अन्न, पक्वान्न, पानी, वस्त्रादि होवे, तिस की अनुक्रम से सबे निमंत्रणा करे, अपने हाथमें पात्र ले के पास रही भार्यादिक से दान दिलावे । पीछे वंदना करके अपने घर के दरवाजे तक साथ जावे, फिर पीछा आवे । जेकर साधु न होवे, तदा विना वादलों के मेघ की तरे साधु का आना देखे । जे साधु आ जावे, तो मेरा जन्म सफल हो जावे, इस वास्ते दिशावलोकन करे । जो भोजन साधु को न दिया होवे, सो भोजन श्रावक न खावे । तथा जो श्रावक लघु पुष्ट साधु को विना कारण अशुद्ध आहार देवे, तो लेने देने वाले दोनों को रोगी के दृष्टांत करके हितकारी नहीं है । तथा जिस साधु का निर्वाह न होवे, दुर्भिक्ष होवे, साधु रोगी होवे तथा और कोई कारण होवे, तो उस साधु को अशुद्ध अप्राशुक आहार देवे । तो लेने देने वाले दोनों को हितकारी होवे । तथा रस्ते के थके हुए को, रोगी को, शास्त्र पढने वाले को, लोच करे को, पारने के दिन को दान देवे, तो बहुत फल होता है । इस सुपात्र दान को अतिथिसंविभाग कहते हैं । यदागम —“अतिथि-संविभागो नाम नायगयाणं” इत्यादि पाठ का अर्थ कहते हैं—अतिथि संविभाग उस को कहते हैं, कि जो

न्याय से आया करणीय अन्न, पानी प्रमुख, देश फाल, श्रद्धा सत्कार क्रमयुक्त उत्कृष्ट भक्ति से, आत्मा की अनुग्रह बुद्धि से सयत् साधु को दान देने । सुपात्रदान से देवता स्वधी तथा औदारिकादि सम्प्रधी अद्भुत भोग इष्ट सब सुखसमृद्धि, राज्य प्रमुख मनगमता सयोगादिकी प्राप्ति, और निविलस, निर्विघ्न मोक्षफलप्राप्ति है । क्योंकि अमयदान अरु सुपात्रदान तो मोक्ष देने हैं, और अनु कपादान, उचितदान अरु कीर्त्तिदान, यह तीनों सासारिक सुखभोगों के देने वाले हैं ।

पात्र भी तीन तरे का कहा है, एक उत्तम पात्र साधु है, दूसरा मध्यम पात्र श्रावक है तीसरा अविरतिसम्यग् दृष्टि, सो जघन्य पात्र है । तथा आदर, फालविलस, विमुक्त, छोटा उचन चोलना, अरु दान दे के पश्चात्ताप करना, ये पात्र सहान के फलक हैं । तथा आनन्द के आसु आर, रोमाच होये बहुमान देने, मीठा गोले, दान दिये पीछे अनुमोदना करे, यह पात्र सुपात्र दान के भूषण है । सुपात्र दान का परिग्रह परिमाण करने का फल, रत्नसार कुमार की तरे होता है, यह कथा श्राद्धत्रिविध ग्रथ से जान लेनी । इस घास्ने ऐमे साधु आदि सयोग क मिश्रते से सुपात्रदान, दिन प्रतिदिन विवेकान् अवश्य करे ।

तथा यथाशक्ति भोजनांतर में आये साधर्मियों को अपने साथ भोजन कराये, क्योंकि वो भी पात्र है । तथा

के वास्ते अति लौल्य न करना चाहिये । तथा अभक्ष्य अनतक्राय, बहु सावद्य वस्तु, अर्थात् बहुत पाप वाली वस्तु न खावे । तथा जो थोड़ा खाता है, सो बहुत बलवान् होता है । तथा जो बहुत खाता है, सो अल्प खाने के फलवाला होता है । तथा अधिक खाने से अजीर्ण वमन विरेचनादि मरणांत कष्ट भी हो जाता है । यथा:—

हितमितविषकभोजी, वामशयी नित्यचक्रमणशीलः ।
उज्जिभतमूत्रपुरीषः, स्त्रीषु जितात्मा जयति रोगान् ॥

अर्थ:—जो भूख लगे तो हितकारी ऐसा अन्न थोड़ा जीमे, वामा पासा हेठ करके सोवे, नित्य चलने का स्वभाव-शील होवे, जब बाधा होवे, तब ही दिशा मात्रा करे, स्त्री से भोग न करे, वो पुरुष रोगों को जीत लेता है ।

अथ भोजनविधि, व्यवहार शास्त्रादिकों के अनुसार लिखते हैं । अतिप्रभात में, अतिसंध्या में, तथा रात्रि में भोजन न करना चाहिये । तथा सड़ा, वासी अन्न न खावे । चलता हुआ न खावे, तथा दाहिने पग के ऊपर हाथ रख कर न खावे । हाथ ऊपर रख के न खावे । खुले आकाश में न खावे, धूप में बैठ के न खावे । अंधेरे में वृत्त के तले न खावे । तर्जनी अंगुली ऊंची करके कदापि न खावे । मुख, हाथ, पग, अरु वस्त्र, विना धोया न खावे । नंगा ही कर मैले वस्त्रों से, दाहिने हाथ से, थाल को विना पकड़े न

गात्रे धोती आदिक परु वस्त्र पहिर के न खावे । भोजे वस्त्र पहिर के न खावे । भोजे वस्त्र से मस्तक लपेट के न खावे । यदा अपवित्र होवे, तदा न खावे । अति गृह्य रसलपट हो कर न खावे । तथा जूते सहित व्यग्रचित्त, केवल भूमि ऊपर बैठ क अरु मजे पर बैठ के न गात्रे । विदिशा की तर्फ तथा दक्षिण की तफ मुख करके न खावे । पतले आसन पर बैठ के भोजन न करे, तथा आसन ऊपर पग रख के भोजन न करे, चण्डाल क देखते न खात्रे । जो धम से पतित होत्रे उस के देखते न खावे । तथा फूटे पात्र में अरु मलिन पात्र में न खावे । जो शाकादिक वस्तु विष्टा से उत्पन्न होवे, सो न खात्रे । बालहत्यादि जिस ने करी होवे, उस ने तथा रजस्त्रला स्त्री ने जो वस्तु स्पर्शा होत्रे, तथा जो वस्तु गाय, श्वान, पत्नी ने सूधी होत्रे, तथा जो वस्तु अजानी होवे, तथा जो वस्तु फिर मे उष्ण करी होत्रे, सो न खात्रे । तथा घबघबाट शब्द करके न खावे । तथा मुख फाटे तो घुरा लगे ऐसे मुख करके न खावे । तथा भोजन के अवसर में दूसरों को घुला के प्रीति उपजात्रे । अपने देव गुरु का नाम स्मरण करके समासन ऊपर बैठ के खावे । जो अन्न अपनी माता, बहिन, ताई—पिता से बहे भाई की औरत, भानजी, स्त्री प्रमुख ने राध्या होवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ भोजन, उस को मीन करके दाहिना स्तर चलते खात्रे । जो जो वस्तु खात्रे, सो नासिका से सूघ के खात्रे, इम से दृष्टिदोष नष्ट

हो जाता है। तथा अति खारा, अति खट्टा, अति उष्ण, अति शीतल, अति शाक, अति मीठा, ये सर्व न खावे। मुख के स्वाद मात्र खावे। क्योंकि अति उष्ण खावे, तो रस मारा जाता है, अति खट्टा खावे, तो इन्द्रियों की शक्ति कम हो जाती है। अति लवण खावे, तो नेत्र विगड़ जाते हैं। अति स्निग्ध खावे, तो नासिका विषय रहित हो जाती है। तथा तीक्ष्ण द्रव्य अरु कौड़ा द्रव्य खावे, तो कफ दूर हो जाता है, तथा कपायला अरु मीठा खावे, तो पित्त नष्ट हो जाता है। स्निग्ध घृतादिक खाने से वायु दूर हो जाता है। बाकी शेष रोग जो हैं, सो न खाने से दूर हो जाते हैं।

जो पुरुष शाक न खावे, अरु घृत से रोटी खावे, तथा जो दूध से चावल खावे, तथा बहुत पानी न पीवे, अजीर्ण होवे, तदा खावे नहीं, सो पुरुष रोगों को जीत लेता है। भोजन करते वक्त पहिले मीठा अरु स्निग्ध भोजन करे, बीच में तीक्ष्ण भोजन करे, पीछे कौड़ी वस्तु खावे। उक्तं चः—

मुस्निग्धमधुरैः पूर्वमशनीयादन्वितं रसैः ।

द्रव्याम्ललवणैर्मध्ये पर्यते कटुतिक्तकैः ॥

तथा जो पहिले द्रव्य अर्थात् नरम वस्तु खावे, मध्य में कटुआ रस खावे, अंत में फिर नरम रस खावे, सो बलवन्त अरु नीरोगी रहे। तथा पानी को भोजन से पहिले पीवे, तो मंदाग्नि का जनक है, तथा भोजन के बीच में पीवे,

तो रसायन समान गुणकारी है, तथा भोजन के अंत में पीये, तो विष समान है। भोजन के अनंतर सर्व रस से लित्त हुये हाथ से एक चुलु रोज पीये, पशु की तरे पानी न पीये। पीये पीछे जो पानी रहे सो गेर देये, अजलि से पानी न पीये। पानी थोड़ा पीना पथ्य है, पानी से भोजि हुए हाथों को गला, तथा कपोल, हाथ, नेत्र, इतने स्थानों में न लगावे न पूजे, गोडे—जानु का स्पश करे, तथा अगमर्दन, दिशा जाना, भार उठाना, बैठना, स्नान करना, ये सर्व भोजन किये पीछे न करे। तथा कितनेक काल ताई बुद्धिमान् पुरुष भोजन करके बैठ जावे, तो पेट घड़ा हो जाता है। तथा ऊपर को मुख करके—चित्त हो कर सोये, तो बल बधे। वामे पासे सोवे, तो आयु बधे। भोजन करके दौडे तो मरण होवे। पीछे वामे पासे दो घंडी ताई सोये परन्तु निद्रा न लेवे नयमा सोये नहीं तो सी पग चले, फिरे। अथत्र भी कहा है कि नेव को, साधु को, नगर के स्वामी—राजा को तथा स्वजनों को, जब कष्ट होये तब, तथा चन्द्रसूर्य के ग्रहण में जेरुर शक्ति होये, तो चित्रेकवान् पुरुष भोजन न करे। तथा “अजीर्णप्रभया रोगा” इस वास्ते अजीर्ण में भी भोजन न करे।

ज्वर की आदि में लघन करना श्रेष्ठ है, परन्तु वायुज्वर, श्रमज्वर, मोघज्वर, शीकज्वर, कामज्वर, घात्र का ज्वर, इतने ज्वर को रज के शेष ज्वर तथा नेत्ररोग के हुये

लंघन करे ।

तथा देव गुरु के वन्दनादि के अयोग से, तथा तीर्थ अरु गुरु को नमस्कार करने जाते वक्त, तथा विशेष धर्मांगीकार करते, बड़ा पुण्य कार्य प्रारम्भ करते, अरु अष्टमी चतुर्दशी आदि विशेष पर्व के दिन भोजन न करना चाहिये । तप का जो करना है, सो इस लोक अरु परलोक में बहुत गुणकारी है ।

तथा भोजन करे पीछे नमस्कार स्मरण करके उठे, चैत्यवन्दना करके देव गुरु को यथायोग्य वन्दना करे । तथा भोजन के पीछे गण्डिसहित दिवसचरिम प्रत्याख्यान विधि से करे । पीछे गीतार्थ साधु, गीतार्थ श्रावक, तथा सिद्धपुत्रादिकों के समीप स्वाध्याय—पठन पाठन यथायोग्य करे । योगशास्त्र में लिखा है, कि जो गुरुमुख से पढ़ा होवे, सो औरों को पढ़ावे, स्वाध्याय करे । पीछे संध्या में जिनपूजा करे पीछे पडिक्रमणा करे । पीछे स्वाध्याय करे । पीछे वैयावृत्त्य अर्थात् मुनि की पगचंपी करे । घर जा कर सकल परिवार को जोड़ के धर्म का स्वरूप कथन करे । उत्सर्ग मार्ग में तो श्रावक को एक वार ही भोजन करना चाहिये ।
यदभाणि—

उत्सर्गेण तु सङ्घो य, सच्चित्ताहारवज्जओ ।

इक्कासणगभोई अ, वंभयारी तहेव य ॥

जेकर एक भुक्त करने का सामर्थ्य न होवे तदा दिन का अष्टम भाग अर्थात् चार घड़ी दिन जब रहे, तय भोजन कर लेवे, अर्थात् दो घड़ी दिन रहने से पहिले ही भोजन कर लेवे । पीन्ने यथाशक्ति चार आहार, तीन आहार, दो आहार का त्यागरूप दिनसिबरिम सूर्य उगते ताई करे, सो मुख्य वृत्ति से तो दिन होते ही करना चाहिये, परन्तु अपवाद में रात को भी करे ।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीनुद्विविजय शिष्य मुनि

आनदविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्शे

नवम परिच्छेद सपूर्ण



दशम परिच्छेद

इस परिच्छेद में श्रावकों का एक रात्रिकृत्य, दूसरा पर्वकृत्य, तीसरा चौमासिककृत्य, चौथा संत्सरीकृत्य, अरु पांचमा जन्मकृत्य, यह पांच कृत्य अनुक्रम से लिखेंगे । तिस में प्रथम रात्रिकृत्य लिखते हैं ।

साधु के पास तथा पौषधशालादि में यत्न से प्रमा-
 र्जना पूर्वक सामायिक करके प्रतिक्रमण
 रात्रिकृत्य करे । पीछे साधुओं की पगचंपी करे ।
 यद्यपि साधु ने श्रावक के पासो उत्सर्गमार्ग
 में विश्रामणादि नहीं करावनी, तो भी श्रावक यदि विश्राम-
 मणा करने का भाव करे, तो महा फल है । पीछे श्राद्ध-
 दिनकृत्य, श्रावकविधि, उपदेशमाला अरु कर्मग्रन्थादि शास्त्रों
 का स्वाध्याय करे । पीछे सामायिक पार के घर में जावे ।

पीछे सम्यक्त्व मूल बारह व्रत में, सर्वशक्ति से यत्न-
 करणादिरूप तथा सर्वथा अर्हत्तु चैत्य, अरु साधर्मिक वर्जित
 वासस्थान में अनिवास रूप तथा पूजा प्रत्याख्यानादि अभि-
 ग्रहरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में धन खरचन रूप, ऐसा
 यथायोग्य सकल परिवार को धर्मोपदेश कथन करे । जेकर
 श्रावक अपने परिवारको धर्म न कहे, तब उस परिवार
 को धर्म की प्राप्ति न होवेगी । तो इस लोक परलोक में
 जो वे पापकर्म करेंगे, सो सर्व उस श्रावक को लगेंगे ।

क्योंकि लोक में यह व्यवहार है, कि जो चोर को गाने पीने को देये, सो भी चोर गिना जाता है ऐसे ही धर्म में भी-जान लेना । इस धाम्ने थायफ को ड्रव्य तथा भाय से अपने कुटुम्ब को शिक्षा देनी चाहिये । उस में ड्रव्य से पुत्र, फलत्र, वेटी प्रमुग को यथायोग्य वस्त्रादि न्य, अरु भाय से तिन को धर्म का उपदेश करे । तथा दुरी सुखी की चिन्ता करे । अन्याप्राप्युक्त —

रात्रि गण्डकृत पाप, रात्रि पाप पुरोहिते ।

भर्त्सरि स्त्रीकृत पाप, शिष्यपाप गुरावपि ॥

धर्म नेराना दिये पीत्रे, रात्रि का प्रथम प्रहर तीन पीछे शरीरको हितकारी घण्ट्या में त्रिवि से निद्रा अल्पमात्र करे । गृहस्थ साहस्य करके मयुन से वर्जित होये । जेकर गृहस्थ जायनीय सक ब्रह्मघ्नत पालने में समथ न होये, तदा पर्यत्तियि के दिन तो उम को अथय ब्रह्मचय घ्नत पालना चाहिय ।

नाँद लेने की विधि नीतियात्र के अनुसार यह है —

जिम ग्याट म चीय पड़े होयें जो ग्याट
 निगविधि छोटी लोये, भागी हुई लोये, मैली होये,
 दूगरे पाये मयुक्त लोये, तथा भासि के घने
 बाह्र की ग्याट होये, सा त्यागे । ग्याट में तथा भासन में

चार जात की लकड़ी लगे, तो शुभ है, परन्तु पांचादि काष्ठ लगे, तो अशुभ है। तथा पूजनीक वस्तु के ऊपर न सोवे, तथा पानी से पग भीजे न सोवे, तथा उत्तर दिशा अरु पश्चिम दिशा की तर्फ शिर करके न सोवे, बांस की तरें न सोवे, पगों के ठिकाने न सोवे, हाथी के दांत की तरें न सोवे। देवता के मन्दिर के मूलगंभारे में, सर्प की बंधी पर, वृक्ष के हेठ, तथा श्मशान में नहीं सोवे। किसी के साथ लड़ाई हुई होवे, तदा मिट्टा के सोवे। सोते वक्त पानी पास रखवे, तथा दरवाजा जड़ के, इष्टदेव को नमस्कार करके बड़ी शय्या में अच्छी तरें ओढ़ने के वस्त्र समार के, सर्वाहार को त्याग के, वामा पासा नीचे करके सोवे।

दिन को सोवे नहीं, परन्तु क्रोध, शोक, अरु मद्य के मिटाने के वास्ते तथा स्त्री कर्म, अरु भार के थकेवें को मिटाने के वास्ते तथा रस्ते के खेद को मिटाने के वास्ते तथा अतिसार, श्वास, हिचकी प्रमुख रोग दूर करने के वास्ते सोवे। तथा जो बाल होवे, वृद्ध होवे, बलक्षीण होवे, सो सोवे। तथा तृषा, शूल, और क्षत की वेदना करके विद्वल होवे, सो सोवे। तथा जिस को अजीर्ण हुवा होवे, वाय हुवा होवे, जिस को खुशकी हुई होवे, तथा जिस को रात्रि में निद्रा थोड़ी आती होवे, वो दिन को भी सो जावे। तथा ज्येष्ठ अरु आपाढ़ महीने में दिन में भी सोना अच्छा है। और महीनों में सोवे, तो कफ अरु पित्त करता है। तथा बहुत

नींद लेनी, बहुत काल लग सोये रहना अच्छा नहीं । तथा रात को सोवे तदा दिशायकाशिक्रमत् उच्चार के सोवे । तथा चार सरणा लेये, सर्व जीवराशि से ग्रामणा करे, अठारह पाप स्थान का व्युत्सर्जन करे, दुष्कृत की निंदा करे, सुकृत का अनुमोदन करे, तथा —

जइ मे हुज्ज पमाओ, इमस्म देहस्स इमाइ रयणीये ।

आहारमुवहिदेह, सव्व तिविहेण वोसिरिय ॥

नमस्कार पूर्वक इस गाथा को तीन बार पढ़े, साकार अनशन करे, पच नमस्कार स्मरण सोने के अवसर में करे । स्त्री से दूर अलग शय्या में सोये । जेकर निकट सोये, तब एक तो विकार अधिक जागता है, तथा दूसरा जिस वासना युक्त पुरुष सोवे, सो जितना चिर जागे नहीं, उतना चिर वही वासना उस पुरुष को रहती है । इस वास्ते स्त्री से अलग दूसरी शय्या में सोवे । तथा मरणावसर में गफलत हो जावे, तो भी तिस के जो सचित्त अवस्था में वासना थी वही वासना है, ऐसे जानना । इस वास्ते सर्वथा उपशात मोह हो करके, धम वैराग्यादि भावना से वासित हो करके निद्रा करे, तो ग्योटा स्वप्न न होये । जिस रीति से अच्छा धर्ममय स्वप्न देखे, उसी रीति से सोवे । जेकर कदाचित् उस की आयु समाप्त भी हो जावे, तो भी वो अच्छी गति में जावे ।

तथा सोये पीछे रात्रि में जत्र जाग जावे, तदा अनादि काल के अभ्यास रस से कदाचिन् काम पीड़ा करे, तो स्त्री के शरीर का अशुचिपना विचारे, अरु श्रीजंबूस्वामी तथा स्थूलिभद्रादि महा ऋषियों की तथा सुदर्शनादि महा श्रावकों की दुष्कृत शील पालने की दृढता विचारे । तथा कप्रायादि दोष के जीतने के उपाय, भवस्थिति की अत्यंत दुःस्थिता और धर्म के मनोरथ का चिंतन करे । तिन में स्त्री के शरीर की अपवित्रता, जुगुप्सनीयतादि सर्व विचारे । जैसे श्रीहेमचन्द्रसूरि ने योगशास्त्र में लिखा है । तथा पूज्य श्री मुनिसुन्दर सूरि ने अध्यात्मकल्पद्रुम में लिखा है, तैसे विचारे । सो लेया मात्र इहां लिखते हैं—

चाम, हाड, मज्जा, आंदरां, चरबी, नसा, रुधिर. मांस, विष्टा, मूत्र, खेल, खंकारादि अशुचि पुद्गल का पिंड स्त्री का शरीर है । इस पिंड में तू क्या रमणीक वस्तु देखता है ? जिस विष्टे को दूर से देख कर लोक थूथूकार करते हैं, मूढ़ लोक उसी विष्टे अरु मूत्र से पूर्ण, ऐसे स्त्री के शरीर की अभिलाषा करते हैं । विष्टे की कोथली बहुत छिद्रों वाली जिस के छिद्र द्वारा कृमिजाल निकलते हैं, अरु कृमिजाल से भरी है, ऐसी स्त्री है । तथा चपलता, माया, झूठ, ठगी, इतों करके संस्कारी हुई है । तातें जो पुरुष मोह से इस का संग करे, भोगविवास करे, तिस को नरक के ताई है । ऐसी स्त्री विष्टे की कोथली जिस के ग्यारा द्वारों

से अशुचि शरती है । जिस द्वार को सूघी, उसी म से महा सडे हुये कुत्ते के कलेसर समान दुर्गन्ध आती है । तो फिर कामीजन क्योंकर उस स्त्री के शरीर में रागाध होते हैं ? इत्यादि स्त्री के शरीर की अशुचिता को विचारे । धन्य है वो पुरुष जवुकुमार जिस ने नत्र परिणीत आठ पद्मिनी स्त्री, अरु तिनानत्रे क्रोड़ मोनैये छिनक मे त्याग दिये । तिस का माहात्म्य विचारे । तथा श्रीधूलिभद्र अरु सुदर्शन सेठ के शील का माहात्म्य विचारे ।

कषाय जीतने का उपाय इस तरे करें—क्रोध को क्षमा करके जीते, मान को नरमाई से जीते, माया को सरलताई से जीते, लोभ को सतोष से जीते, राग को वैराग्य से जीते, द्वेष को मित्रता से जीते, मोह को विवेक से जीते, काम को स्त्री के शरीर की अशुचि भावना से जीते, मत्सर को पर की सपदा देख के पीड़ा न करने से जीते, प्रिय को सयम से जीते, अशुभ मन, वचन अरु काया इन तीनों को तीन गुप्ति से जीते, आलस को उद्यम से जीते, अविरतिपने को विरतिपने से जीते । इस प्रकार यह सब सुख से जीते जाते हैं । धार्म भी बहुत महत्माओं ने इन को इसी तरे जीता है ।

भद्रस्थिति महादु ग्वरूप है क्योंकि चारों गति में जीव नाना प्रकार के दुःख पा रहे हैं । तिन में नरकगति में तो

सातों नरकों में क्षेत्रवेदना है, तथा पांच नरकों में परस्पर शस्त्रों करके उदीरी वेदना है । तथा तीन नरक में परमाधर्मिक देवताकृत वेदना है । आंख मींच के उघाड़े, इतना काल भी नरकवासी जीवों को मुख नहीं है । केवल दुःख ही पूर्व जन्म के करे हुए पापों से उदय हुआ है । रात अरु दिन एक सरीखे दुःख में जाते हैं, जितना नरकगति में जीव दुःख को पावे है, उस से अनंतगुणा दुःख जीव निगोद में पावे है । तथा तिर्यंचगति में अंकुश, परैण, लाठी, सोटा, शृंगमोड़न, गलमोड़न, तोड़न छेदन, भेदन, दहन, अंकन और परवशातादि, अनेक दुःख पावे है । तथा मनुष्यगति में गर्भ, जन्म, जरा, मरण, नाना प्रकार की पीड़ा, रोग, व्याधि, दरिद्रता, माता, पिता, स्त्री, पुत्र का मरणादि अनेक दुःख पाता है । तथा देवगति में चवन का दुःख दासपने का दुःख पराभव, ईर्ष्यादि अनेक दुःख है । इत्यादि प्रकार से भवस्थिति को विचारे ।

तथा धर्ममनोरथ भावना—सो श्रावक के घर में जो ज्ञान, दर्शन, व्रत सहित मैं दास भी हो जाऊं, तो भी अच्छा है । परन्तु मिथ्यादृष्टि तो मैं चक्रवर्ती राजा भी न होऊं । तथा कव मैं संवेगी वैराग्यवन्त गीतार्थ गुरु के चरणों में स्वजनादि संग रहित प्रव्रज्या ग्रहण करूंगा ! तथा कव मैं तिर्यंच के पिशाच के भय से निष्प्रकंप हो कर श्मशानादि में विधिपूर्वक कायोत्सर्ग करूंगा ! तथा कव मैं तप से कृश

शरीर होके उत्तम पुरुषों के मार्ग में चल्दगा । इत्यादिक भावना से काम के कटक को जीते ।

अथ श्रावक का पर्वकृत्य लिखते हैं । पर्व जो अष्टमी, चतुदशी आदि दिवस, तिस में धम की पर्वकृत्य पुष्टि करे तिस का नाम पौषध है । सो पौषध भले ब्रतवाले श्रावक को पर्व के दिन में अवश्य करना चाहिये, जेकर पर्व के दिन शरीर में साता न होये पौषध न कर सके, तो दो बार प्रतिक्रमण करे । तथा बहुत बार सामायिक अरु दिशाप्रकाशिक ब्रत अंगीकार करे । तथा पर्वदिनों में ब्रह्मचर्य पाले, आरम्भ बर्जे, विशेष तप करे, चैत्यपरिपाटी करे, सर्व साधुओं को नमस्कार करे, तथा सुपात्रदान, देवपूजा अरु गुरुभक्ति यह सर्व और दिनों से विशेष करे । धमकरनी तो सर्व दिनों में करनी अच्छी है, जेकर सदा न करी जावे, तो पर्व के दिन तो अवश्यमेव करनी चाहिये । सो पर्व ये हैं—अष्टमी, चतुदशी, पूणमासी अमावास्या, यह एक मास में छ पर्व अरु पक्ष में तीन पर्व, तथा दूज, पचमी, अष्टमी एकादशी, चतुर्दशी, यह पात्र तिथि, तीर्त्तिकरो ने कही हैं । उसमें दूज के दिन दो प्रकार का धर्म आराधन करना, पचमी के दिन ज्ञान को आराधना, अष्टमी को अष्टकर्म का नाय करना । एकादशी में ग्यारह अंग को आराधना, चतुर्दशी में चौदह पूर्व को आराधना, यह पाच तथा पूर्वोक्त अमावास्या अरु

पूर्णमासी, एवं पद पर्व हुये। अरु वर्ष में छ अठाई पर्व हैं। चौमासी पर्वदि पर्वों में जेकर सर्वथा आरम्भ न त्याग सके, तो स्वल्प स्वल्पतर आरंभ करे। तथा पर्व के दिन सर्व सचित्ताहार वर्जे। श्रावक को तो नित्य ही सचित्ताहार वर्जना चाहिये। जेकर शक्ति न होवे, तदा पर्व के दिन तो अदृश्य वर्जे। तथा ऐसे पर्व के दिनों में स्नान, शिर दिखाना, गूथन कराना, वस्त्र धोना, वस्त्र रंगना, गाडा, हल आदि चलाना, धान्य का मूढक बांधना, कोल्हू, अरहट चलाना, दलना, छड़ना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल तोड़ना, सचित्ताहार खड़ी हरमजी का मर्दन करना, धान्य काढना, लीपना, मांटी खोदनी तथा घर बनाना, इत्यादि सर्व आरम्भ यथाशक्ति से त्यागना चाहिये। तथा सर्व सचित्ताहार का त्याग न कर सके, तो नाम लेके कितनीक वस्तु खाने की छूट रखे, उपरांत त्याग देवे। तथा छ ही अठाइयों में जिनवर की पूजा करनी, तप करना और ब्रह्मचर्य पालना। इन छ अठाइयों में चैत्र तथा आसोज की जो दो अठाई है, सो शाश्वती हैं, इन दोनों में वैमानिक देवता भी नंदीश्वरादि में यात्रोत्सव करते हैं। तथा तीनों चौमासे की तीन अठाई अरु चौथी पर्युषण की तथा दो चैत्र अरु आसोज की, यह सब मिले कर छ अठाई हैं।

तथा जो तिथि प्रभात समय प्रत्याख्यान की बेला में

होवे, सो तिथि जैन मत में माननी प्रमाण है - लोक में भी सूर्योदय के अनुसार दिन का व्यवहार होने से उदय तिथि माननी प्रमाण है । तथा च निर्दिष्टभाष्ये -

चाउम्मासिअ वरिमे पक्खिअपचट्ठमीसु नायव्वा ।
 ताओ तिहिओ जामिं, उदेइ मूरो न अन्नाओ ॥१॥
 पृथा पच्चक्खाण, पडिक्कपण तट्ठय नियमगहण च ।
 जीए उदेइ मूरो, तीड तिहीए उ कायव्व ॥२॥
 उदयम्मि जा तिही सा पमाणपिअरी कीरमाणीए ।
 आणाभगणवत्थामिच्छत्त विराहण पावे ॥३॥

अर्थ - चौमासी, सवत्सरी, पक्खी, पचमी, अष्टमी, ये तिथियें सूर्योदय में होवें, तब प्रमाण हैं नाथथा । पूजा, पडिक्कमणा, प्रत्याख्यान, तैमे ही नियम ग्रहण करना, सो जिस तिथि में सूर्योदय होये, तिस में करना चाहिये । क्योंकि जो तिथि सूर्योदय में होये, सो प्रमाण है । तथा उदय तिथि के बिना जो कोई और तिथि करे, माने, सो आज्ञा का विराधक, अनवस्था कारक, मिथ्यादृष्टि है । पारा शरस्मृत्यादि में भी लिखा है—

आदित्योदयचेनायां, या स्तोकापि तिथिर्भवत् ।
 सा सपूर्णति भवत्या, मधुता नोदय बिना ॥

* उमास्वातिवाचकप्रद्योपश्चैवं श्रूयते—

क्षये पूर्वा तिथिः कार्या, वृद्धौ कार्या तथोत्तरा ।

श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं, कार्यं लोकानुगैरिह ॥

तथा श्री अर्हेतों के जन्मादि पंचकल्याणक के दिन भी पर्व हैं । जब दो, तीन, कल्याणक हों, तब तो विशेष करके पर्व मानना चाहिये । शास्त्रों में सुनते हैं, कि श्रीकृष्णवासुदेव ने सर्वपर्व के आराधन में अपने को असमर्थ जान कर श्रीनेमिनाथ अरिहंत को पूछा कि, उत्कृष्ट पर्व कौन सा है ? तब भगवान् ने कहा कि हे कृष्ण वासुदेव ! मगसिर शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम पर्व है, क्योंकि इस दिन श्रीजिनैद्रों के पांच कल्याणक भये हैं, सर्व क्षेत्रों के डेढ़ सौ कल्याणक हुये हैं । तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने मौन पौषधोपवास करके तिस दिन को माना । तब से ही “यथा राजा तथा प्रजा” इस रीति से सब लोक एकादशी मानने लगे, सो आज तक प्रसिद्ध है ।

तथा दुज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, इन तिथियों में प्रायः जीवों का परमव का आयु बंधता है, इस वास्ते इन तिथियों में विशेष धर्म करनी करे । तथा पर्व की महिमा के प्रभाव से अधर्मी अरु निर्दयी भी धर्मी

* उमास्वति वाचक का कथन इस प्रकार सुनने में आता है ।

अरु दयावान् हो जाता है। कृपण भी धन खरब देते हैं, कुशील भी सुशील हो जाते हैं। वो जयन्त रहो, कि जिस ने सवत्सरी, चातुर्मासी आदि षष्ठ्ये पर्व कथन करे है। क्योंकि जो षड्भार्याओं के चलाये पव हैं, तिन में आग, जलाना, जीव मारने रोना, पीटना, धूल उडानी, वृक्षों के पत्रादि तोड़ने इत्यादि नानाप्रकार के पाप होते हैं, अरु जो पर्व, परमेश्वर अरिहत ने कह है, उन में तो केवल धर्म कृत्य ही करना कहा है। इस वास्ते पवदिन में पौषधादि करे। पौषध के भेद अरु विधि यह सप्तश्राद्धविधि आदि शास्त्रों से जान लेना।

अथ चौमासिककृत्य की विधि लिखते हैं। चौमासे में विशेष करके नियम व्रत और परिग्रह का चातुर्मासिक कृत्य, परिमाण करना चाहिये। वर्षा-चौमासे में बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इस वास्ते विशेष नियमादि करना चाहिये। बसात में गाडा चलाना तथा हल फेरना न करे। तथा राजादन, अर्थात् खिरनी आव आदि में कीड़े पड़ जाते हैं, सो न खाने चाहिये। देशों का विशेष अपनी बुद्धि से समझ लेना। तथा नियम भी दो तरों के हैं, एक सुनिर्वाह, दूसरा दुर्निर्वाह। तिन में धनवर्तों को व्यापार का अरु अविरतियों को सचित्त का त्याग, रस का त्याग, तथा शाक का त्याग करना, अरु सामायिकादि अगीकार करना, यह दुर्निर्वाह है। अरु पूजा, दान, महोत्सवादि सुनिर्वाह है।

अरु निर्धनों को इस से विपरीत जान लेना । तथा चित्त एकाग्र करना, यह तो सर्व ही को दुष्कर है । इन में दुर्निर्वाह नियम न हो सके तो सुनिर्वाह नियम अंगीकार करे । तथा चौमासे में ग्रामांतर न जावे, जेकर निर्वाह न होवे तो जिस गाम में अवश्य जाना है, तिस को वर्ज के और जगे न जावे । सर्व सचित्त का त्याग करे । निर्वाह न होवे, तो परिमाण करे । तथा दो तीन वार जिनराज की अष्टप्रकारी पूजा करे, संपूर्ण देववंदन सर्व जिनमंदिरों में जिनविंशों की पूजा वंदना करनी, स्नात्रपूजा महामहोत्सव, प्रभावनादि करे । गुरु को बृहन्न वंदना तथा और साधुओं को प्रत्येक वंदना करे । चतुर्विंशतिस्तव का कायोत्सर्ग करे । अपूर्व ज्ञान पढे, गुरु की वैयावृत्य करे, ब्रह्मचर्य पाले, अचित्त पानी पीवे, सचित्त का त्याग करे । वासी, विदल, रोटी, पूरी, पापड़, बड़ी, सूखा साग, पत्ररूप हरा साग, खारक, खजूर, द्राक्ष, खांड, शुंठ्यादि, यह सर्व नीली फूलण, कुंथुआदि लट कीड़े पड़ने से खाने योग्य नहीं रहते हैं; इस वास्ते इन का त्याग करे । कदाचित् औषधादि विशेष कार्य में लेनी पड़े, तो सम्यग् रीति से शोध के लेवे । तथा खाट, स्नान, शिरगुंदाना, दातन, पगरखा, इन का त्याग करे । तथा भूषण, वस्त्र रंगने का निषेध करे । तथा घर, हाट, भीत, स्तंभ, खाट, पाट, पट्टक, पट्टिका, छींका अरु घृत तैलादिक का वासन, इंधन, धान्यादि सर्व वस्तु में नीली फूली हो जाती है । अतः इस

की रक्षा के वास्ते पहिले ही चूना आदि पार लगा देये ।
 मल दूर करे, धूप में न गेरे, शीतल स्थान में रख देये ।
 तथा दिन में दो तीन बार जल छाने । स्नेह, गुड़, छाछ
 प्रमुख के वासन का मुख यज्ञ से ढक के रक्ये । तथा
 औसामण का अरु स्नान का पानी, जहा जीव न होयें, तहा
 पृथक् पृथक् भूमि में थोड़ा थोड़ा गेरे । तथा चूल्हा अरु
 दीपक प्रमुख उधाड़ा न छोडे । तथा खडना, पीसना, राधना
 घस्य भाजन धोने, इत्यादि कामों को देख के यज्ञ मे करे ।
 तथा जिनमन्दिर अरु धर्म शाला को समरा के रक्ये । तथा
 यथारक्ति उपधान तप प्रतिमादि वहे, तथा कवाय अरु
 इन्द्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, वीस स्थानक तप,
 अमृत अष्टमी तप, एकादश्याग तप, चौदह पूर्व तप, नम
 स्कार तप, चौबीस तीथकर के कल्याणक तप, अक्षयनिधि
 तप, दमयन्ती तप, भद्रमहाभद्रादि तप, ससारतारण अठाई
 तप, पक्ष मासादि विशेष तप करे । तथा रात्रि को चतु
 विध आहार, त्रिविध आहार का त्याग करे । पर्वदिन में
 त्रिवृति त्यागे, पर्वदिन में पाँपधोषवासादि करे । तथा निर
 न्तर पारने में अतिथिसविभाग करे । चातुर्मासिक अभिग्रह
 करना पूराचार्यों ने इस तरे से लिखा है । ज्ञानाचार
 में, दर्शनाचार में, चारित्राचार में, तप आचार में, तथा
 धीर्याचार में द्रव्यादि अनेक प्रकार का अभिग्रह करे । सो
 इस रीति से है । ज्ञानाचार में शक्ति के अनुसार सूत्र

पढ़े, सुने, चिंते । तथा गुरु -पंचमी को ज्ञान की पूजा करे । तथा दर्शनाचार में काजा काढ़े, अर्थात् संमार्जना करे । देहरे में लीपे, गुंहली करे, मांडली करे, चैत्य जिनप्रतिमा की पूजा करे, देववंदना करे, जिनविंवाँ को निर्मल करे । तथा चारित्र में जूओं की यत्ना करे, वनस्पति में कीड़े पड़े खार न देवे, इंधन में, जल में, अग्नि में, धान्य में, जीव होवें, तिन की रक्षा करे । किसी को कलंक न देवे, कठिन वचन न बोले, रूखा वचन न बोले । तथा देव की अरु गुरु की सोगंद न ग्वावे, किसी की चुगली न करे, किसी के अवर्णवाद न बोले, माता पिता से छाना काम न करे । निधान तथा पढ़ा हुआ धन देख के जैसे शरीर और धर्म न विगड़े, तैसे करे । दिन में ब्रह्मचर्य पाले, रात्रि को स्वदारा से संतोष करे । तथा धनधान्यादि नव प्रकार के परिग्रह का इच्छा परिमाण व्रत करे । दिशावकाशिक व्रत करे । तथा स्नान का, उवटने का, विलेपन का, आभरण का, फूल का, तंबोल का, बरस का, अगर का, केसर का, कस्तूरी का, इतनी भोगने की वस्तुओं का परिमाण करे । तथा मंजीठ, लाख, कुसुंभा, नील, इन से रंगे वस्त्रों का परिमाण करे । तथा रत्न, वज्र, नीलमणि, सुवर्ण, रूपा, मोती प्रमुख का परिमाण करे । तथा जंवीर, जंवरूद, जंबू, राजादन, नारंगी, सन्तरा, विजोरा, काकडी, अखरोट, बदाम, कोठफल, टीवरू, विल, खजूर, द्राक्ष, दाड़िम, उत्तिज का फल, नालियर, अंबली, वोर,

वीलूफ फल, चीमडा, चीमडी कयर, कर्मदा, मोरड, निंबू, छात्रली, अथाणा—आचार तथा अकुरे हुए नाना प्रकार के फूल, पत्र, सचित्त, बहुबीजा, अनतकाय, इतनी वस्तु वज्रें । तथा विगय थर विगयगत का परिमाण करे । तथा वख्र धोने का, लीपने का, हल वाहने का, स्नान की वस्तु का परिमाण करे । तथा खण्डना, पीसना, इत्यादिक का परिमाण करे । झूठी साख न देवे । तथा पानी में कूदना अरु अन्न राधने का परिमाण करे । व्यापार का परिमाण करे । चोरी का त्याग करे । तथा खी के साथ सभापण करना, खी को दूधना त्यागे । तथा अनथ दण्ड । त्यागे । सामायिक, पौषध करे, अतिथिसविभाग करे, इन, सर्व वस्तुओं का प्रति दिन परिमाण करे । तथा जिनमन्दिर को देये, तथा जिनमन्दिर की वस्तु की सार सभाल करे । पर्य-में तप करे, उजमने करे, धर्म के वास्ते मुखवख्रिका अरु पानी का छलना देवे तथा औषधी देवे । साधर्मिगतसल यथारक्ति से करे । गुह की विनय करे । मास मास में सामायिक करे घष में पौषध करे ।

, अथ थावकों का वषकृत्य द्वादश द्वारों करी लिपते हैं ।

प्रथम सघपूजा करे, स्वद्रव्यकुलादि के वर्षकृत्य— अनुसार बहुत आदर मान से साधु साध्वी सघपूजा योग्य निर्दोष घरख, कयल, पूछना, सूत, ऊन, पानी का पात्र, तुषकादि, दंड, दडिका, सुई,

कागज, द्वाते, लेखिनी, पुस्तकादिक देवे । तथा और भी जो संयम का उपकारी उपकरण होवे, सो भी देवे । जैसे ही प्रातिहारक, पीठ, फलक, पट्टिकादि सर्व साधुओं को देवे । जैसे ही श्रावक, श्राविका रूप संघ की भक्ति यथाशक्ति से पहरावणादि करके सत्कार करे देवगुरु के गुण गाने वाले गंधर्वादिक याचकों को भी यथोचित दान देवे । संघ की पूजा तीन प्रकार की है—एक जघन्य, दूसरी मध्यम, तीसरी उत्कृष्ट । तिस में सर्व दर्शन सर्व संघ को करे, सो उत्कृष्टी पूजा, तथा सूत मात्रादि देवे, तो जघन्य पूजा । तथा शेष सर्व मध्यम पूजा है । तहां अधिक खरच करने की शक्ति न होवे, तो गुरु को सूत, मुखवल्लिका देवे, तथा एक दो तीन श्रावक श्राविका को सोपारी प्रमुख वर्ष वर्ष प्रति देवे । इस रीति से संघपूजा करे, तो निर्धन को भी महा फल है । यतः—

संपत्तौ नियमाशक्तौ, सहनं यौवने व्रतम् ।

दारिद्र्ये दानमप्यल्पं, महालाभाय जायते ॥ ●

दूसरा साधर्मिकवात्सल्य करे । सो सर्व साधर्मियों की अथवा कितनेक की यथाशक्ति यथायोग्य साधर्मिवात्सल्य भक्ति करे । तथा पुत्र के जन्मोत्सव में, विवाह में, तथा और किसी कार्य में पहिले तो साधर्मियों को निमंत्रणा करके विशिष्ट भोजन, तांबूल, बख्खा-

मरणादि देवे । तथा किसी साधमी को कोई कष्ट पडे तब अपना धन खर्च के उस का कष्ट दूर करे । जेकर कोई साधमी निर्धन होवे तो धन से सहाय करे, परदेश से देश में पहुचावे । तथा धर्म से सीदते को जैसे गने तैसे स्थिर करे । जेकर कोई साधमी प्रमादी होवे, तो निस को प्रेरणादि करे । साधमियों को विद्या पढ़ावे, पूरुना, परावत्तना, अनुप्रेक्षा, धम कथा में यथायोग्य जोडे । तथा धम करने के वास्ते साधारण पापधरालादि करावे । तथा श्राधिका के साथ भी श्रावकप्रत वात्सल्य करे । क्योंकि श्राधिका भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शील सतोष वाली होती है । तथा सधवा विधवा जो जिन शासन में अनुरक्त होवे, वो सर्व को साधमिकपने मानना चाहिये । तिस का भी माता की तरें, यहिन की तरें बेटी की तरें हित करना चाहिये । बहुत करके राजा का तो अतिधिसधिभाग व्रत साधमिवात्सल्य करने में ही हो सकता है । क्योंकि मुनि को तो राजपिंड लेना ही नहीं है । इस वास्ते श्रीभरतचक्री, तथा दंडवीर्य राजादिकों ने ऐसे ही करा है । तथा श्रीसंभवनाथ अर्हत के जीव ने तीसरे भव में धातकीगण्ड ऐरावत क्षेत्र में चेमापुरी नगरी में, विमलेन्द्राहन राजा ने महा दुर्मिच में सकल साधमिकादिकों को भोजनादिक देने में तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन करा है । तथा देवगिरि माड्य गढ़ में शाह जगत् सिंह ने तथा थिरापद्र नगर में श्रीमाल आभू ने तीन

सौ साठ साधर्मियों को धन दे के अपने तुल्य करा, तथा शाह सारंगादि अनेक पुरुषों ने बड़ा २ साधर्मिवात्सल्य करा है ।

तीसरी यात्राविधि कहते हैं । वर्ष वर्ष में जघन्य से एक यात्रा तो अवश्य करनी चाहिये, यात्रा भी यात्रा विधि तीन तरों की है, एक अठाईयात्रा, दूसरी रथयात्रा, तीसरी तीर्थयात्रा । तिस में अठाई में विस्तार सहित सर्व चैत्यपरिपाटी करे, इस को चैत्ययात्रा भी कहते हैं । तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रसूरि कृत परिशिष्ट पर्व में जैसी सप्रति राजा ने करी है, तैसे करे । तथा महापद्मचकर्त्ती ने जैसे माता के मनोरथ पूरन के वास्ते करी है, तैसे करे । तथा जैसी कुमारपाल राजा ने रथयात्रा करी तैसे करे ।

तीसरी तीर्थयात्रा का स्वरूप लिखते हैं । तहां श्रीशत्रुंजय रैवतादि तीर्थ, तथा तीर्थकरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण, अरु विहारभूमि, यह सर्व प्रभूत भव्यजीवों को शुभभाव का संपादक है । इस वास्ते ससार से तारने का कारण होने से इस को तीर्थ कहना चाहिये । तिन तीर्थों में जाने से सम्यक्त्व निर्मल होता है ।

अब जिनशासन की उन्नति करने के वास्ते जिस विधि से यात्रा करे, सो विधि यह है । चलने के स्थान से लेकर यात्रा करे, वहां तक एक वार भोजन करे, दूसरा सचित्त परिहार, तीसरा भूमिशयन, चौथा ब्रह्मचारी, पांचमा सर्व

सामग्री के हुये भी पगे चलना, छटा सम्यक्त्वधारी पना ।
 तथा यात्रा के वास्ते राजा से आछा लेवे, विशिष्ट मदिरोँ को
 सजावे, विनय बहुमान सहित स्वजन और साधुभियोँ को
 बुलावे । तथा गुरु को साथ ले जाने के वास्ते निमंत्रणा करे,
 अमारी ढढेरा फिरावे, मदिर में महापूजा महोत्सव करावे ।
 खरची रहितोँ को खरची देवे, वाहन विना को वाहन देवे ।
 निराधारोँ को यथायोग्य आधार देवे । सार्थग्राह की तरें डोडी
 फिरा के लोगोँ को उत्साहवत करे, तथा आङ्गिर सहित बड़ा
 चर, घड़ा, थाल, डेरा, तबू कड़ाहिया साथ लेवे,
 चलते कृपादिक को सज्ज करे । तथा गाडा, मेजघाला
 रथ, पर्यक, पालकी, ऊट, घोड़ा प्रमुख साथ लेवे । तथा
 श्रीसघ की रक्षा के वास्ते बडे २ योद्धाओँ को नौकर रखने ।
 योद्धाओँ को कचन अगकादि उपस्कर देवे । तथा गीत,
 नाटक वाजिन्नादि सामग्री मेलव । तथा अच्छे मुहूर्त म, शुभ
 शकुन में प्रस्थान करे । भोजनादि से श्रीसघ का सत्कार करके
 मघपति का तिलक देवे । आगे पीछे रजघाला रखने । सघ के
 चलने उतरने का सकेत करे । तथा सघ घालोँ की गाड़ी
 आदिक टूट जाये, तो समरा भेये । अपनी शक्ति क अनुसार
 सर्वसघ को सहाय देवे । तथा गाम नगर में जहा जिनमन्दिर
 आवे, तहा महापूज देवे । चैत्यपरिपाटी आदि बड़ा महोत्सव
 करे । जीर्णचैत्य का उद्धार करे । तथा जय तीर्थोँ को वेये,
 तथ सुवण, रत्न, मोती आदिक से वसुधापना करे । लापसी,

लड्डु प्रमुख का स्नाहणा करे । तथा साधर्मिवात्सल्य अरु यथोचित दान देवे । वड़े उत्सव से जब तीर्थ को प्राप्त होवे, तब प्रथम हर्ष पूजा धन चढ़ावे, तथा अष्टोपचारविधि, स्नात्र, मालोदघट्टन, धी की धारा देवे । पहरावणी मोचन करे । तथा नवांग जिनपूजन, फूलधर कदलीघरादि महापूजा करे । दुकूलादिमय महाध्वज देवे । मार्गने वालों को जान करे । तथा रात्रिजागरण नाना प्रकार के गीतनृत्यादि उत्सव करे । तथा तीर्थोपवास, छठ प्रमुख तप कोडि लाख अक्षतादि विविध प्रकार का उजमना होवे । तथा नाना प्रकार की वस्तु फल एक सौ आठ, चौबीस, व्यासी, वावन, वहत्तरादि होवे । सर्व भद्र भोजन के थाल होवे । दुकूलादिमय चन्द्रवा की पहरावणी करे । तथा अंगलूहना, दीपक, तेल, धोती, चन्दन, केसर, कस्तूरी, चंगेरी—छावड़ी कलश, धूपधान, आराति, आभरण, प्रदीप, चामर, भृंगार, स्थाल, कचोलक, घंटा, झालरी, पड़ंहादि विविध प्रकार के वार्जित्र देवे । देहरी करावे । कारीगरों का सत्कार करे । तीर्थ के विगड़े काम को समरावे—सार संभाल करे । तीर्थरक्षकों को बहु सन्मान देवे । जैन के भंगतों को, दीनों को, उचित दान देवे । तथा साधर्मिवात्सल्य, गुरुभक्ति करे । इस रीति से यात्रा करके तैसे ही पीछे फिरे, वर्षादि तक तीर्थ व्रत करे ।

अथ स्नात्रविधिलिख्यते—मन्दिर में स्नात्र महोत्सव भी

घृत का मेरु करे, अष्ट मागलिक नैवेद्यादि स्नानमहोत्सव ढोवे । घट्टत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, अचरादि लावे, सकल श्रावक समुदाय को एकत्र करे, गीत नृत्यादि आडम्बर रचाये, दुकूलादि महा ध्वज देवे । प्रौढाडम्बर से प्रभासनादि, निरन्तर तथा पर्व-दिन में करें । जेकर निरन्तर अथवा पर्वदिन में भी न कर सके तो भी वर्ष में एक बार तो अवश्य करे । स्नान महोत्सव में स्वधनकुलप्रतिष्ठादि के अनुसार सर्वशक्ति से करे अथात् जिनमत का महा उद्योत करे ।

तथा देवद्रव्य की वृद्धि के घास्ते प्रतिवर्ष मालोद्घट्टन करे, इन्द्रमाला तथा और माला का महोत्सव भी यथाशक्ति करे । ऐसे ही पहराधणी—नरीन धोती, विचित्र प्रकार का चन्दुआ, अगलूहणा, दीपक, तेल, उत्तम केसर, चन्दन, यरास, कस्तूरी प्रमुक्त चैत्योपयोगी वस्तु, प्रतिवर्ष यथाशक्ति देवे ।

तथा सुंदर आगी, पत्रभगी, सर्वांगाभरण, पुपगृह, कदलीगृह, पुतली, पानी के यन्त्रादि की रचना करे । तथा नाना गीत नृत्यादि उत्सव से महा पूजा और रात्रि जागरण करे ।

तथा धृतज्ञान पुस्तकादि की पूजा कर्पूरादि से सदा सुकर है । अरु प्रणस्त घरआदिक से विशेष

श्रुतपूजा पूजा तो प्रतिमास शुक्लपंचमी के दिन श्रावक को करनी योग्य है । जेकर शक्ति न होवे, तो भी वर्ष में एक बार तो अवश्य करे । इस का विस्तार जन्मकृत्य में ज्ञान भक्तिद्वार में लिखेंगे ।

तथा पंचपरनेष्टी नमस्कार, आवश्यकसूत्र, उपदेशमाला उत्तराध्ययनादि ज्ञान दर्शन का तप, इत्यादि उद्यापन में जघन्य एक बार उद्यापन करे, जिस से लक्ष्मी सफल होवे । जब जप तप का उद्यापन करे, तब चैत्य पर कलशारोपण करे, फल चढावे, अक्षत पात्र के मस्तक पर अक्षत देवे । जैसे भोजन के ऊपर तांबूल देते हैं, इसी तरे यह भी जान लेना । यह उपधान, उद्यापन विधि शाखांतर से जान लेनी ।

तथा तीर्थ की प्रभावना के वास्ते वाजे गाजे और प्रौढा-उंवर से गुरु का प्रवेश करावे, यह व्यवहार प्रभावना भाष्य में कहा है । क्योंकि इस से जिनमत की प्रभावना होती है । तथा यथाशक्ति श्रीसंघ का बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन, बरस, कस्तूरी प्रमुख से विलेपन करे, तथा सुगन्धित फूल, भक्ति से नालियरादि विविध तांबूल प्रदानरूप भक्ति करे । क्योंकि शासन की उन्नति करने से तीर्थकर गोत्र उपार्जन करता है, यह कथन ज्ञातासूत्र में है ।

तथा गुरु के योग मिले जत्रय से भी एक वर्ष में एक बार आलोचना लेये। अपने करे हुए आलोचना विधि सर्व पाप को गुरु के आगे कह देये, पीछे गुरु जो प्रायश्चित्त देये, सो लेये। फिर उस पाप को न करे, तिस का नाम आलोचना लेनी है। श्राद्धजितकल्पादि में इस प्रकार विधि लिखी है। पक्ष पीछे, चार मास पीछे, एक वर्ष पीछे उत्कृष्ट धारा वर्ष पीछे, निश्चय ही आलोचना करे। अपना शत्रु काटने को क्षेत्र से सात सौ योजन, अरु माल से चार वर्ष तक गीतार्थ गुरु का श्रेयण करे। तथा जिस गुरु के आगे आलोचना करे, सो गुरु गीतार्थ होये, मन उचन, काया करके स्थिर होये, चारित्रवान् होये, आलोचना ग्रहण में कुशल होये, प्रायश्चित्त का जानकार होये, विपाद रहित होये, ऐसा गुरु होये, सो आलोचना प्रायश्चित्त देने योग्य है।

तिन में गीतार्थ उस को कहते हैं, कि जो १ निशी थादि छेद शास्त्रों का मूलपाठ, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णा, इन का जानकार होये। तथा ज्ञानादि पञ्चाचार युक्त होये। तथा २ आधारवत-आलोचित पाप का धारने वाला होये। ३ आगमादि पात्र व्यवहार का जानने वाला होये। तिस में भी इस काल में तो जीवव्यग्रहार मुख्य है, तिस का जानने वाला होये। ४ प्रायश्चित्त के आलोचक की लजा को दूर कराने वाला होये। ५ आलोचक की युद्धि करने वाला

होवे । ६. आलोचक के पाप कर्म और के आगे न कहे ।
 ७. जैसे वो आलोचक निर्वाह कर सके, तैमे प्रायश्चित्त देवे ।
 ८. जो प्रायश्चित्त न करे, तिस को इस लोक अरु परलोक
 का भय दिखावे । यह आठ गुण युक्त गुरु होता है ।

साधु ने तथा श्रावक ने १. प्रथम तो अपने गच्छ में
 गच्छ के आचार्य के आगे, २. तदयोगे—तदभावे उपाध्याय के
 पास ३. तदभावे प्रवर्तक के पास, ४. तदभावे स्थविर के
 पास, ५. तदभावे गणावच्छेदक के पास. स्वगच्छ में इन पांचों
 के अभाव से संभोगी एक समाचारी वाले, गच्छांतर में पूर्वोक्त
 आचार्यादि पांचों के पास क्रम से आलोचे । तिन के भी
 अभाव से असंभोगी संवेगी गच्छ में पूर्वोक्त क्रम से
 आलोचे । तिनके भी अभाव हुए गीनार्थ पार्श्वस्थ के पास
 आलोचे । तिस के अभाव से गीनार्थ सारूपी के पास
 आलोचे, तिस के अभाव में पश्चात्कृत के पास आलोचे ।
 सारूपी उस को कहते हैं, कि जो शुक्ल वस्त्रधारी होवे,
 शिरमुंडित, अयद्वकच्छ, रजोहरण रहित, ब्रह्मचारी, स्त्री
 रहित, भिक्षावृत्ति होवे । अरु जो सिद्धपुत्र होता है, सो
 शिखा सहित, अर्थात् चोटी सहित, स्त्री सहित होता है ।
 तथा जो पश्चात्कृत होता है, सो चरित्र छोड़ के गृहस्थ के
 वेष वाला होता है । अलोचना के अवसर में पार्श्वस्थादि को
 भी गुरु की तरे वंदना करे । क्योंकि विनयमूल धर्म है, इस
 वासते वंदना करे । जेकर वो पार्श्वस्थादिक अपने आप को

गुणहीन जान कर वदना न कराये, तब तिस को आसन पर बैठा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना लेये । तथा पञ्चा त्कृत को इत्वर सामायिक आरोपण लिंग दे कर पीछे में उस के पास यथाविधि में आलोचना लेये । तथा पार्श्वस्था-दिक के अभाव में, जहा राजगृहादि गुणशील चत्यादिक में, जहा श्री अर्हत गणधारादिकों ने बहुत बार प्रायश्चित्त लोगों को दिया है, सो तहा रहने वाले देवता ने देखा है, इस घाम्ते तिस देवता को अष्टमादि तप में आराध के, तिस के आगे आलोचे । फदाचित् वो देवता चत्र गया होये, अरु उस की जगे और उत्पन्न हुआ होये, तदा वो नेत्रता महाविटेह क अर्हत को पूछ के प्रायश्चित्त देये । तिस क अभाव में अर्हत प्रतिमा के आगे आलोचे । आप प्रायश्चित्त लेये । तिम के अभाव में पूर्वोत्तर मुग्ग करके अर्हतसिद्धों के समक्ष आलोचे । परन्तु शल्य न रक्षवे । आलोचना करने वाला पुग्ग, माया रहित बालक की तरे सरल हो कर आलोये । जो कोई किसी कारण से आलोचना न करे वो आराधक नहीं है ।

आलोचना करने वाला दस दोष वर्ज क आलोचना करे । अब दोष के नाम लिखते हैं—१ गुरु को वैयावृत्यान्ति में खुशी करके पीछे आलोये, जिस से वो गुरु थोड़ा प्रायश्चित्त देये । २ यह गुरु थोड़ा दण्ड देता है, ऐसे अनुमान करके आलोवे । ३ जो दूसरों ने देगा होये, सो आलोवे, परन्तु जो अपना किया अपराध दूसरे किसी ने न दगा होये, उस

को न आलोवे । ४. वादर दोष को आलोवे, परन्तु सूक्ष्म दोष को न आलोवे । ५. सूक्ष्म दोष आलोवे, परन्तु वादर दोष न आलोवे । ६. अव्यक्त स्वर मे आलोवे । ७. जैसे गुरु समझे नहीं, ऐमे रौला करके आलोवे । ८. आलोचा हुआ बहुतां को सुनावे । ९. अव्यक्त अगीतार्थ के पास आलोवे । १०. अपराध जो गुरु ने कहा होवे, तिस अपने अपराध को आलोवे । यह दश दोष हैं ।

अब आलोचना करने से जो गुण होता है, सो कहते हैं । जैसे घोड़ा उठाने वाला भार के दूर हुए हलका हो जाता है, तैमे वो पाप से हलका हो जाता है । तथा पाप रूप शल्य दूर हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है । आत्मपर के दोषों से निवृत्ति, तिस को देख के और भी आलोचना करेगे । तथा सरलता होती है, शुद्ध हो जाता है । वो दुष्कर काम का करने वाला है ! क्योंकि दोष को सेवना तो दुष्कर नहीं है, किन्तु आलोचना प्रकाश करना, यह दुष्कर है । तथा श्री तीर्थंकर की आज्ञा का आराधक होता है । निःशल्य होता है । आलोचना वाले के ये गुण होते हैं । यह आलोचना विधि श्राद्धजीतकल्पसूत्रवृत्ति के अनुसार लिखी है । बाल, स्त्री, यति हत्यादि पाप तथा देवादिद्रव्य भक्षण का पाप, तथा राजपत्नी गमनादि महापाप की भी सम्यग् रीति से आलोचना करके गुरुदत्त प्रायश्चित्त करे, तो दूर हो जाते हैं । नहीं तो दृढप्रहारि प्रमुख

उसी भय में मोक्ष कैसे जाते ? इस वास्ते वर्ष वर्ष प्रति चौमासे चौमासे आलोचना लेवे ।

अथ जन्मकृत्य अठारह द्वारों करके लिखते हैं । तिस में प्रथम उचित द्वार है । सो पहिले तो उचित—योग्य बसने का स्थान करे ।

जहा रहने से धम, अर्थ अरु काम, तीनों की सिद्धि होये, तहा श्रायक को वास करना चाहिये । निवासस्थान तथा श्रयोकि और जगे बसने से दोनों भय त्रिगड़ गृहनिमाण जाते हैं । भिह्लपल्ली मे, चोरों के गाम में, पवत के किनारे, हिंसक लोगों में, दुष्ट लोगों में, धर्मी लोगों के निदर्शों में, इत्यादि स्थान में वास न करे । परन्तु जहा जिनचेत्य होये, जहा मुनि आते होवें, जहा श्रायक बसने होयें, जहा बुद्धिमान् लोग स्वभाव से ही शीलवान् होयें जहा प्रजा धमशील होवे, बहुत जल, इन्धन होवे, तहा वास करे । जैसा अजमेर के पास हृषपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से धनवन्त गुणवन्त अरु धर्मवन्त की सगति से विनय, विचार, आचार, उदारता, गभीरता, धैर्य, प्रतिष्ठा आदि गुणों की प्राप्ति होती है, धर्मकृत्य में कुशलता प्रगट होती है । इस वास्ते घुरे गामों में चाहे धनप्राप्ति होये, तो भी वास न करे । उक्त च—

यदि वालसि मूर्खत्व, ग्रामे वस दिनत्रय ।

अपूर्वस्यागमो नास्ति, पूर्वाधीत च नश्यति ॥

उचित स्थान भी स्वचक्र, परचक्र, परस्पर विरोध, दुर्भिक्ष, मारी, हैजा, प्रजा विरोध, अन्नादि वस्तुक्षय, इत्यादि कारण हो जावे, तो तत्काल छोड़ जाना चाहिये । नहीं तो त्रिवर्ग की हानि हो जावेगी । जैसे आगे तुरकों के भय से लोक दिल्ली को छोड़ के गुजरातादि देशों में जाने से सुखी और धनी हुए हैं । तथा क्षितिप्रतिष्ठित चनकपुर ऋषभपुर आदि उजड़ने की व्यवस्था भी जान लेनी, जोकि इस रीति से है—क्षितिप्रतिष्ठित उजड़ के चनकपुर वसा, अरु चनकपुर उजड़ के ऋषभपुर वसा, अरु ऋषभपुर उजड़ के राजगृह वसा, तथा राजगृह उजड़ के चंपा वसी, अरु चम्पा उजड़ के पाटलीपुत्र अर्थात् पटना वसा । ऐसे श्रावक भी पूर्वोक्त हानि जाने तो नगर को छोड़ के और जगे जा कर वसे ।

तथा रहने का घर भी अच्छे पड़ोसियों के पास करे, परन्तु वेश्या, तिर्यच, भिक्षाचर, श्रमण, बौद्ध, तापसादि ब्राह्मण, मसाण, कोटवाल, माछी, जुआरी, चोर, नट, नाचने वाला, भाट, कुकर्मि, इत्यादिकों के पड़ोस में घर हाट न लेवे, न वसे । जेकर देहरे के पास रहे, तो हानि होवे । तथा चौक में, धूर्त के अरु प्रधान के पास रहे, तो धन अरु पुत्र दोनों का क्षय होवे । तथा मूर्ख, अधर्मी, पाखण्डी, पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, चंडाल, मदोन्मत्त, गुरुतल्पग, वैरी, स्वामीवंचक, लोभी, तथा ऋषि, स्त्री, अरु बाल-

हत्या करने वाला, इतने लोक जेकर अपना भला चाहें, तो भी इन के पड़ोस में न रहे। क्योंकि इनकी सगति से गुणहानि प्रमुख अनेक उपद्रव होते हैं, इस वास्ते इन के पड़ोस में न रहे।

तथा भला स्थान वो होता है, कि जहा हड्डी का शल्य न होये राख न होये, जहा डाम उगती होये भला वर्ण, गन्ध वाली मिट्टी होये, मीठा जल होये, खोदते वन निकले, वो जगा शुभ है। तथा जो भूमि शीतकाल में उष्ण स्पर्श वाली होवे, अरु उष्ण काल में शीत स्पर्श वाली होये, वो जगा बहुत शुभ है। एक हाथ मान भूमि पहिले खोद के फिर तिस मट्टी से पीछे वो खाड़ा भरे। जेकर मट्टी अधिक रहे, तो श्रेष्ठ भूमि जाननी, अरु जो मट्टी बराबर रहे, तो समान भूमि जाननी, अरु मट्टी थोड़ी हो जाये तो नेष्ट भूमि जाननी। तथा सौ पग चले, इतने काल में जिस भूमिका में पानी न सूखे, सो उत्तम भूमि जाननी। अरु जेकर सौ पग चले, इतने काल में एक अगुली भर पानी शोष होये, तो मध्यम भूमि जाननी अरु एक अगुली के भी उपरांत पानी सूखे, तो अधम भूमि जाननी। तथा पचातर में जिस भूमि के रात में फूल गेरें, वो फूल जेकर सूखे नहीं, तो उत्तम भूमि जाननी, अरु सूखे, तो मध्यम भूमि जाननी, अरु सब सूख जाये, तो अधम भूमि जाननी। तथा जिस भूमि में वीहि बोई हुई

तीन दिन पीछे उगे, तो उत्तम, पांच दिन पीछे उगे तो मध्यम, अरु सात दिन पीछे उगे, तो हीन भूमि जाननी ।

सर्प की वंशी पर घर बनावे, तो रोग होवे । पोली भूमि पर घर बनावे, तो निर्धन होवे । शल्ययुक्त भूमि पर घर बनावे तो मरण पावे । मनुष्य का हाड अरु केरा का शल्य होवे, तो मनुष्यों की हानि करे, खर का शल्य होवे, तो राजा प्रमुख का भय होवे । श्वान का हाड होवे, तो बालक मरण पावे । बालक का हाड होवे, तो गृहस्वामी परदेरा में उजड़ जावे, गौ का शल्य होवे, तो गौ रूप धन की हानि होवे । मनुष्य के केरा तथा कपाल अरु भस्म होवें, तो मरण देवे ।

तथा प्रथम प्रहर अरु पश्चिम प्रहर वर्ज के शेष प्रहर में वृत्त की अरु ध्वजा की छाया घर ऊपर पड़े, तो दुःखदायी है । अर्हत के मंदिर के पीछे न वसे, ब्रह्मा और कृष्ण के पास न रहे, चंडिका और सूर्य के सन्मुख रहे नहीं, महादेव के तो किसी पासे भी न रहे । कृष्ण के वामे पासे अरु ब्रह्मा के दाहिने पासे न रहे । निर्माल्य, स्नान का पानी, ध्वजा की छाया, विलेपन वर्जे । जिन मंदिर के शिखर की छाया अरु अर्हत की दृष्टि होवे, तहां न वसे । तथा नगर अथवा गाम के ईशान कोण में घर न बनावे, बनावे तो ऊंच जाति वाले को दुःखदायी है ।

घर बनावे, तो पूरा मोल देवे, पडोसी को दुःख न देवे,

घर लेती वक्त किसी को दुख न देवे। ऐसे ही इट काष्ठ, पाषाण प्रमुख वस्तु निदाप, दृढ़, पलवान्, अरु जो नवीन होवे, सो योग्य मोल दे कर लेवे। सो विक्रय होती होये, तिस का योग्य मोल दे कर लेवे। परन्तु आप ईंटपचावा न लगावे। तथा जिनप्रासादादि की ईंटादि न ग्रहण करे। क्योंकि शास्त्र में भी कहा है, कि देहरा, कृवा थावडी मसाण, मठ, अरु राजा के मंदिर, इन के पाषाण, ईंट, काष्ठ को सरसों मात्र भी वर्जें। क्योंकि इन का पाषाण, स्तभ, पीढ़, पट्टा द्वार, शाखा, ये सब गृहस्थ के घर में विरोधकारी हैं, अरु धम के स्थान में सुखदायी हैं।

तथा पाषाणमय घर में काष्ठ के स्तभ, अरु काष्ठमय घर में, पाषाण के स्तभ, मंदिर में तथा घर में बनाना वर्जें। तथा हल का काष्ठ, कोल्हू का काष्ठ, गाडे का काष्ठ, अरुदृष्ट का काष्ठ, चरग्ये का काष्ठ, काटे वाले वृक्ष का काष्ठ पच उबर का काष्ठ, योहर का काष्ठ, य काष्ठ घर में ना लगावे। तथा विजोरा, केला, दाडिम, बेरी, जधीरी, हलदर बाबली, कीकर अरु धतूरा, इतने का काष्ठ वर्जें। तथा इन वृक्षों की जड़ पडोस से घर में प्रवेश करे, अथवा इन की छाया घर में पडे, तो बुल का नाश करे। तथा पूवदिशा की तरफ घर ऊचा होये, तो धन का नाश करे। तथा दक्षिणदिशा की तरफ ऊचा होवे, तो धन की वृद्धि करे। पश्चिमदिशा में ऊचा होवे, तो धनादि की वृद्धि करे। उत्तर दिशा में होये, तो उजड़ जाये।

तथा जो गोल घर होवे, बहुत कूणे वाला होवे, अथवा एक कूणा, दो कूणा तीन कूणा होवे, अरु दक्षिण वामी तरफ लंबा होवे, ऐसे घर में न बसे। तथा जिस घर के कवाड स्वयमेव उघड़ें अरु भिड़ें, वो घर सुखकारी नहीं।

तथा घर के द्वार के आगे कलशादि चित्राम होवे, तो शुभ है। तथा रगनी, नाटारंभ, भारत रामायण का युद्ध, राजाओं का युद्ध, ऋषियों का चरित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना घर में शुभ नहीं। तथा फलवृत्त, फूली वेल, सरस्वती, नव निधान, यज्ञस्तंभ. लक्ष्मीदेवी, कलश, वर्द्धमान, चौदह स्वभावलि, ये चित्राम कराना शुभ है।

तथा खजूर, दाडिम, केला, कोहड़ा, विजोरा, ये जिस घर में ऊगें, उस घर का नाश करते हैं। वटवृत्त ऊगे तो लक्ष्मी का नाश करे। कांटे वाला वृत्त उगे, तो शत्रु का भय करे। बड़े फल वाला वृत्त उगे, तो संतान का नाश करे। इन वृत्तों का काष्ठ भी वर्जे। तथा कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि घर के पूर्व वट वृत्त होवे, तो अच्छा है। दक्षिण पासे उदंबरवृत्त शुभ है, पश्चिम भाग में पीपल, उत्तर पासे पिलंखन वृत्त अच्छा है।

तथा घर में पूर्वदिशा में लक्ष्मी का घर करे, अग्निकोण में रसोइ करे, दक्षिणदिशा में शयन की जगा करे, नैऋत्य कोण में शस्त्रशाला करे, पश्चिम दिशा में भोजनक्रिया करे, वायुकोण में अन्न संग्रह करे, उत्तर पासे जल रखने का स्थान

करे, ईशानकोण में वेधगृह करे, तथा दक्षिण पामे अग्नि, पानी, गाय, वायु और दीये की भूमि बनावे । तथा वामे पामे भोजन, धान्य, द्रव्य, वाहन, वेचता की भूमि करे, यह पूर्वादि दिशा घर के दरवाजे की अपेक्षा से जाननी, छात्रवत्, नतु सूर्यापेक्षा ।

तथा घर बनाने वाले सूत्रधार, मजूर प्रमुख को बोले प्रमाण से कटुक अधिक मजूरी देवे, इस में शोभा है । गृहस्थ को चाहिये, ऐसा घर बनाये, परन्तु व्यर्थ बड़ा घर न बनाये । क्योंकि उस में व्यर्थ धन स्वरचना है । घर का द्वार, मयादा से योग्य जान के रखने । क्योंकि बहुत दरवाजे बनाने से दुष्ट जनों के आने जाने से स्त्री अरु धन का नारा हो जाता है । तथा दरवाजे का फिवाड़ बंद बनावे, साफल अर्गलादि से सुरक्षित करे, फिवाड़ भी सुप्त स गुल जाये, ऐसे बनाये । भीत में भोगल रखने से पचेन्द्रिय जीव की घिरा रना होती है । फिवाड़ भेड़े, तय यत्न से भेड़े । ऐसे प्रणाला गालादि का भी यथाशक्ति से उद्यम करे । इसी तरे देश, काल, स्वविभव उचित स्वजाति उचित घर बना के विधि सहित स्नात्रपूजा, साधर्मिवासत्य, सधपूजा करके भले मुहूर्त्त में भले शयुन में प्रवेश करे, तो बहुत सुखदायी होये, त्रिषग की सिद्धि का हेतु होये ।

दूसरा विधा छार कहत हैं । विधा—सो लिगित, पठित,

वाणिज्यादि कला का ग्रहण करे, अर्थात् विद्या अध्ययन करे । क्योंकि जो विद्या नहीं सीखता है सो मूर्ख रहता है । पग पग में पराभव पाता है । अरु विद्यावान् परदेश में भी माननीय होता है । इस वास्ते सर्व प्रकार की कला सीखनी चाहिये । क्या जाने क्षेत्रकाल के विशेष से किस कला से आजीविका करनी पड़े ? जिस ने सर्वकला सीखी होवे, उस ने भी पूर्वोक्त सात प्रकार की आजीविका में से जिस करके सुख से निर्वाह होवे, सो आजीविका करनी । जेकर सर्वकला सीखने में समर्थ न होवे, तब जिस कला से अपना सुख पूर्वक निर्वाह होवे, अरु परलोक में अच्छी गति होवे, सो कला सीखे । पुरुष को दो बातें अवश्य सीखनी चाहिये, उस में एक तो जिस से सुखपूर्वक निर्वाह होवे सो, अरु दूसरी जिस से मर के अच्छी गति में जावे, यह दो बातें अवश्य सीखनी ।

तीसरा विवाह द्वार—सो विवाह भी त्रिवर्ग शुद्धि का हेतु होने से उचित ही करना चाहिये ।

विवाह विवाह अन्यगोत्र वाले से करना चाहिये ।

तथा समान कुल, सदाचारादि—शील, रूप, वय, विद्या, धन, वेप, भाषा, प्रतिष्ठादि गुणों करके जो अपने समान होवे, तिस के साथ विवाह करे । अन्यथा अवहेलना, कुटुंबकलहादि अनेक कलंक उत्पन्न होते हैं,

श्रीमतीप्रत् । तथा सामुद्रिक शास्त्रोक्त शरीर के लक्षण अरु जन्मपत्रिका लेख के घर कया की परीक्षा करके विप्राह करे । तदुक्त—

बुल च शील च सनाथता च,

विद्या च वित्त च उपुर्वयश्च ।

रे गुणा सप्त विभोकनीया-

स्तत पर भाग्यवशा हि कन्या ॥

तथा जो मूख होये, निधन होवे, दूर होये, सूरमा होये, मोक्षाभिलाषी, धैरागवन्त होवे, वयर्म कन्या से त्रिगुणा अधिक होये, इन को कन्या न देनी । तथा अतिधनवान्, अति शीतल, अति मोधी, विकलाग, अरु रोगी, इन को भी कन्या न देनी । तथा जो बुल जाति से हीन होये, माता पिता रहित होये, स्त्री पुत्र रहित होये, इन को भी कन्या न देनी । तथा जिस का बहुतों में वैर होवे, जो नित्य कमा के राये, अरु जो आल्सी होये, इन को भी कन्या न देनी । तथा सगोत्री को, जुआरी को, कुठ्यसनी को, विदेशी को भी कन्या न देनी । जो स्त्री कपट रहित भक्तार के साथ वत, देवर के साथ भी कपट रहित वत्त, मासु की भक्ता होये, स्वजन की वत्सला होवे, भाइयों में स्नेह घाली होवे, कमल की तरे विकसित घदन घाली होवे, सो बुलवधू सुलक्षणा है ।

अग्नि देवता की साक्षी से पाणिग्रहण करना, तिस को विवाह कहते हैं । सो विवाह लोक में आठ प्रकार का है—१. अलंकार करके कन्या देवे, तिस का नाम ब्राह्मविवाह है । २. कन्या के पिता को धन देके जो कन्या विवाहे, तिस का नाम प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाह की विधि आचार-दिनकर शास्त्र से जान लेनी । ३. बछड़े सहित गोदान पूर्वक, सो ऋषिविवाह । ४. जो यज्ञ के वास्ते दीक्षा लेवे, उस को जो कन्या देवे, सोई दक्षिणा है, सो देवविवाह है । यह दोनों विवाह लौकिकवेद सम्मत हैं, परन्तु जैनवेद में सम्मत नहीं हैं । क्योंकि इन दोनों विवाहों के मंत्र, जैनवेद में नहीं है, अरु ये दोनों विवाह जैनमत वालों के मत में करने योग्य नहीं हैं । इन पूर्वोक्त चारों विवाहों को लोकनीति में धर्मविवाह कहते हैं । ५. माता पिता की आज्ञा के विना परस्पर स्त्री पुरुष के राग से जो विवाह होवे, तिस को गधर्व विवाह कहते हैं । ६. किसी काम की प्रतिज्ञा करा के कन्या देवे, सो आसुर विवाह है । ७ जो जोरावरी से कन्या को ग्रहण करे, सो राक्षस विवाह है । ८. सोती, मदीन्मत्त, वावरी, प्रमादवंत, कन्या को ग्रहण करे, सो पिशाच विवाह है । इन चारों को अधर्म विवाह कहते हैं । जेकर बधू वर की परस्पर रुचि होवे तदा अधर्मविवाह को भी धर्मविवाह जानना । अच्छी स्त्री का लाभ होना, यह विवाह का फल

है। अरु स्त्री मिलने का फल यह है कि अच्छा पुत्र उत्पन्न होवे चित्त की वृत्ति अनुपहत रहे, शुद्धाचार, देवगुरु, अतिथि, वाद्यवादि का सत्कार होये।

तथा विवाह में जो धन खर्चे, सो अपने कुल वैभव की अपेक्षा लोक में जैसे अच्छा लगे, उतना खर्च करे, परन्तु अधिक अधिक खर्चने की चाल न बढ़ाये। क्योंकि अधिकाधिक खर्च तो धर्म पुण्य की जगे ही करना ठीक है। विवाहादि के अनुसार स्नानमहोत्सव, बही पूजा, आदर सहित करे। रसवती ढोकन अरु चतुर्विधसघ का सत्कार करे। क्योंकि विवाहादि जो हैं, सो सब सत्कार के कारण हैं, इस में से जितना धर्म में लग जावे सो सफल है।

अथ चौथा मित्र द्वार कहते हैं। उस को मित्र बनाये, उस को गुमास्ता रख्ये, जो उस को सहायक होये। अर्थात् उत्तम प्रकृतिवाला, साधर्मी, धैर्यवन्त, गम्भीर, चतुर, बुद्धिमान्, प्रतीतकारी सत्यवादी, इत्यादि शुभगुण युक्त जो होये, उस को मित्र बनाये।

पाचमा द्वार भगवान् का मन्दिर बनाये। सो बड़ा ऊँचा, तोरण शिखर मंडपादि भडित, भरतचक्रवर्तिनमन्दिर का च्यादिवत् बनाये। सुवर्ण मणि रत्नमय तथा निमाष विशिष्टपापाणमय, अथवा विशिष्ट पाष्ठ और ईटमय मन्दिर बनाये। जेकर शक्ति

न होवे, तो तृण की कुटी भी न्यायार्जित धन से बना कर उसमें मट्टी की प्रतिमा बना करके पूजे। न्यायोपार्जित धन से ही जिनमन्दिर बनाना चाहिये। जिसने जिनभवन नहीं कराया, जिनप्रतिमा नहीं बनवाई, जिनप्रतिमा की पूजा नहीं करी अरु साधुपना नहीं लिया, उस पुरुष ने अपना जन्म हार दिया है। जो पुरुष शक्ति के अभाव से एक फूल से सी पूजा करे, तो भी वो परमपुण्य उपार्जन करता है, तो फिर जिसने दृढ़, निविड, सुन्दर शिला से श्रीजिनभवन मानरहित हो कर बनवाया है, तिस के पुण्य का तो क्या कहना है ? उस का तो जन्म ही सफल है।

अब जिनमन्दिर बनाने की जो विधि है, सो लिखते हैं— भूमि अरु काष्ठादि शुद्ध होवे। मजूरों से छल न करे, सूत्रधार, कारीगरों को सन्मान देवे। तथा पूर्व में जो घर बनाने की विधि कही, वो सर्व इहां विशेष करके जाननी। काष्ठादि जो लावे, सो देवाधिष्ठित वनादिसे सूखा लावे, परन्तु अविधि से न लावे। तथा आप ईंट पकावे, तो अच्छा नहीं। नौकरों को, काम करने वालों को ठहराये से भी कछुक महीना अधिक देवे। क्योंकि वे लोक तुष्टमान होकर अच्छा और पक्का काम करेंगे। अरु मन्दिरादि कराने में शुभ परिणाम के वास्ते गुरु संघ समक्ष ऐसे कहे, कि जो इहां अविधि से पर का धन मेरे पास आया होवे, तिस का पुण्य तिस को होवे। इस तरे जिनमन्दिर बनावे। परन्तु भूमि खोदनी,

पूरणी, पापाणदल से कपाट लाने, शिला फोड़नी, चिनने प्रमुख में महा आरम्भ होता है, इस वास्ते जिनमन्दिर न बनाना चाहिये ? ऐसी आशका न करनी । क्योंकि यज्ञ से प्रवृत्त होने से निर्दोषता है । अरु नाना प्रतिमास्थापन, पूजन, सघसमागम, धर्मदेशना करनी, दर्शन वतादि की प्रतिपत्ति, शासनप्रमानना अनुमोदनादि, अनन्त पुण्य का हेतु होने से तथा शुभोदय का हेतु होने से रूप के दृष्टातसे महा लाभ का कारण है ।

अरु जीर्णोद्धार में ऐसी रीति है । यत् —

नवीनजिनगेहस्य, विगाने यत्फल भवेत् ।

तस्मादष्टगुण पुण्य, जीर्णोद्धारण जायते ॥१॥

जीर्ण समुद्धृते यावत्तावत्पुण्य न नूतने ।

उपमर्दो महास्तत्र, स्वचैत्यख्यातिधीरपि ॥२॥

तथा—

राया अमच्चसिद्धी, कौटुनीए वि देसण काउ ।

जिण्णे पुच्चाययणे, जिण्णकप्पीयावि कारवड ॥

अर्थ — राजा, मन्त्री, श्रेष्ठी, कौटुविकों को उपदेय देकर जीर्ण जिनमन्दिर का उद्धार जिनकल्पी साधु भी करावे । जो जिनभवन का उद्धार कर, तिसने भयकर ससार

से अपनी आत्मा का उद्धार करा है, ऐसा जान लेना। जीर्ण-चैत्योद्धारकरण पूर्वक ही नवीन चैत्य करना योग्य है। इसी वास्ते संप्रति राजा ने नवासी हजार जीर्णोद्धार कराये हैं। अरु नवीन जिनमन्दिर तो छत्तीस हजार ही बनवाये हैं। ऐसे ही कुमारपाल राजा तथा वस्तुपालादिकों ने भी नवीन जिनमंदिरों के बनाने की अपेक्षा से जीर्णोद्धार बहुत कराये हैं।

तथा जव चैत्य बन जावे, तव शीघ्र ही प्रतिमा विराजमान करनी चाहिये। यदाह श्रीहरिमद्रसूरिः—

जिनभवने जिनविंशं, कारयितव्यं द्रुतं तु बुद्धिमता ।

साधिष्ठानं ह्येवं, तद्भवनं वृद्धिमद्भवति ॥

देहरे में कुंडी, कलश, उरसा, प्रदीप, भंडार, वाग, बाडी, गाम, नगर, प्रमुख राजा देवे। जैसे सिद्धराज राजा ने, श्रीरैवताचल ऊपर श्रीनेमिनाथ के चैत्य वास्ते वारां गाम दिये थे। तथा जैसे कुमारपाल राजा ने वीतभय पाटन के खुदाने से त्रांवापत्र में श्रीउदयन राजा के दिये गाम निकले, सो कवूल करके दिये; तैसे देवे। श्रीजिनमंदिर के बनाने का फल यह है, कि जो यथाशक्ति से अपने धन के अनुसार श्रीजिनवर का भवन करावे, सो देवता जिस की स्तुति करे, बहुत काल लग आनंद रूप, ऐसा देवविमानादि का परम सुख पावे।

अथ षष्ठ प्रतिमा द्वार—सो श्रीअर्हत का त्रिंश, मणि,
 सुवर्ण, धातु, चदनादि काष्ठ अरु पापाण,
 जिन प्रतिमा माटी प्रमुख का पाच सौ धनुष प्रमाण,
 का निमाण यात्रत् अगुष्ठ प्रमाण यथाशक्ति मे घनावे ।
 श्रीजिन प्रतिमा बनाने वाले को जो फल
 होता है, सो कहते हैं —

सन्मृत्तिकामलशिलातलदतर्गोय-

सौवर्णरत्नमणिचटनचारुविंशम् ।

कुर्वति जैनमिह ये स्वन्नानुरूप,

ते प्राप्नुवति नृसुरेषु महासुखानि ॥

दारिद्र दोहग्ग कुजाकुसरीरकुगईकुमईओ ।

अवमाणरोगसोगा न हुति जिगमिंशकारीण ॥

अथ —जो जिनत्रिंश का कराने वाला है, सो दारिद्र,
 दौभाग्य, कुजाति, विरूप शरीर, नरक निर्येच की गति,
 घुरी बुद्धि, परवशापना, रोगी अरु शोरूपने को न पावे ।

तथा प्रतिमा भी वास्तु शास्त्र में कही त्रिधि पूर्वक घनावे ।
 सुजक्षणा, सतति की वृद्धि करने वाली घनावे । तथा जो
 प्रतिमा अन्यायोपार्जित द्रव्य से घने, दोरगादि रगचाले
 पापाण की घने, जिस का अग दीनाधिरु होये, सो प्रतिमा
 स्वपर की उन्नति का नाश करने वाली है । तथा जिस प्रतिमा

का मुख, नाक, नेत्र, नाभि, कटि, इतने अंग, भंग हों; तो उस प्रतिमा को मूलनायक नहीं करना चाहिये । अरु आभरण सहित, वस्त्र सहित, परिकर सहित, लांछन सहित पूजे । तथा जिस प्रतिमा को सौ वर्ष से अधिक वर्ष हो गया होवे, अरु आगे जो प्राभाविक पुरुष की प्रतिष्ठी हुई होवे, वो प्रतिमा जेकर खंडित होवे, तो भी पूजने योग्य है । तथा विंव के परिवार में पापाणमय में, जेकर दुसरा रंग होवे, तो वो विंव सुखकारी नहीं । जो विंव सम अंगुल प्रमाण होवे, सो शुभ नहीं । तथा एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल प्रमाण विंव घर में पूजना चाहिये । इस से उपरांत प्रमाण वाला विंव होवे, तो प्रासाद में पूजना चाहिये । यह कथन पूर्वाचार्यों का है । तथा निर्यावलिस्त्र में कहा है, कि लेप की, पापाण की, काष्ठ की, दांत की, लोहे की प्रतिमा, परिवार अरु प्रमाण रहित होवे, तो घर में न पूजे । तथा घरप्रतिमा के आगे नैवेद्य का विस्तार न करे । तीन काल में निश्चय से अभिषेक करे । पूजा भाव से करे । प्रतिमा मुख्यवृत्ति से परिकर सहित, तिलक सहित, आभरण सहित करावे । उस में मूलनायक तो विशेष करके शोभनीक बनाना चाहिये । क्योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा देखने से परिणाम अधिक उल्लासमान होने से कर्मों की अधिक निर्जरा होती है ।

जिनमंदिर अरु जिनप्रतिमा बनाने वाले को अतुल्य

पुण्य फल होता है। जहा तक वो मन्दिर अरु प्रतिमा रहेंगे, तहा तक पुण्य फल होवे। जैसे अष्टापद ऊपर भरत राजा का कराया चैत्य तथा रेवतगिरि ऊपर ब्रह्मंड का कराया फाचन वनानकादि चैत्यप्रतिमा, अरु भरतचक्री की अगूठी में माणिक की प्रतिमा, तथा कुपाक तीर्थ में माणिक्यस्वामी की प्रतिमा कहलानी है। तथा श्रीस्तभनक पार्श्वनाथ की प्रतिमा आज लग पूजते हैं। इसी वास्ते इस चौबीसी में पहिले भरतचक्री ने श्रीगनुजय तीर्थ में रत्नमय चौमुख चौरासी मडप सयुक्त श्रीऋषभदेव का मन्दिर बनवाया। पाच फोडी मुनियों से पुडरीक गणधर मोक्ष गये। ज्ञाननिर्वाण के ठिकाने भी बनवाये। ऐसे ही ग्राहुग्ली, मरुदेवी शृंग में तथा रेवतगिरि, अनुदगिरि, वेभारगिरि अरु समेतशिखर में भी जिनमदिर बनवाये। प्रतिमा भी सुवर्णादिक की बनवाई। तथा भरतराजा की आठमी पीढी में-पुस्त में दण्डरीय राजा ने तथा दूसरा सगरचक्रवर्त्यादिकों ने तिन का उद्धार कराया। तथा हरिपेन नामक दरामे चक्री ने श्रीजिनमदिर मडित पृथ्व करी, तथा सप्रति राजा ने सधा लाख जिनमदिर तथा सधा क्रोड़ जिनप्रतिमा बनवाई। तथा आम राजा ने गोपालगिरि अथात् गंगालियर के राजा श्रीमहावीर अर्हत का मन्दिर एक सौ एक हाथ ऊचा बनवाया। तिस में साढे तीन क्रोड़ सोना मोहोर सरचकर सात हाथ प्रमाण ऊची श्रीमहावीर अर्हत की प्रतिमा विराजमान करी। तहा मूल

मण्डप में सवा लाख सौनैया लगाया, अरु प्रेक्षामंडप में इक्कीस लाख सौनैया खरच करा। तथा कुमारपाल राजा ने चौदह सौ चौतालीस (१४४४) नवीन जिन मन्दिर कराये, अरु सोलां सौ मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया। छ्यानवे क्रोड़ रुपये खरच के त्रिभुवन विहार नामा जिनमंदिर बनवाया। उस में एक सौ पच्चीस अंगुठ प्रमाण अरिष्टरत्नमयी प्रतिमा स्थापित की, और बहत्तर देहरियों में चौबीस प्रतिमा रत्न की, चौबीस सोने की, चौबीस रूपे की स्थापन करा। अरु चौदह भार प्रमाण एक एक चौबीसी बनवाई। तथा मंत्री वस्तुपाल ने तेरां सौ तेरां नवीन जिनमंदिर बनवाये। और चाईस सौ जीर्णोद्धार कराये। सवा लाख प्रतिमा, अरु सवा लाख रत्नसुवर्ण से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमा जी के बनवाये। तथा शाह पेथड़ने चौरासी जिनमन्दिर बनवाये। मांघाता अरु अँकार नगर में तथा देवगिरि में क्रोड़ों रूपक खरच के वीरमदे राजा के राज्य में चौरासी जिनमन्दिर बनवाये। तीन लाख रुपैया दान में दीना। तथा तिस ही पेथड़शाह ने श्रीशत्रुंजय तीर्थ में श्रीकृष्णभदेव जी के मन्दिर को सुवर्णपत्र से मढ़ा के मेरु के शृंगवत् कर दिया था। ये सर्व पूर्वोक्त मन्दिर राजा अजयपाल अरु मुसलमानों ने गारत कर दिये, शेष जो बचे बचाये रहे हैं, वे आज भी आबु तारंगादि पर्वतों पर विद्यमान हैं।

सातमा प्रतिमा की प्रतिष्ठा का द्वार—सो प्रतिमा की

प्रतिष्ठा शीघ्र करनी चाहिये । पौडयक ग्रन्थ में लिखा है, कि मन्दिर तयार हुए पीछे दस दिन के अभ्यन्तर ही प्रतिष्ठा करानी चाहिये । प्रतिष्ठा की विधि प्रतिष्ठाकल्प प्रमुख प्रर्वों से जान लेनी ।

आठमा दीक्षा द्वार—सो बडे महोत्सव से पुत्र, पुत्री, भाई, भतीजा, स्वजन, मित्र, परिजन प्रमुख

दीक्षा को दीक्षा दिलावे । उपस्थापना करावे, तथा दीक्षा लेने वालों का महोत्सव करे । यह महा

पुण्य का कारण है । जिस के कुल में चारित्र्य धारक पुरुष होवे, सो बड़ा पुण्यवान् कुल है । लौकिक शास्त्र में भी लिखा है । कि—

तावद् भ्रमति ससारे, पितर पिण्डवात्सिणः ।

यावत्कुले विशुद्धात्मा, यति पुत्रो न जायते ॥

नवमा तत्पदस्थापना द्वार—सो गणि, वाचनाचाय, वाचक आचार्यादि पदप्रतिष्ठा को शासन को उन्नति के वास्त बडे महोत्सव से करे । जैसे पहिले गणधरों की शपथ—इन्द्र ने फरी है, तथा मन्त्री घस्तुपाल ने इफीस आचार्यों की पद स्थापना करी ।

दशमा पुस्तक लिखाने का द्वार—सो पुस्तक जो आचा रागादि कल्पसूत्र अथ जिनचरित्रादि की पुस्तकल्पन न्यायार्जिन धन से लिखावे । अच्छे पत्र—कागज ऊपर बहुत शुद्ध मुन्त्र अक्षरों से

लिखावे । तथा आप वांचे, संवेगी गीतार्थ पासों वचावे । तथा प्रौढ प्रारम्भादि महोत्सव से प्रति दिन पुस्तक की पूजा बहुमान पूर्वक व्याख्यान करावे । तिन के पढ़ने वालों की वस्त्र अन्नादि से सहायता करे । शास्त्र जो हैं, सो दुखम काल के प्रभाव से वारां वर्ष के दुर्भिक्षकाल में बहुत विच्छेद गये, अरु जो शेष रहे, सो भगवान् नागार्जुन स्कंदिलाचार्य प्रमुख ने पुस्तकों में लिखे: तब से लिखे हुए शास्त्रों का बहुमान करने लगे। इस वास्ते पुस्तक जरूर लिखाने चाहियें । क्योंकि जो यह विच्छेद हो जायंगे, तो फिर इस क्षेत्र के अनाथ जीवों को कौन ज्ञान देवेगा ? इस वास्ते पुस्तकों के ऊपर दुकूलादि वस्त्र बांध के यत्न से पूजने और रखने चाहिये । शाह पेयड ने सात कोड़, अरु मंत्री वस्तु-पाल ने अठारह कोड़ रुपैये खरच के तीन ज्ञान के भंडार बनाये । तथा थिरापट्टीय संघपति आभू ने अपनी माता के नाम के तीन कोड़ रुपैये से सर्वागमों की प्रति सोने के अक्षरों से लिखवाई, शेष ग्रन्थ स्याही के अक्षरों से लिखवाए ।

ग्यारहवां पौषधशाला बनाने का द्वार—सो श्रावक प्रमुख के पोषध करने के वास्ते साधारण स्थान पौषधशाला का निर्माण में पूर्वोक्त घर बनाने की विधि के अनुसार बनानी चाहिये । वो शाला समरा के अक्षर में सुसाधु के रहने को भी देवे, तिस

का महाफल है । श्रीगुस्तुपाल ने नौ सौ चौरासी (९८४) पापघशाला कराई, सिद्धराज जयसिंह राजा के प्रधान सातू ने अपने रहने वास्ते बहुत सुन्दर आवास करा के श्रीगदिदेवसूरि जी को दिखलाया । अरु मन्त्री जी ने पूछा कि कैसा आवास है ? तब चले माणिक्य ने कहा कि पाप घशाला होत्रे तो वर्णन करें । तब मन्त्री ने कहा कि यह पाप घशाला ही होत्रे ।

तथा बारहवा अरु तेरहवा द्वार में आजन्म—बाल्यावस्था मे ले कर जाग्रजीव सम्यक्त्वदर्शन का यथाशक्ति पालन करे, यह बारहवा, अरु यथाशक्ति से व्रतादि पाले, यह तेरहवा द्वार है ।

चौदहवा दीक्षा ग्रहण का द्वार—सो श्रावक अथवा श्रावक जान के दीक्षा ग्रहण करे । तात्पर्य यह है कि श्रावक जो है, सो निश्चय गल अवस्था में दीक्षा न लेवे, तो अपने मन में ठगाया हुआ माने । जैसे जगत में अति बल्लभ वस्तु को लोक स्मरण करते हैं, तैसे श्रावक भी नित्य सचधिरति लेने की चिन्ता करे । जेकर गृहवास भी पाले, तो औदासीन्य—अलिप्तपने अपने को प्राहुणे के समान समझे, क्योंकि भावश्रावक के लक्षण सतरा प्रकार मे कहे हैं । यथा—

१ स्त्री से वैराग्य, २ इन्द्रिय वैराग्य, ३ धन से वैराग्य, ४-ससार से वैराग्य, ५-विषय से वैराग्य, ६-आरभ का

स्वरूप जाने, ७. घर को दुःखरूप जाने, ८. दर्शन धारी होवे, ९. गडरिया प्रवाह को छोड़े, १०. धर्म में आगे हो कर प्रवर्त्ते, आगमानुसार धर्म में प्रवर्त्ते, ११. दानादिक में यथाशक्ति प्रवर्त्ते, १२. विधिमार्ग में प्रवर्त्ते. १३. मध्यस्थ रहे. १४. अरक्त-द्विष्ट, १५. अस्वच्छ, १६. परहित वास्ते अर्थ काम का भोगी न होवे, १७. वेश्या की तरे घरवास पाले. इन सतरा पद से युक्त भावश्रावक होता है । तिन में प्रथम, स्त्री जो है, सो अनर्थ का भवन है, चपलचित्त वाली है, नरक की वाट सरीखी है, जानता हुआ कभी इस के वरावर्त्ता न होवे । दूसरी इन्द्रियां जो हैं, सो चपल घोड़े के समान हैं, खोटी गति की तरफ नित्य दौड़ती हैं, उन को भव्य जीव, संसार का स्वरूप जान के सत् ज्ञानरूप रज्जु से रोके । तीसरा धन जो है, सो सर्व अनर्थ का और क्लेश का कारण है. इस वास्ते धन में लुब्ध न होवे । चौथा, संसार को दुःखरूप दुःखफल दुःखानुबंधी विडवना रूप जान के प्रीति न करे । पांचमा विषय का क्षणमात्र सुख है, विषय विषफल समान है, ऐसे जान के कदापि विषय में गृद्धि न करे । छठा तीव्रारंभ को सदा बर्जे, जेकर निर्वाह न होवे, तो भी स्वल्पारंभ करे, अरु आरम्भ रहितों की स्तुति करे, सर्व जीवों पर दयावंत हाव । सातवां गृहवास को दुःख रूप फांसी मान के गृहवास में वसे, अरु चारित्रमोहनीय कर्म के जीतने में उद्यम करे । आठमा आस्तिक्य भाव संयुक्त जिन-

शासन की प्रभावना गुटभक्ति करे, ऐसे निमल सम्यग्दर्शन को धरे । नवमा जिस तरें बहुत मूल्य लोक भेड (गडरी) प्रवाहवत् चलते होयें, तेसे न चले । परन्तु जो काम करे, सो विचार के करे । दशमा श्रीजिनागम के विना और कोई परलोक का यथार्थ मार्ग कहने वाला शास्त्र नहीं, इस वास्ते जो काम करे, सो जिनागमानुसार करे । ग्यारहवा अपनी शक्ति के बिना गोपे चार प्रकार का दानादि वर्म करे । बारहवा हितकारी, अनप्य, धर्मक्रिया को चिंतामणिरत्न की तरें दुर्लभ जान के करता हुआ किसी मूख के हमने से लज्जा न करे । तेरहवा शरीर के रखने के वास्ते धन, स्वजन, आहार, घर प्रमुख में बसे । परन्तु राग, द्वेष, किसी वस्तु में न करे । चौदहवा उपशातवृत्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग द्वेष में लेपायमान न होवे, छोटा आग्रह न करे, हित का अभिलाषी और मध्यस्थ रहे । पंद्रहवा सर्व वस्तु की क्षणभंगुरता को विचारे, धनादि के साथ प्रतिपद्य को तजे । सोलहवा ससार से विरक्त मन होवे, क्योंकि भोग भोगने से आज तक कोई लुप्त नहीं हुआ है, परन्तु स्त्री आदि के आग्रह से जेकर भोगों में प्रवर्त्ते, तो भी विरक्तमन रहे । सतरहवा वेश्या की तरें अभिलाषा रहित बर्त्ते, ऐसा विचारे कि आज कल ये अनित्य सुख मुझ को छोडने पडेंगे । इस वास्ते घरवास में स्थिर भाव न रखे । इन सतरा गुण से युक्त श्रीजिनागम में भाव श्रायक कहा है ।

ऐसे शुभ भावना वासिन प्रागुक्त दिनकृत्यादि में रक्त “इणमेव निग्गंथे पवयणे अट्टे परमट्टे सेते अणट्टे” ऐसी सिद्धांतोक्त रीति से वर्तमान सर्व व्यापारों में सर्व प्रयत्न से वर्तता हुआ सर्वत्राऽप्रतिवद्ध चित्त करके क्रम से मोह के जीतने में समर्थ होके, पुत्र, भाई, भतीजादि को गृहभार सौंप के, अपनी शक्ति को देख के, अहंत चैत्य में अठाई महोत्सव करके, संघ की पूजा करके, दीन अनाथों को यथा-शक्ति दान दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुदर्शन श्रेष्ठोवत् विधि से सर्वविरति अंगीकार करे।

पंद्रहवां द्वार—जेकर दीक्षा लेने की शक्ति न होवे, तदा आरंभ का त्याग करे। जेकर निर्वाह न होवे, तो भी सर्व सच्चित्ताहारादिक कितनाक आरम्भ वर्जे।

सोलमा द्वार—ब्रह्मचर्य जावजीव तक अंगीकार करे, यथा शाह पेथड़ ने बत्तीस वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण किया।

सतरहवां द्वार—प्रतिमादि तप विशेष करे। आदि शब्द से संसारतारणादि तप करे। तहां ग्यारह ग्यारह प्रतिमा प्रतिमा का स्वरूप इस तरें है—१. रायाभिओ-गेणादि छ आगार रहित, तथा सतसठ बोल श्रद्धादि सहित सम्यग् दर्शन भयं लज्जादि से अतिचार रहित त्रिकाल देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यक्त्व पाले, यह प्रथम प्रतिमा। २. दो मास तक अखंडित पांच

अणुव्रत पाले । सो भी पिछली प्रतिमा सहित व्रत ।
 ३ तीन मास तक उभय का अग्रमत्त पूर्वोक्त दो
 प्रतिमा सहित सामायिक करे । ४ चार मास तक चार
 पर्वों में पूर्व की तीन प्रतिमा सहित अग्रद्वित परिपूर्ण
 पापघ करे । ५ पाच मास तक स्नान न करे ।
 रात्रि को चार आहार वर्ज, दिन में ब्रह्मचर्य धरे । कच्छ
 बाधे नहीं । चार पर्वों में घर में तथा चाँक में निष्प्रकप हो के
 सफल रात्रि कायोत्सर्ग करे । यह सर्व पूव की प्रतिमा सहित
 करे । यह वात आगे भी सर्व प्रतिमा में जान लेनी । ६ छ
 मास तक ब्रह्मचारी होये । ७ सात मास तक सचित्त आहार
 वर्ज । ८ आठ मास तक श्राप आरभ न करे । ९ नव मास
 तक आरभ कराये नहीं । १० दश मास तक क्षुरमुडित रहे
 अथवा अल्प चोटी रक्षये । घर में गडा हुआ धन होवे, जब
 घर के पूछें तत्र कहे जानना है, और जो न गडा होवे, तो
 कहे में नहीं जानना । शेष घर का कृत्य सर्व वर्ज । तिस
 के निमित्त जो घर में आहार करा होय, तो भी न खावे ।
 ११ ग्यारा मास तक घर का सग त्यागे, लोच नरे वा क्षुर
 मुडित होये, रजोहरण, पात्रे प्रमुख ले के मुनि का वेप धारी
 हो कर स्व कुल में भिक्षा लेये । मुख से ऐसा कहे कि
 "प्रतिमाप्रतिपन्नाय श्रमणोपासकाय भिक्षा देहीति" धमलाभ
 शब्द न कहे । सर्व रीति से साधु की तरें प्रवत्त ।

भठारहवा डार, आराधना का कहते हैं । श्रावक अत

काल में आराधना जो आगे कहेंगे, सो अरु संलेखनादि की विधि से करे ।

श्रावक जब सर्व धर्मकृत्य में अशक्त हो जावे, तब मरण निकट जान के द्रव्य अरु भाव संलेखना दो प्रकार से संलेखना करे । तहां द्रव्य संलेखना तो अनुक्रम से आहार त्यागे, अरु भावसंलेखना—सो क्रोधादि कपाय को त्यागे । मरण का निकट इन लक्षणों से जान लेवे—१०. बुरे स्वप्न आवें, २. प्रकृति स्वभाव और तरें का होवे, ३. दुर्निमित्त मिले, ४. खोटे ग्रह आवें, ५. आत्मा का आचरण फिर जावे, अथवा कोई देवता कह जावे तो मरण निकट जान जावे । जो द्रव्य तथा भाव से संलेखना न करे, अरु अनशन कर देवे, उस को प्रायः दुर्ध्यान होने से कुगति होती है । इस वास्ते संलेखना अवश्य करे । पीछे श्रावकों के धर्म के उद्यापन करने के वास्ते संयम अंगीकार करे, क्योंकि एक दिन की भी दीक्षा स्वर्गलोक की दाता है । जैसे नल राजा के भाई कुवेर के पुत्र सिंहकेसरी, पांच दिन की दीक्षा से केवल ज्ञान पाके मोक्ष गये । तथा हरिवाहन राजा ने नव प्रहर की शेष आयु सुन के दीक्षा लीनी, सर्वार्थसिद्ध विमान में गया । संधारा और दीक्षा के अवसर में प्रभावना के वास्ते यथाशक्ति धन खरचे । जैसे सात क्षेत्रों में, तिस अवसर में थिरापट्टीय संघपति आभू ने सात क्रोड़ धन खरचा । तथा जिस को

सयम का योग न होये, सो सलेखना करके शत्रुजयादि तीर्थ सुस्थान में जा कर निर्दोष स्थंडिल में विधि से चार आहार त्यागरूप अनशन को आणद, कामदेवादि धारकोंवत् करे । तिस पीछे सर्वातिचार का परिहार चार सरणादि रूप आराधना करे ।

आराधना दस प्रकार से होती है, सो कहते हैं—१ सर्वातिचार आलोये, २ व्रत उच्चारण करे, आराधना ३ सर्व जीवों से क्षमावे, ४ अपनी आत्मा को अठारह पापस्थानक से व्युत्सर्जन करे, ५ चार सरणा लेये, ६ गमनागमन दुष्टत की गर्हणा करे, ७ जो किसी ने जिनमदिरादि सुरुत करा होये, तिस की अनुमोदना करे, ८ शुभभाजना भाज, ९ अनशन करे, अर्थात् चार आहार, तीन आहार का त्याग करे, १० पंच नमस्कार का स्मरण करे । ऐसी आराधना करने से जेकर तिस भव से मुक्ति न होये, तो भी सुदेव अथवा सुमनुष्य के आठ भव करके तो अवश्यमेव मोक्ष रूप ही जावेगा ।

इस गृहम्य का धम करने से निरतर गृहम्य लोग इस लोक परलोक में सुख को प्राप्त होये हैं, अरु परपरा से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि

आनदविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादशे

दशम परिच्छेद सपूर्ण

एकादश परिच्छेद

इस परिच्छेद में ऋषभादि महावीर पर्यंत जैनमतादि शास्त्रों के अनुसार पूर्व वृत्तांत—इतिहास रूप लिखते हैं । ताकि इस ग्रन्थ के पढ़ने वाले यह तो जान जाएं कि जैनी इस तरे मानते हैं ।

वर्तमान समय में कितनेक भव्य जीवों की जिज्ञासा है, कि जैनमत कब से यहां प्रचलित हुआ । जैनमत संबन्धी फिर कितनेक जीवों को ऐसी भ्रांति भी भ्रांतिया है कि जैनमत बौद्धमत की शाखा है; और कितनेक कहते हैं कि बौद्धमत जैनमत की शाखा है । क्योंकि यह दोनों मत किसी काल में एक थे, परन्तु आचार्यों के मत भेद होने से एक मत के जैन और बौद्ध यह दो भेद हो गये । तथा कोई एक कहते हैं कि संवत् ६ सौ के लगभग जैनमत हुआ है । तथा कोई कहते हैं कि विष्णु भगवान् ने दैत्यों को धर्मभ्रष्ट करने के वास्ते अर्हत का अवतार लिया । तथा कोई कहते हैं कि मच्छंदर नाथ के वेदों ने जैनमत चलाया है । इत्यादि अनेक विकल्प करते हैं । परन्तु यह सब कुछ जैनमत के न जानने का परिणाम है । जैसे चर्मकार अर्थात् चमार कहते हैं, कि वानो और चामो दो वहिनें थी, तिन में वानो की औलाद अग्र-वालादि सर्व वनिये हैं, और चामो की औलाद हम चमार

हैं । इस वास्ते बनिये और चमार एक वग के हैं । अब सोचना चाहिये कि चमारों की यह कही हुई कथा सुन के बुद्धिमान् सब मान लेंगे ? इसी तरे जो कोई अपनी दलील से दतकथा सुन के जैनमत की उत्पत्ति मानेगा, वो भी जैनियों के आगे हसने का स्थान पनेगा । क्योंकि प्रथम तो कोई भी मत वाला जैनमत के असली तत्त्व को नहीं जानता है । जैसे शकर दिग्विजय में शकर स्वामी ने जैनमत का खण्डन लिया है, उस को देख के हम को इसी आती है । जब शकर स्वामी ने जैनमत को ही नहीं जाना, तो फिर जो उन का जैनमत का खण्डन है, सो भी ऐसा जानना कि जैसे पुरुष की छाया को पुरुष जान के तिस को लाठी से पीटना । जब शकर स्वामी को ही जैनमत की खबर नहीं थी, तो अब के वर्त्तमानकाल के गाल पजाने वालों का क्या कहना है ! इस वास्ते हम बहुत नम्र हो कर अथ पढ़ने वालों से विनति करते हैं, कि अच्छी तरे से जैन मत को जान कर फिर आप ने जैनमत का खण्डन मडन करना नहीं तो शकरस्वामी अरु रामानुजाचार्यादिक की तरे आप भी हसने योग्य हो जावेंगे ?

अब सज्जनों के जानने वास्ते प्रथम इस जगत् का थोड़ा सा स्वरूप लिखते हैं । इस जगत् को जैनी, कालचक्र द्रव्यार्थिक नय के मत से शाश्वत अर्थात् हमेशा प्रवाह से ऐसा ही मानते हैं । और

इस जगत् में छ तरे का काल वर्त्तता है, तिन ही को जैनी लोक, छे आरे कहते हैं । एक अवसर्पिणी काल, अर्थात् जो सर्व अच्छी वस्तु का क्रम से नाश करता चला जाता है, तिस के छे हिस्से हैं । तथा दूसरा उत्सर्पिणी काल, अर्थात् जो सर्व अच्छी वस्तु को क्रम से वृद्धिमान् करता चला जाता है । दश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक अवसर्पिणी काल, और इतने ही सागरोपम प्रमाण एक उत्सर्पिणी काल है । एक सागरोपम असंख्यात वर्ष का होता है, इस का स्वरूप जैनशास्त्र से जान लेना । यह एक अवसर्पिणी अरु एक उत्सर्पिणी मिल कर दोनों का एक कालचक्र, बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण होता है । ऐसे कालचक्र अनन्त पीछे व्यतीत हो गये हैं, और आगे को व्यतीत होवेंगे । अवसर्पिणी के पूरे हुये उत्सर्पिणी काल का प्रारम्भ होता है, और उत्सर्पिणी के पूरे हुये अवसर्पिणी काल का प्रारंभ होता है । इसी तरे अनादि अनन्त काल तक यही व्यवस्था रहेगी । अब छ आरों के स्वरूप लिखते हैं ।

अवसर्पिणी का प्रथम आरा जिस का नाम सूखम सूखम कहते हैं । सो चार कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण है । तिस काल में भरतक्षेत्र की भूमिका बहुत सुन्दर रमणीय मार्दल के तले समान सम (बराबर) थी । उस काल के मनुष्य भद्रक, सरलस्वभाव, अल्प राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोधादि वाले थे, सुन्दर रूपवान्, नीरोग शरीर वाले थे, दश जाति

के कल्पवृक्षों से अपने खाने पीने पहनने सोने आदिक का सर्व व्यवहार कर लेते थे । एक लड़का एक लड़की दोनों का युगल जन्मते थे, जब यौवनवन होते थे, तब दोनों ग्रहिन और भाई, स्त्री भरतार का सम्बन्ध कर लेते थे । उनों के आगे ऐसे ही फिर युगल होते रहते थे, सो पूर्वोक्त सर्व व्यवहार करते थे । जैनमत के मापे से तीन गाऊ (फौस) प्रमाण उन का शरीर ऊंचा था, और तीन पल्योपम प्रमाण आयु थी, तथा दो सौ छप्पन पृष्ठ करड के हाड थे । धर्म करना और जीवहिंसा, झूठ चोरी प्रमुख पाप भी विशेष नहीं था । वृक्षों ही में सो रहते थे । जुगल-जोड़े भी गिनती में थोड़े थे, शेष-बाकी चाँपाय, पथरी, पंचेंद्रिय सर्व जाति के जीव थे, परन्तु वो भद्रक थे, अुद्रक नहीं थे । शालि प्रमुख सर्व अन्न तथा इशु प्रमुख चीजें सब जगलों में स्वयमेव ही उत्पन्न हो जाते थे । परन्तु वो कुछ मनुष्यों के खाने में नहीं आते थे । क्योंकि मनुष्य तो केवल फल फलों का ही आहार करते थे । वस्त्र की जगे वृक्षों के पत्ते वा छिल्लके ओढ़ते थे । इत्यादि प्रथम आरे का स्वरूप जवू द्वीपप्रगति प्रमुख शास्त्रों से जान लेना ।

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, तिस में दो गाऊ (फौस) देहमान, दो पल्योपम आयु, एक सौ थदाई पृष्ठकरड के हाड थे, शेष व्यवहार प्रथम आरेवत् जानना ।

तीसरा आरा, दो. कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, एक कोस देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ पृष्ठकरंड की पसलियां, शेष व्यवहार प्रथम आरेवत् जानना । इन सर्व आरों में सर्व वस्तु क्रम से घटती घटती छेड़े अगले आरे तुल्य रह जाती है, परन्तु एक वारगी सर्व वस्तु नहीं घटती है ।

इस तीसरे आरे के छेड़े एक वंश में सात कुलकर उत्पन्न हुए । कुलकर उस को कहते हैं कि कुलकर और उन जिनों ने तिस तिस काल के मनुष्यों के की नीति वास्ते कछुक मर्यादा बांधी है । इन ही सात कुलकरों को लोक में सप्त मनु कहते हैं । दूसरे वंशों के कुलकर गिनिये, तब श्रीऋषभदेव को वर्ज के चौदह कुलकर होते हैं अरु ऋषभनाथ पंदरहवां कुलकर होता है ।

पूर्वोक्त सात कुलकरों के नाम लिखते हैं—प्रथम विमलवाहन, दूसरा चक्षुष्मान्, तीसरा यशस्वान्, चौथा अभिचंद्र, पांचमा प्रथ्रेणि, छठा मरुदेव, सातमा नाभि । इन सातों की भार्याओं के नाम क्रम से कहते हैं—१. चंद्रयशा, २. चंद्रकांता, ३. सुरूपा, ४. प्रतिरूपा, ५. चक्षु.कांता, ६. श्रीकांता, ७. मरुदेवी । ये सर्व कुलकर गंगा अरु सिंधु नदी के मध्य के खंड में हुये हैं ।

यह कुलकर होने का कारण कहते हैं । तीसरे आरे के उतरते दश जाति के कल्पवृक्ष, काल के दोष से थोड़े हो

गये, तब युगलक लोगों ने अपने अपने वृत्तों का ममत्व कर लिया। पीछे जब दूसरे युगलों के रक्षने हुए वृत्तों से फल लेने लगे, तब ममत्व वाले युगल उन से हेरा करने लगे। तब युगलक पुरुषों को ऐसा विचार आया कि कोई ऐसा होवे, जो हमारे हेरा का निरोडा करे। तब तिन युगलियों में से एक युगल को एक धन के श्वेत हाथी ने देव्य कर प्रेम से अपने स्कंध पर चढ़ा लिया। जब वो युगल पुरुष एकला हाथी ऊपर चढ़ के फिरने लगा। तब और युगलों ने विचार किया कि यह युगल, हम से बड़ा है, क्योंकि यह हाथी ऊपर चढ़ा फिरता है, और हम तो पगों से चलते हैं, इस वास्ते इस को न्यायाधीरा बनाओ, अर्थात् जो यह कहे, सो मानो। तब तिनों ने उस को न्यायाधीरा बनाया। जिस कारण से हाथी ने युगल को अपने ऊपर चढ़ाया है, सो कारण, और इनों के पूवभव की कथा आचर्यक सूत्र तथा प्रथमानुयोग से जान लेनी।

तब तिस विमलवाहन ने सब युगलियों को कल्पवृक्ष घाट के दे दिये। कितनेक युगलिये अपने कल्पवृत्तों से सतोप न करके औरों के कल्पवृत्तों से फल लेने लगे, तब उस वृक्ष के मालिक हेरा करने लगे। पीछे तिस असतोपी युगलियों को पकड़ के विमलवाहन के पाम लये। तब विमलवाहन ने उन को कहा कि हा' तुम ने यह क्या करा! तब से विमलवाहन ने ऐसी दण्डनीति प्रवर्त्ताई। तिस दाकार

पसारा । तब इंद्र ने ऋषभदेव जी का इक्ष्वाकु वंश स्थापन करा । तथा श्रीऋषभदेव जी के वंश वालों ने कागकार पिया, इस वास्ते गोत्र का नाम काश्यप हुआ । श्रीऋषभदेव जी के जिस जिस वय में जो जो काम उचित था, सो सो शक—इन्द्र ने करा । यह अनादि से जो जो शक होते हैं, तिन का जीतकल्प है, कि प्रथम भगवान् के वयोचित सर्वकाम करने ।

इस अवसर में एक लड़की लड़का, वहिन और भाई वालावस्था में ताडवृक्ष के हेठ खेलते थे, विवाह वहां ताड के फल गिरने से लड़का मर गया । तब लड़की को नाभिकुलकर ने यह ऋषभदेव जी की भार्या होवेगी, ऐसा विचार करके अपने पास रख लीनी । तिस का नाम सुनंदा था, और दूसरी जो ऋषभदेव जी के साथ जन्मी थी, तिस का नाम सुमंगला था । इन दोनों को साथ ऋषभदेव जी वाल्यावस्था में खेलते हुए यौवन को प्राप्त हुए । तब इन्द्र ने विवाह का प्रारम्भ करा । आगे युगल के समय में विवाहविधि नहीं थी, इस वास्ते इस विवाह में, पुरुष के कृत्य तो सर्व इंद्र ने करे, और स्त्रियों की तर्फ से सर्वकृत्य इन्द्रानियों ने करे । तहां से विवाहविधि जगत् में प्रचलित हुई । श्रीऋषभदेव को दोनों भार्याओं के साथ सांसारिक विषयसुख भोगते जब छ लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हुए, तब सुमंगला रानी के भरत

और ब्राह्मी यह युगल जन्मा, तथा सुनन्द्रा के बाहुवली और सुदरी यह युगल जन्मा । पीछे से सुनद्रा के तो और कोई पुत्र पुत्री नहीं जन्मे, परन्तु सुमगला देवी के उन चास (४९) जोड़े पुत्रों ही के जन्मे । यह सब मिल कर सौ पुत्र और दो पुत्री श्रीरूपभन्वै की सत्तान हैं ।

तिन सौ पुत्र के नाम लिखते हैं—१ भरत, २ बाहुवली, ३ श्रीमस्तक, ४ श्रीपुत्रागारक, ५ श्रीम सौ पुत्रों के नाम लिखे, ६ अगज्योति, ७ मलयदेव, ८ भाग वतार्थ, ९ उगदेव, १० वसुदेव, ११ मगध नाथ, १२ मानघर्त्तिक, १३ मानयुक्ति, १४ वैदर्भदेव, १५ घनवासनाथ १६ महीपक, १७ धर्मराष्ट्र, १८ मायक देव, १९ आत्मक, २० दंडक, २१ कर्लिंग, २२ ईपकदेव, २३ पुरुषदेव, २४ अकल, २५ भोगदेव, २६ धीर्यभोग, २७ गणनाथ, २८ तीणनाथ, २९ अबुदपति, ३० आयु-धीर्य, ३१ नायक, ३२ काक्षिक, ३३ आनर्त्तिक, ३४ सारिक, ३५ ग्रहपति, ३६ करदेव ३७ कच्छनाथ, ३८ सुराष्ट्र, ३९ नमद, ४० सारस्वत, ४१ तापसदेव, ४२ कुरु, ४३ जगल, ४४ पंचाल, ४५ सूरसेन, ४६ पुट, ४७ कालकदेव, ४८ काशीकुमार, ४९ कौशल्य, ५० भद्रकारा, ५१ विकासक, ५२ त्रिगर्त्त, ५३ आदर्प, ५४ सालु, ५५ मत्स्यदेव, ५६ कुलीयक, ५७ मूपकदेव, ५८ घाटहीक ५९ कावेज, ६० मट्टनाथ, ६१ साद्रक, ६२ आश्रेय, ६३ यजन, ६४

आभीर, ६५. वानदेव, ६६. वानस, ६७. कैकेय, ६८. सिंधु,
 ६९. सौवीर, ७०. गंधार, ७१. काष्ठदेव, ७२. तोपक, ७३.
 शौरक, ७४. भारद्वाज, ७५. शूरदेव, ७६. प्रस्थान, ७७. कर्णक,
 ७८. त्रिपुरनाथ, ७९. अवंतिनाथ, ८०. चेदिपति, ८१. विष्कंभ,
 ८२. नैपथ, ८३. दशार्णनाथ, ८४. कुसुमवर्ण, ८५. भूपालदेव,
 ८६. पालप्रभु, ८७. कुशल, ८८. पद्म, ८९. महापद्म, ९०.
 विनिद्र, ९१. विकेश, ९२. वेंदेह, ९३. कच्छपति, ९४. भद्रदेव,
 ९५. वज्रदेव, ९६. सांद्रभद्र, ९७. सेतज, ९८. वत्सनाथ, ९९.
 अंगदेव, १००. नरोत्तम ।

इस अवसर में जीवों के कषाय प्रचल हो जाने से पूर्वोक्त
 हाकारादि तीनों दंड का लोग भय नहीं करने
 राज्याभिषेक लगे। इस अवसर में सब लोगों से अधिक
 ज्ञानावानादि गुणों करके संयुक्त श्रीऋषभदेव
 को जान के युगलक लोग, श्रीऋषभदेव को कहते भये, कि
 अब के सब लोग दंड का भय नहीं करते हैं। [श्रीऋषभदेव
 जी गर्भ में भी मति, श्रुत अरु अवधि, इन तीन ज्ञानों
 करके संयुक्त थे। श्रीऋषभदेव जी के पूर्वभवों का वृत्तांत
 आवश्यक तथा प्रथमानुयोग से जान लेना] तब श्रीऋषभदेव
 युगलक पुरुषों को कहते भये कि जो राजा होता है, सो
 दण्ड करता है, और राजा जो होता है, सो मंत्री कोटवालादि
 सेना संयुक्त होता है; अरु कृताभिषेक होता है, फिर
 उस की आज्ञा अनातिक्रमणीय होती है। ऐसा वचन

सुन कर वे मिथुनरु गोले कि ऐसा राजा हमारा भी हो जावे। तब ऋषभदेव जी गोले जो तुमारी मनशा ऐसी है, तो नाभिकुलकर से याचना करो। पीछे तिना ने नाभिकुलकर से प्रिनति करी। तब नाभिकुलकर ने कहा, जाओ ऋषभदेव जी तुमारा राजा हुआ। तब वे मिथुनरु ऋषभदेव का राज्याभिषेक करने वास्ते पद्मिनी सरोवर में गये। इस अवसर में इन्द्र का आसन रूपमान हुआ। तब अवधिज्ञान ने राज्याभिषेक का अवसर जान के यहा आकर श्रीऋषभदेव का राज्याभिषेक करा। मुकुटादि सर्व अलंकार जो कुछ राजा के योग्य थे, सो पहिराये। इस अवसर में मिथुनरु लोक पद्मसरोवर से नलिनी कमलों में पानी लाये। उनों ने आकर जब श्रीऋषभदेव जी को अलङ्कृत देखा, तब सत्र ने चरणों ऊपर जल गेर दिया। तब इन्द्र ने मन में चिंता करी कि ये बडे विनीत पुरुष हैं। ऐसा जान कर वैश्रमण को आज्ञा दीनी कि इन विनीतों के रहने वास्ते विनीता नामा नगरी बसाओ। तब विनीता नगरी वैश्रमण ने बसाई। इस का स्वरूप शत्रुजय माहात्म्य मे जान लेना।

अथ सग्रह के वास्ते हाथी, घोडे, गौ प्रमुख श्रीऋषभदेव के राज्य में बनों से पकड़े गये। तब श्रीऋषभदेव ने चार प्रकार का सग्रह करा—१ उग्रा २ भोगा, ३ राजन्या ४ क्षत्रिया। उन में जिन को कोटवाल की पदवी दीनी, सो दण्ड के करने से

उग्रवंश कहलाया, तथा जिन को श्रीऋषभदेव ने गुरु अर्थात् ऊंचे बड़े करके माना तिनों का भोगवंश कहलाया, तथा जो श्रीऋषभदेव जी के मित्र थे, उन्हीं का राजन्यवंश नाम रक्खा गया, तथा शेष जो रहे, तिन का क्षत्रियवंश हुआ।।

अथ आहार की विधि कहते हैं। जब कल्पवृक्षों के फलों का अभाव हुआ, तब पक्काहार का खाना भोजन पकाने किस तरें से हुआ ? सो लिखते हैं। काल आदि कर्मकी के प्रभाव से कल्पवृक्ष फल देने से रह गये, शिक्षा तब लोक और वृक्षों के कंद, मूल, पत्र, फूल, फल, खाने लगे, कई एक इक्षु का रस पीने लगे; तथा सतरा जात का कच्चा अन्न खाने लगे। परन्तु कितनेक दिनों पीछे कच्चा अन्न उनको पाचन न होने से ऋषभदेव जी ने उनको कहा कि तुम हाथों से मसल के तूतड़ा दूर करके खाओ। फिर कितनेक दिनों पीछे वैसे भी पाचन न होने लगा, तो फिर दूसरी तरें कच्चा अन्न खाने की विधि बताई। ऐसे बहुत तरे से कच्चा अन्न खाने की विधि बताई, तो भी काल दोष से अन्न पाचन न होने लगा। इस अवसर में जंगलों में बांसादि के घिसने से अग्नि उत्पन्न हुआ।

प्रश्नः—तुम कहते हो कि ऋषभदेव जी को जातिस्मरण और अवधि ज्ञान था, तो फिर ऋषभदेव जी ने प्रथम से ही अग्नि-वनाना, उस अग्नि से अन्न रांध के खाना क्यों न बतलाया ?

उत्तर—हे भव्य ! एकात स्निग्ध काल में 'और एकात रक्षकाल में अग्नि किसी वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकती । कदाचित् कोई देवता विदेहक्षेत्र से अग्नि को ले भी आवे, तो भी यहा तत्काल बुझ जाती'थी । इस वास्ते अग्नि से पका के खाने का उपदेश नहीं दिया । 'पीछे तिस' अग्नि को तृणादि का दाह'करते देव के अपूर्ण रत्न जान'के पकडने लगे । जब हाथ जले, तब डर खा कर दौड के श्रीऋषभदेव जी से सर्व वृत्तात कहा । तब श्रीऋषभदेव ने अग्नि ले खाने की विधि बताई । तिस विधि से अग्नि घर'में ले आये । तब हस्ती ऊपर बैठे हुये ऋषभदेव ने हाथी के शिर ऊपर ही मिट्टी का एक कूडा सा बनाकर उनों के पास अग्नि में पका कर, उस में अन्न राध कर खाना बताया । पीछे जिस के हाथ से वो कूडा पकड़ाया वो कुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसी वास्ते कुमार को प्रजापति पर्यापति कहते हैं । फिर तो शनै शनै सब तरें का आहार पका के खाने की विधि प्रवृत्त'हो गई । सर्व विधि श्रीऋषभदेव जी ने ही बताई है ।

अथ शिल्प द्वार कहते हैं । श्रीऋषभदेव जी के उपदेश से पाच मूल शिल्प अर्थात् कारीगर बने 'तिन का नाम लिखते हैं—१ कुम्भकार, २ लोहकार, ३ चित्रकार, ४ घन्त्र बुनने वाले, ५ नापित अर्थात् नाई । प्रत्येक शिल्प

के अवांतर भेद बीस बीस हैं, इस वास्ते सर्व मिल कर एक सौ शिल्प उत्पन्न हुए ।

अब कर्मद्वार लिखते हैं । कर्मद्वार में—खेती करनी, वाणिज्य करना, धन का ममत्व करना, इत्यादि कर्म वताये । प्रथम मट्टी के संचयों में भर के, अहरन, हथोड़ी प्रमुख वताये, पीछे उन से सर्व वस्तु काम लायक बनाई गई ।

तथा भरतादि प्रजालोगों को वहत्तर कला सिखलाई, तथा स्त्रियों को चौसठ कला सिखलाई । इन सब के नाम मात्र ऐसे हैं ।

१. लिखने की कला, २. पढ़ने की कला, ३. गणितकला,
 ४. गीतकला, ५. नृत्यकला, ६. ताल वजाना,
 पुरुष की ७२ ७. पटह वजाना, ८. मृदंग वजाना, ९. वीणा
 कलाएं वजाना, १०. वंशपरीक्षा, ११. भेरीपरीक्षा,
 १२. गजपरीक्षा, १३. तुरंगशिक्षा, १४. धातु-
 वादि, १५. दृष्टिवाद, १६. मन्त्रवाद, १७. वलीपलितविनाशन,
 १८. रत्नपरीक्षा, १९. नारीपरीक्षा, २०. नरपरीक्षा, २१.
 छंदबंधन, २२. तर्कजल्पन, २३. नीतिविचार, २४. तत्त्वविचार,
 २५. कविशक्ति, २६. ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान, २७. वैद्यक,
 २८. पङ्कभाषा, २९. योगाभ्यास, ३०. रसायन विधि, ३१.
 अंजनविधि, ३२. अठारह प्रकार की लिपि, ३३. स्वप्नलक्षण,
 ३४. इन्द्रजाल, दर्शन, ३५. खेती करनी, ३६. वाणिज्य करना,
 ३७. राजा की सेवा, ३८. शकुन विचार, ३९. वायुस्तंभन,

४० अग्निस्तमन, ४१, मेघवृष्टि, ४२ विलेपनविधि, ४३ मर्दन-
विधि, ४४ ऊर्ध्वगमन, ४५ घटप्रधन, ४६ घटभ्रमण, ४७
पत्रच्छेदन ४८ मर्मभेदन, ४९ फलाक्षयण, ५० जलाक्षयण,
५१ लोकाचार, ५२ लोकरजन, ५३ अफलवृत्तों को सफल
करना, ५४ सङ्गवचन, ५५ छुरीबन्धन, ५६ मुद्राविधि, ५७
लोहज्ञान, ५८ दात समारने, ५९ काललक्षण, ६० चित्रकरण,
६१ याहुयुद्ध, ६२ मुष्टियुद्ध, ६३ दडयुद्ध, ६४ दृष्टियुद्ध,
६५ सङ्गयुद्ध, ६६ वाण्युद्ध ६७ गारुड विद्या, ६८ सर्पदमन,
६९ भूतमर्दन, ७० योग—सो द्रव्यानुयोग अक्षरानुयोग,
व्याकरण, औषधानुयोग, ७१ वर्षज्ञान, ७२ नाममाला ।

अथ स्त्रियों को चौंसठ कला सिखाई तिस का नाम

कहते हैं—१ नृत्य कला, २ औचित्यकला,

स्त्री की ६४ ३ चित्रकला, ४ वादित्र, ५ मत्र, ६ तत्र,
कलाए ७ ज्ञान, ८ विज्ञान, ९ दम, १० जलस्तभ,

११ गीतगान, १२ तालमान, १३ मेघवृष्टि

१४ फलवृष्टि, १५ आरामारोपण १६ आकार गोपन, १७

धमविचार, १८ शकुनविचार, १९ क्रियाकल्पन, २० सस्कृत

जल्पन, २१ प्रसादनीति, २२ धर्मनीति, २३ वणिकावृद्धि,

२४ स्वणसिद्धि, २५ तैलसुरभीकरण, २६ लीलासचरण,

२७ गजतुरग परीक्षा, २८ स्त्री पुरुष के लक्षण, २९ काम-

क्रिया, ३० अष्टादश लिपि परिच्छेद, ३१ तत्कालबुद्धि, ३२

घस्तुयुद्धि, ३३ वैद्यकक्रिया, ३४ सुवर्ण रत्नभेद, ३५ घट

भ्रम, ३६. सारपरिश्रम, ३७. अंजनयोग, ३८ चूर्णयोग, ३९. हस्तलाघव, ४०. वचनपाटव, ४१. भोज्यविधि, ४२. वाणि-
ज्यविधि, ४३. काव्यशक्ति, ४४. व्याकरण, ४५. शालिखण्डन
४६. मुखमंडन, ४७. कथाकथन, ४८. कुसुमगुंथन, ४९. वरवेप,
५०. सकल भाषाविशेष, ५१. अभिवानपरिज्ञान, ५२. आभ-
रण पहनना, ५३. भृत्योपचार, ५४. गृह्याचार, ५५. शास्त्र-
करण, ५६. परनिराकरण, ५७ धान्यरंधन, ५८. केशबंधन,
५९. वीणादि नाद, ६०. वितंडावाद, ६१. अंकविचार, ६२.
लोक व्यवहार, ६३. अंत्याक्षरिका, ६४. प्रश्नप्रहेलिका ।

अब की सर्व सांसारिक कला पूर्वोक्त कलाओं का प्रकर-
भूत है, इस वास्ते सर्व कला इन ही के अन्तर्भूत हैं । जैसे
प्रथम लिपि कला के अठारह भेद दक्षिण हाथ से ब्राह्मी
पुत्री को सिखाई, तिस के नाम कहते हैं ।

१. हंसलिपि, २. भूतलिपि, ३ यक्षलिपि, ४. राजस-
लिपि, ५. यावनी लिपि, ६. तुरकी लिपि,
७. कीरीलिपि, ८. द्रावडीलिपि, ९ सैधवी-
लिपि, १०. मालवीलिपि, ११. नडीलिपि, १२.
नागरीलिपि, १३. लाटीलिपि, १४. पारसी-
लिपि, १५. अनिमिती लिपि, १६. चाणक्रीलिपि, १७. मूल-
देवी, १८. उड्डीलिपि । यह अठारह प्रकार की ब्राह्मीलिपि,
देशविशेषके भेदसे अनेक तरे की हो गई, जैसे कि—१. लाटी,
२. चौड़ी, ३. डाहली, ४. कानडी, ५. गौर्जरी, ६. सोरठी,

७ मगहठी, ८ कोंकणी, ९ गुरासानी, १० मागधी, ११ मिहनी १२ हाडी, १३ फीरी, १४ हम्मीरी, १५ परतीरी, १६ मसी, १७ माली, १८ महायोधी ।

तथा सुन्दरी पुत्री को चाम हाथ से अकत्रिचा सिगाई । जो जगत् में प्रचलित कला है, तिनों से अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, ये सर्व श्रीऋषभदेव ने प्रवर्त्ताई हैं । तिस में कितनीक कला कई धार लुप्त हो जाती हैं, फिर सागरी पाकर प्रगट भी हो जाती हैं, परंतु नवीन विद्या वा कला कोई नहीं उत्पन्न होती है । जो कलाव्यवहार श्रीऋषभदेव जी ने चलाया है, वो सब आवश्यक सूत्र मं देव लेना ।

ग्राही जो भरत के साथ जन्मी थी तिस का विवाह वाहुवली के साथ कर दिया । और वाहुवली के साथ जो सुन्दरी पुत्री जन्मी थी, तिस का विवाह भरत के साथ कर दिया । तब से माता पिता की दीनी कन्या का व्यवहार प्रचलित हुआ ।

श्रीऋषभदेवजी न युगल अर्थात् एक उदर के उत्पन्न हुए पहिले भाई का विवाह कर दिया । श्रीऋषभदेव को देव के लोक भी इसी तरह विवाह करने लगे । श्रीऋषभदेव ने बहुत काल ताई राज्य करा । प्रजा के वास्ते सब तरह का सुख उत्पन्न हुए । इस हेतु से श्रीऋषभदेव को जनी लोक जगत् का कर्त्ता मानते हैं । दूसरे मनपाले जो ईश्वर की करी सृष्टि बहुत हैं, वे भी ईश्वर, आशीश्वर, जगदीश्वर, योगीश्वर, जगत्

का कर्त्ता ब्रह्मा आदि विष्णु आदि योगी आदि भगवान् आदि, अर्हंत आदि, तीर्थंकर, प्रथम बुद्ध, सर्व से बड़ा, इत्यादि जो नाम और महिमा गाते हैं, वे सर्व श्रीऋषभदेव जी के ही गुणानुवाच हैं, थार कोई सृष्टि का कर्त्ता नहीं है ।

सूख और आगानियों ने स्वकपोलकल्पित शास्त्रों में ईश्वर विषय में मन मानी कल्पना कर लीनी है । उस कल्पना को बहुत जीव आज नाई सच्ची मानते चले आये हैं । क्योंकि सर्व मन जैन के बिना ब्राह्मणों ने ही प्रायः चलाये हैं, इस वास्ते ब्राह्मण ही मतों के विश्वकर्मा हैं । अरु लौकिक शास्त्रों में जो कुछ है, सो ब्राह्मणों ही के वास्ते है । ब्राह्मण भी लौकिक शास्त्रों ने तार दिये, क्योंकि शास्त्र बनाने वालों के संतानादि खूब गाते, पीते और आनन्द करते हैं । इन ब्राह्मणों की तथा, वेदों की उत्पत्ति जन्मे आवश्यक आदिक शास्त्रों में लिगी है, तैसे भव्य जीवों के जानने वास्ते यहां में भी लिखूंगा ।

निदान सर्व जगत का व्यवहार चला कर, भरत पुत्र को विनीता नगरी का राज्य दिया, अरु बाहुवली पुत्र को तक्षिला का राज्य दिया, शेष पुत्रों को और २ देशों का राज्य दिया । उन ही पुत्रों के नाम से बहुत देशों का नाम भी तैसा ही पड़ गया, जैसे अंगदेश, वंगदेश, मगधदेश, इत्यादि देशों का नाम भी पुत्रों के नाम से पड़ गया ।

पीछे श्रीऋषभदेव ने स्वयमेव दीक्षा लीनी, उन के साथ कच्छ, महाकच्छ, सामतादिक चार हजार दीक्षा और छत्रस्थ पुरुषों ने दीक्षा लीनी । श्रीऋषभदेव जी को काल एक वर्ष तक भिक्षा न मिली, तब चार हजार पुरुष तो भूखे मरते जटाधारी वृद्ध, मूल, फल, फूल, पनादि आहारी हो करके गंगा के दोनों किनारों पर तापस बन के रहने लगे, अरु श्रीऋषभदेव जी का ध्यान, जप आदि ब्रह्मादि शब्दों में करने लगे ।

तब एक वर्ष पीछे वैशाख शुद्ध तीज को हस्तिनापुर में आये, तब श्रीऋषभदेव के पड़पोते श्रेयासकुमार ने जाति स्मरण ज्ञान के बल में श्रीऋषभदेव को भिक्षा चास्ते फिरते देव के इश्वरस से पारणा कराया । क्योंकि उस समय में लोगों ने कोई भिक्षाचर देखा नहीं था, अरु न वो भिक्षा भी देना जानते थे । तिस कारण से श्रीऋषभदेव जी को हाथी, घोड़े, धाभूषण कन्यादि तो बहुत भेट करे, परन्तु वे तो उस समय में त्यागी थे, इस चास्ते लीने नहीं । तब लोगों ने श्रेयासकुमार को पूछा कि तुमने श्रीऋषभदेव जी को भिक्षार्थी कैसे जाना ? तब श्रेयासकुमार ने अपने और श्रीऋषभदेव जी के आठ भावों का सम्वन्ध कहा । सो सर्व अधिष्ठाता आश्रयक शास्त्र में लिखा है । तब पीछे सर्व लोक भिक्षा देने की रीति जान गये ।

श्रीऋषभदेव जी एक हजार वर्ष तक देशों में छत्रस्थ पने

विचरते रहे। तिस अवस्था में कच्छ अरु महाकच्छ के वेटे नमि और विनमि ने आकर प्रभु की बहुत सेवा भक्ति करी। तव धरणेंद्र ने प्रज्ञप्रत्यादि अडतालीस हजार विद्या (४८०००) उन को देकर वैताड्यगिरि की दक्षिण अरु उत्तर, इन दोनों श्रेणिका राज्य दिया, वे सर्व विद्याधर कहलाये। इन ही विद्या धरों की संतानों में रावण, कुंभकर्णादि तथा वाली सुग्रीवादि और पवन हनुमानादि सर्व विद्याधर हुए हैं।

एकदा छद्मस्थ अवस्था में श्रीऋषभदेव जी विहार करते हुए, वाहुवली की तक्षिला नगरी में गये। वहां वाहिर वाग में कायोत्सर्ग करके खड़े रहे। यह खबर जब वाहुवली को पहुंची तब वाहुवली ने मन में विचार करा कि कल को बड़े आडम्बर से पिता को वंदना करने को जाऊंगा। प्रभात हुये जब आडम्बर से गया, तब श्रीऋषभदेव जी तो तहां से और कहीं चले गये। तब वाहुवली बहु उदास हुआ। तब श्रीऋषभदेव जी के चरणों की जगा पर धर्मचक्रतीर्थ स्थापन कराया, वो धर्मचक्र तीर्थ, विक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जब पश्चिम देश में नवे मतमतांतर खड़े हुए, तब से वो तीर्थ नष्ट हो गया।

तब पीछे श्रीऋषभदेव जी वाल्हीक, जोनक, अडम्बर, इल्लाक, सुवर्ण भूमि, पल्लवकादि देशों में विचरने लगे। तहां जिनों ने श्रीऋषभदेव जी का दर्शन करा, वो तो सब भद्रक स्वभाव वाले हो गये। अरु शेष जो रहे, वो सब

स्लेच्छ, निदयी अनाय हो गये । अनेक कल्पना के मत मानने लगे, उन का व्यवहार और तरे का बन गया ।

जब श्रीऋषभदेव को एक हजार वर्ष व्यतीत हुए तब विहार करके विनीता नगरी के पुरिमताल केवल नान प्राप्ति नामा याग में आये, तब बड़ बृक्ष के हेठ, और समवसरण फागुन वदि एकादशी के दिन, तीन दिन के उपवासी थे तहा पहिले ग्रहर में केवल ज्ञान अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान में सर्व पदार्थों के जानने, देखने वाला अत्मस्वरूप केवलज्ञान प्रगट हुआ । तब चौंसठ इन्द्र आप, देवताओं ने समवसरण बनाया, तीन गढ चारा दरवाजे, इत्यादि समवसरण की रचना करी । एक एक दिशा में तीन तीन दरवाजे बनाये, मध्यभाग में मणि पीठिका अर्थात् चौतरा बनाया, तिस के मध्यभाग में अशोकवृक्ष रचा, तिस के हेठ दरवाजों के सन्मुख चारों दिशाओं में चार सिंहासन रचे । तिस में पूर्व के सिंहासन ऊपर श्रीऋषभदेव अर्हत विराजमान हुए, अरु शेष तीनों सिंहासनों ऊपर श्रीऋषभदेव सरोगे तीन विंघ स्थापन करे । तब जिस दरवाजे से कोई आवे, वो तिस पास ही श्रीऋषभदेव जी को देखते थे । इसी वास्ते जगत् में चार मुख वाला श्रीभगवान् ऋषभदेव जी ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । घनजय कोरा में श्रीऋषभदेव जी का नाम ब्रह्मा लिखा है ।

जब श्रीऋषभदेव जी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब भरत राजा श्रीऋषभदेव जी को केवली सुन कर सकल परिवार संयुक्त समवसरण में वन्दना करने को अरु उपदेश सुनने को आया । वहां श्रीऋषभदेव जी का उपदेश सुन कर भरत राजा के पांच सौ पुत्र अरु सात सौ पोते तथा ब्राह्मी ऋषभदेव जी की बेटा और भी अनेक स्त्रियों ने दीक्षा लीनी । मरुदेवी जी तो भगवान् के छत्रादि देख के तथा वाणी सुन के केवली हो कर मोक्ष हो गई । तथा भरत के बड़े पुत्र का नाम ऋषभसेन पुंडरीक था, वो सोरठ देश में शत्रुंजय तीर्थ ऊपर देह त्याग कर, मोक्ष गया, इस वास्ते शत्रुंजय का नाम पुंडरीकगिरि रक्खा गया ।

भरत के पांच सौ पुत्रों ने जो दीक्षा लीनी थी, तिन में एक का नाम मरीचि था, उस मरीचि ने मरीचि और जैन दीक्षा का पालना कठिन जानकर अपनी साख्यमत की आजीविका के चलाने वास्ते नवीन मनः उत्पत्ति कल्पित उपाय खड़ा किया, क्योंकि उस ने गृहवास करने में तो बड़ी हीनता जानी । तब एक कुलिग बनाना चाहा । सो इस रीति से बनाया—

१. कि साधु तो मनदण्ड, वचनदण्ड अरु काय दण्ड, इन तीनों दण्डों से रहित है, और मैं तो इन तीनों दण्डों करके संयुक्त हूं, इस वास्ते मुझ को त्रिदण्ड रखना चाहिये ।
२. साधु तो द्रव्य अरु भाव करके मुण्डित है, सो लोच

करता है, अरु मैं तो द्रव्य मुटिन ह, इस वास्ते मुझे उस्तरे पाछने से मस्तक मुडगाना चाहिये, शिष्या भी रपनी चाहिये । ३ साधु तो पाच महाव्रत पालते हैं, अरु मेरे तो सदा स्थूल जीव की हिंसा का त्याग रहे । ४ साधु तो अर्कि चन है, अर्थात् परिग्रह रहित है, अरु मुझ को एक पवित्र कादि रपनी चाहिये । ५ साधु तो शील से सुगन्धित है, अरु मैं ऐसा नहीं ह, इस वास्ते मुझे चन्द्रनादि सुगन्धी लेनी ठीक है । ६ साधु तो मोह रहित है, अरु मैं तो मोह सयुक्त ह, इस वास्ते मुझे मोहाच्छादित को छत्री रपनी चाहिये । ७ साधु जूते रहित है, मुझ को पगों में कुछ उपानह (जूती) प्रमुत्त चाहिये । ८ साधु तो निर्मल है, इस वास्ते उस के शुद्धायर वस्त्र हैं, अरु मैं तो क्रोध, मान, माया, अरु लोभ, इन चारों कषायों करके मैला ह, इस वास्ते मुझे कषाय वस्त्र अर्थात् गेरु के रंगे (भगवें) वस्त्र रखने चाहियें । ९ साधु तो सच्चित्त जल के त्यागी हैं, इस वास्ते मैं छान'के सच्चित्त पानी पीऊगा, स्नान भी करूगा । इस तरे स्थूलमृपागदादि से भी निवृत्त हुआ । इस प्रकार के मरीचि ने स्वमति' से अपनी आजीविका के वास्ते लिंग बनाया, यही लिंग परिप्राजर्कों का उत्पन्न हुआ ।

मरीचि भगवान् के साथ ही विचरता रहा । तत्र साधुओं से तिसदृश लिंग देख के लोग पूछते भए । तब मरीचि

साधु का यथार्थ धर्म कहता था, अरु अपना पाखंडवेष पूर्वोक्त रीति से प्रगट कह देता था । जो पुरुष इस के पास धर्म सुन कर दीक्षा लेनी चाहता था, तिस को भगवान् के साधुओं को दे देता था । एक समय मरीचि मांदा (रोग ग्रस्त) हुआ । तब विचार किया कि मैं तो असंयती हूं, इस वास्ते साधु मेरी वैयावृत्य नहीं करते हैं, अरु मुझे करानी भी युक्त नहीं है, तब तो कोई चेला भी मुझे वैयावृत्य वास्ते करना चाहिये । तिस काल में श्रीऋषभदेव जी निर्वाण हो गये थे । पीछे एक कपिल नामक राजा का पुत्र था, सो मरीचि के पास धर्म सुनने को आया । तब मरीचि ने उस को यथार्थ साधु का लिंग आचार कहा । तब कपिल ने कहा कि तेरा लिंग विलक्षण क्योंकर है ? तब मरीचि ने कहा कि मैं साधुपना पालने को समर्थ नहीं हूं, इस वास्ते मैंने यह लिंग निर्वाह के वास्ते स्वकपोलकल्पित बनाया है । तब कपिल ने कहा कि मुझे श्रीऋषभदेव के साधुओं का धर्म रुचता नहीं है, आप कहो कि आप के पास भी कुछ धर्म है, या नहीं ? तब मरीचि ने जाना, यह भारीकर्मों जीव है, मेरा ही शिष्य होने योग्य है । इस लोभ से मरीचि ने कह दिया कि वहां भी धर्म है, अरु मेरे पास भी कछुक धर्म है । यह सुन कर कपिल मरीचि का शिष्य हो गया । यह कपिल मुनि की उत्पत्ति है ।

उस वक्त मरीचि के पास तथा कपिल के पास कोई भी

पुस्तक नहीं था, केवल जो कुछ आचार मरीचि ने कपिल को शता दिया, सोई आचार कपिल करता रहा । मरीचि ने उत्सूत्र भाषण करने से एक कोट्यकोटी सागरोपम लग्नसंसार में जन्म मरण की वृद्धि करी । मरीचि तो काल कर गया अरु पीछे से कपिल प्रथार्थ ज्ञान शून्य मरीचि की यताई हुई रीति पर चलता रहा । उस कपिल का आसुरि नामा शिष्य हुआ । कपिल ने—आसुरि को भी आचार मात्र ही माग चतलाया । कपिल ने और भी बहुत शिष्य बनाये, उन के प्रेम में तत्पर हुआ । भर के ब्रह्म नामक पाचमे देवलोक में देवता हुआ । तब उत्पत्ति के अनन्तर अध्विज्ञान से देखा, कि मैंने क्या दानादि अनुष्ठान करा है ? जिस में मैं देवता हुआ हूँ । तब अध्विज्ञान में प्रथम ज्ञान शून्य अपने आसुरि नामा शिष्य को देखा । तब विचार कर कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता, इस को कुछ तत्त्व उपदेश करूँ । ऐसा विचार कर कपिल देवता आकाश में पचयण के मडल में रह कर तत्त्वज्ञान का उपदेश करता भया, कि अव्यक्त से व्यक्त प्रगट होता है । तिस अरु सर में पटितत्र द्वात्रिंश आसुरि ने बनाया । तिस में ऐसा कथन कर कि प्रकृति में महत् होता है, अरु महत् में अहकार होता है, अहकार से षोडश गण होता है । तिस षोडशगण में से पचतमार्शों से पाच भूत इत्यादि स्वरूप

पूर्व इसी ग्रन्थ में सांख्यमतविषे लिख आये हैं, वहां से जान लेना । पीछे इन की संप्रदाय में नामी संख नामा आचार्य हुआ । तब से इस मत का नाम सांख्यमत प्रसिद्ध हुआ । वास्तव में सर्व परिव्राजक संन्यासियों के लिंग आचारादि धर्म का मूल मरीचि हुआ । इस सांख्यमत का तत्त्व अब भी भगवद्गीता तथा भागवतादि ग्रन्थों में तथा सांख्यमत के शास्त्रों में प्रचलित है । एक जैनमत के विना सर्व मतों की जड़, इस से समझनी चाहिये ।

जब श्रीऋषभदेव जी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था, उसी दिन भरत राजा की आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । तब भरत ने भरतक्षेत्र के छ खंडों में राज बनाया, अपनी आज्ञा मनाई, इसी वास्ते इस का नाम भरत खण्ड प्रसिद्ध हुआ ।

जब भरत ने अपने छोटे भाइयों को आज्ञा मनाने वास्ते दूत भेजा, तब तिनों ने विचार करा कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति राज तो हम को हमारा पिता दे गया है, तो फिर हम भरत की आज्ञा क्योंकर माने ? चलो पिता से कहें । जेकर अपने पिता श्रीऋषभदेव जी कहेंगे, कि तुम भरत की आज्ञा मानो, तब तो हम आज्ञा मान लेवेंगे, जेकर हमारे पिता कहेंगे कि लड़ो, तो हम

लडेंगे। ऐसा विचार करके कैलास पयत के ऊपर श्रीऋषभदेव जी के पास गये। तब ऋषभदेव जी ने उन के मन का अभिप्राय जान कर उन को उपदेश करा। जो उपदेश करा था, सो श्रीसूत्ररताग सूत्र के दूसरे धैतालीय अध्ययन में लिखा है। तब तो उपदेश सुन कर अठानवे पुर्यों ने दीक्षा ले लीनी, सर्व भगद्वे छोड़ दिये। इस घात्ता में भरत की अपकीर्ति हुई। तब भरत चक्रवर्ती पाच सौ गाडे पषाण के लेकर समवसरण में आया, और कहने लगा कि मैं अपने भाइयों को भोजन कराऊंगा और अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। तब श्रीऋषभदेव जी ने कहा कि ऐसा आहार साधुओं को लेना योग्य नहीं। तब भरत मन में बड़ा उदास हुआ। भरत ने कहा कि भय मैं यह आहार, किस को दूँ ? तब शत्रु—इन्द्र ने कहा कि जो तेरे से गुणों में अधिक हों, तिन को यह भोजन दो। तब भरत ने मन में विचार करा कि मेरे से गुणाधिक तो धायक हैं। तब भरत ने बहुत गुणवान् धायकों को घरे भोजन जिमाया। और उन धायकों को भरत जी ने यह दिया कि तुम सब मिल कर प्रतिदिन अर्थात् रोज की रोज मरा ही भोजन करा करो। गेती याणिज्यादि कुछ काम मन करा करो, केवल स्याध्याय करने में तत्पर रहो, भोजन करके मेरे महलों के दरवाजे आगे बैठ के तुम ने ऐसे कहना कि 'अति भक्ष्यं वर्धते भय तस्मान्माह्वान माह्वाने' तब ये

श्रावक ऐसे ही करते भये । अरु भरत राजा तो भोगविलासों में मग्न रहता था, परन्तु जब तिन का शब्द सुनता था, तब मन में विचारता था, कि किसने मुझे जीता है ? तब विचार करा कि क्रोध, मान, माया अरु लोभ, इन चार कपायों ने मुझे जीता है, तिनों से ही भय की वृद्धि होती है । ऐसा विचार करने से भरत को बड़ा भारी वैराग्य उत्पन्न होता था ।

इस अवसर में रसोई जीमने वाले श्रावक बहुत हो गये । जब रसोईदार रसोई करने में समर्थ न रहा, तब भरत महाराज को निवेदन करा कि मैं नहीं जान सकता, कि इन में श्रावक कौन है, और कौन नहीं है ? तब भरत ने कहा कि तुम पूछ के उन को भोजन दिया करो । तब रसोई करने वाले उन को पृछने लगे कि तुम कौन हो ? वे कहने लगे, हम श्रावक हैं । फिर तिनों को पूछा कि श्रावकों के कितने व्रत हैं ? तब तिनों ने कहा हमारे पांच अणुव्रत हैं, अरु सात शिक्षा व्रत हैं । इस तरें से जब जाना कि यह श्रावक ठीक हैं, तब उन को भरत महाराज के पास लाये । भरत ने उन के शरीर में काकणी रत्न से तीन तीन रेखा का चिन्ह कर दिया, अरु छठे महीने अनुयोग परीक्षा करते रहे । वे सर्व श्रावक ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुये । क्योंकि जब भरत महाराज के दरवाजे आगे वे 'माहन' 'माहन' शब्द बार बार उच्चारण करते थे, तब लोक उन को 'माहन' ।

कहने लग गये। जैनमत के शास्त्रों में प्राकृत भाषा में अब भी ब्राह्मणों को 'माहन' करके लिखा है। अरु जो ससृत ब्राह्मण शब्द है, वो प्राकृत व्याकरण में वभण और माहण के स्वरूप से सिद्ध होता है। श्री अनुयोग द्वार सूत्र में ब्राह्मणों का नाम "घुडभाय्या" अर्थात् घड़े थायक ऐसा लिखा है। यह सर्व ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, अरु सो ब्राह्मण अपने बेटों को साधुओं को देते थे। जिनों ने प्रवज्या न लीनी वे थायक वतधारी हुए। यह रीति तो भरत के राज्य में रही।

पीछे भरत का बेटा आदित्ययश हुआ, अर्थात् सूर्ययश, जिस के सतान घाले भरत क्षेत्र में सूर्यवशी कहे जाते हैं। अरु धाहुबली का बड़ा पुत्र चन्द्रयश था, तिस के सतान घाले चन्द्रवशी कहे जाते हैं। श्री ऋषभदेव जी के कुरु नामा पुत्र के सतान सय कुरुवशी कहे जाते हैं, जिन में कौरव पाडव हुये हैं।

जब भरत का बड़ा बेटा सूर्ययश सिंहासन पर बैठा तब तिस के पास काकणी रत्न नहीं था, क्योंकि काकणी रत्न चप्रवर्त्ता के सिनाय और किसी के पास नहीं होता है इस वास्ते सूर्ययश राजा ने ब्राह्मण थायकों के गले में सुवर्णमय यज्ञोपवीत [जनेऊ इतिभाषा] करवा दिये, तथा भोजन प्रमुख सर्व भरत महाराज की तरें देता रहा। जब सूर्ययश का बेटा महायश गद्दी पर बैठा, तब तिस ने रूपे के यज्ञोपवीत धनया दिये। आगे तिनों की सतानों ने पचरगे रेण्मी-पट्टसूत्र

मय यज्ञोपवीत बनाये, आगे सादे सूत के बनाये गये । यह यज्ञोपवीत की उत्पत्ति है ।

भरत के आठ पाट तक तो ब्राह्मणों की भक्ति भरत की तरें करते रहे । पीछे प्रजा भी ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी, तब सर्व जगें ब्राह्मण पूजनीक समझे गये । आठमे तीर्थंकर श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी के वक्त तक सर्व ब्राह्मण व्रत-धारी, जैनधर्मी श्रावक रहे । अरु श्रीचन्द्रप्रभ भगवान् के पीछे कितनाक काल व्यतीत भये इस भरत खण्ड में जैनमत अर्थात् चतुर्विधसंघ और सर्व शास्त्र विच्छेद हो गये । तब तिन ब्राह्मणाभासों को लोक पूछने लगे कि धर्म का स्वरूप हम को बतलाओ । तब तिनों ने जो मन में माना, और अपना जिस में लाभ देखा, सो धर्म बतलाया । अनेक तरें के ग्रंथ बनाये गये ।

जब नवमे श्रीसुविधिनाथ—पुष्पदंत अरिहंत हुए, तिनों ने जब फिर जैन धर्म प्रगट करा, तब कितनेक ब्राह्मणाभासों ने न माना, स्वकपोलकल्पित मत ही का कदाग्रह रक्खा, साधुओं के द्वेषी बन गये, चारों वेदों का नाम भी बदल दिया, अरु उन वेदों में मतलब भी और का और लिख दिया ।

अब चारों वेदों की उत्पत्ति लिखते हैं । जब भरत राजा ने ब्राह्मणों को पूजा, तब दूसरे लोक भी वेदों की उत्पत्ति ब्राह्मणों को बहुत तरे का दान देने लग गये । तब भरत चक्रवर्ती ने श्रीऋषभदेव जी के

उपदेशानुसार तिन ब्राह्मणों के स्वाध्याय करने वास्ते श्रीधरा दीश्वर ऋषभदेवजी की स्तुति और श्रावक के धर्म का स्वरूप गार्भित, ऐसे चार आर्यवेद रचे। तिन के यह नाम रखे—१ ससारदर्शन वेद, २ सस्थापनपरामर्शन वेद, ३ तत्त्वावबोध वेद, ४ विद्याप्रबोध वेद। इन चारों में सर्वनय, वस्तु के कथन सयुक्त तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये। तत्र वे ब्राह्मण अरु पूर्वोक्त चार वेद आठमे तीर्थंकर तक यथाथ चले आये। परंतु जब आठमे तीर्थंकर का तीर्थ विच्छेद हुआ, तब तिन ब्राह्मणाभासों ने धर्म के लोभ से तिन वेदों में जीव हिंसा आदि की प्ररूपणा करके उलट पुलट कर डाले। जैनधर्म का नाम भी वेदों में से निकाल दिया, बल्कि अयोक्ति करके “दैत्य दस्यु वेदवाह्य” इत्यादि नामों से साधुओं की निंदा गर्भित १ ऋग्, २ यजु, ३ साम, ४ अथर्व, ये चार नाम कल्पन कर दिये। तिन ब्राह्मणों में से जिनों ने तीर्थंकरों का उपदेश माना, उनों ने पूर्व वेदों के मंत्र न त्यागे। सो आज तकदक्षिण करणाट्रक देश में जैन ब्राह्मणों के षड हैं ऐसा सुना और देखा भी है। तथा उन प्राचीन वेदों के कितनेक मंत्र मेरे पास भी हैं। यत उक्त आगमे—

सिरिभरह चव यदो, आरियवेयाणविस्सु उप्पत्तो ।

माहण पदणत्थमिण, कट्ठिय सुहज्जाण यवहार ॥१॥

जिणत्तित्थे बुच्छिन्ने, मिच्छत्ते माट्ठेण्हिं तेठविया ।

अस्मजयाण पूआ, अप्पाण काहिया तेहिं ॥३॥

इत्यादि। यहां से आगे याज्ञवल्क्य, सुलसा, पिप्पलाद, अरु पर्वत प्रमुख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त कर दीनी। तिस का भी स्वरूप किंचित् मात्र यहां लिख देते हैं।

बृहदारण्यक उपनिद् के भाष्य में लिखा है, कि जो यज्ञों का कहने वाला सो याज्ञवल्क्य, तिस का पुत्र याज्ञवल्क्य। इस कहने से भी यही प्रतीत होता है, कि यज्ञों की रीति प्रायः याज्ञवल्क्य से ही चली है। तथा ब्राह्मण लोगों के शास्त्रों में लिखा है, कि याज्ञवल्क्य ने पूर्व की ब्रह्मविद्या वम के सूर्य पासों नवीन ब्रह्मविद्या सीख के प्रचलित करी। इस से भी यही अनुमान निकलता है, कि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन वेद छोड़ दिये, और नवीन बनाये।

तथा श्री त्रैसठ शलाकापुरुष चरित्र ग्रंथ में आठमे पर्व के दूसरे सर्ग में ऐसा लिखा है, कि काशपुरी हिंसात्मक यज्ञ में दो संन्यासिनिया रहती थीं, तिन में एक और पिप्पलाद का नाम सुलसा था, अरु दूसरी का नाम सुभद्रा था। यह दोनों ही वेद अरु वेदांगों की जानकार थीं। तिन दिनों बहिनों ने बहुवादियों को वाद में जीता। इस अवसर में याज्ञवल्क्य परिव्राजक तिन के साथ वाद करने को आया। आपस में ऐसी प्रतिज्ञा करी कि जो हार जावे, वो जीतने वाले की सेवा करे। तब याज्ञवल्क्य ने सुलसा को वाद में जीत के अपनी सेवा करने

वाला बनाई। सुलसा भी रात दिन याज्ञवल्क्य की सेवा करने लगी। याज्ञवल्क्य अरु सुलसा यह दोनों यौवनवत तरुण थे। इस वास्ते दोनों कामातुर हो के भोगविलास करने लग गये। सच तो है कि अग्नि और फूस मिल के अग्नि फ्योंकर प्रज्वलित न होवे निदान दोनों काम फ्रीड़ा में मग्न होकर काणपुरी के निकट कुटी में वास करते थे। तत्र याज्ञवल्क्य सुलसा से पुत्र उत्पन्न हुआ। पीछे लोगों के उपहास के भय से उस लड़के को पीपल के वृक्ष के हेठ छोड़ कर दोनों नठ के कहीं को चले गये। यह वृत्तांत सुभद्रा जो सुलसा की बहिन थी, उस ने सुना। तब तिस बालक के पास आई। जब बालक को देखा, तो पीपल का फल स्वयमेव मुप में पडे को चबोल रहा है, तब तिस का नाम भी पिप्पलाद रक्खा। और तिस को अपने स्थान में ले जा के यत्न से पाला, अरु वेदादि शास्त्र पढ़ाये। तत्र पिप्पलाद बड़ा बुद्धिमान् हुआ, बहुत वादियों का अभिमान दूर करा। पीछे तिस पिप्पलाद के साथ सुलसा और याज्ञवल्क्य यह दोनों वाद करने को आए। तिस पिप्पलाद ने दोनों को वाद में जीत लिया, और सुभद्रा मासी के कहने से जान गया, कि यह दोनों मेरे माता पिता हैं, और मुझे 'जन्मते' को निन्द्य हो कर छोड़ गये थे। जब बहुत क्रोध में आया तब याज्ञवल्क्य अरु सुलसा के आगे मातृमेध पितृमेध यज्ञों को युक्ति से सम्यक् रीति से स्थापन करके पितृमेध में याज्ञवल्क्य

को और मातृमेघ में सुलसा की मार के होम करा । मीमांसक मत का यह पिप्पलाद मुख्य आचार्य हुआ । इस का वातली नामा शिष्य हुआ । तब से जीवहिंसा संयुक्त यज्ञ प्रचलित हुए ।

याज्ञवल्क्य के वेद बनाने में कुछ भी शंका नहीं, क्योंकि वेद में लिखा है— 'याज्ञवल्क्येति ही वाच' अर्थात् याज्ञवल्क्य ऐसे कहता भया । तथा वेद में जो शाखा है, वे वेदकर्ता मुनियों के ही सबब से है । इस वास्ते जो आवश्यक शास्त्र में लिखा है, कि जीवहिंसा संयुक्त जो वेद हैं, वे सुलसा अथ याज्ञवल्क्यादिकों ने बनाये है, सो सत्य है । क्योंकि कितनीक उपनिषदों में पिप्पलाद का भी नाम है, तथा और मुनियों का भी कितनीक जगें में नाम है । जमदग्नि, कश्यप तो वेदों में खुद नाम से लिखे हैं । तो फिर वेदों के नवीन होने में क्या शंका रहती है ?

तथा लंका का राजा रावण जब दिग्विजय करने के वास्ते देशों में चतुरंग दल लेकर राजाओं को अपनी भ्राज्ञा मना रहा था । इस अवसर में नारद मुनि लाठी, सोटे लात और धूंसे से पीटा हुआ पुकार करता हुआ रावण के पास आया । तब रावण ने नारद को पूछा कि तुझ को किसने पीटा है ? तब नारद ने कहा कि राजपुर नगर में महत नामा राजा है, सो मिथ्यादृष्टि है । वो ब्राह्मणभासों के उपदेश से यज्ञ करने लगा । होम के वास्ते सौनिकों की

तरे वे ब्राह्मणाभास अरराट राद करते हुए विचारे पशुओं को यज्ञ में मारते हुए, मने देखे । तब में आकाश से उतर के जहा मरुत राजा ब्राह्मणों के साथ में बैठा था, तहा आकर मरुत राजा को कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो ? तब मरुत राजा ने कहा कि ब्राह्मणों के उपदेश से देवताओं की तृप्ति वास्ते और न्यर्ग वास्ते यह यज्ञ म पशुओं के बलिदान से करता हू, यह महाधर्म है । तब नारद कहता है, कि मैंने मरुत राजा को कहा कि हे राजन् जो चारों त्रेदों में यज्ञ करना कहा है, वो यज्ञ में तुम को सुनाता हू ।

आत्मा तो यज्ञ का यष्टा अर्थात् करने वाला है, तथा तपरूप अग्नि है, ज्ञानरूप घृत है, कर्मरूपी इन्धन है क्रोध, मान, माया, अरु लोभादि पशु हैं, सत्य चोल्ने रूप यूप अर्थात् यज्ञस्तम्भ है, तथा सर्व जीवों की रक्षा करनी यह दक्षिणा है, तथा ज्ञान, दर्शन अरु चारित्र, यह रत्नत्रयी रूप त्रिवेदी है । यह यज्ञ वेद का कहा हुआ है । ऐसा यज्ञ जो योगाभ्यास संयुक्त करे, तो करने वाला मुक्त रूप हो जाता है । और जो राक्षस तुल्य हो के छागादि मार के यज्ञ करता है, सो मर के घोर नरक में चिरकाल तक महादुःख भोगता है । हे राजन् ! तू उत्तम वर में उत्पन्न हुआ है, बुद्धिमान् और धनवान् है, इस वास्ते हे राजन् ! तू इस व्याधोचित पाप से निवृत्त हो जा । जेकर प्राणिवध से ही

जीवों को स्वर्ग मिलना होवे, तब तो थोड़े ही दिनों में यह जीवलोक खाली हो जावेगा । यह मेरा वचन सुन के यज्ञ की अग्नि की तरे प्रचण्ड हुए हुए ब्राह्मण हाथ में लाठी, सोटे ले कर सर्व मेरे को पीटने लगे । तब जैसे कोई पुरुष नदी के पूर से उर कर दीप में चला आता है, तैसे मैं दौड़ता हुआ तेरे पास पहुंचा हूं । हे रावण राजा ! विचारे निरपराधी पशु मारे जाते हैं, तू तिन की रक्षा करने में तत्पर हो । जैसे मैं तेरे शरण से बचा हूं, ऐसे तू पशुओं को भी बचा । तब रावण विमान से उतर के मरुत राजा के पास गया । मरुत राजा ने रावण की बहुत पूजा, भक्ति आदर, सन्मान करा । तब रावण कोप में हो कर मरुत राजा को ऐसे कहता भया । अरे ! तू नरक का देने वाला यह यज्ञ क्या कर रहा ? क्योंकि धर्म तो अहिंसारूप सर्वज्ञ तीर्थंकरों ने कहा है, सोई जगत् के हित का करने वाला है । जब तुमने पशुओं को मार के धर्म समझा, तब तुम को हितकारक क्योंकर होवेगा ? इस वास्ते यह यज्ञ तुम को दोनों लोक में अहितकारक है । इसे छोड़ दो, नहीं तो इस यज्ञ का फल तेरे को इस लोक में तो मैं देता हूं, और परलोक में तुमारा नरक में वास होवेगा । यह सुन कर मरुत राजा ने यज्ञ करना छोड़ दिया । क्योंकि रावण की आज्ञा उस वक्त ऐसी भयंकर थी, कि कोई उस को उल्लंघन नहीं कर सकता था ।

इस कथानक में यह भी मालूम हो जाता है, कि जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आगे राक्षस यह विध्वंस कर देते थे, सो क्या जाने रावणादि जबरदस्त जैनधर्मी राजा पशुवध रूप यज्ञ का करना छोड़ा देते थे। तब से ही ब्राह्मणों ने पुराणादि शास्त्रों में उन जबरदस्त जैनराजाओं को राक्षसों के नाम से लिखा है। तथा यह भी सुनने में आया है, कि नारद जी ने भी माया के वध से जैनमत धार के वेदों की निन्दा करी थी। तो क्या जाने इस कथानक का यही तात्पर्य लोगों ने लिख लिया हो।

पीछे रावण ने नारद को पूछा कि ऐसा पापकारी पशु वधात्मक यह यज्ञ कहा से चला है। तब वेदमन्त्र का अर्थ नारद जी ने कहा कि शुक्तिमती नदी के और वसुजाता किनारे पर एक शुक्तिमती नगरी है सो वीसवें श्रीमुनिसुव्यत स्वामी हरिवर तीर्थ-कर की आँलाद में जब कितनेक राजा व्यतीत हो गये, तब अभिचन्द्र नामा राजा हुआ। तिस अभिचन्द्र राजा का वसुनामा वेडा हुआ। दो वसु महा बुद्धिमान्, मत्यावादी, लोगों में प्रसिद्ध हुआ। तिस नगरी में क्षीरकदम्बक उपाध्याय रहता था तिस का पवत नामक पुत्र था। वहा एक तो राजा का वेडा वसु दूसरा पर्वत और तीसरा में (नारद) हम तीनों क्षीरकदम्बक उपाध्याय के पास पढ़ते थे। एक समय हम तीनों जन पाठ करने के भय से रात्रि को

सो गये थे और उपाध्याय जागता था । हम छत ऊपर सोते थे । तब दो चारण साधु ज्ञानवान् आकाश में परस्पर बातें करते चले जाते थे, कि इस क्षीरकदंबक उपाध्याय के तीन छात्रों में से दो नरक में जायेंगे, अरु एक स्वर्ग में जायेगा । मुनियों का यह कहना सुन करके उपाध्याय जी चिन्ता करने लगे, कि जब मेरे पढाये हुये नरक में जाएंगे, तब यह मुझ को बहुत दुःख है । परन्तु इन तीनों में से नरक कौन जायगा ? और स्वर्ग कौन जायगा ? इस बात के जानने वास्ते तीनों को एक साथ बुलाया । पीछे गुरु जी ने हम तीनों को एक एक पीठी का कुकड़ दिया, और कह दिया कि इन को ऐसी जगह में मारो जहां कोई भी न देखता होवे । पीछे वसु अरु पर्वत यह दोनों तो शून्य जगह में जा कर दोनों पीठी के बनाये कुकड़ों को मार लाये । और मैं उस पीठी के कुकड़ को ले कर बहुत दूर नगर से बाहिर चला गया, जहां कोई भी नहीं था । तहां जाकर खड़ा हुआ, चारों ओर देखने लगा और मन में यह तर्क उत्पन्न हुआ, कि गुरु महाराज ने तो यह आज्ञा दीनी है, कि हे वत्स ! यह कुकड़ तू ने तहां मारना, जहां कोई देखता न होवे । तो यह कुकड़ देखता है, अरु मैं भी देखता हूं, खेचर देखते हैं, लोकपाल देखते हैं, ज्ञानी देखते हैं, ऐसा तो जगत् में कोई भी स्थान नहीं जहां कोई न देखता होवे, इस वास्ते गुरु के कहने का यही तात्पर्य है, कि इस कुकड़

का वध न करना । क्योंकि गुरु पूज्य तो सदा दयावन्त और हिंसा से पराश्रुम्ब हैं, केवल हमारी परीक्षा लेने वास्ते यह आदेश दिया है । तब मैं ऐसा विचार करके बिना ही मारे कुकड़ को लेके गुरु के पास चला आया, और कुकड़ के न मारने का समय सब गुरु को कह दिया । तब गुरु ने मन में निश्चय कर लिया कि यह नारद ऐसे विप्रेरु वाला है, सो स्मर जायगा । तब गुरु जी ने मुझ की छाती से लगाया, और बहुत साधुकार कहा ।

तथा वसु और पर्वत भी मेरे से पीछे गुरु के पास आये । और गुरु को कहते भये कि हम कुकड़ों को ऐसी जगें मार के आये हैं, कि जहा कोई भी देखता नहीं था । तब गुरु ने कहा कि तुम तो नेग्रते थे तथा गेचर देखते थे, तब हे पापिष्ठो ! तुम ने कुकड़ क्यों मारे ? ऐसे कह कर गुरु ने सोचा कि पर्वत और वसु के पढ़ाने की मेहनत मैंने व्यर्थ ही करी, मैं क्या करू ? पानी जमे पात्र में जाता है, घैसा ही धन जाता है । विद्या का भी यही स्वभाव है । जब प्राणों से प्यारा पर्वत पुत्र और पुत्र से प्यारा वसु, यह दोनों नरक में जायगे, तो मुझे फिर घर में रह कर क्या करना है ? ऐसे निर्वेद से क्षीरवदक उपाध्याय ने दीक्षा प्रदण करी—साधु हो गया । तिस के पद ऊपर पर्वत घैठा, क्योंकि ध्याप्या करने में पर्वत बड़ा विचक्षण था ।

और मैं (नारद) गुरु के प्रसाद से सर्वशास्त्रों में पंडित हो कर अपने स्थान में चला आया। तथा अभिचन्द्र राजा ने तो संयम लिया, और वसु राजा राजसिंहासन पर बैठा।

वसु राजा जगत् में सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया अर्थात् वसुराजा झूठा नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध हो गया। वसुराजा ने भी अपनी प्रसिद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य बोलना ही अंगीकार किया। वसुराजा को एक स्फटिक का सिंहासन गुप्तपने ऐसा मिला कि सूर्य के चांदने में जब वसुराजा उस के ऊपर बैठता था, तब सिंहासन लोगों को विलकुल नहीं दीख पड़ता था। इसी तरे वसुराजा आकाश में अधर बैठा दीख पड़ता था। तब लोगों में यह प्रसिद्धि हो गई, कि सत्य के प्रभाव से वसुराजा का सिंहासन देवता आकाश में थामे रखते हैं। तब सब राजा डर के वसुराजा की आज्ञा मानने लग गये। क्योंकि चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, तो भी प्रसिद्धि जो है सो पुरुष के वास्ते जयकारी होती है।

तब एकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया। वहां जा कर पर्वत को देखा तो वो अपने शिष्यों को ऋग्वेद पढा रहा है, और उस की व्याख्या करता है। तब ऋग्वेद में एक ऐसी श्रुति आई "अजैर्यष्टव्यमिति"। तब पर्वत ने इस श्रुति की ऐसी व्याख्या करी कि अजा नाम छाग—बकरी का है; तिनों से यज्ञ करना—तिन को

मारे के तिन के मास का होम करना । तब मैंने पर्वत को कहा हे भ्राता ! यह व्याख्या तू क्या भ्राति से करता है ? क्योंकि गुरु श्री क्षीरकदम्ब ने इस श्रुति की ऐसे व्याख्या नहीं करी है । गुरु जी ने तो तीन वष के पुराने धान्य-जौ का अर्थ इस श्रुति का करा है । “न जायत इत्यजा”—जो वोने से न उत्पन्न होवें सो अज, ऐसा अर्थ श्रीगुरु जी ने तुम को और हम को सिखलाया था । वो अर्थ तुम ने किस हेतु से भुला दिया ? तब पर्वत ने कहा कि तुम ने जो अर्थ करा है, वह अर्थ गुरु जी ने नहीं कहा था, किन्तु जो अर्थ मने करा है, यही अर्थ गुरु ने कहा था, क्योंकि निघट्ट में भी अजा नाम बकरी का ही लिखा है । तब मैंने (नारद ने) पर्वत को कहा कि शब्दों के अर्थ दो तरे के होते हैं । एक मुख्यार्थ दूसरा गौणार्थ । तो यहा श्री गुरुजी ने गौणार्थ करा था । गुरु धर्मोपदेष्टा का ध्वन और यथार्थ श्रुति का अर्थ, दोनों को अयथा करके हे मित्र ! तू महापाप उपार्जन मत कर । तब फिर पर्वत ने कहा कि अजा शब्द का अर्थ श्री गुरुजी ने मेष का करा है, निघट्ट में भी ऐसे ही अर्थ है । इन को उल्लघन करके तू अधर्म उपार्जन करता है । इस वास्ते घसुराजा अपना सहाध्यायी है तिस को मध्यस्थ करके इस अर्थ का निणय करो । जो भूठा होवे तिस की जिह्वा का छेद करना, ऐसी प्रतिज्ञा कही । तब मैंने मी पर्वत का कहना मान लिया, क्योंकि साच को क्या भाच है ?

तब पर्वत की माता ने पर्वत को छाना (गुप्त में) कहा कि हे पुत्र ! तू ऐसा झूठा कदाग्रह मत कर । क्योंकि मैंने भी इस श्रुति का अर्थ तीन वर्ष का धान्य ही सुना है, इस वास्ते तूने जो जिह्वा छेद की प्रतिज्ञा करी है, सो अच्छी नहीं करी । क्योंकि जो विना विचारे काम करता है, वो अवश्य आपदा में पड़ता है । तब पर्वत कहने लगा कि हे माता-जी ! जो मैंने प्रतिज्ञा करी है, वो अब मैं किसी तरें से भी दूर नहीं कर सकता हूं । तब माता अपने पर्वत पुत्र के दुःख से पीड़ित हो कर वसु राजा के पास पहुंची । क्योंकि पुत्र के जीवतव्य (जीवन) वास्ते कौन ऐसा है, जो उपाय न करे ?

जब वसुराजा ने अपने गुरु की पत्नी को आते देखा तब सिंहासन से उठ के खड़ा हुआ, और कहने लगा कि मैंने आज क्षीरकदंबक का दर्शन करा जो माता तुम्हें को देखा । अब हे माता ! कहो मैं, क्या करूं ? और क्या दूं ? तब ब्राह्मणी कहने लगी कि तू मुझे पुत्र की भित्ता दे, क्योंकि विना पुत्र के मैंने हे पुत्र ! धन, धान्य का क्या करना है ? तब वसुराजा कहने लगा हे माता ! मेरे को तो पर्वत पूजने और पालने योग्य है । क्योंकि गुरु की तरें गुरु के पुत्र के साथ भी वर्त्तना चाहिये, यह श्रुति का वाक्य है । तो फिर आज किस को काल ने क्रोध में आकर पत्र भेजा है, जो मेरे भाई पर्वत को मारा चाहता है ? इस वास्ते हे माता ? तू मुझे सर्व वृत्तांत कह दे । तब ब्राह्मणी ने अपने

पुत्र का भेज व्याख्यान और जिह्वा छेदने की प्रतिज्ञा कह सुनाई। और कहा कि जो ते ने अपने माई की रक्षा करनी है, तो अजा शब्द का अर्थ मेघ अर्थात् बकरी बकरा करना। क्योंकि महात्मा जन परोपकार के वास्ते अपने प्राण भी दे देते हैं, तो वचन से परोपकार करने में तो क्या कहना है? तब वसु राजा ने कहा कि हे माता जी मैं मिथ्यावचन क्योंकर बोलूँ? क्योंकि सत्य बोलने वाले पुरुष जेकर अपने प्राण भी जाते देखें तो भी असत्य नहीं बोलते हैं, तो फिर गुरु का वचन अन्यथा करना और झूठी साक्षी देनी, इसका तो क्या ही कहना है? तब ब्राह्मणी ने कहा कि या तो गुरु के पुत्र की जान बचेगी, या तेरे सत्य व्रत का आग्रह ही रहेगा, और मैं भी तुझे अपने प्राण की हत्या दूगी। तब वसुराजा ने लज्जार होकर ब्राह्मणी का वचन माना-। पीछे क्षीरकदंबक की भार्या प्रमुदित हो कर अपने घर को गई।

इतने ही में मैं (नारद) और पर्वत दोनों जने वसुराजा की सभा में गये। तब तहा बड़े बड़े विद्वान् इकट्ठे सभा में मिले। और स्फटिक के सिंहासन ऊपर बैठ के वसुराजा सभा के बीच में समापति बन कर बैठा। तब पर्वत ने और मैंने अपनी अपनी व्याख्या का पक्ष वसुराजा को सुनाया। और ऐसा भी कहा कि हे राजन् तू! सत्य कह दे, कि गुरु ने इन दो अर्थों में से कौन सा अर्थ कहा था? तब वृद्ध ब्राह्मणों ने कहा हे राजा तू सत्य सत्य-जो होये सो कह दे। क्योंकि

सत्य से ही मेघ वर्षता है, और सत्य से ही देवता सिद्ध होते हैं, सत्य के प्रभाव से ही यह लोक खड़ा है, और तू पृथ्वी में सत्यवादी सूर्य की तरफ प्रकाशक है, इस वास्ते सत्य ही कहना तुम को उचित है, और हम इस से अधिक क्या कहें ? यह वचन सुन कर भी वसुराजा ने अपने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा को जलांजली दे कर "अजान्मेषान्गुरु व्याख्यदिति" अर्थात् अज का अर्थ गुरु ने मेष (बकरा) कहा था ऐसी साखी वसुराजा ने कही, तब इस असत्य के प्रभाव से व्यंतर देवता ने वसुराजा के सिंहासन को तोड़ के वसुराजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के मारा । तब तो वसुराजा मर के सातमी नरक में गया ।

पीछे वसुराजा के राज सिंहासन ऊपर वसुराजा के आठ पुत्र—१. पृथुवसु, २. चित्रवसु, ३. वासव, ४. शक्त, ५. विभावसु, ६. विश्वावसु, ७. सूर, ८. महासूर, ये आठों अनुक्रम से गद्दी ऊपर बैठे । उन आठों ही को व्यंतर देवताओं ने मार दिया । तब सुवसु नामा नवमा पुत्र तहां से भाग कर नागपुर में चला गया, और दसमा बृहद्ध्वज नामा पुत्र भाग कर मथुरा में चला गया, और मथुरा में राज करने लगा, इस बृहद्ध्वज की संतानों में यदुनामा राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ । इस वास्ते हरिवंश का नाम छूट गया और यदुवंशी प्रसिद्ध हो गये ।

यदु राजा के सूर नामक पुत्र हुआ । तिस सूर राजा के

दो पुत्र हुए। तिनमें से बड़ा शौरी और छोटा सुवीर था। शौरी पिता के पीछे राजा बना, शौरी ने मथुरा का राज्य तो अपने छोटे भाई सुवीर को दे दिया, और आप कुशावर्त्त देश में जाकर अपने नाम का शौरीपुर नगर बसा के राजधानी बनाई। शौरी का बेटा अधकृष्णि आदि पुत्र हुआ। और अधकृष्णि के दस बेटे हुये—१ समुद्रविजय, २ अक्षोभ्य, ३ स्तिमित, ४ सागर, ५ हिमवान्, ६ अचल, ७ धरणा, ८ पूर्ण, ९ अभिचन्द्र, १० वसुदेव। तिनमें समुद्रविजय का बड़ा बेटा अरिष्टनेमि जो जनमत का वाचीसमा तीर्थकर हुआ। और वसुदेव के बेटे प्रतापी कृष्ण वासुदेव अरु बलभद्र जी हुये। तथा सुवीर का बेटा भोज कृष्णि और भोजकृष्णि का उग्रसेन और उग्रमेन का कस बेटा हुआ। और वसुराजा का दूसरा बेटा सुवसु जो भाग के नागपुर गया था, तिसका बृहद्रथ नामा पुत्र हुआ। तिस ने राजगृह में आकर राज करा, तिस का बेटा जरासिंधु हुआ। यह मैंने यहा प्रसंग से लिख दिया है।

तब रहा तो नगर के लोक और पण्डितों ने पर्वत का बहुत उपहास करा। सब ने पर्वत को कहा कि 'तू झूठा है, क्योंकि तेरे साप्यी वसु को झूठा जान कर देवना ने मार दिया, इस वास्ते तेरे से अधिक पापी कौन है ? ऐसे कह कर लोगों ने मिल के पर्वत को नगर से बाहिर निकाल दिया। तब महाकाल असुर उस पर्वत का सहायक हुआ।

यहां रावण ने नारद को पूछा कि वो महाकाल असुर कौन था ? नारद ने कहा यहां चरणायुगल महाकालासुर नामा नगर है । तिस में अयोधन नामा राजा और पर्वत था, तिस की दिति नामा भार्या थी । तिन दोनों की सुलसा नामक बहुत रूपवती बेटी थी । तिस सुलसा का स्वयंवर उस के पिता ने करा । वहां और सर्व राजे बुलवाये । तिन सर्व राजाओं में से सगर राजा अधिक था । तिस सगर राजा की मंदोदरी नामा रणवास की दरवाजेदार सगर की आज्ञा से प्रतिदिन अयोधन राजा के आवास में जाती थी । एक दिन दिति घर के बाग के कदली घर में गई, और सुलसा के साथ मंदोदरी भी तहां आ गई । तव मंदोदरी सुलसा और दिति इन दोनों की बातें सुनने के वास्ते तहां छिप गई । तव दिति सुलसा को कहने लगी, हे बेटी ! मेरे मन में इस तेरे स्वयंवर विषे बड़ा शक्य है, तिस का उद्धार करना तेरे आधीन है, इस वास्ते तू सुन ले ।

मूल से श्रीऋषभदेव स्वामी के भरत अरु वाहुवली यह दो पुत्र हुये । फिर तिन के दो पुत्र हुये तिन में भरत का सूर्यवंश और वाहुवली का चन्द्रवंश, जिनों से सूर्यवंश और चन्द्रवंश चले है । चन्द्रवंश में मेरा भाई तृणविंदुनामा हुआ । तथा सूर्यवंश में तेरा पिता राजा अयोधन हुआ । और अयोधन राजा की वहिन-सत्यवशा नामा तृणविंदु की

मार्या हुई। तिस का घेटा मधुपिंगल नामा मेरा भतीजा है। तो हे सुन्दरी! मैं तेरे को तिस मधुपिंगल को दिया चाहती हूँ, और तू तो क्या जाने स्वयंवर में किस को दी जाएगी? मेरे मन में यह शल्य है। इस वास्ते तू ने स्वयंवर में सर्व राजाओं को छोड़ के मेरे भतीजे मधुपिंगल को घरना। तब सुलसा ने माता का कहना स्वीकार कर लिया। और मदी-दरी ने यह सर्ववृत्तात सुन कर सगर राजा को कह दिया।

तब सगर राजा ने अपने विश्वभूति नामा पुरोहित को आदेश दिया। वो विश्वभूति बड़ा कवि था उस ने तत्काल राजा के लक्षणों की सहिता बनाई। तिस सहिता में ऐसे लिखा कि सगर तो शुभ लक्षण वाला बन जाये और मधुपिंगल लक्षणहीन सिद्ध हो जावे। तिस पुस्तक को सटूक में बन्द करके रख छोड़ा। जब सब राजा आकर स्वयंवर में इफटे बैठे, तब सगर की आज्ञा से विश्वभूति ने वो पुस्तक काढ़ा। अरु सगर ने कहा कि जो लक्षण हीन होवे, तिस को या तो मार देना, अथवा स्वयंवर से बाहिर निकाल देना। यह कहना सब ने मान लिया। तब तो पुरोहित यथा यथा पुस्तक वाचता जाता है, तथा मधुपिंगल अपने को अपलक्षण वाला मान कर लज्जावान् होता जाता है। और स्वयंवर से आप ही निकल गया। तब सुलसा ने सगर को घर लिया, दूसरे सब राजा अपने अपने स्थानों को चले गये।

अरु मधुपिंगल तो उस अपमान से चालतप करके साठ हजार वर्ष की आयुवाला कालनामा असुर परमधार्मिक देव हुआ । तब अत्रघिघ्नान से सगर का कपट जो उस ने सुलसा के स्वयंवर में झूठा पुस्तक बनाया था, और अपना जो अपमान हुआ था, सो देखा जाना । तब विचार करा कि सगर राजादिकों को मैं माहं । तब तिन के छिद्र देखने लगा । जब शुक्तिमती नगरी के पास पर्वत को देखा, तब ब्राह्मण का रूप करके पर्वत को कहने लगा कि हे पर्वत ! मैं तेरे पिता का मित्र हूं, मेरा नाम शांडिल्य है, मैं और तेरा पिता हम दोनों साथ होकर गौतम उपाध्याय के पास पढ़े थे, मैंने सुना था कि नारद ने और दूसरे लोगों ने तुझे बहुत दुःखी करा, अब मैं तेरा पक्ष पुसंगा, और मन्त्रों करके लोगों को विमोहित करंगा । यह कह कर पर्वत के साथ मिल के लोगों को नरक में डालने वास्ते तिस असुर ने बहुत व्यामोह करा, व्याधि भूतादि दोष लोगों को कर दिये । पीछे वहां जो लोक पर्वत का वचन मान लेता था, तिस को अच्छा कर देता था । शांडिल्य की आज्ञा से पर्वत भी लोगों को अच्छा करने लगा । उपकार करके लोगों को अपने मत में मिलाता जाता था । तब तिस असुर ने सगर राजा को तथा तिस की रानियों को बहुत भारी रोगादिक का उपद्रव करा । तब तो राजा भी पर्वत का सेवक बना । अरु पर्वत ने शांडिल्य के साथ मिल के

तिस का रोग शात करा । तब पर्वत ने राजा को उप
देश करा कि—

हे राजन् ! सौत्रामणि नामा यज्ञ करके, मद्यपान अर्थात्
शराब पीने में दोष नहीं । तथा गोसत्र नामा यज्ञ में अगम्य
स्त्री (चाडाली) आदि तथा माता बहिन, वेटी आदि से
विषय सेवन करना चाहिये । मातृमेघ में माता का और
पितृमेघ में पिता का बध अतर्वेदीः कुरुक्षेत्रादिक में करे,
तो दोष नहीं । तथा कच्छु की पीठ ऊपर अग्नि स्थापन करके
तर्पण करे कदाचित् कच्छु न मिले तो शुद्ध ब्राह्मण-के
मस्तक की टट्टरी ऊपर अग्नि स्थापन करके होम-करे
क्योंकि टट्टरी भी कच्छु की तरे होती है । इस-वार्त में
हिंसा नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा है—

सव पुरुष एतेद, यद्रूत यद्रविप्यति ।

ईगानो योऽमृतत्वस्य, यदन्नेनातिरोहति ॥

इस का भाग्यर्थ यह है, कि जो कुछ है, सो सब ब्रह्म
रूप ही है । जब एक ही ब्रह्म हुआ, तब कौन किसी को मारता
है ? इस घाम्ते यथारुचि से यज्ञों में जीवहिंसा करो, और
तिन जीवों का मास भक्षण करो, इस में कुछ दोष नहीं ।
क्योंकि देवोद्देश करने से मास पवित्र हो जाता है । इत्यादि
उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके
अतर्वेदी कुरुक्षेत्रादि में उस पर्वत ने यज्ञ कराया । तब

कालासुर ने अवसर पा करके राजसूयादिक यज्ञ भी कराया । और जो जीव यज्ञ में मारे जाते थे, तिन को विमानों में बैठा के देवमाया से दिखाया । तब लोगों को प्रतीत आ गई, पीछे वो निःशंक हो कर जीवहिंसारूप यज्ञ करने लगे और पर्वत का मत मानने लगे । सगर राजा भी यज्ञ करने में बड़ा तत्पर हुआ । सुलसा और सगर दोनों मर के नरक में गये । तब महाकालासुर ने सगर राजा को नरक में मार पीटादि महादुःख दे के अपना वैर लिया । इस वास्ते हे रावण ! पर्वत पापी से यह जीवहिंसारूप यज्ञ विशेष करके प्रवृत्त हुये हैं । हे राजा रावण ! सो यह यज्ञ तै ने निषेध करा । यह कथा सुन के राजा रावण ने प्रणाम करके नारद को विदा करा ।

इस तरे से जैनमत के शास्त्रों में वेदों की उत्पत्ति लिखी है सो आवश्यकसूत्र, आचारदिनकर, त्रैसठशलाका पुरुष चारित्र में सर्व लिखा है, तहां से देख लेना ।

और इस वर्तमान काल में जो चारों वेद हैं, इन की उत्पत्ति डाक्टर मोक्षमूलर साहिव अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रंथ में तो ऐसे लिखते हैं, कि वेदों में दो भाग है, एक छन्दोभाग, दूसरा मंत्र भाग है । तिन में छन्दोभाग में इस प्रकार का कथन है, जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात् वचन निकला हो; तैसे इस की उत्पत्ति; इकतीस सौ वर्ष से हुई है, और मन्त्रभाग को बने हुये उनतीस सौ वर्ष

हुये हैं। इस लिखने से क्या आश्चर्य है? जो किसी ने उल्टा पुल्ट के फिर नवीन वेद बना दिये हों। इन वेदों ऊपर अच्युत, सायण, रावण, महीधर, अरु शंकराचार्यादिकों ने भाष्य रनाये हैं, टीका दीपिका रची हैं। फिर अब उन प्राचीन भाष्य दीपिका को अयथार्थ ज्ञान के दयानन्द सरस्वती स्वामी अपने मत के अनुसार नवीन भाष्य बना रहे हैं। परन्तु पंडित ब्राह्मण लोक दयानन्द सरस्वती के भाष्य को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। अब देखना चाहिये क्या होता है? और जैनमत वालों ने तो जय से उन के शास्त्रों के लिखने मूजय आर्य वेद बिगड गये, उसी दिन से वेदों को मानना छोड़ दिया है।

जब श्रीऋषभदेव जी का कैलास पर्वत के ऊपर निर्वाण हुआ, तब सर्व देवता निर्वाण महिमा करने श्रीऋषभदेव का को आये। तिन सर्व देवताओं में से अग्नि निवाण कुमार देवता ने श्री ऋषभदेव की चिता में अग्नि लगाई तब से ही यह श्रुति लोक में प्रसिद्ध हुई है—“अग्निमुगा ध देवा” अर्थात् अग्नि कुमार देवता (सब देवताओं में मुख्य है। और अल्पबुद्धियों ने तो इस श्रुति का अर्थ ऐसा बना लिया है कि अग्नि जो है, सो तैतीस। फोड़ देवताओं का मुख्य है। यह प्रभु के निर्वाण का स्वरूप सब आश्चर्यक सूत्र से जान लेना।

जय देवताओं ने श्रीऋषभदेव की दाढ़ें धंगरे लीनी,

तब श्रावक ब्राह्मण मिल कर देवताओं को अतिभक्ति से याचना करते भये । तब वे देवता तिन को बहुत जान करके घड़े यत्न से याचने के पीड़े हुये देव्य कर कहते भये कि अहो याचका ! अहो याचका ! तब ही से ब्राह्मणों को याचक कहने लगे । तब ब्राह्मणों ने श्रीऋषभदेव की चिता में से अग्नि लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये, तिस कारण से ब्राह्मणों को अहिताग्नि कहने लगे ।

श्रीऋषभदेव की चिता जले पीछे दाढ़ादिक सर्व तो देवता ले गये, शेष मस्म अर्थात् राख रह गयी, सो ब्राह्मणों ने थोड़ी थोड़ी सर्व लोगों को दीनी । तिस राख को लोगों ने अपने मस्तक ऊपर त्रिपुंडाकार से लगायी, तब से त्रिपुंड लगाना शुरू हुआ । इत्यादि बहुत व्यवहार तब से ही चला है ।

जब भरत ने कैलास पर्वत के ऊपर सिंहनिपद्या नामा मंदिर बनाया, उस में आगे होने वाले तेईस तीर्थंकरों की और श्रीऋषभदेव जी की अर्थात् चौबीस प्रतिमा की स्थापना करी । और दंडरत्न से पर्वत को ऐसे छीला कि जिस पर कोई इत्य ग्रंथ से न चढ़ सके । उस में आठ पद (पगथिये) रक्खे । इस भाग, दूसरे कैलास पर्वत का दूसरा नाम अष्टापद कहते हैं । तब से ही कैलास महादेव का पर्वत कहलाया । महादेव अर्थात् बड़े देव, सो ऋषभदेव, तिस का स्थान कैलास पर्वत जानना ।

भरत अरु बाहुमली दोनों दीक्षा ले के मोक्ष गये । तब भरत के पीछे सूर्ययश गद्दी पर बैठा । तिस की औलाद सूर्यवशी कहलाई । तिस के पीछे सूर्ययश का जेदा महायश गद्दी पर बैठा, ऐसे ही अतिरत्न, महाबल, तेजवीय कीर्त्तिवीर्य अरु दण्डवीर्य, ये पाच अनुक्रम से अपने २ वाप की गद्दी पर बैठे । अपने २ राज का प्रवध करते रहे, परन्तु भरत के राज से इनों ने आधा (तीन खण्ड) राज्य करा, और भरत की तरे राज्य छोड कर मोक्ष में गये । इन के पीछे गद्दी पर असय पाट हुये, तिन की व्यवस्था चित्तातरगडिका से जान लेनी, यावत् जितराजुराजा हुआ ।

अब अजितनाथ स्वामी के उत्त का स्वरूप लिखते हैं ।

अयोध्या नगरी में श्रीभरत के पीछे जब श्री अजितनाथ असरय राजा हो चुके, तब इक्ष्वाकुवश में और सगर जितराजुराजा हुआ । विनीता नगरी का ही चक्रवर्ती दूसरा नाम अयोध्या है । परन्तु अब जो अयोध्या है, सो वो अयोध्या नहीं । वो तो कैलास पर्वत के पास थी, और यह तो नगरीन अयोध्या उस के नाम से बसी है । जितराजु राजा का छोटा भाई सुमित्र युवराज था । जितराजु की विजया देवी रानी थी तिस के चौदह स्वप्न पूर्वक अजितनाथ नामा पुत्र हुआ और सुमित्र की रानी यशोमती को भी चौदह स्वप्न देस पूर्वक सगरनामा पुत्र हुआ । जब दोनों याँवनवत हुए त

जितशत्रु और सुमित्र तो दीक्षा ले के मोक्ष हो गये । तब श्रीअजितनाथ राजा हुये श्ररु सगर युवराज हुये । कितनेक काल राज करके श्री अजितनाथजी ने तो स्वयमेव दीक्षा लेकर तप करा, और केवलज्ञान पा कर दूसरा तीर्थकर हुआ । पीछे सगर राजा हुआ । सो सगर दूसरा चक्रवर्ती हुआ है । इस सगर राजा ने भरत की तरें पट्ट खंड का राज्य करा ।

इस सगर राजा के जह्नुकुमार प्रमुख साठ हज़ार बेटे हुये । तिनों ने दण्ड रत्न से गंगा नदी को अपने असली प्रवाह से फेर के और कैलास के गिरदनवाह खाई खोद के उस खाई में गंगा को ला के गेरा । क्योंकि उन्होंने विचार करा था, कि हमारे बडे भरत ने जो इस पर्वत ऊपर सुवर्ण-रत्नमय श्रीऋषभादि तीर्थकरों का मन्दिर बनाया है, तिस की रक्षा वास्ते इस पर्वत के चारों ओर खाई खोद कर उस में गंगा फेर देवे, जिस से तीर्थ की विशेष रक्षा हो जावेगी । तिन साठ हज़ार को नाग देवता ने मार दिया, क्योंकि खाई खोदने और जल भरने से उन को तकलीफ पहुंची थी । तब गंगा के जल ने देश में बड़ा उपद्रव करा । तब सगर राजा के पोते जह्नु के बेटे भगीरथ ने सगर की आज्ञा से दण्डरत्न से भूमि खोद के गंगा को समुद्र में मिलाया । इसी वास्ते गंगा का नाम जाह्नवी और भागीरथी कहा जाता है ।

- सगर राजा ने श्रीशत्रुजय तीव ऊपर श्रीभरत के घनाये ऋषभदेव जी के मंदिर का उद्धार करा । तथा और जैनतीर्थों का भी उद्धार करा । तथा यह समुद्र भी भरत क्षेत्र में सगर ही देवता के सहाय से लाया । लंका के टापू में घेलाद्वय पत्रत से सगर की आज्ञा से घनवाहन पहिला राजा हुआ । आर लंका के टापू का नाम राक्षसद्वीप है, इस हेतु स घनवाहन राजा के वश के राक्षस कहलाये । इसी वश में राजा रावण और विभीषणादि हुये हैं । इत्यादि सगरचक्रवर्ती के समय का हाल त्रैसदशलंकापुरण चरित्र से जान लेना । क्योंकि तिस चरित्र के तेतीस हजार काव्य है । इस वास्ते में उस का सारा हाल इस ग्रंथ में नहीं लिख सकता हु, परन्तु सक्षेप मात्र वृत्तात लिखा है । सगरचक्रवर्ती राज्य करके पीछे श्री अजितनाथ जी के पास दीक्षा लेकर, समय तप करके केवल ज्ञान पा कर मोक्ष पहुचे । और अजितनाथ स्वामी भी समेतशिपर पर्वत के ऊपर शरीर छोड़ के मोक्ष गये ।

श्रीऋषभदेव स्वामी के निर्वाण से पचाम लाख फोडी सागरोपम के व्यतीत हुए श्रीअजितनाथ तीर्थंकर का निवाण हुआ । तिनों के पीछे तीस लाख फोडी सागरोपम व्यतीत हुये श्रीसमवनाथ जी तीसरे तीर्थंकर हुये । राज्य सर्व सूर्यवशी, चंद्रवशी, और बुरुजशी, आदिक राजाओं के घराने में रहा ।

अथ श्रावस्ती नगरी में इक्ष्वाकुवंशी जितारि राजा राज्य करता था, तिस की सेना नामा पटरानी थी । तिनों का संभव नामा पुत्र तीसरा तीर्थंकर हुआ । यह चौबीस ही तीर्थंकरों का वर्णन प्रथम परिच्छेद में यन्त्र और वार्त्ता में लिख आये हैं । इस वास्ते यहां संक्षेप से लिखेंगे । और तीर्थंकरों के आपस में जो अंतरकाल हैं सो भी यन्त्रों में देख लेना ।

इन के पीछे आयोध्या नगरी में इक्ष्वाकुवंशी संवर राजा और तिस की सिद्धार्था नामक रानी से अभिनन्दन नामक चौथा तीर्थंकर पुत्र हुआ । पीछे अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकुवंशी मेघराजा की सुमंगला रानी से सुमतिनाथ नामक पांचमा तीर्थंकर पुत्र हुआ । पीछे कौसंबी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी श्रीधर राजा की सुसीमा रानी से पद्मप्रभ नामक छठा तीर्थंकर पुत्र हुआ । पीछे वाराणसी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी प्रतिष्ठ राजा हुआ, तिसकी पृथ्वी नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री सुपाश्वनाथ नामा सातमा तीर्थंकर हुआ । पीछे चंद्रपुरी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी महासेन राजा हुआ, तिस की लक्ष्मणा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री चन्द्रप्रभ नामा आठमा तीर्थंकर हुआ । पीछे काकंदी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी सुग्रीव राजा हुआ, तिस की रामा नामक रानी, तिन का पुत्र श्री सुविधि नाथ अपरनाम पुष्पदन्त नवमा तीर्थंकर हुआ ।

यहा तक तो सर्व ब्राह्मण जैनधर्मी श्रावक और आर्य चारों वेदों के पढने वाले बने रहे । जब नवमे मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण तीर्थकर का तीर्थ व्यग्रच्छेद हो गया, तब से ब्राह्मण मिथ्यादृष्टि और जैनधर्म के द्वेषी और सर्व जगत् के पूज्य, कन्या, भूमि, गोदानादिक के लेने वाले, सर्व जगत् में उत्तम और सर्व के हर्ता कर्ता मर्ता के मालक बन गये । क्योंकि सूना घर देव के कुत्ता भी आटा खा जाता है । और जो जगत् में पाखंड तथा बुरे र देवतादिकों की पूजा है, तथा और भी जो जो कुमार्ग प्रचलित हुआ है, वे सर्व उन्हीं ने ही चलाये हैं । मानो आदीश्वर भगवान् की रची हुई सृष्टिरूप अमृत में जहर डालने वाले हुये । क्योंकि आगे तो जैनमत के और कपिल के मत के बिना और कोई भी मत नहीं था । कपिल के मतवाले भी श्रीआदीश्वर अर्थात् ऋषभदेव को ही देव मानते थे । निदान यह हुडा असर्पिणी में आश्चर्य गिना जाता है ।

तिस पीछे भदिलपुर नगर में इक्ष्वाकुवंशी दृढरथ राजा हुआ, तिस की नदा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री शीतलनाथ नामा दशमा तीर्थकर हुआ । इन ही के शासन में हरिवंश उत्पन्न हुआ है, तिस की कथा लिखते हैं ।

कौशाघी नगरी में धीरा नामा कोली रहता था, तिस की घनमाला नामा स्त्री अत्यन्त रूपरती हरिवंश की थी । सो नगर के राजा ने छीन के अपनी उत्पत्ति रानी बना ली । धीरा कोली स्त्री के विरह

से बावला हो गया—हा वनमाला हा! वनमाला! ऐसे कहता हुआ नगर में फिरने लगा। एकदा वर्षाकाल में राजा वनमाला के साथ महल के झरोखे में बैठा था। तब राजा रानी ने वीरे को तिस हाल में देख के बड़ा पश्चात्ताप करा, अरु विचार करने लगे कि हम ने यह बहुत बुरा काम करा। उसी वक्त विजली गिरने से राजा रानी दोनों मर के हरिवास क्षेत्र में युगल स्त्री पुरुष हो गये। तब वीरा कोली राजा रानी का मरण सुन के राजी हो गया। पीछे तापस वन के तप करा। अज्ञान तप के प्रभात्र किल्बिष देवता हुआ। तब अवधिज्ञान से राजा रानी को युगलिये हुये देख कर विचार करा, कि यह भद्रक परिणामी और अल्पारम्भी हैं, इस वास्ते मर के देवता होवेंगे, तो फिर मैं अपना वैर किस से लूंगा? इस वास्ते ऐसा करूं कि जिस से ये दोनों मर के नरक में जावें। ऐसा विचार के तिन दोनों को तहां से उठा करके भरत क्षेत्रमें चम्पा नगरी में लाया। वहां का इक्ष्वाकुवंशी चंडकीर्ति राजा अपुत्रिया मरा था लोक सब चिन्ता में बैठे थे, कि कौन यहां का राजा होवेगा। तब तिस देवता ने ये दोनों उन को सौंपे, और कहा कि यह तुमारा हरि नामा राजा हुआ, इस की यह हरिणी नामा रानी है, इन के खाने वास्ते तुम ने फलमिश्रित मांस देना और इन से शिकार भी कराना। तब लोगोंने तैसे ही करा। वे दोनों पाप के प्रभाव से मर के नरक में गये।

और उन की औलाद हरिवंशी कहलायी । इसी वंश में वसुराजा हुआ ।

इन श्री शीतलनाथ जी का भी शासन विच्छेद गया । इसी तरे पदरहवें तीर्थंकर तक सात तीर्थंकरों का शासन विच्छेद होता रहा, और मिथ्या धम चढ़ गये ।

तिस पीछे सिंहपुरी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी त्रिष्णु राजा हुआ, तिस की विष्णुश्री रानी तिनों का पुत्र श्रीश्रेयास नाथ नामा ग्यारमा तीर्थंकर हुआ । तिन के समय में प्रताप पवत से श्रीकूठ नामा विद्याधर के पुत्र ने पद्मोत्तर विद्याधर की बेटी को हर के अपने पहनोई राक्षसवंशी लका के राजा कीर्तिधवल की शरण गया । तब कीर्तिधवल ने तीन सौ योजन परिमाण वानर द्वीप उन के रहने को दिया । तिनों के सतानों में से चित्र विचित्र विद्याधरों ने विद्या से चद्र का रूप बनाया । तब वानर द्वीप के रहने से और वानर का रूप बनाने से वानरवंशी प्रसिद्ध हुये । तिनों ही की औलाद में चाली और सुग्रीवादिक हुये हैं ।

नथा श्रेयासनाथ के समय में पहिला त्रिपृष्ठ नामा वासुदेव हरिवंश में हुआ, तिस की उत्पत्ति त्रिपृष्ठ वासुदेव ऐसे हैं—पोतनपुर नगर में हरिवंशी जित-शत्रु नामा राजा हुआ, तिस की धारणी नामा रानी थी । तिस का अचल नामा पुत्र और मृगावती नामा बेटी थी, सो अत्यंत रूपवती और यौवनवती थी ।

उस को देख के उस के पिता जितशत्रु ने अपनी रानी बना लीनी । तब लोगों ने जितशत्रु राजा का नाम प्रजापति रक्खा, अर्थात् अपनी बेटी का पति ऐसा नाम रक्खा । तब ही से वेदों में यह श्रुति लिखी गई—

“प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विमित्यन्य
आहुरूपसमित्यन्येतामृश्योभूत्वारोहितं भूतामभ्यव तस्य
यद्रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसात्रादित्योभवत्।”

इस का भावार्थ यह है कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेटी से विषय सेवने को प्राप्त हुआ । हमारे जैनमत वालों की तो इस अर्थ से कुछ हानि नहीं, परन्तु जिन लोगों ने ब्रह्मा जी को वेदकर्त्ता, हिरण्यगर्भ के नाम से ईश्वर माना है और इस कथा को पुराणों में लिखा है, उन का फजीता तो जरूर दूसरे मतवाले करेंगे । इस में हम क्या करें, ? क्योंकि जो पुरुष अपने हाथों से ही अपना मुंह काला करे, तब उस को देखने वाले क्योंकर हंसी न करेंगे ? यद्यपि मीमांसा के वार्त्तिककार कुमारिल ने इस श्रुति के अर्थ के कलंक दूर करने को मनमानी कल्पना करी है । तथा—इस काल में दयानन्द सरस्वती ने भी वेदश्रुतियों के कलंक दूर करने को अपने बनाए भाष्य में खूब अर्थों के जोड़ तोड़ लगाये हैं ; परन्तु जो पुराणवाले ने कथानक लिखा है,

तिस को क्योंकर छिपा सकेंगे ? इस में यह मसल मराहर है कि वृद्ध की धान तो विलायत गई, अब क्यों घड़े रुडहाते हो । अच्छा हमारे मत में तो वेदथुति और ब्रह्मा (प्रजापति) का अर्थ यथार्थ ही करा है । अब जब त्रिपृष्ठ और अचल दोनों यौवनवत हुये, तब तिनों ने त्रिखण्ड के राजा अश्वघ्रीन को मार के तीन खण्ड का राज्य करा ।

तिस पीछे चवापुरी का इक्ष्वाकुवशी वसुपूज्य नामा राजा हुआ, तिस की जया नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री वासुपूज्यनाथ नामा बारहवा तीर्थंकर हुआ । तिनों के घारे दूसरा द्विपृष्ठ वासुदेव और अचल यलदेव हुये । और इन का प्रतिरात्र रावण समान तारक नामा दूसरा प्रतिवासुदेव हुआ । इन सब वासुदेव और चक्रवर्ती आदिकों का सम्पूर्ण वर्णन त्रैसठशालाकापुरुष चरित्र से जान लेना ।

तिस पीछे कपिलपुर नगर में इक्ष्वाकुवशी कृतवर्मा नामा राजा हुआ, तिस की श्यामा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री विमलनाथ नामा तेरहवा तीर्थंकर हुआ । तिनों के घारे तीसरा स्वयंभु वासुदेव और भद्रनामा यलदेव तथा मेरक नामा प्रतिवासुदेव हुये ।

तिस पीछे अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकुवशी सिंहमेन राजा हुआ, तिसकी सुयशा रानी, तिनों का पुत्र श्रीअनतनाथ नामा चौदहवा तीर्थंकर हुआ । तिन के घारे चौथा पुरुपोत्तम नामा वासुदेव और सुप्रभ नामा यलदेव तथा मधुकैटभ नामा

प्रतिवासुदेव हुये ।

तिस पीछे रत्नपुरी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी भानु नामा राजा हुआ, तिस की सुव्रता नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री धर्मनाथ नामा पंद्रहवां तीर्थंकर हुआ । तिन के वारे पांचमा पुरुपसिंह नामा वासुदेव और सुदर्शन नामा बलदेव तथा निगुंभ नामा प्रतिवासुदेव हुआ । यहां तक पांच वासुदेव हुये, सो पांचों ही अरिहंतों के सेवक अर्थात् जैनधर्मी हुये ।

तिस पीछे पंद्रहवें धर्मनाथ और सोलहवें श्रीशांतिनाथ जी के अंतर में तीसरा मघवा नामा चक्रवर्ती और चौथा सनत्कुमार नामा चक्रवर्ती हुये ।

तिस पीछे हस्तिनापुरी नगरी में कुरुवंशी विश्वसेन राजा हुआ, तिस की अचिरा रानी, तिन का पुत्र श्रीशांति नाथ नामा हुवा, सो पहिले गृहवास में तो पांचमा चक्रवर्ती था, पीछे दीक्षा लेके केवली होकर सोलवां तीर्थंकर हुआ ।

तिस पीछे हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी सूरनामा राजा हुआ, तिस की श्री रानी, तिनों का पुत्र श्रीकुंथुनाथ हुआ । सो प्रथम गृहस्थावस्था में छठा चक्रवर्ती था, अरु दीक्षा लिये पीछे सतरहवां तीर्थंकर हुआ ।

तिस पीछे हस्तिनापुर नगरी में कुरुवंशी सुदर्शन नामा राजा हुआ, तिस की देवी रानी, तिनों का पुत्र श्रीअरनाथ हुआ । सो गृहस्थावास में तो सातवां चक्रवर्ती था और दीक्षा लिये पीछे अठारहवां तीर्थंकर हुआ ।

अठारहवें और उन्नीसवें तीर्थंकर के अन्तर में आठवा
 बुरखशी सुभूम नामा चक्रवर्ती हुआ । इस सुभूम के
 वक्त में ही परशुराम हुआ । इन दोनों का सन्ध जैन-
 मत के शास्त्रों में जैसे लिखा है, तैसे में भी यहा लिख देता हू ।

यह कथा योग शास्त्र में ऐमे लिखी है, कि वसतपुर
 नामा नगर में उच्छिन्नप्रश नामा अर्थात्
 सुभूम चक्रवर्ती जिस का कोई भी सवन्धी नहीं था, ऐसा
 और परशुगम अग्नि नामा एक लड़का था । सो अग्नि
 एकदा किसी सायनारा के साथ देशांतर
 को गया । मार्ग में साथ से भूल के जगल में एक तापस
 के आश्रम में गया । तब कुलपति तापस ने तिस को अपना
 पुत्र बना के रख लिया । पीछे तहा अग्नि ने बड़ा भारी
 घोर तप करा और बड़ा तेजस्वी हुआ । जगत में यम
 दग्नि तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस अगसर में
 एक जैनमती विश्वानर नामा देव और दूसरा तापसों का
 भक्त ध्वनन्तरि नामा देव, यह दोनों देव परस्पर विवाद
 करने लग । तिस में विश्वानर तो ऐसा कहने लगा, कि
 श्रीअर्हत का कहा धर्म प्रामाणिक है, और दूसरा कहने
 लगा कि तापसों का धम सच्चा है । तब विश्वानर ने कहा
 कि दोनों धम के गुरुओं की परीक्षा कर लो । तिस में भी
 अर्हत धम के तो जघन्य गुरु की और तापस धम के उत्कृष्ट
 गुरु की परीक्षा—धैय देख लो । तब मिथिला नगरी का

पद्मार्थ राजा नया ही जिनधर्मी हो कर भावयति हुआ । सो चम्पानगरी में गुरुओं के पास दीक्षा लेने वास्ते जाता था, तिस को पंथ में तिन दोनों देवताओं ने देखा । तब रस्ते में दुःख देने वाले बहुत कंड़े, कंकरे बना दिये, तथा रस्ते के सिवाय दूसरे स्थान में बहुत कीड़े आदि जीव हर जगे बना दिये । तब राजा भावयति के भावों से कमल समान कोमल, नंगे पगों से उन कांटे, कंकरों के ऊपर चला जाता है, पगों में से रुधिर की ततीरियां छूटती हैं, तो भी जीवों संयुक्त भूमि ऊपर नहीं चलता है । तब देवताओं ने गीत नाटक का बड़ा प्रारंभ करा, तो भी वो राजा क्षोभायमान न हुआ । तब दोनों देवता सिद्धपुत्रों का रूप करके राजा को कहने लगे, हे महाभाग ! तेरी आयु अभी बहुत है, तू स्वच्छन्द भोगविलास कर, क्योंकि यौवन में तप करना ठीक नहीं, इस वास्ते जब तू वृद्ध हो जावेगा, तब दीक्षा ले लीजो । यह बात सुन कर राजा कहने लगा कि यदि मेरी बहुत आयु है, तब मैं बहुत धर्म करूंगा । क्योंकि जितना ऊंडा पानी होता है, तितनी ही कमल की नालि भी बढ़ जाती है । और यौवन में इंद्रियों को जितना है, सोई असली तप होता है । तब तिन देवताओं ने जाना कि यह तो कदापि चलायमान न होगा ।

पीछे वो दोनों देवता मिल कर सर्व से उत्कृष्ट जमदग्नि नापस के पास परीक्षा करने को गये । तब तिनों ने जिस की-

बटवृक्ष की जटा की तरे तो धरती से जटा लग रही है, और पगों में सर्पों की बबिया बन गई हैं, ऐसे हाल में जमदग्नि को देखा। तब उन दोनों देवताओं ने देवमाया में जमदग्नि की दाढ़ी में घोंसला बना कर, चिड़ा और चिड़ी बनकर घोंसले में दोनों बैठ गये। पीछे चिड़ा चिड़ी से कहने लगा, कि मैं हिमवत पर्वत में जाऊंगा। तब चिड़ी कहने लगी, कि मैं तुझे कभी न जाने दूंगी। क्योंकि तू तहा जाके किसी और चिड़ी से आसक्त हो जावेगा। फिर मेरा क्या हाल होवेगा? तब चिड़ा कहने लगा कि जो मैं फिर कर न आऊ, तो मुझे गौघात का पाप लगे। तब चिड़ी कहने लगी कि मैं तेरी शपथ को नहीं मानती। हा जो मैं शपथ—सौगद कहूँ वो तू करे, तो मैं जाने दूंगी। तब चिड़े ने कहा कि तू कह दे। तब चिड़ी कहने लगी कि जो तू किसी चिड़ी से यारी करे तो इस जमदग्नि का जो पाप है, सो तुझ को लगे। चिड़ा चिड़ी का ऐसा उचन सुन के जमदग्नि को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब दोनों हाथों से चिड़ा चिड़ी को प्रकड़ लिया, और कहा कि मैं तो बड़ा दुष्कर तप जो पापों का नाश करने वाला है, सो कर रहा हूँ। तो फिर मेरे में ऐसा कौन सा पाप शेष रह गया है कि जिस से तुम मुझे पापी बतलाते हो? तब चिड़ा जमदग्नि को कहता है, हे ऋषि! तू हमारे ऊपर क्रोध मन कर, क्योंकि हमने झूठ नहीं कहा है। और जो तेरे को अपने तप का घमण्ड है, सो तप

तेरा निष्फल है । क्योंकि तुमारे शास्त्रों में लिखा है—
 “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” अर्थात् पुत्र रहित की गति
 नहीं । यह तुमने शास्त्र में नहीं सुना ? जिस की शुभगति न
 हुई तिस से अधिक और पापी कौन है ? तब जमदग्नि ने
 सोचा कि हमारे शास्त्र में तो जैसे चिडे ने कहा है, तैसे
 ही है । तब मन में विचारा कि जब मेरे स्त्री और पुत्र
 नहीं, तब मेरा सर्व तप ऐसा है, जैसा पानी के प्रवाह में
 सूतना । पीछे जमदग्नि के मन में स्त्री की चाहना उत्पन्न
 हुई । यह देख के ध्वनंतरि देवता श्रावक जैनधर्मों हो गया ।
 अरु वहां से दोनों देवता अदृश्य हो गये । और जमदग्नि
 तहां से उठ के नेमिक कोष्टक नगर में पहुंचा ।

तिस नगर में जितशत्रु राजा था, तिस के बहुत वेदियां
 थी । तिस राजा पासों एक कन्या मांगू, ऐसा विचार किया ।
 राजा भी आसन से उठ के और हाथ जोड़ के कहता भया,
 कि आप किस वास्ते आये हो ? और मुझे आदेश दी कि
 क्या करूं ? तब जमदग्नि ने कहा कि मैं तेरे पास तेरी एक
 कन्या मांगने आया हूं । तब राजा ने कहा कि मेरी सौ
 पुत्री हैं, तिन में से जौनसी तुम को वांछे सो तुम ले लो ।
 तब जमदग्नि कन्याओं के महल में गया, ओर कहने लगा
 कि तुम में से जिस ने मेरी धर्मपत्नी बनना है, सो कह
 देवे कि मैं तुमारी स्त्री बनूंगी । तब तिन राजपुत्रियों ने
 जटावाला और पलित-धीले केशों वाला, दुर्बल और भीख

माग के खाने वाला जब देखा और उस का पूर्वाक्त वचन सुना, तब सत्र ने धुका और कहा कि ऐसी बात कहते हुये तुझ को लजा नहीं आती है ? यह बात सुन कर जमदग्नि को बड़ा क्रोध चढ़ा, तब विद्या के प्रभाव मे उन राजपुत्रियों को बुवडी और महा पुरूषवती बना दिया । अरु आप तहा मे निकल के महलों के अगन में आया । तहा एक छोटी राजा की बेटी रेणुपुत्र—मट्टी के ढेर में रोल् रही थी । तिस को हाथ में विजोरे का फल ले कर कहने लगा, ह रेणुका । तू मुझ को वाछती है ? तब तिस धालिका ने विजोरे को देख के हाथ पसारा । तत्र मुनि ने कहा कि मुझ को यह वाछती है ऐसे कहकर मुनि ने उसको ले लिया । पोछे राजा ने कितनीक गौश्रा और धन देकर लड़की का विवाह उस के साथ विधि से कर दिया । तब जमदग्नि ने सालियों के स्नेह से सत्र कन्याओं को अच्छा कर दिया । और तिस रेणुका भार्या को ले कर अपने आश्रम में आया ।

पाँठे तिस मुग्धा, मधुर आश्रति हरिणी समान लोलाक्षी को प्रेम से वृद्धि करता मया । जमदग्नि के अगुलियों ऊपर दिन गिनते हुए जब यो रेणुका सुश्रुत यौवन काम क लीला का प्रीति प्राप्त हुई, तब जमदग्नि ने अग्नि की सार्द्धा करके रेणुका से फिर विवाह करा । जब रेणुका ऋतुफाल को प्राप्त हुई, तत्र जमदग्नि कहने लगा कि मैं तेरे वास्ते चर साधता हूँ । [चर होम में डालने की वस्तुओं को कहते हैं] जिस से

सर्व ब्राह्मणों में उत्तम प्रताप वाला तेरे को पुत्र होवेगा । तब रेणुका ने कहा कि हस्तिनापुर में कुरुवंशी अनंतवीर्य राजा को मेरी बहिन व्याही है । तिस के वास्ते तू क्षत्रिय चरु भी साथ, अर्थात् मन्त्रों में संस्कार करके सिद्ध कर । पीछे जमदग्नि ने ब्राह्मण चरु तो अपनी भार्या वास्ते अरु क्षत्रिय चरु तिस भार्या की बहिन वास्ते सिद्ध करा । तब रेणुका ने मन में विचार करा, कि मैं जैसे अटवी में हरिणी की तरे रहती हूं, तो मेरा पुत्र भी वैसे ही जंगलों में रहेगा; इस वास्ते मैं क्षत्रिय चरु भक्षण करूं, तिस से मेरा पुत्र राजा हो के इस जंगल के वास से छूट जावे । ऐसा विचार के क्षत्रिय चरु खा लिया, और ब्राह्मण चरु अपनी बहिन की भक्षण कराया । तब तिन दोनों के दो पुत्र हुये । तिस में रेणुका के तो राम नामक पुत्र हुआ, और रेणुका की बहिन के कृतवीर्य पुत्र हुआ । क्रम से दोनों बड़े हुये, राम तो आश्रम में पला, और कृतवीर्य राजमहलों में पला । राम तो ज्ञात्रतेज अर्थात् क्षत्रियपने की तेजी दिखाने लगा ।

अन्यदा एक विद्याधर अतिसार रोग वाला तिस आश्रम में आ गया । अतिसार के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या भूल गया । तब तिस मांड़े विद्याधर की राम ने औषध पथ्यादि करके भाई की तरे सेवा करी । पीछे तिस विद्याधर ने तुष्टमान हो के राम को परशुविद्या दीनी । तब

राम भी सरकडे क बन में जाकर तिस विद्या को सिद्ध करता मया । तिस विद्या के प्रभाव से राम परशुराम नाम करके जगत् में प्रसिद्ध हुआ ।

एकदा अपने जमदग्नि पति को पूछ के रेणुका उड़ी उत्कठा से अपनी बहिन के मिलने वास्ते हस्तिनापुर में गई । तहा रेणुका को अपनी साली जान कर अनन्तवीर्य राजा हसी मश्करी करने लगा, और रेणुका का बहुत सुन्दर रूप देख कर कामातुर हो के उस के साथ निरकुश हो कर विषय सेवन करने लगा । तत्र अनन्तवीर्य के भोग से रेणुका के एक पुत्र जन्मा । पीछे जमदग्नि पुत्र सहित रेणुका को आश्रम में लाया । क्योंकि पुरुष जब स्त्रियों का लुब्ध हो जाता है, तब बहुलता से कोई भी दोष नहीं देखता है । जब परशुराम ने अपनी माता को पुत्र सहित देखा, तब क्रोध में आकर परशु से अपनी माता का और तिस लड़के का शिर काट डाला । जब यह वृत्तात अनन्तवीर्य राजा ने सुना, तब क्रोध में भर कर और फौज लेकर जमदग्नि का आश्रम जला फूक, तोड़ फोड़ गेरा, और सब तापसों को घासमान करा । तब तापसों ने दौड़ते हुये जो रौला करा, तिस को परशुराम ने सुना और सारा वृत्तात सुन के परशु ले के राजा की सेना ऊपर दौड़ा । परशुराम ने परशु से राजा और राजा की सेना सुभटों को पाष्ठ की तरे फाड़ के गेर दिया । आप पीछे आश्रम

में चला गया। उन्नर प्रधान राजपुरुषों ने अनंतवीर्य के बेटे कृतवीर्य को राजसिंहासन ऊपर बिठाया, परन्तु वो उमर में छोटा था। एक दिन अपनी माता के सुगम में अपने पिता के मरने का वृत्तांत सुन के सर्प के डंभे हुये की तरे आ कर जमदग्नि को मार दिया। तब परशुराम अपने पिता का वध देख के क्रोध में जाज्वल्यमान हो कर हस्तिनापुर में आके कृतवीर्य को मार के आप राजसिंहासन ऊपर बँठ गया। क्योंकि राज्य जो है, सो पराक्रम के अधीन है। तब कृतवीर्य की तारा नामा गर्भवती रानी परशुराम के भय से दौड़ कर किसी जंगल में तापसों के आश्रम में गई। तब तिन तापसों ने दया करके तिस रानी को अपने मठ के भँहरे में निधान की तरे छिपा के रक्खा। तहां तिस रानी के चौदह स्वप्न सूचित पुत्र जन्मा। तिस का नाम तिस की माता ने सुभूम रक्खा। क्षत्रिय जो जहां मिलता है, तहां ही परशुराम का कुहाड़ा जाज्वल्यमान हो जाता है। तब परशुराम परशु से क्षत्रियों का शिर काट देता है।

अन्यदा परशुराम जहां छिपी हुई रानी पुत्र सहित रहती थी, तिस आश्रम में आया। तहां परशुराम का परशु जाज्वल्यमान हुआ, तब परशुराम ने तापसों को पूछा, क्या यहां कोई क्षत्रिय है। तब तापसों ने कहा कि हम गृहस्थावास में क्षत्रिय थे। तब परशुराम ने भी ऋषियों को छोड़ के सात वार निःक्षत्रिय पृथ्वी करी। अर्थात् सात वार चढ़ाई

करके अपनी जान में कोई भी क्षत्रिय चाकी नहीं छोड़ा। जैसे अग्नि पर्वत ऊपर घास को नहीं छोड़ती है, तैसे परशुराम ने भी जो जो क्षत्रिय राजादि प्रसिद्ध थे, तिनों को मार के तिनों की दाढ़ों से एक थाल भरा। और परशुराम ने छाना निमित्तिये को पूछा कि मेरा मरना किस के हाथ से होगा ? तब निमित्तिये ने कहा कि जो तूने दाढ़ों से थाल भरा है, सो थाल जिस के देखने से दाढ़ों की क्षीर बन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर बैठ के जो तिस क्षीर को खायगा, तिस के हाथ से तेरा मरण होवेगा। यह सुन कर परशुराम ने दानशाला बनाई, और दानशाला के आगे एक सिंहासन रचाया, तिस ऊपर क्षत्रियों की दाढ़ों वाला थाल रखवाया।

अब इधर तापसों के आश्रम में प्रतिदिन तापस सुभूम बालक को लाड़ लड़ाते, खिलाते, अगन के वृक्ष की तरे वृद्धि करते हुये रहते हैं। इस अवसर में मेघ नामा विद्याधर किसी निमित्तिये को पूछने लगा कि मेरी जो पद्मश्री कन्या है, तिस का घर कौन होवेगा ? तब तिस निमित्तिये ने सुभूम घर बतलाया, और उस का सर्व वृत्तात भी सुना दिया। तब मेघ विद्याधर ने अपनी बेटी सुभूम को व्याही और तिस का ही सेवक बन गया।

एकदा कूप के मेंडक की तरे और कहीं न जाने से सुभूम अपनी माता को पूछने लगा कि हे माता ! इतना ही लोक

हैं, कि जिस में हम रहते हैं, क्या इस से अधिक भी है ? तब माता कहने लगी हे पुत्र ! लोक तो अनंत है । तिस में मन्खी के पग जितनी जगा में यह आश्रम है । इस लोक में बहुत प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर है । तिस नगरी का राजा तेरा पिता कृतवीर्य था, परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार के हस्तिनापुर का राजा बन गया है । और तिस परशुराम ने निःक्षत्रिय पृथ्वी कर दी है । तिस परशुराम के भय से हम यहां आश्रम में छिपे हुये बैठे हैं । अपनी माता का यह कहना सुन के सुभूम भौम की तरे अर्थात् मंगल के तारे की तरे लाल हुआ, और तहां से निकल के सीधा हस्तिनापुर में आया । तब लोगों ने पूछा कि तू ऐसा अत्यद्भुत सुंदर किस का बेटा है ? तब कहा कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ । तब लोगों ने कहा कि तू यहां जलती आग में क्यों आया ? तब तिस ने कहा कि मैं परशुराम को मारने वास्ते आया हूँ । तब लोगों ने बालक जान के उस की बात ऊपर कुछ ख्याल न करा । तब सुभूम सिंह की तरे उस पूर्वोक्त सिंहासन ऊपर जा के बैठा, और तहां देवता के विनियोग से दाढ़ों की क्षीर बन गई । तिस को सुभूम खाने लग गया । तब तहां जो रखवाले ब्राह्मण थे, वे सर्व सुभूम को मारने को उठे । तब मेघनाद विद्याधर ने सब ब्राह्मणों को मार दिया । तब कांपता हुआ और हीठों को चवाता हुआ, क्रोध में भरा हुआ, ऐसा परशुराम कोहाड़ा (परशु) लेके सुभूम

को मारने आया । परशुराम ने सुभूम के मारने को परशु चगया जो परशु सुभूम तक पहुचने से पहिले ही आग के अगारे की तरे धुक्त गया । विद्या देवी जो थी, सो सुभूम के पुण्य प्रभाव से परशु को छोड़ के भाग गई । तब सुभूम ने शत्रु के अभाव से थाल ही उठा के परशुगाम को मारा, तिस थाल का चक्र बन गया, तिस चक्र ने परशुराम का मस्तक फाट गेरा । तिस चक्र से ही सुभूम आठवा चक्रवर्ती हुआ ।

इस कथा पर लोगों ने जो यह कथा बना रखी है, सो ठीक नहीं है । सो कथा कहते हैं । जैसे कि परशुराम परशु से क्षत्रियों को फाटता हुआ रामचन्द्र जी के पास पहुचा, और परशु से रामचन्द्र जी को मारने लगा । तब रामचन्द्र जी ने नरमाई से पगचपी करके उस का तेज हर लिया, तब परशुराम का परशु हाथ से गिर पड़ा, और फिर न उठा सका । यह श्रीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यह तो सुभूम नामा आठवा चक्रवर्ती था, जिस ने परशुराम का काम तमाम किया । इस कथा के बनाने वालों ने परशुराम की हीनता दूर करने को श्रीरामचन्द्र जी का सम्बन्ध लिख दिया है । है असल में सुभूम चक्रवर्ती । लिखने वालों ने यह भी सोचा होगा कि एक अवतार ने दूसरे अवतार का अणु खाँच लिया, इस में परशुराम की लघुता न होयेगी । परन्तु यह नहीं सोचा होगा कि दोनों अवतार अज्ञानी बन

जायेंगे। जब परशुराम आप ही अपने अंग को कोहाड़े से काटने लगा, तब तिस से और अधिक श्रद्धालु कौन बनेगा ? जब सुभूम चक्रवर्ती आठमा हुआ, तब जैसे परशुराम ने सात बार निःक्षत्रिया पृथ्वी करी थी, तैसे सुभूम ने पिछले वैर से इक्कीस बार निर्वाहण पृथ्वी करी। अपनी जान में कोई भी ब्राह्मण जीता नहीं छोड़ा। इसी वास्ते इन राजाओं की ब्राह्मणों ने दैत्य, राक्षस के नाम से पुस्तकों में लिख दिया है। यह दोनों मर के अधोगति में गये।

इस सुभूमचक्रवर्ती से पहिले इसी अंतरे में छठा पुरुष-पुंडरीक वासुदेव तथा आनन्द नामा बलदेव और बलि नामा प्रतिवासुदेव हुये। तथा सुभूम के पीछे इस अंतरे में दत्त नामा सातमा वासुदेव तथा नंद नामा बलदेव और प्रह्लाद नामा प्रतिवासुदेव हुये।

तिस पीछे मिथुला नगरी में इक्ष्वाकुवंशी कुम्भ राजा हुआ, तिस की प्रभावती रानी, तिन की पुत्री मल्लिनाथ नामा उन्नीसवां तीर्थकर हुआ।

तिस पीछे राजगृह नगरी में हरिवंशी सुमित्र हुआ, तिस की पद्मावती रानी, तिन का पुत्र मुनिसुव्रत नामा बीसवां तीर्थकर हुआ। इन्नों के समय में महापद्म नामा नवमा चक्रवर्ती हुआ। तिस का सम्बंध त्रैसठरालाकापुरुष-चरित्र से जान लेना; परन्तु तिस के भाई विष्णुकुमार का थोड़ा सा सम्बंध यहां लिखते हैं।

हस्तिनापुर नगर में पद्मोत्तर नामा राजा, तिस की ज्वाला देवी रानी, तिन का बड़ा पुत्र विष्णुकुमार, विष्णुमुनि तथा और छोटा पुत्र महापद्म हुआ । तिस अवसर नमुचिबल में अचती नगरी में श्रीधर्म नामा राजा का मंत्री नमुचि [अपर नाम रल] मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण था । इस ने श्रीमुनिसुवन तीर्थकर के शिष्य श्री सुवताचार्य के साथ अपने मन का विवाह करा, बाद में हार गया । तब रात्रि को तलवार ले के आचार्य को मारने चला, रास्ते में पग थम गये । राजा ने यह बात सुन के अपने राज्य से बाहिर निकाल दिया । तब नमुचि बल तहा से चल के हस्तिनापुर में युवराज महापद्म की सेवा करने लगा । किसी काम से तुष्टमान हो के महापद्म ने तिस को यथेच्छा वर दिया । पीछे पद्मोत्तर राजा और विष्णुकुमार दोनों ने सुवत गुह के पास दीक्षा ले लीनी । पद्मोत्तर मोक्ष गया और विष्णुकुमार तप के प्रभाव से महालधिमान् हुआ ।

इस अवसर में सुवताचार्य फिर हस्तिनापुर में आये । तब नमुचिबल ने विचारा कि यह वर लेने का अवसर है । तब महापद्म चमत्कर्त्ता मे वितति करी कि मैंने जैसे वेदों में कहा है, तैसे एक महायज्ञ करना है, इस वास्त में पूर्वोक्त घर भागना चाहता हू । तब महापद्म ने कहा कि माग । तब नमुचि ने कहा कि मुझे कितनेक दिन तक अपना सयं राज दे दो । यह सुनकर महापद्म ने उस के कहे दिन तक सर्वराज

उसे दे कर आप अपने अंतेउरों में चला गया । तब नमुचिवल ने नगर से निकल के यज्ञ वास्ते यज्ञपाड़ा बनाया । उस में दीक्षा ले के आसन ऊपर बैठा । तब जैनमत के साधु छोड़ के दूसरे सर्व पाखण्डी भिक्षु और गृहस्थ भेटना ले के आये । भेट दे के सर्व ने नमस्कार करा । तब नमुचिवल ने पूछा कि जो नहीं आया होवे, ऐसा तो कोई रहा नहीं ? तब लोगों ने कहा कि जैनमती सुव्रताचार्य वर्ज के सर्व दर्शनी आ गये हैं । तब नमुचिवल ने यह छिद्र प्रगट करके और क्रोध में भर के सिपाही बुलाने को भेजे । और कहला भेजा कि राजा चाहे कैसा ही हो, तो भी सर्व को-मानने योग्य है, उस में भी साधुओं को तो विशेष करके मानना चाहिये । क्योंकि राजा से उपरांत ऐसे अनाथ लिंगियों की रक्षा करने वाला कौन है ? तथा मेरा तुम कुछ करने को समर्थ नहीं, और बड़े अभिमानी हो, तथा हमारे धर्म के निदक हो, इस वास्ते मेरे राज से बाहिर हो जाओ । जो रहेगा, उस को मैं मार डालूंगा, इस में मुझे पाप भी नहीं होगा ।

तब गुरु ने आकर मीठे वचन से कहा कि हमारा यह कल्प नहीं कि गृहस्थ के कार्य में जाना । परन्तु हम अभिमान से ही नहीं आये, ऐसा मत समझना, क्योंकि साधु समभाव से अपने धर्मकृत्य में लगे रहते हैं । तब नमुचिवल अति शांतवृत्ति वाले मुनियों को कठोर हो कर कहने

लगा, कि सात दिन के अंदर मेरे राज से गहिर हो जाओ जो रहेगा, सो भारा जायगा । यह सुन के सब साधु अपने तपोवन में आये, और सोचने लगे कि अब क्या उपाय करें । तब एक साधु कहने लगा कि महापद्म चक्रवर्ती का बड़ा भाई विष्णुमुनि लब्धिपात्र है, अर्थात् बड़ी शक्तिगाला मेरु पर्वत ऊपर है, तिस के कहने से यह नमु चिबल प्रशात हो जायेगा । इस वास्ते कोई चारण साधु उस को यहा बुला लावे, तो ठीक है । तब एक साधु बोला कि मेरी बहा मेरु पर्वत पर जाने की तो शक्ति है, परंतु पीछे आपने की शक्ति नहीं है । तब गुरु कहने लगे कि तुम को पीछे विष्णुमुनि ही यहा ले आवेंगे, तुम जाओ । तब वो साधु लब्धि से एक क्षण में तहा गया और सर्व वृत्तात सुनाया । तब विष्णुमुनि ने उस साधु को भी साथ ले कर तत्काल गुरु के पास आ के बंदना करी । पीछे गुरु की आज्ञा से अकेला ही राज सभा में आया । तब नमुचिबल के बिना सभा के और सब लोगों ने उठ के बंदना करी ।

तब विष्णुमुनि ने धर्मोपदेश देकर कहा कि नि सगी साधुओं से घर करना महा नरक का कारण है, क्योंकि साधु किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं । और जगत तो बडे पुरुषों को नमस्कार करता है । किसी शास्त्र में मुनि निंदे नहीं है । तो फिर यह आश्चर्य है, कि तुच्छ, क्षणिक

राज के पाने से अन्धे, अधम पुरुष अपने को साधुओं से नमस्कार कराया चाहते हैं। और नमुचिवल को कहा कि तू इस बुरे काम को जाने दे, जिस से साधु सब सुख से रहें। और तू क्यों मत्सर में मगन हो के अपना आप बिगाड़ा चाहता है। साधु चौमासे में विहार करते नहीं क्योंकि चौमासे में जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाती है। और सर्व जगें तेरा ही राज्य है, तो सर्व साधु सात दिन में कहां चले जाएं ? तब नमुचिवल कुकाष्ट की तरफ होकर बोला कि बहुत कहने से क्या है ? पांच दिन से उपरांत जो कोई तुमारा साधु मेरे राज्य में रहेगा, तो मैं उस को चोर की तरफ बद्ध करूंगा। और तू हमारे मानने योग्य है, इस वास्ते तू जा कर साधुओं को कह दे, कि जो जीवना चाहते हो, तो नमुचि के राज्य से बाहिर चले जाओ क्योंकि राज्य ब्राह्मण का है। और तेरे मान के रखने वास्ते तीन कदम अर्थात् तीन डग जगा देता हूं। तिस से बाहिर जिस साधु को देखूंगा, तिस का शिर छेद करूंगा। तब विष्णुमुनि ने विचारा कि यह साम अर्थात् मीठे वचनों के योग्य नहीं, यह तो बड़ा पापी साधुओं का घातक है, इस की जड़ ही उखाड़नी चाहिये। तब विष्णुमुनि ने कोप में आ कर वैक्रिय लब्धि से लाख योजन की देह बनाई, एक डग से तो भरतक्षेत्रादि मापा और दूसरी डग पूर्वापर समुद्र ऊपर धरी और तीसरी डग नमुचिवल

के शिर ऊपर रख के सिंहासन से हेठ गेर के धरती में धुसेड़ दिया । नमुचि मर के नरक में पहुच गया । और विष्णुमुनि को देवताओं ने कानों में मधुर गीत सुना कर शात करा । तब शरीर को सकोच के गुरा के पास जा कर आलोचना करी, पाप का प्रायश्चित्त ले कर विहार कर गया । जप तप कर समय पाल के मोक्ष गया ।

इस कथा से ऐसा मालूम होता है कि ब्राह्मणों ने पुराणों में जो लिखा है, कि विष्णु भगवान् ने वामनरूप करके यज्ञ करते बलिराजा को छला, सो यही विष्णुमुनि अरु नमुचि की कथा को धिगाड़ के अपने मत के अनुसार धार की और कथा बना लीनी है । क्योंकि श्रीभगवान् को क्या गरज थी, कि जो बर्मा बलिराजा यज्ञ करने वाले के साथ छल करता ? यह कहना तो केवल बुद्धिहीनों का काम है, कि भगवान् ने अपनी पेट्टी तथा परखी से विषय सेवन करा, तथा झूठ बोला, औरों से बुलाया, चोरी करी, औरों से करायी, भगवान् ने कुशील सेवन करा, छल से मारा, कपट करा । क्योंकि ये काम तो नीचजनों के करने के हैं, श्री वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर यह काम कभी भी नहीं करता । और करने वाले को परमेश्वर भूल के भी कभी न मानना चाहिये ।

धीसमे और इकीसमे तीर्थंकर के अन्तर में धीअयोध्या नगरी के दशरथ राजा की कौशल्या रानी का पद्म—श्रीराम

चन्द्र नामा पुत्र हुआ। सो आठमा बलदेव और दशरथ राजा की सुमित्रा रानी का पुत्र नारायण अपर नाम लक्ष्मण, सो आठमा वासुदेव हुआ। जिनों का प्रतिशत्रु रावण प्रति-वासुदेव लंका का राजा हुआ, सो जगत् में प्रसिद्ध है। इन तीनों का यथार्थ स्वरूप पद्मचरित्र से जान लेना।

परन्तु लौकिक रामायण में जो रावण के दश शिर लिखे हैं, सो ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य के रावण और उस स्वाभाविक दश सिर कदापि नहीं हो सकते के दश मुख हैं। पद्मचरित्र प्रथमानुयोग शास्त्र में लिखा है, कि रावण के बड़े बड़े की परंपरा से एक बड़ा नव माणिक का हार चला आता था, सो रावण ने बालावस्था से अपने गले में पहिर लिया था। और वे नौ ही माणिक बहुत बड़े थे, सो चार माणिक एक पासे स्कंध के ऊपर हार में जड़े हुये थे। और पांच माणिक दूसरे पासे जड़े हुए थे। दोनों स्कंधों ऊपर नव माणिकों में नवमुख दीखते थे, और एक रावण का असली मुख था। इस वास्ते दशमुख वाला रावण कहा जाता है। तथा रावण के समय से ही हिमालय के पहाड़ में बद्रीनाथ का तीर्थ उत्पन्न हुआ है, तिस की उत्पत्ति जैनमत के शास्त्रों में ऐसे लिखी है, कि यह असल में पार्श्वनाथ की मूर्ति थी, तिस का ही नाम बद्रीनाथ रक्खा गया है। इस का पूरा स्वरूप गद्यबंध पार्श्व-पुराण से जान लेना।

तिस पीछे मिथुलानगरी में इक्ष्वाकुवशी विजयसेन राजा की विप्रा रानी का पुत्र श्रीनमिनाथ नामा इक्कीसमा तीर्थकर हुआ। तिनों के वारे हरिपेण नामा दसमा चक्रवर्त्ता हुआ है। तथा इस इक्कीसमे और चावीसमे तीर्थकर के अतर में ग्यारहवा जय नामा चक्रवर्त्ता हुआ।

तिस पीछे सौरीपुर नगर में हरिवशी समुद्रविजय राजा हुआ, तिस की शिवा द्वा रानी, तिन का श्री कृष्ण और पुत्र श्रीभरिष्णेमि नामा चावीसमा तीर्थकर बलभद्र हुआ। तिनों के वारे तिनों के चचे के बेटे नवमे कृष्णवासुदेव और राम बलदेव-बलभद्र बलदेव हुए। इनका प्रतिघत्रु जरसिंध प्रतिवासुदेव हुआ। तिन में कृष्ण अरु बलभद्र तो जगत् में बहुत प्रसिद्ध हैं। परन्तु जो लोक श्रीकृष्ण वासुदेव को साक्षात् ईश्वर तथा ईश्वर का अवतार जगत् का कर्त्ता मानते हैं, सो ठीक नहीं। क्योंकि यह बात कृष्ण वासुदेव के जीते हुये नहीं हुई। किंतु उन के मरे पीछे लोक कृष्ण वासुदेव को अवतार मानने लगे हैं। तिस का हेतु त्रेसठशलाकापुष्पचरित्र में ऐसे लिखा है—

जब कृष्ण वासुदेव ने कुसुमरी वन में शरीर छोड़ा, तब काल करके बालुप्रभा पृथ्वी—पाताल में गये। और बलभद्र जी एक सौ वर्ष जैनदीक्षा पाळ के पाचमे ब्राह्मदेवलोक में गये। वहा अचधिज्ञान से अपने भाई श्रीकृष्ण को पाताल में

तीसरी पृथ्वी में देखा। तब भाई के स्नेह से वैक्रिय शरीर बना कर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और श्रीकृष्ण से आलिङ्गन करके कहा कि मैं बलभद्र नामा तेरे पिछले जन्म का भाई हूँ, मैं काल करके पांचमे ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुआ हूँ, और तेरे स्नेह से यहां तेरे पास मिलने को आया हूँ, सो मैं तेरे सुख वास्ते क्या काम करूं ? इतना कह कर जब बलभद्र जी ने अपने हाथों पर कृष्ण जी को लिया, तब कृष्ण का शरीर पारे की तरे हाथ से क्षर के भूमि ऊपर गिर पड़ा, और मिल कर फिर सम्पूर्ण शरीर पूर्ववत् हो गया। इसी तरे प्रथम आलिङ्गन करने से फिर वृत्तांत कहने से और हाथों पर उठाने से कृष्णजी ने भी जान लिया कि यह मेरे पूर्व भव का अति बल्लभ बलभद्र भाई है। तब कृष्ण जी ने संभ्रम से उठ के नमस्कार करा, तब बलभद्र जी ने कहा, हे भ्राता ! जो श्री नेमिनाथ ने कहा था कि यह विषय सुख महा दुःखदाई है, सो प्रत्यक्ष तुम को प्राप्त हुआ। और तुम्हें कर्मनियंत्रित को मैं स्वर्गमें भी नहीं लेजा सकता हूँ; परन्तु तेरे स्नेह से तेरे पास मैं रहा चाहता हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि हे भ्राता ! तेरे रहने से भी तो मैंने करे हुये कर्म का फल अवश्यमेव भोगना ही है। परन्तु मुझ को इस दुःख से वो दुःख बहुत अधिक है, जो मैं द्वारिका और सकल परिवार के दग्ध हो जाने से एकला कुसुंवी वन में जराकुमार के तीर से मरा, और मेरे शत्रुओं को सुख तथा मेरे मित्रों को दुःख हुआ। जगत्

मं सर्वं यदुवशीं रचनाम ह्ये । इस वास्ते हे भ्राता ! तू भरतखण्ड में जा कर चक्र, शङ्ख, शस्त्र, गदा का धरने वाला और पीत-पीले चम्ब्र वाला, तथा गरुड ध्वजा वाला ऐसा मेरा रूप बना कर विमान में बैठ कर लोगों को दिखला । तथा नीलग्रन्थ और तालध्वज अरु हल, मूसल, शस्त्र का धरने वाला, ऐसा तू विमान में बैठ के अपना रूप सब जगें दिखला कर लोगों को कहो, कि राम कृष्ण दोनों हम अविनाशी पुरुष हैं, और स्वेच्छा विहारी हैं । जब लोगों को यह सत्य प्रतीत हो जावेगा, तब हमारा सब अपयश दूर हो जावेगा । यह श्रीकृष्णजी का कहना सर्व श्रीरामभद्र जी ने स्वीकार कर लिया, और भरतखण्ड में आकर कृष्ण बलभद्र दोनों का रूप करके सर्व जगें विमानारूढ दिखलाया । और ऐसे कहने लगा—

भो लोको ! तुम कृष्ण बलभद्र अर्थात् हमारे दोनों की सुन्दर प्रतिमा बना कर ईश्वर की बुद्धि से बड़े आदर से पूजो । क्योंकि हम ही जगत् के रचने वाले और स्थिति सहार के फक्ता हैं । और हम अपनी इच्छा से स्वर्ग अर्थात् वैकुण्ठ से यहा चले आते हैं, और पीछे स्वर्ग में अपनी इच्छा से जाते हैं । और ठारका हम ने ही रची थी तथा हम ने ही उस का सहार करा है । क्योंकि जब हम वैकुण्ठ में जाने की इच्छा करते हैं, तब सर्व अपना चरु ठारिका सहित दग्ध करके चले जाते हैं । हमारे उपरात और कोई जग

कर्त्ता हर्त्ता नहीं है । तथा स्वर्गादि के भी देने वाले हम ही हैं । ऐसा वलभद्र जी का कहना सुनने से सर्व ग्राम नगर के लोगों ने कृष्ण वलभद्र जी की प्रतिमा सर्व जगे बना कर पूजी । तब प्रतिमा पूजने वालों को बहुत-सुख धनादि से वलभद्र ने आनंदित करा । इस वास्ते बहुत लोग हरि-भक्त हो गये । जब से भक्त हुये तब से पुस्तकों में कृष्ण जी को पूर्णब्रह्म परमात्मा ईश्वरादि नामों से लिखा । क्या जाने जब से वलभद्र जी ने कृष्ण की पूजा कराई, तब से ही लोगों ने कृष्ण को ही ईश्वरावतार माना हो ! और उस समय को पांच हजार वर्ष हुये हों । जिस से लोक में कृष्ण हुये को पांच हजार-वर्ष कहते हैं ।

चाईसमे अरु तेईसमे तीर्थकर के अन्तर में वारमा ब्रह्मदत्त नामा चक्रवर्त्ती हुआ । तिस पीछे वाराणसी नगरी में इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन राजा हुआ, तिस की वामादेवी रानी, तिन का पुत्र श्रीपार्श्वनाथ नामा तेईसमा तीर्थकर हुआ । तिस पीछे क्षत्रियकुंड नामा नगर में इक्ष्वाकुवंशी दूसरा नाम सूर्यवंशी सिद्धार्थ नामा राजा हुआ, तिस की त्रिसला नामा रानी, तिन का पुत्र श्रीवर्द्धमान महावीर नामा चौबीसमा चरम तीर्थकर हुआ । आज कल, जो जैनमत भरतखण्ड में प्रचलित है, सो इन ही श्रीमहावीर का शासन अर्थात् उन ही के कहे उपदेश से चलता है । और जो जैनमत के शास्त्र हैं, वे सर्व श्रीमहावीर भगवन्त के

उपदेशानुसार ही रचे गये हैं । श्रीमहावीर भगवन्त का सपूर्ण वृत्तांत देवना द्वारे, तदा आवश्यक सूत्रवृत्ति, कल्प सूत्र वृत्ति तथा श्रीमहावीर चरिनादि ग्रन्थों से जान लेना ।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीनुद्धिविजय शिष्य मुनि
आनदविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादशे
एकादश परिच्छेद सपूर्ण



द्वादश परिच्छेद

इस परिच्छेद में श्री महावीर भगवान् से लेकर आज पर्यंत कितनाक वृत्तांत लिखते हैं। श्री महा-
 श्री महावीर के वीर भगवन्त के ग्यारह शिष्य मुख्य और
 गणधरादि सर्व साधुओं से बड़े हुये, तिन के नाम
 कहते हैं—१. इंद्रभूति अर्थात् गौतम स्वामी, २. अग्निभूति, ३. वायुभूति, ४. व्यक्तस्वामी, ५. सुधर्मास्वामी,
 ६. मडिकपुत्र, ७. मौर्यपुत्र, ८. अकंपित, ९. अचलभ्राता,
 १०. मैतार्य, ११. प्रभास । और सर्व शिष्य तो चौदह
 हजार साधु हुये, चौदह हजार से कदे भी अधिक नहीं हुये ।
 और साध्वी छत्तीस हजार हुई । तथा श्रेणिक, उदायन,
 कोणक, उदायी, वत्सदेश का उदायन, चेटक, नवमल्लिक
 क्षत्रिय जाति के, नवलेच्छक क्षत्रिय जाति के, उज्जैन का
 राधा चन्द्रप्रद्योत, अमलकल्पा नगरी का स्वेत नामा राजा,
 पोलासपुर का विजय राजा, क्षत्रियकुरण्ड का नदिवर्द्धन
 राजा, वीतभयपट्टन का उदायन राजा, दशार्णपुर का
 दशार्णभद्र राजा, पावापुरी का हस्तिपाल राजा, इत्यादि
 अनेक राजे श्रीमहावीर भगवन्त के सेवक अर्थात् श्रावक
 थे । और आनद, कामदेव, संख पुष्कली, प्रमुख श्रावक,
 और जयती, रेवती, सुलसा प्रमुख श्राविका तो लाखों
 ही थे । तिन श्रावकों में एक सत्यकी नामा अविरति,

सम्यग्दृष्टि धारक हुआ है, तिस का सम्बन्ध आवश्यक शास्त्र में इस तरे लिखा है ।

विशाला नगरी के चेटक राजा की छठी पुत्री सुज्येष्ठा नामा कुमारी कन्या ने दीक्षा लीनी थी सत्यकी और अर्थात् जैनमत की साध्वी हो गई थी । महेश्वरपूजा वो किसी अरसर मे उपाश्रय के अन्दर सूर्य के समुख आतापना लेती थी । इस अवसर में पैडाल नामा परिव्राजक अर्थात् सन्यासी विद्या सिद्ध था । सो अपनी विद्या देने के वास्ते पात्र पुरुष को देखा था । और उस का विचार ऐसा था कि यदि ब्रह्म चारिणी का पुत्र होवे तो सुनाथ होवेगा । तब तिस सन्यासी ने रात्रि में सुज्येष्ठा को नग्नपने शीत की आतापना लेती को देखा । तब धुधविद्या से अधिकार में प्रमोह अर्थात् अचेत करके उस की योनि में अपने वीर्य का संचार करा । तिस अवसर में सुज्येष्ठा को ऋतुधम आ गया था, इस वास्ते गभ रह गया । तब साय की साधियों में गर्भ की चचा होने लगी । पीछे अतिशय दानी ने कहा कि सुज्येष्ठा ने त्रिपयभोग किसी से नहीं करा, अरु तिस त्रिधा धर का सब वृत्तात कहा । तब सर्व की शप्ता दूर हो गई । पीछे समय में सुज्येष्ठा क पुत्र जन्मा । तब तिस लड़के को धायक ने अपने घर में ले जा के पाला, तिस का नाम सत्यकी रक्खा । एक समय सत्यकी साधियों के साथ श्रीमहावीर

भगवान् के समवसरण में गया। तिस अवसर में एक काल-संदीपक नामा विद्याधर श्रीमहावीर को वंदना करके पूछने लगा, कि मुझ को किस से भय है। तब भगवत श्री महावीर स्वामी ने कहा कि यह जो सत्यकी नामा लड़का है, इस से तुझ को भय है। तब कालसंदीपक सत्यकी के पास गया, अथवा से कहने लगा कि अरे तू मुझ को मारेगा ? ऐसे कह कर जोरावरी से सत्यकी को अपने पगों में गेरा। तब तिस के पिता पेढ़ाल ने सत्यकी का पालन करा, और अपनी सर्व विद्याओं को सत्यकी को दे-दिया। सत्यकी महारोहिणी विद्या का साधन कर रहा था। इस सत्यकी का यह सातमा भव रोहिणी विद्या साधने में लग-रहा था। रोहिणी विद्या ने इस सत्यकी के जीव को पांच भव में तो जान से मार-गेरा और छठे भव में छः महीने शेष आयु के रहने से सत्यकी के जीव ने विद्या की इच्छा न करी; परन्तु इस सातमे भव में तो तिस रोहिणी विद्या को साधने का आरम्भ करा। तिस की विधि लिखते हैं।

अनाथ मृतक मनुष्यों को चिता में जलावे और गीले चमड़े को शरीर ऊपर लपेट के पग के वामे अंगूठे से खड़ा हो कर जहां लग तिस चिता का काष्ठ जले, तहां-लग जाप करे। इस विधि से सत्यकी विद्या साध रहा था। तहां कालसंदीपक विद्याधर भी आ गया, और चिता में काष्ठ प्रक्षेप करके सात दिन रात्रि तक अग्नि बुझने न-देनी। तब

सत्यकी का सत्य देव के रोहिणी देवी आप प्रगट हो कर कालसदीपक को कहने लगी कि मत विघ्न कर, क्योंकि मैं इस सत्यकी के सिद्ध होने वाली हूँ, इस वास्ते मैं सिद्ध हो गई हूँ। तब रोहिणी देवी ने सत्यकी को कहा, कि मैं तेरे शरीर में क्रियर से प्रवेश करूँ ? सत्यकी ने कहा कि मेरे मस्तक में हो कर प्रवेश कर॥ तब रोहिणी ने मस्तक में हो कर प्रवेश करा, तिस मे मस्तक में खड़्का पड़ गया। तब देवी ने तुष्टमान हो कर तिस मस्तक की जगा तीसरे नेत्र का आकार बना दिया। अब तो सत्यकी तीन नेत्र वाला प्रसिद्ध हुआ। पीछे सत्यकी ने सोचा कि पेढाल ने मेरी माता राजा की कुमारी बेट्टी को विगाड़ा है। ऐसा सोच कर अपने पिता पेढाल को मार दिया। तब लोगों ने सत्यकी का नाम रुद्र (भयानक) रख दिया। क्योंकि जिस ने अपना पिता मार दिया, उस मे और भयानक कौन है ?

पीछे सत्यकी ने विचारा कि कालसदीपक मेरा वैरी कहा है ? जब सुना कि कालसदीपक अमुक जगा में है। तब सत्यकी तिस के पास पहुँचा। फिर कालसदीपक विद्याधर तहा से भाग निकला तो भी सत्यकी तिस के पीछे लगा। कालसदीपक हेठ ऊपर भागता रहा, परन्तु सत्यकी ने तिस का पीछा न छोड़ा। फिर कालसदीपक ने सत्यकी के भुलाने वास्ते तीन नगर बनाये। अब सत्यकी ने विद्या से तीनों नगर भी चला दिये। तब कालसदीपक

दौड़ के लवणसमुद्र के पाताल कलश में चला गया। सत्यकी ने तहां जा कर कालसंदीपक को मार डाला। तिस पीछे सत्यकी विद्याधर चक्रवर्ती हुआ। तीन संध्या में सर्व तीर्थकरों को वंदना करके नाटक करने लगा, तब इन्द्र ने सत्यकी का नाम महेश्वर दिया। तिस महेश्वर के दो शिष्य हुये, एक नंदीश्वर, दूसरा नादीया। तिन में नादीया तो विद्या से वैल का रूप बना लेता था, और तिस ऊपर चढ़ के महेश्वर अनेक क्रीड़ा कुतूहल करता था। महेश्वर श्रीमहावीरं भगवंत का अविरति सम्यग्दृष्टि श्रावक था। परन्तु बड़ा भारी कामी था और ब्राह्मणों के साथ उस का बड़ा भारी बैर हो गया। तब विद्या के बल से सैकड़ों ब्राह्मणों की कुमारी कन्याओं को विषय सेवन करके विगाड़ा। और लोक तथा राजा प्रमुख की बहुवेष्टियों से काम क्रीड़ा करने लगा। परन्तु उस की विद्याओं के भय से उसे कोई कुछ कहता नहीं था। जेकर कोई मना भी करता था, तो मारा जाता था। महेश्वर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विमान बनाया तिस में बैठ के जहां इच्छा होती, तहां चला जाता था। ऐसे उस का काल व्यतीत होता था।

एक समय महेश्वर उज्जैन नगर में गया। तहां चंडप्रद्योत की एक शिवा नामा रानी को छोड़ के दूसरी सर्व रानियों के साथ विषय भोग करा। और भी सर्व लोगों की बहुवेष्टियों को विगाड़ना शुरू करा। तब चंडप्रद्योत को

बड़ी चिंता हुई, अरु विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें कि जिस में इस महेश्वर का विनाश-मरण हो जाये । परन्तु तिस की विद्या के आगे किसी का कोई उपाय नहा चलता था । पीछे तिस उज्जैन नगर में एक उमा नामा वेश्या बड़ी रूपवती रहती थी । उस का यह कौल था कि जो कोई इतना धन मुझे देये, सो मेरे से भोग करे । जो कोई उस के कहे मूजब धन देता था, सो उस के पास जाता था । एक दिन महेश्वर उस वेश्या के घर गया, तब तिस उमा वेश्या ने महेश्वर के स मुख दो फूल करे, एक विकरा हुआ दूसरा मिचा हुआ । तब महेश्वर ने विकरो—खिन्हे फूल की तर्फ हाथ पसारा । तब उमा वेश्या ने मिचा हुआ कमल महेश्वर के हाथ में दिया, और कहा कि यह कमल तरे योग्य है । तब महेश्वर ने कहा, क्यों यह कमल मेरे योग्य है ? तब उमा ने कहा कि इस मिचे हुए कमल समान कुमारी कन्या है, सो तुझ को भोग करने वास्ते बल्लभ है, और म खिले हुए फूल के समान ह । तब महेश्वर ने कहा कि तू भी मेरे को बहुत बल्लभ है । ऐसा कह कर महेश्वर उस के साथ भोग भोगने लगा । और तिस के ही घर में रहने लगा । तिस उमा ने महेश्वर को अपने वश में कर लिया । उमा का कहना महेश्वर उद्वचन नहीं कर सकता था ।

ऐसे जब पितनाक काल व्यतीत हुआ तब चंद्रप्रद्योत ने उमा को बुला के उस को बहुत धन, और आदर सन्मान

वंद किया, वाह रे पुत्र ! तेरी लायकी ! यह सुन के कोणिक राजा बड़ा दुःखी हुआ, और रोता हुआ आप कुहाड़ा ले कर दौड़ा, कि मैं अपने हाथ से पिता का पिजरा काट के बाहिर निकालूंगा और राजसिंहासन ऊपर बिठाऊंगा । परंतु जब श्रेणिक राजा ने देखा कि कोणिक कुहाड़ा लेकर दौड़ा आता है, तब विचार करा कि क्या जाने मुझे किस कुमौत से मारेगा ? तब श्रेणिक राजा कुछ खा के मर गया । जब कोणिक ने आकर देखा कि पिता तो मर गया, तब बहुत रोया पीटा, महा शोक से दाह लगाया । जब राजगृह के अन्दर बाहिर श्रेणिक के मकान महल सिंहसनादि देखता है, तब बड़ा दिलगीर—शोकवन्त होता है । इस दुःख से राजगृह नगर को छोड़ के चंपा नगरी अपनी राजधानी बना के रहने लगा । तो भी पिता के वियोग से सेवा न करने से दुःखी रहने लगा । तब प्रधान—मन्त्रियों ने मता करके एक छाना पुस्तक बनवाया । उस में ऐसा कथन लिखवाया कि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदान करे, आभूषण, शय्या प्रमुख ब्राह्मणों को देता है, वो सर्व श्राद्धादि सामग्री उस के पिता को प्राप्त होती है । तिस पुस्तक को धुंए के मकान में रख के धुंए से पुराने पुस्तकवत् बना दिया । तब कोणिक राजा को सुनाया । कोणिक ने भी पिता की भक्ति वास्ते पिण्डप्रदानादि बहुत धन लगा करके करा । तब ही से मृतकों को पिण्डप्रदान श्राद्धादि प्रवृत्त

हुये हैं। क्योंकि जगत में प्रसिद्ध है कि कर्ण राजा ने श्राद्ध चलाये हैं। सो इसी कोणिक राजा का नाम लोगों ने कर्ण राजा करके लिया है।

तथा अत्रिकासुत जैनाचार्य अत्यन्त वृद्ध गंगा नदी उतरते की वैचल्लान हुआ। और जहा प्रयाग है, प्रयाग तीर्थ तहा शरीर छोड़ के मोक्ष हुआ। तिस जगे ऐश्वर्याओं ने तिस मुनि की महिमा करी, तब से प्रयाग तीर्थ की मानता चली, अथात् प्रयाग तीर्थ की उत्पत्ति हुई।

महावीर स्वामी के वक्त में जो स्वरूप रानादि व्यग्रहारों का था तथा जैनमत का जहा तक विस्तार था, सो आवश्यक सूत्र, धीरचरित्र तथा बृहत्कटपादि शास्त्रों में जान लना।

तथा श्रीमहावीर के समय में राजगृह नगरी का राजा थेणिक हुआ। तिस के पीछे कोणिक हुआ, जिस ने थेणिक के मरने से पीछे चपा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। तिस का चेष्टा उदायी हुआ, जिस ने कोणिक के भरे पीछे उदासी से चपा को छोड़ के पाटलीपुत्र (पटना) नगर बसा के अपनी राजधानी बनायी।

श्रीमहावीर भगवन् विप्रम सद्यत् से ४७७ वर्ष पहिले पायापरी नगरी में हम्नपाल राना की पुरानी राजमहा में यहत्तर वर्ष की आयु भोग के कार्तिक यदि अमावास्या की रात्रि के पहिले प्रहर में पणामन अर्थात् चौकड़ी मारे

हुये, शरीरादि चार कर्म की सर्व उपाधि छोड़ के निर्वाण हुये—मोक्ष पहुंचे। तिस समय में गौतमस्वामी और सुधर्मा स्वामी यह दो बड़े शिष्य जीते थे, शेष नव बड़े शिष्य तो श्रीमहावीर जी के जीते हुये ही एक मास का अनशन करके केवल ज्ञान पा के मोक्ष चले गये थे। यह ग्यारह ही बड़े शिष्य जाति के तो ब्राह्मण थे, चार वेद और छ वेदांग आदि सर्व शास्त्रों के जानकार थे, इन के चौतालीस सौ (४४००) विद्यार्थी थे। इन का सम्बन्ध ऐसे है।

जब भगवंत श्रीमहावीर जी को केवलज्ञान हुआ, तिस अवसर में मध्यपापा नगरी में सोमल नामा गौतम और ब्राह्मण ने यज्ञ करने का आरम्भ करा था, संशयनिवृत्ति और सर्व ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान् जान कर इन पूर्वोक्त गौतमादि ग्यारह ही आचार्यों को बुलाया था। तिस समय तिस यज्ञपाड़ा के ईशान कृण में महासेन नामा उद्यान में श्रीमहावीर भगवंत का समवसरण रत्न सुवर्ण रौप्यमय, क्रम से तीन गढ़ संयुक्त देवों ने बनाया। तिस के बीच में बैठ के भगवंत श्रीमहावीर स्वामी उपदेश करने लगे। तब आकाश मार्ग के रास्ते सैकड़ों विमानों में बैठे हुये चार प्रकार के देवता भगवंत श्रीमहावीर के दर्शन और उपदेश सुनने को आते थे। तब तिन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने जाना, कि यह देव सब हमारे करे हुये यज्ञ की आहुतियां लेने आये हैं। इतने में देवता तो

यद्य पाड़े को छोड के भगवान् के चरणों में जाकर हाजिर हुये । तथा और लोक भी श्रीमहावीर भगवत् का दर्शन करके और उपदेश सुन के गौतमादि पंडितों के आगे कहने लगे कि आज इस नगर के बाहिर सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् आये है । न तो उन के रूप की कोई तारीफ कर सकता है, अरु न कोई उन के उपदेश से सशय रहता है, और लाखों देवता जिनों के चरणों की सेवा करते हैं । ताते हमारे घडे भाग्योदय हैं जो ऐसे भवज्ञ अरिहत भगवत् का हम ने दर्शन पाया । जत्र गौतमजी ने सुना कि सर्वज्ञ आया है, तव मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़की अरु ऐसे कहने लगा कि मेरे से अधिक और सज्ज कौन है ? मैं आज इस का सवज्ञपना उड़ा देता हू । इत्यादि गर्व सयुक्त भगवान् श्रीमहावीर के पास पहुचा, और भगवान् को चौतीस अतिशय सयुक्त देखा । तथा देवता, इन्द्र मनुष्यों से परिवृत देखा । तव बोलने की शक्ति से हीन हुवा २ भगवत् के सन्मुख जाके खड़ा हो गया । तत्र भगवत् ने कहा, हे गौतम इन्द्रभूति ! तू आया ? तव गौतम जी ने मन में विचारा कि मेरा नाम भी ये जानते हैं, म तो सब जगे प्रसिद्ध हू, मुझे कौन नहीं जानता ? इस वास्ते मैं इस बात में कुछ आश्चय और इन को सर्वज्ञ नहीं मानता हू । किंतु मेरे मन में जो सशय है, तिस को यदि दूर कर दें, तो मैं इन को सर्वज्ञ मानू । तव भगवत् ने कहा, हे गौतम ! तेरे मन में यह सशय है—

जीव है कि नहीं? और यह संशय तेरे को वेदों की परस्पर विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हैं—

* विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्ये-
वानुविनश्यति न प्रेत्यसंज्ञास्तीनीत्यादि ।

इस से विरुद्ध यह श्रुति है—

स वै अयमात्मा ज्ञानमय इत्यादि ।

इन श्रुतियों का अर्थ ऐसा तेरे मन में भासन होता है । प्रथम श्रुति का अर्थ कहते हैं—नीलादि रूप होने से विज्ञान ही चैतन्य है । चैतन्य पिशिष्ट जो नीलादि, तिस से जो घन सो विज्ञानघन । सो विज्ञानघन, प्रत्यक्ष परिच्छिद्यमान पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश रूप पांच भूतों से उत्पन्न हो कर फिर तिन के साथ ही नाश हो जाता है । अर्थात् भूतों के नाश होने से उन के साथ विज्ञानघन का भी नाश हो जाता है । इस हेतु से प्रेत्यसंज्ञा नहीं अर्थात् मर के फिर परलोक में और कोई नर नार का जन्म नहीं होता । इस श्रुति से जीव की नास्ति सिद्ध होती है । और दूसरी श्रुति कहती है—यह आत्मा ज्ञानमय अर्थात् ज्ञान स्वरूप है । इस से आत्मा की सिद्धि होती है । अब ये दोनों श्रुतिये परस्पर विरोधी होने से प्रमाण नहीं हो सकती है । और

* 'प्रज्ञानघनः' ऐसा पाठ वर्तमान पुस्तकों में है ।

आत्मा के स्वरूप में परस्पर विरोधी बहुत मत हैं । कोई कहना है कि—

एतावानेव लोकोऽय यावानिन्द्रियगोचर ।

भद्रे ! वृक्षपट पश्य यद्द्रवन्त्यनद्विश्रुताः ॥

इस श्लोक का अर्थ *चार्वाक मन में लिया आये हैं । यह भी एक आगम कहना है । तथा “न रूप भित्तय ! पुट्टल” अर्थात् आत्मा अमूर्त है, यह भी एक आगम कहना है । तथा “अकर्त्ता निगुणो भोक्ता आत्मा” अर्थात्—अकर्त्ता सत्त्व, रज, अद्य तम, इन तीनों गुणों से रहित, सुख दुःख का भोगने वाला आत्मा है, यह भी एक आगम कहना है । अथ इन में से किस को सच्चा और किस को झूठा मानें ? परस्पर विरोधी होने में सब तो सच्चे हो ही नहीं सकते हैं । तथा युक्ति प्रमाण में भी मर के परलोक जाने वाली आत्मा सिद्ध नहीं होती है । ताते ह गौतम ! यह तेरे मन में संशय है । अथ इस का उत्तर कहता हूं, कि तू वेद पदों अथ नहीं जानता है, इत्यादि धीर्गौतम जी के संशय को दूर करा । ये सब अधिकांश मूलाग्रयण और धीविशेषाग्रयण में जान लेता । मैंने अथ के भारी और गहन दो जाने के संशय में यद्वा नहीं लिगा । क्योंकि सब ग्यारह गणधरों के संशय दूर करने के प्रकरण के चार हजार श्लोक

हैं। पीछे जब गौतम जी का संशय दूर हो गया, तब गौतम जी पांच सौ अपने विद्यार्थियों के साथ दीक्षा ले के श्री महावीर भगवन्त का प्रथम शिष्य हुआ।

इस तरे इंद्रभूति को दीक्षित सुन के दूसरा भाई अग्निभूति बड़े अभिमान में भर कर चला और अग्निभूति और कहने लगा कि मेरे भाई को इंद्रजालिये संशयनिवृत्ति ने हल से जीत के अपना शिष्य बना लिया। मैं अभी उस इंद्रजालिये को जीत के अपने भाई को पीछे लाता हूँ। इस विचार से भगवन्त श्रीमहावीर जी के पास पहुंचा। जब भगवान् को देखा, तब सर्व आइ वाइ भूल गया, मुख से बोलने की भी शक्ति न रही। और मन में बड़ा अचम्भा हुआ, क्योंकि ऐसा स्वरूप न उसने कभी सुना था और न कभी देखा था। तब भगवान् ने उस का नाम लिया। अग्निभूति ने विचारा कि यह मेरा नाम भी जानते हैं। अथवा मैं प्रसिद्ध हूँ, मुझे कौन नहीं जानता है? परन्तु मेरे मन का संशय दूर करें, तो मैं इन को सर्वज्ञ मानूँ। तब भगवन्त ने कहा—हे अग्निभूति! तेरे मन में यह संशय है कि कर्म है किंवा नहीं? यह संशय तेरे को विरुद्ध वेदपदों से हुआ है। क्योंकि तू वेद पदों का अर्थ नहीं जानता है। वे वेदपद यह हैं:—

पुरुष एवेदं शिं सर्वं यद्भूत यच्च भाव्य, उतामृतत्वस्ये-
गानो यदन्नेनाऽतिरोहति । यदेजति यन्नैजति यद्दूरे
यदु अतिके यदतरस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य
ग्राह्यत इत्यादि ।

इस से विरुद्ध यह श्रुति है —

पुण्य, पुण्येने कर्मणा पाप पापेन कर्मणा, इत्यादि ।

और इन का अर्थ तेरे मन में ऐसा भासन होता है कि
'पुरुष' अर्थात् आत्मा । 'एव' शब्द अवधारण का वास्ते है,
सो अवधारण कम और प्रधानादिकों के व्यञ्छेद वास्ते
है । 'इद सर्वं' अर्थात् यह सर्व प्रत्यक्ष वर्तमान चेतन अचेतन
वस्तु । 'शिं' यह वाक्यालंकार में है । 'यद् भूत यच्च
भाव्य' अर्थात् जो पीछे हुआ है और भागे को होयेगा,
जो मुनि तथा ससार सो सब पुरुष आत्मा ब्रह्म ही हैं ।
तथा 'उत' शब्द अपिशब्द का अर्थ में है, और अपि शब्द
समुच्चय अर्थ में है । 'अमृतत्वस्य'—अमरणभाव का अर्थात्
मोक्ष का, 'इयान्'—प्रभु अर्थात् स्वामी (मात्रक) है ।
'यदिति यद्येति' च शब्द के लोप होने से यदिति यत्ता,
इस का अर्थ जो अन्न परके वृद्धि को प्राप्त होता है । 'यदे
जति यन्नैजति'—जो चलता है ऐसे पशु आदिक और जो
गर्हों चलता है ऐसे पयतादिक । और 'यद्दूरे'—जो दूर

है मेरु आदिक 'यत् उ अंतिके'—उ शब्द अवधारणार्थ में है, जो समीप है । सो सर्व पूर्वोक्त पदार्थ पुरुष अर्थात् ब्रह्म ही है । इस श्रुति से कर्म का अभाव होता है । अरु दूसरी श्रुति से तथा शास्त्रांतरों से कर्मसिद्ध होते हैं । तथा युक्ति से कर्मसिद्ध होते नहीं क्योंकि अमूर्त्त आत्मा को मूर्त्त कर्म लगते नहीं, इस वास्ते मैं नहीं जानता कि कर्म है वा नहीं । यह संशय तेरे मन में है । ऐसा कह कर भगवान् ने वेद श्रुतियों का अर्थ बराबर करके तिस का पूर्वपक्ष खण्डन करा । सो विस्तार से मूलावश्यक तथा विशेषावश्यक से जान लेना । अग्निभूति ने भी गौतमवत् दीक्षा लीनी ।

अग्निभूति की दीक्षा सुन के तीसरा वायुभूति आया । परंतु आगे दोनों भाइयों के दीक्षा ले लेने से वायुभूति और इस को विद्या का अभिमान कुछ भी न रहा, संशयनिवृत्ति मन में विचार करा कि मैं जाकर भगवान् को वंदना नमस्कार करूंगा । ऐसा विचार के आया, आकर भगवंत को वंदना करी । तब भगवंत ने कहा कि तेरे मन में संशय तो है, परन्तु क्षोभ से तू पूछ नहीं सकता है । संशय यह है कि जो जीव है सो देह ही है ? और यह संशय तेरे को विरुद्ध वेदपदश्रुति से हुआ है, और तू तिन वेद पदों का का अर्थ नहीं जानता है । वे वेद पद ये हैं:—
“विज्ञानघन” इत्यादि पहिले गणधर की श्रुति जाननी । इस

मे देह से न्यारा जीव-आत्मा सिद्ध नहीं होता है । और इस श्रुति से विरुद्ध यह श्रुति है—

सत्येन लभ्यस्तपमा ह्येष ब्रह्मचर्येण नित्य ज्योतिर्म-
यो हि शुद्धो य पश्यति धीरा यतयः सयतात्मान
इत्यादि ।

इस श्रुति से देह से मित्र आत्मा सिद्ध होती है, इस वास्ते तुम्ह को सराय है । पीछे भगवान् ने यह मर्च सराय दूर करा । तब तीसरे वायुभूति ने भी अपने पाच सौ विद्यार्थियों के साथ दीक्षा लीनी ।

। वायुभूति की तरफ शेष आठ गणधर क्रम से आये, तिम्र में चौथा अग्रज जी आया तिन के मन में यह सराय था कि पाचभूत हैं कि नहीं ? यह सराय विरुद्ध श्रुतियों से हुआ । वे परस्पर विरुद्ध श्रुतिया यह हैं—

स्वप्नोपम वै सकलमित्येष ब्रह्मविधिरजसा विज्ञेय
इत्यादीनि ।

तथा इस से विरुद्ध यह श्रुति है—

द्यामापृथिवी जनयन् देव इत्यादि ।

तथा —

पृथिवीदेवता, आपोदेवता, इत्यादीनि ।

इन का अर्थ तेरे मन में ऐसा भासन होता है—
स्वप्न सरीखा [वै निपात अवधारणार्थे] सम्पूर्ण जगत
है—‘एष ब्रह्मविधिः’ अर्थात् यह परमार्थ प्रकार है, ‘अंजसा’—
सीधे न्याय से जानने योग्य है । यह श्रुति पांचभूत का अभाव
कहती है । और श्रुतियाँ पांचभूत की सत्ता को कहती हैं,
इस वास्ते तेरे को संशय है । तेरे मन में यह भी है कि
युक्ति से पांचभूत सिद्ध नहीं होते हैं । पीछे भगवान् ने
इस का पूर्वपक्ष खण्डन करा, वेद पदों का यथार्थ अर्थ करा ।
यह अधिकार उक्त ग्रंथों से जान लेना । यह सुन कर चौथे
अव्यक्त ने भी अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षा लीनी ।

तब पांचमा सुधर्म नामा गणधर आया । इस का भी
उसी तरे सर्वाधिकार जान लेना । यावत् तेरे मन में यह
संशय है कि मनुष्यादि सर्व जैसे इस भव में हैं, तैसे ही
अगले जन्म में होते हैं ? कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी
वन जाते हैं ? यह संशय तेरे को परस्पर विरुद्ध वेद श्रुतियों
से हुआ है, सो वेद श्रुतियां यह हैं—

पुरुषो वै पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्वं इत्यादीनि

अर्थः—जैसे इस जन्म में पुरुष स्त्री आदि हैं, वे पर
जन्म में भी ऐसे ही होंगे । इस से विरुद्ध यह श्रुति है—

शृगालो वै एष जायते यः सपुरीषो दह्यत इत्यादि ।

इन सर्व श्रुतियों का भगवान् ने अर्थ करके सराय दूर करा, तब अपने पाच सौ शिष्यों के साथ दीक्षा लीनी ।

तिस पीछे छठा मडिकपुत्र आया । तिस के मन में यह सराय था कि बध मोक्ष है, वा नहीं है ? यह सराय भी विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, सो श्रुतिया यह हैं—

स एष विगुणो विभुर्न वयते ससरति वा न मुच्यते मोचयति वा न वा एष बाह्यमभ्यतर वा वेद इत्यादीनि ।

इस श्रुति का ऐसा अर्थ तेरे मन में भासन होता है—
 'एष अधिकृतजीव' अर्थात् यह जीव जिस का अधिकार है, 'विगुण' अर्थात् सत्वादि गुण रहित सर्वगत-सर्वव्यापक पुण्य पाप करके इस को बध नहीं होता है, और ससार में भ्रमण भी नहीं करता है, और कर्मों से दूटता भी नहीं है, बध के अभाव होने से दूसरों को कर्म बध से छुड़ाता भी नहीं है । इस कहने से आत्मा अकर्ता है, सोई कहते हैं— यह पुद्गल अपनी आत्मा से बाहिर महत् अहकारादि और अभ्यतर स्वरूप अपना जानता नहीं । क्योंकि जानना ज्ञान से होता है, और ज्ञान जो है, सो प्रकृति का धम है और प्रकृति अचेतन है, इस वास्ते बध मोक्ष नहीं । इस श्रुति से बध मोक्ष का अभाव सिद्ध होना है । अब इस से विरुद्ध श्रुति यह है ।

न ह वै सशरीरस्य प्रियाऽप्रिययोरपह्नतिरस्ति
अशरीरं वा वसन्तं प्रियाऽप्रिये न स्पृशत इत्यादीनि ।

अर्थः—सशरीरस्य अर्थात् शरीर सहित को सुख दुःख का अभाव कदापि नहीं होता है । तात्पर्य यह है कि संसारी जीव सुख दुःख से रहित नहीं होता है, और अमूर्त्त आत्मा को कारण के अभाव से सुख दुःख स्पर्श नहीं कर सकते हैं । इस श्रुति से बंध मोक्ष सिद्ध होते हैं । तथा तेरे मन में यह भी बात है, कि युक्ति से भी बन्ध मोक्ष सिद्ध नहीं होते हैं । इत्यादि संशय कह कर भगवान् ने तिस के पूर्वपक्षों को खण्डन करके संशय दूर करा । तव मंडिकपुत्र साढे तीन सौ विद्यार्थियों के साथ दीक्षित भया ।

तिस पीछे सातवां मौर्यपुत्र आया, तिस के मन में यह संशय था कि देवता हैं किंवा नहीं हैं ? यह संशय परस्पर विरुद्ध श्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हैंः—

स एष यज्ञायुधी यजमानोऽजसा स्वर्गलोकं गच्छति
इत्यादि ।

ऐसी श्रुतियां स्वर्ग तथा देवताओं की सिद्धि करती हैं ।
इस से विरुद्ध श्रुति यह है—

अपाम सोममृता अभूम, अगमाम ज्योतिरविदाम
देवान्, किंनूनमस्माव तृणवदराति किमु मूर्त्तिममृतम-
त्यस्येत्यादीनि ।

तथा—

को जानाति मायोपमान् गीर्वाणानिन्द्रयमवरुणकुने-
रादीन् इत्यादि ।

इन का ऐसा अर्थ तेरे मन में भासन होता है—पाप दूर
करने में समर्थ, ऐसे यज्ञ रूपी आयुध—शस्त्र का धारण
करने वाला यजमान शीघ्र स्वर्गलोक में जाता है । तथा हमने
सोमलता का रस पिया है, और अमृत—अमरण धम वाले
हुये हैं । ज्योति—स्वर्ग को प्राप्त हुये हैं, तथा देवता हुये हैं,
इस रास्ते तृण की तरे अराति—शत्रु, व्याधी, जरा अमर
पुरुष का क्या कर सकते हैं ? यह श्रुतिया देवसत्ता की
प्रतिपादक हैं । और इन श्रुतियों का यथार्थ अर्थ करके
और तिस का पूवपक्ष खण्डन करके भगवत ने इन का
सशय दूर करा, तब यह भी साढे तीन सौ छात्रों के साथ
दीक्षित भया ।

तिस पीछे आठमा अकपित आया, उस के मन में भी
वेद की परस्पर विरुद्ध श्रुतियों के पक्षों से यह सशय उत्पन्न

हुआ था कि नरकवासी जीव हैं कि नहीं ? वे परस्पर विरुद्ध श्रुतियां लिखते हैं:—

नारको वै एष जायते यः शूद्रान्नमश्नाति इत्यादि ।

इस का अर्थ:—यह ब्राह्मण नारक होवेगा जो शूद्र का अन्न खाता है । इस श्रुति से नरक सिद्ध होता है । तथा—

न ह वै प्रेत्य नारकाः संतीत्यादि ।

इस श्रुति से नरक का अभाव सिद्ध होता है । इन का अर्थ करके और पूर्वपक्ष खंडन करके भगवान् ने तिस का संशय दूर करा । तब अंकुषित ने भी तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी ।

तिस पीछे नवमा अचलभ्राता आया । तिस को भी परस्पर वेद की विरुद्ध श्रुतियों के पदों से पुण्य पाप है कि नहीं ? यह संशय था । सो वेद पद यह हैं ।

पुरुष एवेदं शिं सर्वं इत्यादि ।

दूसरे गणधरवत् । इस से विरुद्ध पद यह हैं—

पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन कर्मणा भवति इत्यादि ।

इस से पुण्य पाप सिद्ध होते हैं। यह सरय भी भगवान् ने दूर करा, तब यह भी तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षित भया।

तिस पीठे दरामा मैतार्य आया। उस को भी वेद की परस्पर विरुद्ध श्रुतियों से यह सरय हुआ था, कि परलोक है किंवा नहीं है? वे श्रुतिया यह हैं—“विज्ञानघन” इत्यादि प्रथम गणधरवत् अभाव कथक श्रुति जाननी। तथा—

सर्वं अयं आत्मा ज्ञानमय इत्यादि।

यह परलोक भावप्रतिपादक श्रुति जाननी। इन का तात्पर्य भगवान् ने कहा, तब मैतार्य जी ने भी निश्चय हो के तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी।

तिस पीठे ग्यारहवा प्रभास नामा गणधर आया। तिस के मन में भी वेद श्रुतियों के परस्पर विरुद्ध होने से यह सरय था कि निवाण है कि नहीं है? वे श्रुतिया यह हैं—

जरामयं वा एतत्समं यदग्निहोत्रम्।

इस से विरुद्ध श्रुति यह है—

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपर च तत्र पर सत्य ज्ञानमनत ब्रह्मेति।

इन का यह अर्थ तेरी बुद्धि में भासन होता है कि अग्नि-होत्र जो है, सो जीवहिंसा संयुक्त है, और जरा मरण का कारण है । अरु वेद में अग्निहोत्र निरंतर करना कहा है, तब ऐसा कौनसा काल है, कि जिस में मोक्ष जाने का कर्म करें ? इस वास्ते आत्मा को मोक्ष कदापि नहीं हो सकता है । अरु दूसरी श्रुति मोक्षप्राप्ति भी कहती है । इस वास्ते संशय हुआ है । इस का जब भगवान् ने उत्तर दे के निःशंक करा, तब तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी ।

यह श्री महावीर भगवंत के वैशाख शुद्धि दशमी के दिन मध्यपापानगरी के महासेन वन में ४४०० शिष्य हुये । तिस पीछे राजपुत्र श्रेष्ठिपुत्रादि तथा राजपुत्री श्रेष्ठिपुत्री राजा की रानी आदिक ने दीक्षा लीनी ।

तथा जब भगवंत श्रीमहावीर जी पावापुरी में मोक्ष गये, तिस ही रात्रि में इन्द्रभूति अर्थात् श्री सुधर्मा गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ । तब स्वामी इन्द्रों ने निर्वाण महोत्सव करा, और सुधर्मा स्वामी जी को श्रीमहावीर स्वामी जी की गद्दी ऊपर विठाया । श्रीगौतम जी को गद्दी इस वास्ते न हुई, कि केवल ज्ञानी पुरुष पाट ऊपर नहीं बैठता है । क्योंकि केवली तो जो पूछे उस का उत्तर अपने ज्ञान से ही देता है, परन्तु ऐसा नहीं कहता है कि मैं अमुक तीर्थंकर के कहने से कहता हूँ । इस वास्ते केवल

ज्ञानी पाट ऊपर नहीं बैठता है । जेकर बैठे तो तीथकर का शासन दूर होजावे, यह बात कभी हो नहीं सकती कि अनादि रीति को केवली भग करे, इस वास्ते श्री गौतम जी गद्दी ऊपर नहीं बैठे और सुधमा स्वामी बैठे ।

श्रीसुधर्मा स्वामी पचास वर्ष तो गृहस्थावास में रहे और तीस वर्ष श्रीमहावीर भगवत की चरणसेवा करी । जब श्रीमहावीर का निवाण हुआ, तिस पीछे चार वर्ष तक छद्मस्थ रहे, और आठ वर्ष केवली रहे । क्योंकि श्रीमहावीर अहत के पीछे केवली हो कर चार वर्ष तक श्रीगौतम जी जीते रहे । और श्रीगौतमजी के निर्वाण पीछे श्रीसुधमास्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ, केवली हो कर आठ वर्ष जीते रहे । श्रीसुधर्मास्वामी जी की सत्र ध्यायु एक सौ वर्ष की थी, सो श्रीमहावीर जी के बीस वर्ष पीछे मोक्ष गये ।

२ श्रीसुधर्मास्वामी के पाट ऊपर श्रीजम्बूस्वामी बैठे ।

सो राजगृहनगर का वासी श्रीऋषभदत्त श्रीजम्बूस्वामी और श्रेष्ठ की वारिणी नामा स्त्री से जन्मे थे ।

दश विच्छद निनानये कोड़ सोनैये और आठ स्त्रियों को छोड़ कर दीक्षा लेता भया । सोला वर्ष गृहस्थ वास में रहे, बीस वर्ष व्रतपयाय, और चौतालीस वर्ष केवलपर्याय पाल के श्रीमहावीर के निवाण पीछे चौसठमे वर्ष मोक्ष गये ।

यह श्रीजम्बूस्वामी के पीछे भरत क्षेत्र में दश वातें

विच्छेद हो गईं। तिस का नाम लिखते हैं—१. मनःपर्याय ज्ञान, २ परमावधि ज्ञान, ३ पुलाकलब्धि, ४. आहारक शरीर, ५ क्षपकश्रेणि, ६. उपशमश्रेणि, ७. जिनकल्पमुनि की रीति, ८ परिहारविशुद्धिचारित्र, तथा मूर्च्छमसंपराय, और यथाख्यात, यह तीन तरे के संयम, ९. केवलज्ञान, १०. मोक्ष होना, यह दश वस्तु विच्छेद हो गईं। श्रीमहावीर भगवंत के केवली हुये पीछे जब चाँदह वर्ष बीते; तब जमाली नामा, प्रथम निन्हव हुआ, और सोलां वर्ष पीछे तिष्यगुप्त नामा, दूसरा निन्हव हुआ। श्रीजंबूस्वामी की आयु अस्सी वर्ष की थी।

३. जम्बूस्वामी के पाट ऊपर प्रभवस्वामी बैठे, तिन की उत्पत्ति ऐसे है। विंध्याचल पर्वत के श्रीप्रभवस्वामी पास जयपुर नामा पत्तन था, तिस का विंध्य नामा राजा था। तिस के दो पुत्र थे एक बड़ा प्रभव दूसरा छोटा प्रभु। विंध्य राजा ने किसी कारण से छोटे पुत्र प्रभु को राज तिलक दे दिया, तब बड़ा बेटा प्रभव गुस्से हो कर जयपुर पत्तन से निकल कर विंध्याचल की विषम जगा में गाम बसा कर रहने लगा, और खात्रखनन, वंदिग्रहण, रस्ते में लूटना आदि अनेक तरें की चोरियों से अपने परिवार की आजीविका करता था। एक दिन पांच सौ चोरों को लेकर राजगृह नगर में जम्बू जी के घर को लूटने आया, तहां जंबूस्वामी ने तिस को प्रतिबोध करा। तब तिसने

पाच सौ चोरोँ ने सहित दीक्षा श्री जवू स्वामी के साथ लीनी । इत्यादि जत्रूजी का और प्रभयजी का अधिकार जत्रूचरित्र तथा परिशिष्ट पर्वादि ग्रन्थों से जान लेना । प्रभवस्वामी तीस वर्ष गृहस्थ पर्याय, चौतालीस वर्ष व्रतपर्याय, तथा एकादश वर्ष युगप्रदान पदवी, सर्व पचासी वर्ष की आयु पूरी करके श्रीमहावीर से पचहत्तर वर्ष पीछे स्वर्ग गया ।

४ श्रीप्रभवस्वामी के पाट ऊपर श्रीशय्यभय स्वामी बैठे । जिनों ने मण्णक साधु के वास्ते दशवै श्री शय्यभय कालिक सूत्र बनाया । तिन की उत्पत्ति ऐसे स्वामी है । एक समय प्रभवस्वामी ने रात्रि में विचार करा कि मेरे पाट ऊपर कौन बैठेगा ?

पीछे ज्ञान बल से अपने सर्वसद्य में पाट योग्य कोइ न देखा, तब पर दर्शनियों को ज्ञान बल से देखने लगा । तब राजगृह नगर में यज्ञ करते हुये शय्यभय भट्ट को अपने पाट योग्य देखा । पीछे प्रभव स्वामी विहार करके सपरिवार राजगृह नगर में आये । वहा दो साधुओं को आदेश दिया कि तुम यज्ञपाडे में जाकर मित्रा के वास्ते धर्म लाभ कहो, और यज्ञ करने वालों को ऐसे कहो—“अहो कष्टमहोकष्ट तत्र विधायते न हि” । तब तिन साधुओं ने पूर्वोक्त गुरु का कहना सब किया । जब ब्राह्मणों ने “अहो कष्ट” इत्यादि सुना, तब तिस यज्ञवाडे में शय्यभय ब्राह्मण ने यज्ञ दीक्षा लीनी थी । तिस ने यज्ञवाडे के दरवाजे में खडे हुए ‘अहो कष्ट’ इत्यादि मुनियों

का कहना सुन के विचार करने लगा कि ऐसे उपराम प्रधान साधु होते हैं, इस वास्ते यह अमन्य नहीं बोलते हैं। इस से मन में संशय हो गया। तब उपाध्याय को पूछा कि तत्त्व क्या है ? तब उपाध्याय ने कहा कि चार वेदों में जो कथन करा है, सो तत्त्व है ? क्योंकि वेदों के सिवाय और कोई तत्त्व नहीं है। शक्यंभव ने कहा कि तू दक्षिणा के लोभ से मुझ को तत्त्व नहीं बतलाता है। क्योंकि रागद्वेष रहित, निर्मम, निष्परिग्रह, शांत, दांत, महा मुनियों का कहना झूठा नहीं होता है। और तू मेरा गुरु नहीं, तैने तो जन्म से इस जगत् को ठगना ही सीखा है, इस वास्ते तू शिक्षा के योग्य है। इस वास्ते या तो मुझे तत्त्व कह दे, नहीं तो तलवार से तेरा शिर छेड़ करूंगा। ऐसे कह के जब मियान से तलवार काढी, तब उपाध्याय ने प्राणांत कष्ट देख के कहा कि हमारे वेदों में भी ऐसे लिखा है, और हमारी आम्नाय भी यही है, कि जब हमारा कोई शिर छेदे, तब तत्त्व कहना, नहीं तो नहीं कहना। तिस वास्ते मैं तुम को तत्त्व कह देता हूँ—

इस यज्ञ स्तंभ के हेठ अर्हत की प्रतिमा स्थापन करी है, और नीचे ही तिस को प्रच्छन्न हो के पूजते हैं, तिस के प्रभाव से यज्ञ के सर्व विघ्न दूर हो जाते हैं, जेकर यज्ञ-स्तंभ के नीचे अर्हत की प्रतिमा न रखे, तो महातपा सिद्धपुत्र और नारद ये दोनों यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं।

पीछे उपाध्याय ने यज्ञस्तम्भ उखाड़ के अर्हत की प्रतिमा दिखाई और कहा कि यह प्रतिमा जिस देव की है, तिस अर्हत का कहा हुआ वर्म जीवदया रूप तत्त्व है। और यह जो वेद प्रतिपाद्य यज्ञ है, वे सर्व हिंसात्मक होने से प्रिडमना रूप हैं, परन्तु क्या करें ? जेकर हम ऐसे न करें तो हमारी आजीविका नहीं चलती है। अब तू तत्त्व मान ले और मुझ को छोड़ दे अरु तू परमार्हत होजा, क्योंकि मैंने अपने पेट के वास्ते तुझ को बहुत दिन बहकाया है। तब शय्यभय ने नमस्कार करके कहा कि तू यथार्थ तत्त्व के प्रकाश करने से सच्चा उपाध्याय है, ऐसा कह कर शय्यभय ने तुष्टमान हो कर यज्ञ की सामग्री जो सुर्योपासनादि थे, वे सब उपाध्याय को दे दी, और प्रभय स्वामी के पास जा कर तत्त्व का स्वरूप पूछ कर दीक्षा ले लीनी। शेष इनका वृत्तान्त परिशिष्टपत्र अथ से जान लेना। शय्यभय स्वामी अठाईस वर्ष गृहस्थावास में रहे, ग्यारह वष सामान्य साधु व्रत में रहे और तेईस वष युगप्रधानाचार्य पदवी में रहे। इस तरे सत्रायु यासठ वष भोग के श्रीमहावीर भगवत के २८ वष पीछे स्वर्ग गये।

५ श्री शय्यभव स्वामी के पाठ ऊपर श्री यतोमद्र बैठे।
 सो बाधीस वष गृहस्थावास में रहे, और श्री यतोमद्र चौदह वर्ष व्रत पर्याय में रहे अरु पचास वर्ष तक युगप्रधान पदवी में रहे, इस तरे सत्र ८८

वर्ष की आयु भोग के श्रीमहावीर से १४८ वर्ष पीछे स्वर्ग गये ।

६. श्रीयशोभद्र स्वामी के पाठ ऊपर एक श्री संभूतविजय और दूसरे श्रीभद्रबाहु, यह दोनों बैठे । श्री संभूतविजय तिन में संभूतविजय तो पैतालीस वर्ष तक श्री भद्रबाहु गृहस्थ रहे, और चालीस वर्ष व्रतपर्याय तथा आठ वर्ष युगप्रधान पदवी सर्व आयु नव्वे वर्ष भोग के स्वर्ग में गये । और भद्रबाहु स्वामी ने—

१. आवश्यक निर्युक्ति, २. दशवैकालिक निर्युक्ति, ३. उत्तराध्ययन निर्युक्ति, ४. आचारांग की निर्युक्ति, ५. सूत्रकृदंग निर्युक्ति, ६. सूर्यप्रब्रति निर्युक्ति, ७. ऋषिभाषित निर्युक्ति, ८. कल्प निर्युक्ति, ९. व्यवहार निर्युक्ति, १०. दशा निर्युक्ति, ये दश निर्युक्तियां और १. कल्प, २. व्यवहार, ३. दशाश्रुतस्कंध, यह नवमे पूर्व से उद्धार करके बनाये । और एक बहुत बड़ा भद्रबाहु नामक संहिता ज्योतिष शास्त्र बनाया । उपसर्गहर स्तोत्र बनाया । जैनियों के ऊपर बहुत उपकार करा । इन ही भद्रबाहु जी का सगा भाई वराहमिहर हुआ । वो पहिले तो जैनमत का साधु हुआ था, फिर साधुपना छोड़ के वराही संहिता बनाई । और जो वराहमिहर विक्रमादित्य की सभा का पंडित था, वो दूसरा वराहमिहर था, संहिता कारक वो नहीं हुआ । इस का सम्पूर्ण वृत्तांत परिशिष्टपर्व से जान लेना । श्री भद्रबाहु स्वामी गृहस्थावास में पैतालीस

वप रहे, सतरा वर्ष व्रतपर्याय, अरु चौदह वर्ष युगप्रधान, सत्र मिल कर ७६ वर्ष की आयु भोग के श्री महावीर से १७० वर्ष पीछे स्वर्ग गये ।

७ यह श्री सभूतविजय अरु भद्रगड्ड स्वामी के पाट ऊपर श्रीस्थूलभद्र स्वामी बैठे । इन का बहुत श्री स्थूलभद्र वृत्तांत है, सो परिशिष्टपर्व ग्रंथ से जान लेना । श्री स्थूलभद्र स्वामी तीस वर्ष गृह स्थावास में रहे, चौबीस वष व्रतपर्याय, अरु पैतालीस वर्ष युगप्रधान पदवी, सब आयु ९९ वष भोग के श्रीमहा वीर से २१५ वर्ष पीछे स्वर्ग गये ।

१ प्रभव स्वामी २ शय्यभव स्वामी ३ यशोभद्र स्वामी, ४ सभूतविजय, ५ भद्रगड्ड स्वामी, ६ स्थूलभद्र यह छ आचार्य चौदह पूव के वेत्ता थे । श्री महावीर से दो सौ चौदह वर्ष पीछे आपाढाचार्य के शिष्य तीसरे निन्हव हुये ।

स्थूलभद्र के वक्त में नव नदों का एक सौ पचावन (१५५) वष का राज्य उच्छेद करके चाणक्य ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त राजा को राजसिंहासन ऊपर बिठाया, और चन्द्रगुप्त के सन्तानों ने एक सौ आठ वष तक राज्य किया । चन्द्रगुप्त मोरपाल का वेत्ता था, इस वास्ते चन्द्रगुप्त के वष को मौर्यवष कहते हैं । यह चन्द्रगुप्त जैनमत का धारक थवक राजा था । इस चन्द्रगुप्त तथा नवनन्द का वृत्तांत देखना होवे, तदा

परिशिष्टपूर्व, उत्तराध्ययन वृत्ति तथा आवश्यक वृत्ति से देख लेना ।

श्री स्थूलभद्र स्वामी के पीछे ऊपर के चार पूर्व, प्रथम संहनन, प्रथम संस्थान, व्यवच्छेद हो गये, तथा श्रीमहावीर से दो सौ बीस (२२०) वर्ष पीछे अश्वमित्र नामा चौथा क्षणिकवादी निन्हव हुआ । और श्री स्थूलभद्र जी के समय में वाराणसी वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा । उस समय में चन्द्रगुप्त का राजा था । तथा श्री महावीर के पीछे २२८ वर्ष व्यतीत हुए गंग नामा पांचमा निन्हव हुआ ।

८. श्री स्थूलभद्र पीछे श्री स्थूलभद्र जी के दो शिष्य, एक आर्यमहागिरि और दूसरा सुहस्ति सूरि आठमे पाट ऊपर बैठे । तिस में आर्यमहागिरि के शिष्य १. वहुल, २. बलिस्सह, फिर बलिस्सह का शिष्य श्री उमास्वाति जी जिस ने तत्त्वार्थादि सूत्र रचे हैं, और उमास्वाति का शिष्य श्यामाचार्य, जिस ने प्रज्ञापना (पन्नवणासूत्र) बनाया । यह श्यामाचार्य श्री महावीर से तीन सौ छिहत्तर वर्ष पीछे स्वर्ग गया । और आर्य महागिरि जी तीस वर्ष गृहवास में रहे, चालीस वर्ष व्रतपर्याय अरु तीस वर्ष युगप्रधान पदवी सर्वायु एक सौ वर्ष की भोग के स्वर्ग गये ।

और दूसरा आठमे पाटवाला सुहस्ति सूरि, जिस ने एक भिखारी को दीक्षा दीनी । वो भिखारी काल करके चन्द्रगुप्त का वेदा विंदुसार और विंदुसार का वेदा अशोक और अशोक का वेदा

कुणाल, तिस कुणाल का चेदा सप्रति राजा हुआ। तिस सप्रति राजा ने जैनधर्म की बहुत वृद्धि करी। क्योंकि फल्पमूत्र के प्रथम उद्देश में श्रीमहावीर के समय में अत्र की निसप्रत बहुत थोड़े देशों में जैनधर्म लिया है। मारवाड़, गुजरात, दक्षिण, पञ्जाब वगैरे देशों में जो जैनधर्म है, सो सप्रति राजा ही से फैला है। यद्यपि इस काल में जैनी राजा के न होने से जैन धर्म सर्व जगते नहीं है, परन्तु सप्रति राजा के समय में बहुत उन्नति पर था। क्योंकि सप्रति राजा का राज्य मध्यगण्ड और गंगा पार और सिंधु पार के सर्व देशों में था। सप्रति राजा ने अपने नौकरों को जैन के साधुओं का घेप घना कर अपने सेवक राजाओं के जो शक, यवन, फारसादि देश थे, तिन देशों में भेजा। तिनों ने तिन राजाओं को जैन के साधुओं का आहार विहार आगरादि सर्व घनाया और समझाया। पीछे से साधुओं का विहार तिन देशों में करा कर लोगों को जैनधर्मो करा। और सप्रति राजाने निन्यानत्रे हजार (९९०००) जीण जिनमन्दिरों का उद्धार कराया अर्थात् पुराने टूटों फूटों को नया बनाया। और छब्बीस हजार (२५०००) नवीन जिनमन्दिर बनवाये। और सोने, चादी, पीतल, पाषाण, प्रमुख की मृदा मोड़ प्रतिमा बनवाई। तिस के बनवाय मन्दिर नडौल, गिरनार, शशुजय रत्ननाम प्रमुख अनेक स्थानों में गये हमने अपनी आँखों से दगे हैं। और सप्रति की बनवाई अजनप्रतिमा तो हमने मैंकड़ों देगी हैं। इस

संप्रति राजा का वृत्तांत परिशिष्ट पत्रादि ग्रन्थों से समग्र जान लेना ।

तिस ही श्रीसुहस्ति सूरि आचार्य ने उज्जैन की रहने वाली भद्रा सेठानी का पुत्र अवन्ति सुकुमाल को दीक्षा दीनी । और जहां उस अवन्ति सुकुमाल ने काल करा था, तिस जगे तिस अवन्ति सुकुमाल के महाकाल नामक पुत्र ने जिनमन्दिर बनवाया, और तिस मंदिर में अपने पिता के नाम से अवन्ति पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापन करी । कालांतर में ब्राह्मणों ने अपना जोर पा कर तिस मंदिर में मूर्ति को हेठ दाव कर ऊपर महादेव का लिंग स्थापन करके महाकाल (महादेव) का मन्दिर प्रसिद्ध कर दिया । पीछे जब राजा विक्रम उज्जैन में राजा हुआ, तिस अवसर में कुमुदचंद्र अर्थात् सिद्धसेन दिवाकर नामा जैनाचार्य ने कल्याणमंदिर स्तोत्र बनाया, तब शिव का लिंग फट कर बीच में से पूर्वोक्त पार्श्वनाथ की मूर्ति फिर प्रगट हुई ।

इस का संबन्ध ऐसा है । विद्याधर गच्छ में स्कंदिला-
 चार्य, तिन का शिष्य वृद्धवादी आचार्य था ।
 श्री वृद्धवादी और तिस अवसर में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य
 श्री सिद्धसेन था, तिस का मन्त्री कात्यायन गोत्री देव-
 ऋषि नामा ब्राह्मण, तिस की दैवसिका नामा
 स्त्री, तिन का पुत्र सिद्धसेन, सो विद्या के अभिमान से सारे
 जगत् के लोगों को तृणवत् (घास फूस समान) समझता था,

और ऐसा जानता था कि मेरे समान बुद्धिमान् कोई भी नहीं, और जो मुझ को वाद में जीत लेवे, तो मैं उस का ही शिष्य बन जाऊंगा । पीछे तिस ने वृद्धवादी की बहुत कीर्ति सुनी, उन के सम्मुख जाने वास्तु सुग्रासन ऊपर बैठ के भ्रगुक्च्छ (भडौच) की तरफ चला जाता था । तिस अवसर में वृद्धवादी भी रन्ते में सम्मुख आता हुआ मिला, तब आपस में दोनों का आलाप सलाप हुआ, पीछे सिद्धमेन जी ने कहा कि मेरे साथ तुम वाद करो । तब वृद्धवादीने कहा कि वाद तो करू, परन्तु इस जगलमें जीते हारे का कहने काग कोई साक्षी नहीं । तब सिद्धमेन जी ने कहा कि यह जो गाँ चराने वाले गोप हैं, ये ही मेरे तुमारे साक्षी रहे ये जिस की द्वारा कह देंगे सो द्वारा । तब वृद्धवादी ने कहा कि बहुत अच्छा, ये ही साक्षी रहे । अब तुम बोलो तब सिद्धमेन जी ने बहुत सरसृत भाषा बोलनी और चुप हुआ । तब गोपों ने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं जानता, केशल ऊँचा बोल के हमारे कानों की पीड़ा देना है । तब गोप कहने लगे कि हे वृद्ध ! नू बोल । पीछे वृद्धवादी भयमर दृग् के कच्छा बाध कर तिन गोपों की भाषा में कहने लगे, और थोड़े थोड़े वृद्धने भी गे । जो उद् उधारा सो कहने हैं—

नवि मारिये नवि चौरिये, परदारागमण निवारिये ।

थोराथोर गायइ मग्गि मट्टे मट्टे जाइयइ ॥

फिर भी बोले और नाचने लगे—

कालो कंवल नीचोवट्ट, छाछे भरिउ दीवडो थट्ट ।

एवड पडीओ नीले भाड, अवर किसो छे सग्ग निलाड ॥

यह सुन कर गोप बहुत खुशी हुये और कहने लगे कि वृद्धवादी सर्वज्ञ है। इस ने कैसा मीठा कानों को सुखदायी हमारे योग्य उपदेश कहा, और सिद्धसेन तो कुछ नहीं जानता। तब सिद्धसेन जी ने वृद्धवादी को कहा कि हे भगवन् ! तुम मुझ को दीक्षा दे के अपना शिष्य बनाओ। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो गोप मुझे हारा कहेंगे, तो मैं हारा, और तुमारा शिष्य बनूंगा। यह सुन कर वृद्धवादी ने कहा कि भृगुपुर में राजसभा के बीच तेरा मेरा वाद होवेगा। क्योंकि इन गोपों की सभा में वाद ही क्या है? तब सिद्धसेन ने कहा कि मैं अक्सर नहीं जानता, तुम अक्सर के ज्ञाता हो, इस वास्ते मैं हारा। पीछे वृद्धवादी ने राजसभा में उस का पराजय करा। तब सिद्धसेन ने दीक्षा लीनी। गुरु ने उन का नाम कुमुदचन्द्र दिया। पीछे जब आचार्य पदवी दीनी, तब फिर सिद्धसेन दिवाकर नाम रक्खा।

पीछे वृद्धवादी तो और कहीं को विहार कर गये, और सिद्धसेन दिवाकर अवंति-उज्जैन में गये। श्रीसिद्धसेन और तब उज्जैन का संघ सन्मुख आया, और विक्रमराजा - सिद्धसेन दिवाकर को सर्वज्ञपुत्र, ऐसा विरुद्ध दिया, ऐसा विरुद्ध बोलते हुए अवंति नगरी

के चौक में लाये । तिस अग्रसर में राजाविभ्रमादित्य हाथी ऊपर चढ़ा हुआ समुग्न मिला । तत्र राजा ने सर्वग पुत्र ऐसा विरुद सुन के तिन की परीक्षा चास्ते हाथी ऊपर घंट ही ने मन से नमस्कार करा, तत्र आचार्य ने धर्मलाभ कहा । तत्र राजा ने पूछा कि जिना ही चढ़ना करे, आप ने मेरे को धमलाभ क्योंकर कहा ? क्या यह धमलाभ बहुत सस्ता है ? तत्र आचार्य ने कहा कि यह धर्मलाभ क्रीडचित्ता मणि रत्नों से भी अधिक है । जो कोई हम को चढ़ना करना है, उस को हम धमलाभ कहते हैं । और ऐसे नहीं कि तुम ने हम को चढ़ना नहीं करी । तुम ने अपने मन से चढ़ना करी मन ही तो सर्प पाशों में प्रधान है, इस चास्ते हम ने धम लाभ कहा है । और तुम ने भी मेरी परीक्षा चास्ते ही मन में नमस्कार करा है । तत्र विभ्रमराजा ने तुष्टमान हो कर हाथी से नीचे उतर कर सयसय के समक्ष चढ़ना करी । और एक घोड़ भराफा दीनी, परन्तु आचार्य ने अशफिया नहीं लीनी, क्योंकि ये त्यागी थे । और राजा भी पीछे नहीं लेता । तत्र आचार्य की आगा से सयसयों ने जीणोंद्वार में लगा दीनी । राजा के दफ्तर में तो ऐसा लिखा है—

धर्मनाम इति प्रोक्ते दूरादुन्मिच्छतपाण्ये ।

मृग्ये सिद्धमेनाय, ददौ कोटिं धराधिप ॥

श्रीविक्रमराजा के आगे सिद्धसेन दिखाकर ने ऐसे भी कहा था—

पुण्णे वास सहस्से, संयमि वरिसाण नवनवड्कणिए ।
होइ कुमर नरिंदो, तुह विक्रमरायसारिछो ॥

अन्यदा सिद्धसेन चित्रकूट में गये। तहां बहुत पुराने जिनमंदिर में एक बड़ा मोटा स्तम्भ देखा । तब किसी को पूछा कि यह स्तम्भ किस तरे का है ? यह सुन कर किसी ने कहा कि यह स्तम्भ औषध द्रव्यमय जलादि करके अभेद्य वज्रवत् है । इस स्तम्भ में पूर्वाचार्यों ने बहुत रहस्य विद्या के पुस्तक स्थापन करे हैं, परन्तु किसी से यह स्तम्भ खुलता नहीं । यह सुन कर सिद्धसेन आचार्य ने तिस स्तम्भ को सूंघा तिस की गंध से तिस की प्रतिपत्ती औषधियों का रस छांट्टा, तिस से वो स्तम्भ कमल की तरें खिड़ गया । तब तिस में पुस्तक देखे, तिन में से एक पुस्तक ले कर वाचा । तिस के प्रथम पत्र में दो विद्या लिखी पाई, एक सरसों विद्या और दूसरी सुवर्णविद्या । तिस में सरसों विद्या उस को कहते हैं, कि जब काम पडे तब मंत्रवादी जितने सरसों के दाने जप के जलाशय में गेरे, उतने ही असवार बैतालीस प्रकार के आयुधों सहित बाहिर निकल के मैदान में खड़े हो जाते है, तिनों से शत्रु की सेना का भंग हो जाता है । पीछे जब वो कार्य पूरा हो जाता है, तब

असवार अदृश्य हो जाते हैं। और दूसरी हेमविद्या से विना मेहनत के जितना चाहे, उतना सुरण हो जाता है। ये दो विद्या सिद्धसेन ने ले लीनी। जब आगे वाचने लगा तब स्तम्भ मिल गया, सर्व पुस्तक बीच में रह गये। और आकाश में देववाणी हुई कि तू इन पुस्तकों के वाचने योग्य नहीं, आगे मत वाचना, वाचेगा तो तत्काल मर जायगा। तब सिद्धसेन ने डर के विचार करा कि दो विद्या मिली दो ही सही।

पीछे वित्तोड से विहार करके पूर्वदेश में कुमारपुर में गये। तहा देवपाल राजा था, तिस को प्रतिबोध के पक्का जन धर्मी करा। तहा वो राजा नित्य सिद्धांत श्रवण करता है। जब ऐसे कितनाक काल व्यतीत हुआ, तब एक समय राजा छाना आया, और आसु से नेत्र भर कर कहने लगा कि हे भगवन् हम बड़े पापी हैं, क्योंकि आप की ऐसी उत्तम गोष्ठि का रस नहीं पी सकते हैं। कारण कि हम बड़े सकट में पड़े हैं। तब आचार्य ने कहा कि तुम को क्या सकट हुआ है? राजा कहने लगा कि बहुत मेरे वैरी राजे इकट्ठे हो कर मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। तब फिर आचार्य ने कहा कि ह राजन्! तू आकुल व्याकुल मत हो, जब मैं तेरा सहायक हूँ, तो फिर तुम्हें क्या चिंता है? यह बात सुन कर राजा बहुत राजी हुआ। पीछे आचार्य ने राजा को पूर्वोक्त दोनों विद्यार्थों से समझ कर दिया। तिन विद्यार्थों से परदल का

भंग हो गया । तिन का डेरा डंडा सर्व राजा ने लूट लिया । तब राजा आचार्य का अत्यन्त भक्त हो गया । उस से आचार्य सुखों में पड़ के शिथिलाचारी हो गया । यह स्वरूप वृद्धवादी जी ने सुना, पीछे दया करके तिन का उद्धार करने वास्ते तहां आये । दरवाजे आगे खड़े हो कर कहला भेजा कि एक बूढा वादी आया है, तब सिद्धसेन ने बुला कर अपने आगे विठाया । तब वृद्धवादी सर्व अपना शरीर वस्त्र से ढांक कर बोले:—

अणफुल्लियफुल्लमतोडहिं,

मारोवामोडिहिं मणुकुमुमेहिं ।

अच्चि निरंजणं जिणं,

हिडहि काइ वणेण वणु ॥

इस गाथा को सुन कर सिद्धसेन ने विचार भी करा, परन्तु अर्थ न पाया । तब विचार करा कि क्या यह मेरे गुरु वृद्धिवादी हैं ? जिन के कहे का मैं अर्थ नहीं जानता हूं । पीछे जब बार बार देखने लगा तब जाना कि यह मेरे गुरु हैं । पीछे नमस्कार करके क्षमापन मांगा, और पूर्वोक्त श्लोक का अर्थ पूछा । तब वृद्धवादी कहने लगे “अणफुल्लियेत्यादि” अणफुल्लियफुल्ल—प्राकृत के अनंत होने से अप्राप्त फूल फलों को मत तोड़ । भावार्थ यह है कि योग-जो है, सो कल्पवृक्ष

है। किस तरे? जिस योग रूप वृक्ष में यम नियम तो मूल है, और ध्यान रूप बड़ा स्फुट है, तथा समतापना कविपना, वक्तापना, यश, प्रताप, मारण, उच्चाटन, स्तभन, वशीकरणादि सिद्धियों की जो सामर्थ्य, सो फूल है, अरु केवल ज्ञान फल है। अभी तो योगकल्पवृक्ष के फूल ही लगे हैं, सो केवल ज्ञानरूप फल करके आगे फलेंगे। इस वास्ते तिन अप्राप्त फल पुष्पों को क्यों तोड़ता है? अर्थात् मत तोड़, ऐसा भावार्थ है। तथा मारोवा मोडिहि" जहा पाच महाघत आरोपा है, तिन को मत मरोड़। "मण्डुसुमे त्यादि" मनरूप फूलों करी 'निरजन जिन पूजय—निरजन जिन को पूज। "वनात् वन किं हिडसे" राजसेनादि घुरे नीरस फल क्यों करता है? इति पद्याथ।

तब सिद्धसेन सुरि ने गुरु शिवा को अपने शिर ऊपर धरके और राजा को पूछके वृद्धवादी गुरु के साथ विहार करा, और निविड़ चारित्र धारण करा। अनेक आचार्यों से पूछों का ज्ञान सीखा। वृद्धवादी स्वग्रास हुए पीछे एकदा सिद्धसेन जी ने सर्वसद्य इकट्ठा करके कहा कि जेकर तुम कहो तो सर्वागमों को मसकृत भाषा में कर दू। तत्र थीसद्य ने कहा कि क्या तीर्थकर गणधर सस्कृत नहीं जानते थे? जो तिन्हों ने अर्द्धमागधी भाषा में आगम करे? ऐसी घात कहने से तुम को पाराचिक नाम प्रायश्चित्त आवेगा, हम तुम से क्या कहें? तुम आप ही जानते हो। तब

सिद्धसेन ने विचार करके कहा कि मैं मौन करके वाराणस का पारांशिक नाम प्रायश्चित ले के गुप्त मुखवस्त्रिका, रजोहरणादि लिंग करके और अद्रधूनरूप धार के फिरंगा। ऐसे कह कर गच्छ को छोड़ के नगरादिकों में पर्यटन करने लगे। वाराणस के पर्यंत में उज्जैन नगरी में महाकाल के मन्दिर में शोफालिका के फूलों करके रंगे वस्त्र पहने हुए सिद्धसेन जी जा के बैठे। तब पुजारी प्रमुख लोगों ने कहा कि तुम महादेव को नमस्कार क्यों नहीं करते ? सिद्धसेन तो बोलते ही नहीं हैं ? ऐसे लोगों की परंपरा से सुन कर विक्रमादित्य ने भी तहां आ कर कहा—

धीरलिक्षो भिक्षो ! किमिति त्वया देवो न वंद्यते ।

तब सिद्धसेन जी ने कहा कि मेरे नमस्कार से तुमारे देव का लिंग फट जायगा, फिर तुम को महादुःख होवेगा, मैं इस वास्ते नमस्कार नहीं करता हूं। तब राजा ने कहा लिंग फटे तो फट जाने दो, परन्तु तुम नमस्कार करो। पीछे सिद्धसेन जी पद्मासन बैठ के कहने लगे कि सुनो। तब द्वात्रिंशका करके देव का स्तवन करने लगा, तथाहि—

स्वयंभुवं भूतसहस्रनेत्र-

मनेकमेकाक्षरभावलिंगम् ।

अव्यक्तमव्याहृतविश्वलोक-

मनादिमध्यातमपुण्यपापम् ॥

इत्यादि प्रथम ही श्लोक पढ़ने से लिंग में से धृआ निकला । तब लोग कहने लगे कि शिवजी का तीसरा नेत्र खुला है, अब इस भिक्षु को अग्नि नेत्र से भस्म करेगा । तब तो बिजली के तेज की तर्रें तड़तड़ाट करती प्रथम अग्नि निकली, पीछे श्रीपार्श्वनाथ जी का विं प्रगट हुआ । तब यादी सिद्धसेन ने कत्याणमदिरादि स्तवनों फरी स्तवन करके क्षमापन मागा । तब राजा विक्रमादित्य कहने लगा कि हे भगवन् ! यह क्या अद्दयपूज देखने में आया ? यह कौनसा नवीन देव है ? और यह प्रगट क्योंकर हुआ ? तब सिद्धसेन जी ने अवति सुकुमाल और तिस के पुत्र महामाल ने पिता के नाम से अवति पार्श्वनाथ का मंदिर और मूर्ति बनाई, स्थापन करी । तिस की कितनेक वर्ष लोगों ने पूजा करी । अवसर पा कर ब्राह्मणों ने जिनप्रतिमा को हेठ दाथ के ऊपर यह शिवलिंग स्थापन करा इत्यादि सब वृत्तात कहा । और हे राजन् ! इस मेरी स्तुति से शासन देवता ने शिवलिंग फाड़ के धीच में से यह प्रतिमा, प्रगट कर दीनी । अब तू सत्यासत्य का निणय कर ले । तब विक्रमादित्य ने एक सौ गाम मंदिर के चरच वास्ते दिये, और देव के समक्ष गुरु मुग्ध से धारा व्रत ग्रहण करे, सिद्धसेन की बहुत महिमा करी और अपने म्यान में गया । और चार्त्तद्र सिद्धसेन

दिवाकर को संघ ने जिनधर्म की प्रभावना से तुष्टमान हो कर संघ में लिया, अरु पूर्ववत् आचार्य बनाया ।

एक समय श्रीसिद्धसेन दिवाकर विहार करते हुये मालवे के देश में जो अँकार नामक नगर है, तहां गये । तिस नगर के भक्त श्रावकों ने आचार्य को पिनति करी, कि हे भगवन् ! इसी नगर के समीप एक गाम था, तिस में सुन्दर नामा राजपुत्र ग्रामणी था, तिस की दो स्त्रियां थीं । एक स्त्री के प्रथम पुत्री जन्मी वो स्त्री मन में खिजी । तिस अवसर में उस की सौकन भी प्रसूत होने वाली थी । तब तिस ब्रेटी वाली ने विचारा कि इस के पुत्र न होवे, तो ठीक है । क्योंकि नहीं तो यह पति को बल्लभ हो जावेगी । तब दाई से मिल के उस से पैदा हुए पुत्र को बाहिर गिरा दिया, और तत्काल का मरा हुआ लड़का उस के आगे रख दिया । पीछे जौनसा लड़का बाहिर गेरा गया था, उस को कुलदेवी ने गौ का रूप करके पाला । जब आठ वर्ष का हुआ, तब इस अँकार नगर के शिवभवन के अधिकारी भरट ने देखा और अपना चेला बना लिया ।

एकदा आंखों से अंधे कान्यकुब्ज देश के राजा ने दिग्विजय के कार्य से तहां पड़ाव करा । तब रात्रि में उस छोटे चेले को शिवभक्त व्यंतर देवता ने कहा, कि शेष भोग राजा को देना, उस की आंखें अच्छी हो जावेंगी । तैसे ही करा, तिस से राजा की आंखें अच्छी हो गईं । तब राजा ने सौ

गाम मंदिर के खरच वास्ते दिये, और यह उड़ा ऊचा जो शिव का मंदिर है, सो भी उसी ने बनवाया । और हम इस नगर में रहते हैं, परन्तु मिथ्यादृष्टियों के बलवान् होने से हम जिनमंदिर बनाने नहीं पाते हैं । इस वास्ते आप से विनति करते हैं, कि इस मंदिर में अधिक हमारा मन्दिर यहा बने तो ठीक है और आप सर्व तरों से समर्थ हैं । तिन का वचन सुन कर चार्दींद्र ने अग्रति में आकर चार श्लोक हाथ में ले कर विक्रमादित्य के द्वार पास आये । दरवाजेदार के मुख से राजा को कहलाया—

दृष्टु भिक्षुरायतस्तिष्ठति द्वारप्ररित ।

हस्तन्यस्तचतुःश्लोक उतागच्छतु गच्छतु ॥

तिस श्लोक को सुनकर विक्रमादित्य ने बदले का यह श्लोक लिखकर भेजा—

दत्तानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुर्दश ।

हस्तन्यस्तचतुःश्लोक उतागच्छतु गच्छतु ॥

तिस श्लोक को सुन कर आचार्य ने कहला भेजा कि भिक्षु तुम को मिलना चाहता है, परन्तु धन नहीं लेता । तब राजा ने स-मुख बुलाये और पिछान के कहने लगा कि गुरु जी बहुत दिनों पीछे दर्शन दिया । तब आचार्य कहने लगे कि धर्मकार्य के करने से बहुत दिन हो गये, इस वास्ते चिर से आना हुआ है । अब चार श्लोक तुम सुनो—

अपूर्वेयं धनुर्विद्या, भवता शिक्षिता कुनः ।
 मार्गणोद्यः समभ्येति, गुणो याति दिगन्तरे ॥१॥
 सरस्वती स्थिता वक्त्रे, लक्ष्मीः करसरोरुहे ।
 कीर्तिः किं कुपिता राजन्, येन देशान्तरं गता ॥२॥
 कीर्तिस्ते जातजाड्येव, चतुरंभोधिमज्जनात्, ।
 आतपाय धरानाथ ! गता मार्त्तडमंडलम् ॥३॥
 सर्वदा सर्वदोसीति, मिथ्या संस्तूयसे जनैः ।
 नारयो लेभिरे पृष्ठं, न वन्नः परयोपितः ॥४॥

यह चारों श्लोक सुन के राजा बहुत खुश हुआ, और
 आचार्य को कहने लगा कि जो मेरे राज्य में सार है, सो
 मांगो तो दे दू। तब आचार्य ने कहा कि मुझे तो कुछ भी
 नहीं चाहिये। परन्तु ॐकार नगर में चतुर्द्वार जैनमंदिर शिव-
 मंदिर से ऊंचा बनाओ, और प्रतिष्ठा भी कराओ। तब राजा
 ने वैसे ही करा। तब जिनमत की प्रभावना को देख के संघ
 तुष्टमान हुआ। इत्यादि प्रकार से जैनधर्म की प्रभावना
 करते हुए दक्षिण देश में प्रतिष्ठानपुर में जा कर अनशन
 करके देवलोक गये। तब तहां से संघ ने एक भट्ट को सिद्ध-
 सेन की गच्छ पास खबर करने को भेजा, तिस भट्ट ने
 सूरियों की सभा में आधा श्लोक पढा और बार बार पढता
 ही रहा। वो आधा श्लोक यह है:—

स्फुरति वादिखद्योता, साप्रत दक्षिणापथे ।

जब चार बार यह अथ श्लोक सुना तब सिद्धसेन की पहिन साध्वी ने सिद्ध सारम्भत मन्त्र से अथ श्लोक पूरा करा—

नूनमस्तगतो प्रादी सिद्धमेनो दिवाकर. ॥

पीछे तिस भट्ट ने सर्व वृत्तात सुनाया तब सद्य की बड़ा शोक हुआ । यह सिद्धसेन दिवाकर का प्रसंग से सम्बन्ध कथन करा ।

यह सुहस्ति आचार्य तीस वष गृहस्थावास में रहे, और चौबीस वष व्रतपर्याय, तथा छैतालीस वष युगप्रधान पदवी, सब मिल कर एक सौ वर्ष की आयु भोग के महा वीर जी से दो सौ एकानत्रे (२६१) वष पीछे स्वर्ग गये, ये आठमे पाट पर आर्य महागिरि और सुहस्ति आचार्य हुए ।

९ श्री सुहस्ति सूरि के पाट ऊपर श्री सुस्थित और सुप्रतिवद्ध नामा दो शिष्य बैठे । तिनों ने प्रोढ़ों चार सूरि मन्त्र का जाप करा, इस वास्ते गच्छ का कोटिक, ऐसा दूसरा नाम सद्य ने रक्खा, क्योंकि सुधमा स्वामी ने लेकर आठ पाट तक तो अनगार निर्ग्रथगच्छ नाम था, पीछे दूसरा कोटिक नाम हुआ ।

१० श्री सुस्थित सूरि के पाट ऊपर श्री इन्द्रदिश सूरि

हुआ। इस अवसर में महावीर जी से चार सौ त्रेपन (४५३) वर्ष पीछे गर्दभिल्ल राजा के उच्छेद करने वाला दूसरा कालिकाचार्य हुआ। इस की कथा कल्पसूत्र में प्रसिद्ध है। और महावीर से ४५३ वर्ष पीछे भृगुकच्छ (भडौच) में श्री आर्य खपुटाचार्य विद्या चक्रवर्ती हुआ। इन का प्रबन्ध प्रबन्ध-चिंतामणि ग्रंथ तथा हारिभद्रा आवश्यक की टीका से जान लेना। और प्रभावक चरित्र में ऐसा लिखा है कि महावीर से ४८४ वर्ष पीछे खपुटाचार्य और ४६७ वर्ष पीछे आर्य-मंगु, वृद्धवादी, पादलिप्त तथा कल्याणमन्दिर का कर्ता, ऊपर जिस का प्रबन्ध लिख आये हैं, सो सिद्धसेन दिवाकर हुआ। जिनों ने विक्रमादित्य को जैनधर्मी करा। सो विक्रमादित्य महावीर से ४७० वर्ष पीछे हुआ। सो ४७० वर्ष ऐसे हुये हैं:—

जिस रात्रि में श्री महावीर का निर्वाण हुआ, उस दिन अवान्ते नगरी में पालक नामा राजा को विक्रमादित्य राज्याभिषेक हुआ। यह पालक चंद्रप्रद्योत का का समय पोता था। तिस का राज्य ६० वर्ष रहा। तिस के पीछे श्रेणिक का वेटा कोणिक और कोणिक का वेटा उदायी, जब विना पुत्र के मरा तब तिस की गद्दी ऊपर नन्द नामा नाई बैठा। तिन की गद्दी में सर्व नन्द नामा नव राजे हुए। तिन का राज्य १५५ वर्ष तक रहा। नवमें नन्द की गद्दी ऊपर मौर्यवंशी चंद्रगुप्त राजा

हुआ । तिस का वेदा विंदुसार, तिस का वेदा अशोक तिस का वेदा कुणाल तिस का वेदा सम्प्रति महाराजादि हुए । इन मौर्यप्रशियों का सर्व राज १०८ वष तक रहा । यह पूर्वोक्त सर्व राजे प्राय जैनमत वाले थे । तिन के पीछे तीस वष तक पुष्यमित्र राजा का राज्य रहा । तिस पीछे बलमित्र, भानुमित्र, इन दोनों राजाओं का राज्य ६० वष तक रहा, तिस पीछे नमवाहन राजा का राज्य ४० वष तक रहा, तिस पीछे तेरा वष गर्दभिहड़ी का राज्य रहा, और चार वर्ष शकों का राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्य ने शकों को जीत के अपना राज्य जमाया । यह सर्व ४७० वष हुए ।

११ श्री इन्द्रदिग्ग सूरि के पाट ऊपर श्री दिग्गसूरि हुये ।

१२ श्री दिग्गसूरि के पाट ऊपर श्री सिंहगिरि सूरि हुये ।

१३ श्री सिंहगिरि जी के पाट ऊपर वज्रस्वामी जी हुये ।

जिन को चाल्याप्रस्था से जातिस्मरण दान श्री वज्रस्वामी था, जिन को आकारागमन विद्या भी थी, जिनों ने दूसरे चार वर्षों काल में सघ की रक्षा करी । तथा जिनों ने दक्षिणपथ में बौद्धों के राज्य में जिनेंद्र पूजा वास्ते फूल ला के दिये, बौद्ध राजा को जैन मती करा । यह आचार्य पिछला दशपूर्व का पाठक हुआ । जिनों से हमारी घञ्जी शाखा उत्पन्न हुई । इन का प्रबन्ध आवश्यक वृत्ति से जान लेना । सो वज्रस्वामी महावीर से पीछे चार सौ छयानवे और विप्रमादित्य के सप्त छप्यीस

में जन्मे, और आठ वर्ष घर में रहे चौतालीस वर्ष समान साधुव्रत में रहे, और छत्तीस वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, सर्वायु अठासी वर्ष की भोगी । तथा इन आचार्य के समय में जात्रइशाह सेठ ने शत्रुंजय तीर्थ का संवत् १०८ में तेरहवां बड़ा उद्धार करा, तिस की वज्रस्वामी ने प्रतिष्ठा करी । यह वज्रस्वामी महावीर से ५०४ वर्ष पीछे स्वर्ग गये । इन वज्रस्वामी के समय में दरामा पूर्व और चौथा संहनन और चौथा संस्थान व्यवच्छेद हो गये ।

यहां श्री सुहस्ति सूरि आठमे और वज्रस्वामी तेरहवें पाट के बीच में अपर पटावलियों में—१. गुणसुन्दर सूरि, २. कालिकाचार्य, ३. स्कंधिलाचार्य, ४. रेवतमित्रसूरि, ५. धर्मसूरि, ६. भद्रगुप्ताचार्य, ७. गुप्ताचार्य, यह सात क्रम से युगप्रधान आचार्य हुये । तथा श्रीमहावीर से पांच सौ तेतीस (५३३) वर्ष पीछे श्रीआर्यरक्षितसूरि ने सर्व शास्त्रों का अनुयोग पृथग् पृथग् कर दिया । यह प्रबंध आवश्यक वृत्ति से जान लेना । तथा श्री महावीर से ५३८ वर्ष पीछे त्रैराशि के जीतने वाले श्रीगुप्त सूरि हुये, तिनका प्रबन्ध उत्तराध्ययन की वृत्ति तथा विशेषावश्यक से जान लेना । जिस ने त्रैराशिक मत निकाला तिस का नाम रोहगुप्त था, वो गुप्तसूरि का चेला था, जिस का उल्लूक गोत्र था । जब रोहगुप्त गुरु के आगे हारा, और मत कदाग्रह न छोड़ा, तब अंतरंजिका नगरी के चलथ्री राजा ने अपने राज्य से बाहिर निकाल दिया ।

तत्र तिस रोहगुप्त ने कणाद नाम शिष्य करा । उस को—१
द्रव्य, २ गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष ६ ममताय,
इन पद पदार्थों का स्वरूप बतलाया, तत्र तिस कणाद ने
वैशेषिक सूत्र बनाये, तहा से वैशेषिक मत चला ।

१४ श्रीवज्रस्वामी के पाट ऊपर चौदवें वज्रसेन सूरिजी
बैठे । वे दुर्भिक्ष में वज्रस्वामी के वचन से
श्रीवज्रमेनसूरि सोपारक पत्तन में गये । तहा जिनदत्त के
घर में ईश्वरी नामा तिस की भार्या ने लापर
रूपक के रचने से एक हाडी अन्न की राधी । तिस में
त्रिप (जहर) डालने लगी । क्योंकि उनों ने विचारा था कि
अन्न तो मिलता नहीं, तिस प्रास्ते जहर पाके सब घर के
आदमी मर जायेंगे । तिस अवसर में वज्रसेन सूरि तहा
आये । वो उन को कहने लगे कि तुम जहर मत खाओ
कल को सुकाल हो जायेगा । तमे ही हुआ । तत्र तिन सेठ
के चार पुत्रों ने दीक्षा लीनी, तिन के नाम लिगते हैं—१
नागेंद्र, २ चन्द्र, ३ निवृत्त, ४ विद्याधर । तिन चारों से म्य
म्य नाम के चार कुल बने । यह वज्रसेन सूरि नव वर्ष
तक गृहस्थावास में रहे, और ११६ वर्ष समान साधुमत
में रहे, तथा तीन वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, सब आयु
१२८ वर्ष की भोग के महावीर से ६२० वर्ष पीछे स्वर्ग गये ।

यहा श्रीवज्रस्वामी और वज्रमेन सूरि के बीच में आर्य
रक्षित सूरि तथा दुर्धलिनापुष्य सूरि, यह दोनों युगप्रधान

हुये । महावीर से ५८४ वर्ष पीछे सातवां तिन्हव हुआ । तथा महावीर से ६०९ वर्ष पीछे कृष्ण सूरि का शिष्य शिवभूति नामक था, तिसने दिगंबर मत प्रवृत्त करा, सो अधिकार विशेषावश्यकादिकों से जान लेना ।

१५. श्रीवज्रसेन सूरि के पाट ऊपर चन्द्रसूरि बैठा । तिन के नाम से गच्छ का तीसरा नाम चंद्रगच्छ हुआ ।

१६. श्रीचन्द्रसूरि के पाट ऊपर सामंतभद्रसूरि हुये । वे पूर्वगत श्रुत के जानकार थे । वैराग के रंग से निर्मल हुए जङ्गलों में रहते थे । तब लोगों ने चन्द्रगच्छ का नाम वनवासीगच्छ रक्खा ।

१७. श्रीसामंतभद्र सूरि के पाट ऊपर वृद्धदेव सूरि हुये । तथा महावीर से ५२५ वर्ष पीछे कोरंट नगर में नाहड नामा मंत्री ने तथा सत्यपुर में नाहड मन्त्री ने मंदिर बनवाया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा जज्जक सूरि ने करी, प्रतिमा महावीर की स्थापन करी, जिस को "जयउवीरसच्चउरिमंडण" कहते हैं ।

१८. श्रीवृद्धदेव सूरि के पाट ऊपर प्रद्योतन सूरि हुये ।

१९. श्री प्रद्योतन सूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि हुये ।

इन के सूरिपद स्थापनावसर में दोनों स्कंधों पर सरस्वती और लक्ष्मी साक्षात् देख के यह चारित्र से भ्रष्ट हो जावेगा, ऐसा विचार करके खिन्नचित्त गुरु को जान के गुरु के आगे ऐसा नियम

करा कि भक्तिवाले घर की भिन्ना और दूध, दही, घृत, मीठा, तेल, अरु सब पन्चाङ्ग का त्याग किया । तब तिन के तप के प्रभाव से नडोलपुर जो पाली के पास है, तिस में—१ पद्मा, २ जया, ३ विजया, ४ अपराजिता, ये चार नाम की चार देवी सेवा करती देखीं । कोई मूख कहने लगा कि यह आचार्य स्त्रियों का सग क्यों करता है ? तब तिन देत्रियों ने तिस को शिक्षा दीनी । तथा तिस के समय में तक्षिला (गजनी) नगरी में बहुत श्रापक थे, तिन में मरी का उपद्रव हुआ । तिस की शांति के वास्ते मानदेव सूरि ने नडोल नगरी से शांतिस्तोत्र बना कर भेजा ।

२० श्री मानदेव सूरि के पाठ ऊपर मानतुग सूरि हुये, जिनों ने भक्तामर स्तवन करके याण अरु श्रीमानतुगसूरि मयूर पडितों की विद्या करके चमत्कृत हुआ ० जो वृद्ध भोजराजा तिन को प्रतिरोधा, और भयहर स्तवन करके नाग राजा बरा करा । तथा भक्तिभरेत्यादि स्तवन जिनों ने कहे हैं । प्रभावक चरित्र में प्रथम मानतुग सूरि का चरित्र कहा है । और पीछे देवसूरि के शिष्य प्रद्योतनसूरि, तिन के शिष्य मानदेव सूरि का प्रबध कहा है । परंतु तहा शका न करनी चाहिये, क्योंकि प्रभावक चरित्र में और भी कई प्रबन्ध आगे पीछे कहे हैं ।

२१ श्रीमानतुगसूरि के पाठ ऊपर वीरसूरि बैठा । तिस वीरसूरि ने महावीर से ७७० वर्ष पीछे तथा विभ्रम

२६. श्रीविवुधप्रभसूरि के पाट ऊपर जयानंदसूरि हुआ ।

३०. श्रीजयानंदसूरि के पाट ऊपर रविप्रभसूरि हुआ ।
तिस ने महावीर से ११७० वर्ष पीछे और विक्रमसंवत् से ७०० वर्ष पीछे नडोल नगर में नेमिनाथ के प्रासाद—मंदिर की प्रतिष्ठा करी । तथा वीर से ११९० वर्ष पीछे उमास्वाति युगप्रधान हुआ ।

३१. श्रीरविप्रभसूरि के पाट ऊपर श्री यशोदेव सूरि बैठे ।
यहां महावीर से १२७२ वर्ष पीछे और विक्रम सम्वत् से ८०२ के साल में अणहलपुर पट्टन वनराज राजा ने वसाया ।
वनराज जैनी राजा था । तथा वीर से १२७० और विक्रमादित्य के सम्वत् ८०० के साल में भाद्रपद शुक्ल तीज के दिन वपभट्ट आचार्य का जन्म हुआ, जिस ने गवालियर के आम नाम राजा को जैनी बनाया । इन का विशेष चरित्र प्रबन्धचितामणि ग्रन्थ से जान लेना ।

३२. श्रीयशोदेवसूरि के पाट ऊपर प्रद्युम्नसूरि जी हुआ ।

३३. श्रीप्रद्युम्नसूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि उपधान-वाच्यग्रन्थ का कर्ता हुआ ।

३४. श्री मानदेवसूरि के पाट ऊपर विमलचन्द्र जी सूरि हुए ।

३५. श्रीविमलचन्द्रसूरि के पाट ऊपर उद्योतनसूरि हुआ, सो उद्योतनसूरि अर्धुदाचले—आवू श्रीउद्योतनसूरि के पहाड़ ऊपर यात्रा करने आये थे, वहां देली ग्राम के पास बड़े बड़वृक्ष की छाया

में बैठे ने अपने पाट की वृद्धि वास्ते अच्छा मुहूर्त देख करके महावीर से १४६४ वर्ष और विक्रम से ९९४ वर्ष पीछे अपने पाट ऊपर सर्वदेव प्रमुख आठ आचार्य स्थापे । कोई एकले सर्वदेव सूरि को ही कहते हैं । बड़े बड़ के हेठ सूरि पदवी देने के कारण तहा से बनवासी गच्छ का पाचमा नाम बडगच्छ हुआ । तथा—

प्रधानशिष्यसतत्या ज्ञानादिगुणैः प्रधानचरितैश्च
दृष्ट्वाद्बृहद्गच्छ इत्यपि ।

३६ श्रीउद्योतनसूरि के पाट ऊपर सर्वदेवसूरि हुए ।

यहा कोई एक तो प्रद्युम्नसूरि और उपधान

श्रीसर्वदेवसूरि ग्रन्थ का कर्ता मानदेवसूरि, इन दोनों को

पट्टधर नहीं मानते हैं । तिन के अमिप्राय से

सर्वदेवसूरि चौतीसमे पाट पर हुआ, उस सर्वदेवसूरि ने गौतम

स्यामी की तरें सुशिष्य लब्धिमान् विक्रमसवत् से १०१०

वर्ष पीछे राममन्य पुर में श्री ऋषभचरित्य तथा श्री चन्द्र

प्रभचरित्य की प्रतिष्ठा करी । तथा चन्द्रायती में कुकणमन्त्री

को प्रतियोध के दीक्षा दीनी । तिस ने ही चन्द्रायती में

जनमन्दिर बनवाया था ।

तथा विक्रम से १०२६ वष पीछे धनपाल पण्डित ने

देशानाममाला बनाई । तथा विक्रम से १०६६ वर्ष पीछे

उत्तराध्ययन की टीका करने वाला धिरापट्टीयगच्छ में वादी

बैनाल गानि सूरि हुये ।

३७. श्री सर्वदेव सूरि के पाट ऊपर देवसूरि हुए, तिन को रूपश्री ऐसा राजा ने विरुद्ध दिया ।

३८. श्री देवसूरि के पाट ऊपर फिर सर्वदेव सूरि हुये, जिस ने यशोभद्र, नेमिचंद्रादि आठ आचार्यों को आचार्य पदवी दीनी । तथा महावीर से १४६६ वर्ष पीछे तक्षिला का नाम गजनी रक्खा गया ।

३९. श्री सर्वदेव सूरि के पाट ऊपर यशोभद्र अरु नेमिचंद्र ये दो गुरु भाई आचार्य हुये । तथा विक्रम से ११३५ वर्ष पीछे [कोई कइता है कि ११३६ वर्ष पीछे] नवांगीवृत्ति करने वाला श्री अभयदेव सूरि स्वर्गवास हुये । तथा कूर्चपुरगच्छीय चैत्यवासी जिनेश्वर सूरि के शिष्य जिनवल्लभ सूरि ने चित्रकूट में महावीर के पद कल्याणक प्ररूपे ।

४०. श्री यशोभद्र सूरि तथा नेमिचन्द्र सूरि के पाट ऊपर मुनिचन्द्र सूरि हुये । जिनों ने जाव-श्री-मुनिचन्द्रसूरि जीव एक सौ बार पानी पीना रक्खा, और सर्व विगय का त्याग करा । तथा जिनों ने हरिभद्र सूरिकृत अनेकांतजयपताकादि अनेक ग्रन्थों की पंजिका करी, उपदेशपद की वृत्ति, योगविंदु की वृत्ति, इत्यादिकों के करने से तार्किकशिरोमणि जगत् में प्रसिद्ध हुए । और यह आचार्य बड़ा त्यागी और निःस्पृह हुआ । यहां विक्रम राजा से ११५६ वर्ष पीछे चन्द्रप्रभ से पौर्णमीयक मत की

उत्पत्ति हुई । तिस चन्द्रप्रभ के प्रतिबोधने वास्ते मुनिचन्द्र सूरि जी ने पाक्षिक सप्ततिका करी ।

तथा श्री मुनिचन्द्र सूरि का शिष्य अजितदेव सूरि वादी अरु देवसूरि प्रमुग हुये । तहा वादी अजित श्री अजितदेवसूरि देव सूरि जी ने भणहलपुर पाटन में जय-सिंह देवराजा की अनेक विद्वज्जन सयुक्त सभा में चौरासी वाद वादियों से जीते । दिग्गम्यमत के चन्द्रर्त्ता कुमुदचन्द्र आचार्य को जिनों ने वाद में जीता, और दिग्गम्यों का पटन में प्रवेश करना बंद कराया । सो आज तक प्रसिद्ध है । तथा विष्णु में १२०४ वष पीछे फल घट्टिप्राम में चैत्यदिव की प्रतिष्ठा करी सो तीर्थ आज भी प्रसिद्ध है । तथा आरासणे में नेमिनाथ की प्रतिष्ठा करी । तथा जिनों ने ८४००० चौरासी हजार श्लोक प्रमाण स्याद्धा दरनाकर नामा ग्रन्थ बनाया, तथा जिनों म घेड नामावर चौबीस आचार्यों की राग्ना हुई । इनों का जन्म सन् ११३४ में हुआ, स० ११५२ में दीक्षा लीनी, स० ११७४ में सूरिपद मिला, स० १२२० की आवण वृष्ण मत्तमी गुग्गारे स्वर्ग को प्राप्त हुय ।

तिनों के समय में देवचन्द्र सूरि का शिष्य तीन प्रोढ़ प्रथम का कर्त्ता, कलिपाल में सर्वज्ञ विष्णु श्री हेमचन्द्र का धारक, पाटण के राजा कुमारपाल का प्रतियोधक, सया लक्ष श्लोक प्रमाण पञ्चाग ध्याकरण का कर्त्ता श्री हेमचन्द्र सूरि विधा

समुद्र हुआ। तिन का विक्रमसंवत् ११४५ में जन्म, ११५० में दीक्षा ११६६ में सूरिपद अह १२२६ में स्वर्गवास हुआ। इनों का सम्पूर्ण प्रबन्ध देखना होवे, तदा श्री प्रबन्धचिंतामणि तथा कुमारपालचरित्र देख लेना।

४१. श्री मुनिचन्द्र सूरि के पाट ऊपर अजितदेव सूरि हुये। तिनों के समय में संवत् १२०४ में खरतरोत्पत्ति, संवत् १२३३ में आंचलिकमतोत्पत्ति, संवत् १२३६ में सार्द्धपौर्णिमीयकमतोत्पत्ति, संवत् १२५० में आगमिकमतोत्पत्ति हुई। तथा वीरभगवान् से १६६२ वर्ष पीछे वाग्भट्ट मन्त्री ने शत्रुंजय का चौदहवां उद्धार कराया, साढे तीन कोड़ रूपक लगाया।

४२. श्री अजितदेव सूरि के पाट ऊपर विजयसिंह सूरि हुये, जिनों ने विवेकमंजरी शुद्ध करी। जिनों का बड़ा शिष्य सोमप्रभ सूरि शतार्थितया प्रसिद्ध था अर्थात् जिनों के बनाये एक एक श्लोकों के सौ सौ तरे के अर्थ निकलें, और दूसरा मणिरत्न सूरि था।

४३. श्री विजयसिंह सूरि के पाट ऊपर सोमप्रभ सूरि और मणिरत्नसूरि हुये।

४४. श्री-सोमप्रभ तथा तथा मणिरत्न सूरि के पाट ऊपर जगच्चन्द्र सूरि हुये। जिनों ने अपने गच्छ श्रीजगच्चन्द्र सूरि को शिथिल देख के और गुरु की आज्ञा से और तपागच्छ वैराग्य रस के समुद्र चैत्रवाल गच्छीय देव-भद्र उपाध्याय के सहाय से क्रिया का उद्धार

किया, और हीरलाजगच्छद्र सूरि विरुद् पाया । क्योंकि जिनों ने चित्तौड के राजा की राजधानी अघाट अर्थात् अहड में उत्तीस दिगम्बराचार्यों के साथ वाद किया, हीरे की तरे अमेघ रहे । तब राजा ने हीरालाजगच्छद्र सूरि ऐसा विरुद् दिया । तथा जिनों ने याजजीव आचाम्लतप का अभिग्रह करा । जब गारा उप तप करते वीते, तब चित्तौड के राजा ने तपा विरुद् दिया, सवत् १२८५ के वर्ष में बडगच्छ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा नाम हुआ ।

१ निर्ग्रन्थ, २ कोटिक, ३ चन्द्र, ४ घनवासी, ५ बड गच्छ, ६ तपागच्छ, इन छ नामों के प्रवृत्त होने में छ आचार्य कारण हुये हैं, तिन के नाम अनुक्रम से लिखते हैं—
हैं—१ श्री सुधर्मस्वामी, २ श्रीसुस्थित सूरि, ३ श्री चन्द्र सूरि, ४ श्री सामन्तभद्र सूरि, ५ श्री सप्तैव सूरि, ६ श्री जगच्छद्र सूरि ।

श्री जगच्छद्र सूरि पट्टे देवेन्द्र सूरि हुए । मो मालवे की उज्जैन नगरी में जिनचन्द्र नामा उडे सेठ का श्रीदबन्द्रमरि तथा वीरघवल नामा पुत्र, तिसर विवाह निमित्त श्रीविजयचन्द्रमरि महोत्सव हो रहा था तब वीरघवल पुमार को प्रतिबोध करके सवत् १३०० में दीक्षा दीनी, तिस पीछे तिस के भाई श्री भी दीक्षा दे कर चिरफाट तक मालव देश में विचरे । तिस पीछे गुर्जर देश में श्री देवेन्द्र सूरि

तिस के अनुज भीमसिंह को धर्मकीर्ति उपाध्याय की पदवी दीनी । तिस अवसर में प्रह्लादन विहार के सौवर्ण कपिश्री मंडप से कुंकुम की वर्षा हुई, तब सर्व लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ । श्री विद्यानंद सूरि ने विद्यानंद नाम नवीन व्याकरण बनाया, यदुयुक्तम्—

विद्यानंदाभिधं येन कृतं व्याकरणं नवम् ।

भाति सर्वोत्तमं स्वल्पसूत्रं बह्वर्थसंग्रहम् ॥

पीछे श्री देवेंद्र सूरिजी फिर मालवे को गये । देवेंद्र सूरिजी के करे हुये ग्रंथों का नाम लिखते हैं:—१. श्राद्धदिनकृत्यसूत्रवृत्ति, २. नव्यकर्मग्रंथपचकसूत्रवृत्ति, ३. सिद्धपंचाशिकासूत्रवृत्ति, ४. धर्मरत्नवृत्ति, ५. सुदर्शनचरित्र, ६. तीन भाष्य, ७. वृंदाखवृत्ति, ८. सिरिउस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन । कोई कहते हैं कि श्राद्धदिनकृत्यसूत्र तो चिरंतन आचार्यों का करा है । विक्रम संवत् १३२७ में मालवदेश में देवेंद्र सूरि स्वर्गवास हुए । दैवयोग से विद्यापुर में तेरह दिन पीछे श्री विद्यानंद सूरि भी स्वर्गवास हुये । तब छ मास पीछे सगोत्र सूरि ने श्रीविद्यानंद सूरि के भाई धर्मकीर्ति उपाध्याय को सूरिपद दे के धर्मघोष सूरि नाम दिया ।

भी देवेंद्र सूरि के पाट ऊपर भी धर्मघोष सूरि हुए, जिन्होंने मंडपाचल में शा० पृथ्वीधर को पंचमानु-श्री धर्मघोष सूरि व्रत लेते हुए ज्ञान से निषेध करा । क्योंकि

आचार्य ने ज्ञान से जाना कि इस पुरुष के व्रत का भग हो जायेगा, इस भय से निषेध करा । पीछे वो पृथ्वीधर मडपाचल के राजा का मन्त्री हुआ, और धन करके तो धनद समान हो गया । पीछे तिस ने चौरासी जिनमन्दिर और सात ज्ञान की पुस्तकों के भण्डार बनाये । और शत्रुजय में इक्कीस धडी प्रमाण सोना खरब के रूपामय श्री ऋषभदेव जी का मन्दिर बनवाया । कोई कहते हैं कि छप्पन धडी सुवर्ण खरब के इन्द्रमाला पहरी । तथा धरती नगर में किसी साधमी ने ब्रह्मचारी का वेप देने के अवसर में पृथ्वीधर को महाधनाढ्य जान के तिस की भेट करा । तब पृथ्वीधर ने वही वेप लेकर तिस दिन से बत्तीस वष की उमर में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा । तिस क एक ही जाजण नामक पुत्र था, जिस ने शत्रुजय उज्जयतगिरि के शिखर ऊपर बरह योजन प्रमाण सुवर्ण रूपामय एक ही ध्वजा चढ़ाई । जिस ने सारगन्धेव राजा से कर्पूर का महसूल छुड़ाया, तथा जिस ने मडपाचल में बहत्तर हजार (७२०००) रूपक गुरु के प्रवेश के उत्सव में खरब करे ।

तथा श्री धमघोष सूरि ने देवपत्तन में शिष्यों के कहने से भत्रमय स्तुति बनाई । तथा देवपत्तन में जिनों के स्वध्यान के बल से नवीनोत्पन्न हुये कपर्दी यक्ष ने वज्र स्वामी के माहात्म्य से पुराने कपर्दी मिथ्यादृष्टि को निकाला था । इनों ने उस की प्रतिबोध के जैनार्थियों का अधिष्ठाता करा ।

तथा जिनों के आगे समुद्र के अधिष्ठाता ने अपने समुद्र की तरंगों से रत्न ढौंकन करे। एक समय किसी दुष्ट स्त्री ने कर्मण संयुक्त बडे बना कर साधुओं को दिए, परन्तु धर्मघोष सूरि जी ने वे बडे धरती ऊपर गिराए, अरु उस स्त्री को मन्त्र से पकड़ा। पीछे जब बहु दुःखी हुई, तब दया करके छोड़ दीनी। तथा विद्यापुर में पक्षांतरियों की स्त्रियों ने धर्मघोष जी के व्याख्यान रस के भंग करने वास्ते कण्ठ में मन्त्र से केश गुच्छक करं दिया। पीछे धर्मघोष सूरि जी ने जब जाना, तब तिन स्त्रियों को स्तंभन कर दिया। तब तिन स्त्रियों ने विनति करी कि आज पीछे हम तुमारे गच्छ को उपद्रव न करेंगी। तब गुरु जी ने संघ के बहुत आग्रह से छोडी।

तथा उज्जयिनी में एक योगी जैन के साधुओं को रहने नहीं देता था। जब धर्मघोष सूरि तहां आये, तब उस योगी ने साधुओं को कहा कि अब तुम इहां आये हो सो तकड़े हो कर रहना। तब साधुओं ने कहा कि हम भी देखेंगे कि तू क्या करेगा? पीछे उस ने साधुओं को दांत दिखलाये, तब साधुओं ने कफोणि (कूहनी) दिखलाई। पीछे साधुओं ने जा कर यह सर्व समाचार अपने गुरु को कहा। वहां योगी ने भी धर्मशाला में विद्या के बल से बहुत चूहे बना दिये, तब साधु बहुत डरे। पीछे गुरु जी ने घडे का मुख बख से ढांक के ऐसा मन्त्र जपा कि जिस से योगी आराटि

करता हुआ आ के पाओं में पड़ा, और अपने अपराध की क्षमापना मागी। तथा किसी नगर में शाकानियों के भय से मन्त्र क कपाट दिये जाते थे। एक दिन विना मन्त्रे कपाट दिये गये, तब रात्रि को शाकानियों ने उपद्रव करा। गुरु ने उन को विद्या से स्तमित करा। एकदा रात्रि में गुरु को सर्प के काटने से जत्र जहर चढ़ा, तत्र गुरु ने सघ को विधुर देख के कहा कि दरवाजे में किसी पुष्य के मस्तक पर काष्ठ की मरी में विषापहार एक बेलडी आयेगी। वो बेलडी घस के डक में दे देनी, उस से जहर उतर जायगा। सघ ने तैसे ही करा, गुरु जी राजी हो गये। पीछे तिस दिन से जावजीव छ विगय का त्याग करा, और सदा जुवार की रोटी नीरस जान के खाते रहे।

श्री धर्मघोष सूरि जी के करे ये ग्रथ हैं—१ सघा चारभाष्यवृत्ति, २ सुअधम्मतिस्तव, ३ कायस्थिति भव स्थिति, ४ चौबीस तीर्थकरों के चौबीस स्तवन, तथा ५ अस्तासमेत्यादिस्तोत्र, ६ देवेंद्रैरनिशमिति श्लेषस्तोत्र, ७ यूय युवा त्वमिति श्लेषस्तुतिया, ८ जयवृषमेत्यादि स्तुति, यह जयवृषमेत्यादि स्तुति करने का यह निमित्त था कि एक मन्त्री ने वाठ यमरु काव्य कह करके कहा, कि ऐसे काव्य अब कोई नहीं बना सकता, तब गुरु ने कहा कि नास्ति नहीं। तब तिस ने कहा तो हम को कर दिखलाओ। तब गुरु जी ने जयवृषमेत्यादि छ स्तुति एक रात्रि में बना

कर भीतों पर लिख के दिखाई। तब तिस ने बड़ा चमत्कार पाया। गुरुजी ने तिस को प्रतिबोध के जैनी करा, ये धर्मघोष सूरि विक्रम सम्वत् १३५७ में स्वर्ग गये।

४७. श्री धर्मघोष सूरि पढ़े श्री सोमप्रभ सूरि हुये, जिनों ने नमिऊण भणइ एवमित्यादि आराधना श्रीसोमप्रभमरि सूत्र करा। तिनका सम्वत् १३१० में जन्म, १३२१ में दीक्षा, १३३२ में सूरिपद। जिनों के ग्यारह अंग सूत्रार्थ कण्ठ थे, तथा “गुरुभिर्गीयमानायां मन्त्रपुस्तिकायां यच्छनचरित्रं मन्त्रपुस्तिकां च” ऐसा कह कर तिस मन्त्रपुस्तिका को ग्रहण करा, क्योंकि अपर कोई योग्य नहीं था। इस सोमप्रभ सूरि ने जलकुंकणदेश में श्रृङ्गाय की विराधना के भय से, और मरुदेश में शुद्धजल की दुर्लभता से साधुओं का विहार निषेध करा। तथा भीमपल्ली में दो कार्तिक मास हुये, तब सोमप्रभ जी प्रथम कार्तिक की एकादशी को विहार कर गए। क्योंकि उनों ने जाना कि भीमपल्ली का भंग होगा। अरु भंग हुए पीछे जो रहे वो दुःखी हुए। सोमप्रभ सूरि के करे ग्रंथ—जीतकल्प-सूत्र, यत्राखिलेत्यादि स्तुतियां, जितेन-येनेतिस्तुतियां, श्री मच्छम्मैत्यादि। तिन के करे बड़े शिष्य—विमलप्रभ सूरि, परमानंद सूरि, पद्मतिलक सूरि, अरु सोमविमल सूरि थे। जिस दिन पूर्वोक्त धर्मघोष सूरि दिवंगत हुए, तिस दिन ही १३५७ में सोमप्रभ सूरि जी ने विमलप्रभ सूरि को

सूरिपद दिया, क्योंकि तिनों ने अपनी स्वयं ही आयु जानी ।
सोमप्रम जी १३७३ के वर्ष में न्येलोक गये ।

४८ थी सोमप्रम सूरि पट्टे थी सोमतिष्क सूरि हुए,
तिनका १३५५ के माघ में जन्म, १३६८ में
श्राशोमतिलकमूरि दीक्षा १३७३ में सूरिपद १४०४ में स्वर्ग
गमन, सत्रायु ६० वर्ष की जाननी । तिन के
करे प्रथम लिखत हैं —

१ गृहघ्नघ्नक्षेत्रसमाप्त सूत्र सत्तरिसयठाण, यथागिल
जयवृषभमन्त्रान्नायमं० प्रमुग की वृत्ति, तीर्थरान०, चतुरर्थास्तु-
तितवृत्ति, शुभमाधानत० थी महीरस्तुवेदियादिकमलयवस्त्रव
श्रायशिरसि नाभिसमय० शेषेय० इत्यादि स्तयत । सोम
तिष्क सूरि ने प्रम करके—१ पद्मतिष्क सूरि २ चन्द्रो-
गार सूरि, ३ जयानद सूरि, ४ द्रमुदर सूरि को सूरि
पद दिया । तिन में पद्मतिष्क सूरि सोमतिष्क सूरि
में पर्याय में बडे थे, सो एक वष जीते रहें और बडे
वैरागी थे ।

तथा थी चन्द्रोगार सूरि विदम सयत् १३७३ में जन्मे
१३८५ में दीक्षा, १३९३ में सूरि पद । इन के करे प्रथम—
१ उगितमोजन कथा यथराज प्रहृषि कथा, थीमन्त्रम्भक
हारषादिस्तयत हैं । जिनों के मन्त्रों सो मन्त्रिन राज लोये,
तिम में भी उपद्रव करने वाले गृह हरिका, दुदर मृगराज,
ग्यात, गुरिनि दूर हो जाने थे । तथा जयानद सूरि का विदम

संवत् १३८० में जन्म, १३९२ के आपाठ सुदि सानम शुक्र-
वार के दिन धारानगरी में व्रतग्रहण. १४२० में सूरि पद
१८४१ में स्वर्ग गये। तिन के करे ग्रंथ—१. शूलभद्रचरित्र
२. देवाः प्रभोयं प्रमुख स्तवन है।

४६. श्री सोमतिलक सूरि पट्टे देवसुन्दर सूरि हुए।

तिन का १३९६ वर्षे जन्म, १४०४ वर्षे दीक्षा
श्रीदेवसुन्दर सूरि १४२० वर्षे अणहलपत्तन में सूरिपद। यह

देवसुन्दर सूरि बड़ा योगाभ्यासी और मंत्र
तत्र की ऋद्धि का मन्दिर, स्थावरजंगम-विषापहारी, जला-
नल, व्याल अरु हरि भय का तोड़ने वाला, अतीतानागत
निमित्त का वेत्ता, राजमंत्री प्रमुखों का पूज्य। इस
देवसुन्दर सूरि के शिष्य—१. ज्ञानसागर सूरि, २. कुलमंडन
सूरि, ३. गुणरत्न सूरि, ४. सोमसुन्दर सूरि, ५. साधुरत्न
सुरि, यह पांच बड़े शिष्य थे।

तिन में श्री ज्ञानसागर जी का १४०५ में जन्म, १४१७
में दीक्षा, १४४१ में सूरिपद, १४६० में स्वर्ग गमन। तिन
के करे ग्रंथ—आवश्यक, ओघनिर्युक्त्यादि अनेक ग्रंथावचूरी,
मुनिसुव्रत स्तवन, घनौघनवखण्ड पार्श्वनाथादि स्तवन।

दूसरे श्री कुलमंडन सूरि जी का १४०६ में जन्म, १४१७
में दीक्षा, १४४२ में सूरिपद, १४५५ में स्वर्गगमन। तिनों
के करे ग्रंथ—सिद्धांतालापकोद्धार, विश्वश्रीधरेत्यादि, अष्टा-
दशारचक्रबंधस्तव, गरीयो और हारस्तर्वादि हैं।

तीसरे श्री गुणरत्न सूरि, तिन के करे ग्रन्थ—१ क्रिया
रत्नसमुच्चय, २ पडदर्शनसमुच्चय की बृहद्वृत्ति है।

चौथे साधु रत्न सूरि जी का करा ग्रंथ यतिजीतकटपवृत्ति
है।

५० श्री देवसुंदर सूरि पट्टे सोमसुंदर सूरि हुए। तिन
का १४३० में जन्म, १४३७ में दीक्षा, १४५०
आसोमसुंदरसूरि में वाचक पद, १४५७ में सूरिपद। जिस
के अठारह सौ त्रियापात्र साधु परिवार को
देख के कितनेक लिंगी पाण्डित्यों ने पाच सौ रूपक दे के
एक सहस्र पुस्तियाँ को उन के बंध करने जास्ते भेजा। तब
वे जिस मकान में गुरु थे, तिस मकान में रात को छिपे
रहे। जब मारने को उद्यत हुए तब चंद्रमा के उद्योत में
श्री गुरु जी ने रजोहरण से पूज के जय पासा पलटा, तब
देख के तिन के मन में ऐसा विचार आया कि यह नींद
में भी क्षुद्र प्राणियों की दया करते हैं, और हम इन को
मारने आए हैं, यह कितना अतर है! तब मन में डरे और
गुरु के पाओं में पड़ के अपराध क्षमा कराया। इनो के
करे ग्रन्थ—योगशास्त्र, उपदेशमाला, पडावश्यक, नवतत्त्वादि
वालाचबोध, भाष्याचचूर्णा, कल्याणिकस्तोत्रादि। जिनो
के शिष्य मुनिसुंदरसूरि, कृष्णसरस्वती विस्द धारक जयसुन्दर
सूरि, और महाविद्याविडम्बन टिप्पनक कारक भुवन
सुन्दर सूरि, जिन के कठ एकादशांगी सूत्राथ थे, और चौथा

जिनसुन्दर सूरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए। जिनों ने राणक पुर में श्री धनकृत चौमुख विहार में ऋषभादि अनेक शत विंव प्रतिष्ठित करे। यह विक्रम संवत् १४६६ में स्वर्ग गये।

५१. श्री सोमसुंदर सूरि पट्टे मुनिसुंदर हुये, सूरि जिन्हों ने अनेक प्रसाद, पद्मचक्र, पद्मकारक, क्रियागु-श्रीमुनिसुंदर सूरि सक, अर्द्ध भ्रम, सर्वतोभद्र, मुरज, सिंहासन, अशोक, भेरी, समवसरण, सरोवर अष्टमहाप्रा-तिहार्यादि नवीन त्रिशतिबंध तर्क प्रयोगादि अनेक चित्राक्षर, द्वयक्षर, पंचवर्ग परिहारादि अनेक स्तवमय स्त्रिदशतरंगिणी नामा एक सौ आठ हाथ लम्बी पत्रिका लिख के श्री गुरु को भेजी। तथा चातुर्वेद्यविशारद्य निधि उपदेशरत्नाकर प्रमुख अनेक ग्रंथों का कर्ता। तथा जिन को श्री स्तंभतीर्थ में दफर खान ने वादी गोकुल संड, ऐसा कहा, तथा जिन्हों ने दक्षिण में कालसरस्वती ऐसा विरुद्ध पाया। आठ वर्ष गणनायक पीछे तीन वर्ष युगप्रधान पद, लोगों ने प्रसिद्ध करा। एक सौ आठ वर्तुलिकानादौपलक्षक, वाल्यावस्था में भी एक सहस्र नवीन श्लोक कण्ठ कर लेते थे। तथा संतिकर नामा समाहिम स्तवन करने से योगिनी कृत मरी का उपद्रव दूर करा। चौबीस वार विधि से सूरिमन्त्र को आराधा, ति नमें भी चौदह वार जिनके उपदेश से धारादि नगरियों के स्वामी पांच राजाओं ने अपने अपने देशों में अमारी का ढिंढोरा फिराया। तथा सिरोही देश में सहस्रमल्लराजा ने भी अमारी

प्रवृत्त करी तीड का उपद्रव डाला । इनका क्रिकम सात १४३६ में जन्म १४४३ में दीक्षा, १४६६ में वाचक पद, १४७८ में बत्तीस सहस्र रूपक परत्र के वृद्ध नगरी के शाह देवराज ने सूरि पद का महोत्सव करा, १५०३ में कान्तिकशुदि पटिया के दिन स्वर्गवास हुआ ।

५२ श्री मुनिमुदर सूरि पट्टे श्री रत्नशेखर सूरि हुए, तिनका १४५७ वर्षे जन्म, १४६३ वर्षे दीक्षा श्री रत्नशेखर १४८३ वर्षे पंडितपद, १४९३ वर्षे वाचक पद, सूरि १५०२ वर्षे सूरिपद, १५१७ वर्षे पोष यदि छठ के दिने स्वर्गवास हुआ । जिनका स्तमतीर्थ में बावी नामा भट्ट ने बाल सरस्वती नाम दिया । तिनके करे ग्रथ — श्राद्ध प्रतिभ्रमणवृत्ति, श्राद्धविधिसूत्रवृत्ति, लघुक्षेत्र समास, तथा जाचारप्रदीपादि अनेक ग्रथ जान लेना । तथा जिनों ने के समय में लुंका नामक लिखारी ने सन्त १५०८ में जिन प्रतिमा का उत्थापक लुंका नामा मत चलाया और तिस के मत में वेप का धरने वाला सन्त १५३३ में भाणा नामा प्रथम साधु हुआ है । इस मत की उत्पत्ति ऐसे हुई है ।

गुजरात देश में अहमदाबाद में जाति का दशाश्रीमाली लुंका नामक लिप्यारी बसता था, सो ज्ञानजी उक्त मत की उत्पत्ति यति के उपाश्रय में पुस्तक लिप्य कर उसकी आमदनी से गुजारा करता था । एक दिन एक पुस्तक श्री लिप्य रहा था तिस में से सात

पत्रे बिना लिखे छोड़ दिये । जब पुस्तक वाले ने पुस्तक देखा, तब पूछा कि इस पुस्तक के सात पत्रे क्यों छोड़ दिये ? तब लुंका उसके साथ लड़ने लगा । तिस समय लोगों ने मार पीट के उपाश्रय से बाहिर निकाल दिया, और नगर में कह दिया, कि इस से कोई जन भी पुस्तक न लिखावे, तब लुंका लाचार हो और क्रोध में भरकर अहमदाबाद से छैतालीस कोस के लग भग नीवडी ग्राम में चला गया ।

उस ग्राम में लुंके की विरादरी का एक लखमसी नामा बनिया राज में कारभारी था । तिस के आगे बहुत रोया पीटा । जब तिस ने पूछा क्या हुआ ? तब लुंके ने कहा कि मैं भगवान् का सच्चा मत कहने लगा था; श्रावकों ने मुझे पीटा । अब मैं तेरे पास आया हूँ, जेकर तू मेरा मददगार बने, तो मैं सच्चा मत प्रगट करूँ । तब तिस लखमसी ने कहा कि नीवडी के राज्य में तू वेशक अपने सच्चे मत को प्रगट कर, मैं तेरा मददगार हूँ, खाने पीने को भी दूँगा, और तेरा शास्त्र भी सुनूँगा । तब लुंका तो श्रीमहावीर के साधुओं की और जिनप्रतिमा की उत्थापना करने लगा, अरु कहने लगा कि यह साधु नहीं हैं, भ्रष्टाचारी हैं, निर्दयी हैं । उलटा ज्ञान सुनाते हैं, इत्यादि-जो आप के मन मानी सो निंदा करी । और शास्त्रों में से भी जिन जिन शास्त्रों में जिनप्रतिमा का जिक्र नहीं था, उन शास्त्रों को सच्चा माना और जिन में थोड़ा सा जिनप्रतिमा का कथन था, तिन पाठों के अर्थ

क्युक्ति से और के और सुनाने लगा, अरु कहने लगा कि एकतीस शास्त्र सधे हैं । तिन में भी आवश्यकम्बुन को विष्कुल विगाड़ के लोगों ने स्वकपोलकल्पित और का और बना दिया है, क्योंकि आवश्यक में बहुत जगह जिन प्रतिमा का अधिकार चलता है । पीछे एक दिन तिस लुके को किसी ने कहा कि विना जैनदीक्षा के लिये शास्त्र पढ़ने का तो व्यवहार सूत्र में निषेध करा है, तो फिर तुम गृहस्थ होकर शास्त्र क्यों पढ़ते हो ? तब लुके ने कहा कि मैं व्यवहार सूत्र की ही सच्चा नहीं मानता हू । इत्यादि प्रकृपणा पच्चीस वर्ष तक करी, परन्तु लुके के उपदेश से साधु कोई भी न हुआ । जब सम्वत् १५३३ का साल आया तब एक भाणा नामा बनिये के बेटे ने लुके के उपदेश से वेप पढ़ना, उसको ऋषिभूणा नाम दीना । तिस का शिष्य सम्वत् १५६८ में रूप जी हुआ, तिस का शिष्य सम्वत् १५७८ में जीवाजी ऋषि हुआ, तिस का शिष्य १५८७ में वृद्धवरासिंह जी हुआ, तिस का शिष्य सम्वत् १६०४ में वरासिंह जी हुआ, तिस का शिष्य सम्वत् १६४९ में जसवत जी हुआ, इस लुपक मत के तीन नाम हुए १ गुजराती, २ नागोरी, ३ उंतराधी ।

५३ श्री रत्नशेखरसूरि के पाट पर लक्ष्मीसागरसूरि हुए । तिन का १४६४ में जन्म १४९० में दीक्षा, १५०१ में वाचक पद, १५०८ में सूरिपद ।

५४. श्रीलक्ष्मीसागरसूरि पट्टे सुमतिसाधुसूरि हुआ ।

५५. श्रीसुमतिसाधुसूरिपट्टे हेमविमलसूरि हुए । शिथिल-साधुओं के बीच में भी रहे, तो भी श्री हेमविमलसूरि जिनों ने साधु का आचार उल्लंघन न करा । तत्र कितनेक दिन पीछे बहुत साधुओं ने शिथिलपना छोड़ा । तथा ऋषि हरगिरि, ऋषि श्रीपति, ऋषिगणपति प्रमुख बहुत जनों ने लुंपक मत छोड़ के श्री हेमविमलसूरि के पास दीक्षा लीनी । तिस अवसर में सम्वत् १५६२ में कडुये नामक एक बणिये ने कडुया मत निकाला और तीन थूइ मानी, अरु इस काल में साधु कोई भी नहीं दीखता, ऐसा पंथ निकाला । परन्तु इस ग्रन्थ के लिखने वाले के समय में यह मत नहीं है, व्यवच्छेद हो गया है । तथा सम्वत् १५७० में लुंका मत से निकल के बीजा नामा वेषधर ने बीजामत चलाया, जिस को लोक विजय गच्छ कहते हैं । तथा सम्वत् १५७२ में नागपुरीया तपगच्छ से निकल के उपाध्याय पार्श्वचन्द्र ने अपने नाम का मत अर्थात् पासचंदीया मत चलाया ।

५६. श्रीहेमविमलसूरि पट्टे सुविहितमुनि चूड़ामणि कुमत-तम के मथने को सूर्यसमान आनन्दविमल आनन्दविमलसूरि सूरि हुआ । तिस का विक्रम, सम्वत् १५४७ और क्रियोद्वार में जन्म, १५५२ में दीक्षा १५७० में सूरिपट्टे तथा आनन्दविमलसूरि के साधु शिथिला-

चारी भी थे, तो भी तिन के वैराग्यरग का भग नहा हुआ । और जब उन्हीं ने देखा कि जिनप्रतिमा के निषेधने वाले बहुत बड़े, और शुद्ध साधु तुच्छमात्र रह गए अरु उत्सृज प्ररूपण रूप जल मं भव्यजन वह चले तत्र मन मं द्रयादृष्टि ला के और अपने गुरु की आशा से किननेक सविप्र साधुओं को साथ ले कर सम्प्रत् ११८० में शिपिलाचार परिहार रूप प्रियोद्धार करा । देश मं विचर के बहुत मयजनों का उद्धार करा, और अनेक इभ्यों के पुत्रों को धन कुट्टर का मोह त्याग करा के दीक्षा दीनी । और सोरठ के राजा पासों सत लिखवाया कि जो जीते सो मेरे नेश मे रह अरु जो हारे सो निकाला जाये । तृणसिंह नामा श्रावक जिस को यादशाह ने बँडने प्रास्ते पालकी दी हुई थी, अरु यादशाह ने जिस को मलिक श्रीनगल विरुद लिया था, ऐसे तृणसिंह श्रावक ने गुरु को विनति करी कि साधुओं को सोरठ नेश में विहार कराओ । तब गुरु जी ने गणि जगर्षि को साधुओं के साथ सोरठदेश में विहार कराया । तथा जेसलमेरादि मारवाड़ देश में जल दुलभ मिलता है, इस वास्ते पूर्व में सोमप्रभ सूरि ने साधुओं को मने कर दिया था कि मारवाड़ में न जाना । सो विहार कुमति-यात् न हो जावे, तिन जीवों की अनुकपा करके और लाभ जान कर साधुओं को आणा दीनी कि तुम मारवाड़ में जा कर कुमतिमत को रण्डन करो ।

तब लघु वय मे शील करके स्थूलिभद्र समान वैराग्य-
 निवि निःस्पृहावधि जावजीर जघन्य से जघन्य भी पष्ठ
 अर्थात् दो दिन का उपवास करना । अरु पारने के दिन
 आचम्ल करना ऐसे अभिग्रहचारी महोपाध्याय विद्यासागर
 गणि ने मारवाड़ देश में विहार करा । तिनो ने जैसलमेरादिको
 में खरतरा को और मेवात देश में वीजामतियों को और
 मोखी आदिक में लुंरामतियों को प्रबोध के श्रावक बनाए
 सो आजतक प्रसिद्ध है । तथा पार्श्वचन्द्र के व्युदग्राहे
 वीरमगाम में पार्श्वचन्द्र के साथ वाद करके पार्श्वचंद्र को
 निरुत्तर करा । तब बहुत जनों ने जैनधर्म अंगीकार करा ।
 ऐसे ही मालवे में अरु उज्जैनी प्रमुख देशों में फिर के धर्म
 की प्रवृत्ति करी, यह विद्यासागर उपाध्याय जी ने तपगच्छ
 की फिर वृद्धि करी, और क्रियोद्धार करा । पीछे आनन्दवि-
 मलसूरि जी चौदह वर्ष तक जघन्य से भी नियत तप वर्ज
 के चले से कम तप नहीं करा । तथा जिनों ने चतुर्थ, पष्ठ
 तप करके वीसस्थानक की आराधना करी । यह सम्बत्
 १५९६ के वर्ष नवदिन का अनशन करके स्वर्ग गए ।

५७ श्रीआनन्दविमलसूरि के पाठ पर विजयदानसूरि हुए ।

जिनो ने स्तंभतीर्थ, अहमदाबादपत्तन,
 श्रीविजयदानसूरि महीशानकगाम, गंधार बंदरादि मे महा
 महोत्सव पूर्वक अनेक जिनविंवा की
 प्रतिष्ठा करी । तथा जिनों के उपदेश से बादशाह महम्मद

का माय भत्री गलराजा दूसरा नाम मलिकश्रीनग
दल ने श्रीशत्रुजय का बड़ा सत्र निकाला । तथा जिनों के
उपदेश से गंधार नगर के श्रायक राम जी ने तथा ब्रह्म
मदायादी साह कुभर जी प्रमुख ने श्रीशत्रुजय चौमुख
अष्टापदादि जिनमंदिर बनवाए गिरनार ऊपर जीण
प्रासादोद्धार करा । तथा जिन के सूर्य की तरे उदय होने से
गामी रूपी तारे अदृश्य हो गये । विजयदानसूरि सर्व
मिद्धात का पारगामी अखंडित प्रतापवाला तथा अप्रमत्त
पने करके श्री गौतममुनिवत् था । तथा गुर्जर मालवक
कच्छ मरुस्थली, कुकणादि देशों में अप्रतिबद्ध विहार किये ।
महातपस्वी, जावजीव एक घृतविगय विना सर्व विगय
का त्यागी था । जिनों ने एकादशाग सूत्र अनेक बार शुद्ध
करे और जिनों ने बहुत जीवों को धमप्राप्त करा । तिन का
सबत् १५५३ में जामला में जन्म, १५६२ में दीक्षा,
१५८७ में सूरिपद १६२२ में वटपहड़ी में अनशन करके स्वर्ग
को प्राप्त हुए ।

५८ श्री विजयदान सूरि पट्टे श्री हीरविजय सरि हुआ,
जिन का सत्रत् १५८३ में मागशीर्षशुदि नवमी
धोहीरविजयसूरि के दिन प्रह्लादनपुर का घासी ऊके जाती सा०
कृरा भार्या नाथी गृहे जन्म हुआ, १५९६ में
कार्तिकवदि दूज के दिन पत्तन नगर में दीक्षा, १६०७ में नारद
पुरी में श्रीऋषभदेव के मंदिर में पंडित पद १६०८ में माघ

स्वजन, देहादि में भी ममत्व रहित हो, इस वास्ते आप को सोना, चांदी देना तो ठीक नहीं। परन्तु मेरे मकान में जैनमत के पुराने पुस्तक बहुत हैं, सो आप लीजिये, और मेरे ऊपर अनुग्रह करिये। जब बादशाह का बहुत आग्रह देखा, तब गुरु जी ने सर्व पुस्तक ले के आगरा नगर के ज्ञानभण्डार में स्थापन कर दिए। तब एक प्रहर तक गुरु जी धर्मगोष्ठी करके बादशाह की आज्ञा ले के बड़े आडम्बर से ऊपाश्रय में आए। उस वक्त लोकों में जैनमत की खूब प्रभावना हुई।

तिस वर्ष आगरे नगर में चौमासा करके सोरीपुर नगर में नेमिजित की यात्रा वास्ते गये। तहां श्री ऋषभदेव और नेमिनाथजी की बड़ी और बहुत पुरानी, इन दोनों प्रतिमा और तत्काल के बनाए नेमिनाथ के चरणों की प्रतिष्ठा करी। फिर आगरे में शा० गानसिंह कल्याणमल्ल के बनवाये हुए चिंतामणि पार्श्वनाथादि विंशों की प्रतिष्ठा करी, सो आज तक आगरे में चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रसिद्ध है। पीछे गुरु जी फिर फतेपुर नगर में गए और अकबर बादशाह से मिले तहां एक प्रहर धर्मगोष्ठी धर्मोपदेश करा। तब बादशाह कहने लगा, कि मैंने दर्शन के वास्ते उत्कंडित हो कर आप को दूर देश से बुलाया है, और आप हम से कुछ भी नहीं लेते हैं। इस वास्ते आप को जो रुचे सो मेरे से मांगना चाहिये; जिस से मेरे मन का मनोरथ सफल होवे। तब सम्यग् विचार

करके गुरु जी ने कहा कि तरे सर्वराज्य में पर्युपणों के आठ दिनों में कोई जानवर न मारा जाय, और यदिजन छोड़े जाए, मैं यह मागना चाहता हूँ । तब बादशाह ने गुरु को निर्लाभी, शात, दात जान करके कहा कि आठ दिन तुमारी तक से और चार दिन मेरी तक से सर्वमित्र कर पारह दिन तक अर्थात् भाद्रवाद्यदि दशमी से लेकर भाद्रवाद्युत्ति छठ तक कोई जानवर न मारा जायगा । पीछे बादशाह ने सोने के हफों से लिखा कर छ फरमान गुरुजी को दिए छ फरमान की व्यक्ति ये हैं —

प्रथम गुज्जरदेश का दूसरा मालवे देश का, तीसरा अजमेर देश का, चौथा दिल्ली फतेपुर के देश अकबर महाराजा के का, पाचमा लाहौर मुल्तान मगडल का, षीबहिमा निपेख और छठा गुरु के पास रखने का । पूर्वोक्त फरमान पाचों देश का साधारण फरमान तो तिन तिन देशों में भेज के अमारि पट्ट वजवा दिया । तब तो बादशाह की आज्ञा से जो नहीं भी जानते थे, ऐसे सर्व आर्य अनाय कुल मडप में दयारूपी गेलडी विस्तार को प्राप्त हो गई । और यदिजन भी बादशाह ने गुरु के पास से उठ कर तत्काल छोड़ दिये । और एक कीरा की झील अर्थात् तालाब में आप जा कर बादशाह ने अपने हाथसे नाना जाति के नानानेश वालों ने जो जो जानवर बादशाह को भेंट करे हुए थे, वे सर्व छोड़ दिये । बादशाह ने

गुरु जी अनेकवार मिले और अनेक जिनमन्दिर अरु उपा-
श्रयों के उपद्रव दूर करे। और जब श्री हीरविजय सूरि अपर
देश को जाने लगे, तब चादशाह से ऐसा फरमान लिखवा ले
गए। तिस की नकल मैं इस पुस्तक में लिखता हूँ।

जलालुद्दीन महम्मद
अकबर चादशाह
गाजी का फरमान

अकबर मोहर की वंशावली
जलालुद्दीन अकबर चादशाह
हुमायुं चादशाह का बेटा
वावरशाह का बिन-बेटा
उमरशेख मिरजा का बेटा
सुलतान अबुसईद का बेटा
सुलतान महममदशाह का बेटा
मीर शाह का बेटा
अमीर तैमुरसाहिव किरान का बेटा

सूबे मालवा तथा अकबराबाद, लाहौर, मुलतान, अह-
मदाबाद, अजमेर, मीरत, गुजरात, बंगाल, तथा और जो
मेरे ताबे के मुलक है, हाल तथा आंयदा मुतसद्दी, सूबा,
करोरी तथा जगीरदार इन सर्वों को मालूम रहे, कि हमारा
पूरा इरादा यह है कि सर्व रैयत का मन राजी रखना।
क्योंकि रैयत का जो मन है, सो परमेश्वर की एक बड़ी

अमानत है। और विशेष करके वृद्ध अवस्था में मेरा यही इरादा है, कि मेरा भला वाछने वाली रैयत सुयी रह। तिस वास्ते हरेक धर्म के लोगों में से जो अच्छे विचार वाले परमेश्वर की भक्ति करने में अपनी डमर पूरी करते हैं, तिन को दूर दूर देशों से मैंने अपने पास बुलवाया। और तिन की परीक्षा करके अपनी सोयत में रखता ह, और तिन की बातें सुन के मैं बहुत खुश होता ह। तिस वास्ते हमारे सुनने में आया है कि श्री हीरविजय सूरि जन ज्येतावर मत का आचार्य गुजरात के उदरों में परमेश्वर की भक्ति करता है। मैंने तिन को अपने पास बुलवाया, और तिन की मुलाकात करके हम बहुत खुश हुए। कितनेक दिन पीछे जब तिनों ने अपने यतन जाने की रजा मागी तब अरज करी कि गरीबपरवर की मरजी से ऐसा हुकुम होना चाहिये कि सिद्धाचल जी, गिरनारजी, तारगाजी, केसरियनाथजी, तथा आनुजी का पहाड़, जो गुजरात में है, तथा राजगृह के पाच पहाड़ तथा संमेतशिपर उरफे पार्श्वनाथ जी जो पगाल के मुलक में हैं, तथा पहाड़ के हेठली सर्व मदिरो की कोठियों तथा सर्व भक्ति करने की जगों में, तथा तीर्थ की जगों में और जो जेन ज्येतावर धर्म की जगें मेरे ताबे के सर्व मुलकों में जिस ठिकाने होवें, उन पहाड़ों तथा मदिरो के आस पास कोई भी आदमी किसी जानवर को न मारे, यह अरज

करी। अब ये बहुत दूर से हमारे पास आये हैं, और इन की अरज वाजवी और सच्ची हैं। यद्यपि यह अरज मुसलमानी मजहब—मन से विरुद्ध मालूम होती है, तो भी परमेश्वर के पिछानने वाले आदमियों का यह दस्तूर होता है, कि कोई किसी के धर्म में दखल न देवे, और तिनों के रिवाज बहाल रखे। इस वास्ते यह अरज मेरी समझ में सच्ची मालूम हुई। क्योंकि सर्व पहाड़ तथा पूजा की जगह बहुत अरसे से जैनश्वेतांवरी धर्म वालों की है, तिस वास्ते इन की अरज कबूल करी गई, कि सिद्धाचल का पहाड़ तथा गिरनार का पहाड़, तथा तारंगा जी का पहाड़, तथा केशरिया जी का पहाड़ तथा आवु का पहाड़ जो गुजरात के मुलक में है, तथा राजगृह के पांच पहाड़ तथा समेताशिखर उरफे पार्श्वनाथ का पहाड़, जो बंगाल के मुलक में है, ये सर्व पूजा की जगें, तथा पहाड़ नीचे तीर्थ की जगें, जो मेरे राज्य में हैं, चाहे किसी ठिकाने जैनश्वेतांवरी धर्म की जगें होवे, सो श्री हीरविजय जैनश्वेतांवरी आचार्य को देने में आई है, और इनों में अच्छी तरे से परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिये।

और एक बात यह भी याद रखनी चाहिये, कि ये जैनश्वेतांवरी धर्म के पहाड़ तथा पूजा की जगें तथा तीर्थ की

जगें जी मैंने श्री हीरविजय सूरि आचार्य को दीनी है । परतु हकीकत में ये पूर्वोक्त सब जगें जैनश्रेतावर धर्म जालों की ही हैं । और जहा तक सूर्य से दिन रोशन रह, तथा जहा तक चन्द्रमा से रात रोशन रहे, तदा तक इस फरमान का हुकम जैनश्रेतावरी धर्म के लोकों में सूर्य तथा चन्द्रमा की तरे प्रशशित रहे । और कोई आदमी तिन को हरकत न करे, और किसी आदमी ने तिन पहाड़ों के ऊपर तथा तिन के नीचे तथा तिन के आस पास पूजा की जगे में, तथा तीर्थ की जगे में जानवर नहीं मारना, और इस हुकम ऊपर अमल करना, इस हुकम से फिरना नहीं । तथा नवीन सनद मागनी नहीं—लिखा तारीख ७ मी माह उरदी बहेस मुताबिक माह रबीयुल अब्बल सन् ३७ जुलसी—यह अकबर बादशाह के दिये फरमान की नकल है ।

तथा थानसिंह की कराई अपर साह दूजणमल्ल की कराई श्री फतेपुर में अनेक लाख रुपये लगा के बड़े महोत्सव से श्री जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा करी । प्रथम चतुर्मास आगरे में करा, दूसरा फतेपुर में करा, तीसरा भिराम नाम नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा । फिर बहा बाद शाह की गोष्ठि वास्ते श्री शातिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ गये, और आप गुर जी मेहडते, नागपुर चौमासा करके सिरोही नगर में गये । तहा नवीन चतुर्मुख प्रासाद में

श्री आदिनाथ के विंब तथा श्री अजितनाथ के प्रासाद में श्री अजितनाथ के विंबों की प्रतिष्ठा करके अर्बुदाचल में यात्रा करने को गये । और पीछे श्री शांतचंद्र उपाध्याय ने नवीन कृपारस कोश नामा ग्रन्थ बना के अकबर बादशाह को सुनाया, तिस के सुनने से बादशाह ने दया की बहुत वृद्धि करी । तिस का स्वरूप यह है—बादशाह के जन्म के दिन से एक मास अरु पर्युषणा के वारां दिन, तथा सर्व रविवार, तथा सर्वसंक्रांति के दिन, नवरोज का मास, सर्व ईद के दिन, तथा सर्व मिहर वासरा, सर्व सोफीग्रना दिन इत्यादि सब मिलकर एक वर्ष में छ महीने तक जीवहिंसा बंद कराई । तिस के फरमान लिखवाए, सो फरमान अबतक हमारे लोगों के पास हैं । इस में कुछ शंका नहीं कि श्री हीरविजय सूरि जी ने जैनमत की वृद्धि और उन्नति बहुत करी ? मुसलमानों को भी जिनों ने दयावान् करा । तथा स्थंभस्तीर्थ में संवत् १६४६ में स्थंभतीर्थवासी शा० तेजपाल के बनवाये मंदिर की प्रतिष्ठा करी ।

५६ श्री हीरविजय सूरि पट्टे श्री विजयसेन सूरि हुए,

इन का १६०४ में जन्म, १६१३ में माता पिता

श्रीविजयसेनसूरि सहित दीक्षा, १६२६ में पंडित पद, १६२८

में उपाध्याय पद पूर्वक आचार्य पद, १६५२

में भट्टारक पद, १६७१ में स्थंभतीर्थ में स्वर्गवास । जिन के

बेखहरख, अरु परमानद, इन दो शिष्यों ने अकर बादशाह के भेटे जहागीर को धर्म सुना के प्रतिबोधा और जहागीर बादशाह से फरमान कगया । तिस की नकल यह है ।

नूरुद्दीन महम्मद

जहागीर बादशाह

गाजी का फरमान

जहागीर की मोहर में बशावली

नूरुद्दीन महम्मद जहागीर बादशाह

अकर बादशाह

हुमायु बादशाह

बाबर बादशाह

मिरजा उमरखान

सुलतान अयुमईद

सुलतान मिरजामहम्मदशाह मीराशाह

अमीरतैमुर साहिब किरान

मेरे सर्व राज के विशेष करके गुजरात के सूबे, मोटे हाकिम तथा किरफायत करने वाले आमील तथा जागीरदार तथा करोरी तथा सब ग्यातों के कारखुनों को मालूम होवे कि जो परमेश्वर के पिछानने वाले लोक हैं, तिन का यह दस्तूर है, कि हर एक मत तथा कीम के लोक इतना ही नहीं बलिक सर्व जीव सुखी रहें । और अब बेखहरख तथा परमानद यतियों ने, दुनिया की रक्षा करने वालों के

दरवार में आकर तखत के पास खड़े रहने वालों से अरज करी, कि विजयसेन सूरि तथा विजयदेव सूरि और जो अच्छा बुद्धि वाले लोक हैं, तिन की हर एक जगे तथा हर एक शहर में देहरा अर्थात् जिनमंदिर तथा धर्मशाला हैं। तिन में ये लोक ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वेखहरख तथा परमानंद यति की परमेश्वर को राजी रखने की हकीकत हमने अच्छी तरें से जान लीनी है। तिस वास्ते दुनियां को तावे करने वाला हुकम हुआ कि किसी आदमी ने इन जैन लोगों के मन्दिर तथा धर्मशाला में उतरना नहीं, तथा कारण विना अड़चन नहीं करनी। और जेकर ये लोग फिर से नवा बनाना चाहै, तों तिन को किसी तरें की मनाई तथा हरकत नहीं करनी। और तिन के साधुओं के उपाश्रयों में किसी ने भी उतरना नहीं। और जो ये लोक सोरठ के मुलक में शत्रुजय तीर्थ की यात्रा करने वास्ते जावें, तो कोई भी आदमी तिन यात्रालुओं से कुछ न मांगे, लालच न करे।

और पूर्वोक्त वेखहरख अरु परमानंद यति की अरज तथा खाहिश ऊपर हुकम बड़ा भारी हुआ कि दर अठवाडे में रविवार तथा गुरुवार तथा दर महीने में शुदि पडिवा का रोज, तथा ईद के दिन, तथा दर वर्ष में नवरोज, तथा माह-शहरयुरमा जो हमारा सुवारक दिन है, तिन में एक एक

घर्ष के हिसाब प्रमाण मेरे सर्वे राज्य में किसी जीव की हिंसा न होवे। तथा शिकार करना तथा पक्षियों का पकड़ना, मारना तथा मछलियों का मारना, ये वद क्रिया जावे, तथा इस तरे के और भी काम इन पूर्वोक्त दिनों में न होने चाहिये। ये बात जरूर है, कि पूर्वोक्त हुकम प्रमाण हमारा चलाने की कोशिश करके मेरे फरमान के हुकम से कोई फिरे नहीं, विरुद्ध चले नहीं।

लिखा ता० माह सहरयुर में सन् ३ जुलसी। यह फरमान खानजहान् के चौपानिया तथा सेवक अलीतकी के वर्तमान पत्र में दाखल हुआ। तरजुमा करने वाला मुनशी सैयद अबदुलामीया साहिर उरैजी।

६० श्री विजयसेन सूरि पट्टे विजयदेव सूरि हुये, तिन का १६३४ में जन्म, १६४३ में दीक्षा, १६५५ में पंडित पद, १६५६ में उपाध्याय पद पूर्वक आचार्य पद, और १६८१ में स्यग हुआ।

६१ श्री विजयदेव सूरि पट्टे विजयसिंह सूरि हुये, तिन का १६४४ में जन्म, १६५४ में दीक्षा, १६७३ में वाचक पद, १६८२ में सूरि पद, और १७०८ में स्यग हुआ।

६२ श्री विजयसिंह तथा विजयदेव सूरि पट्टे विजयप्रभ सूरि हुये, तिन का १६७५ में जन्म, १६८२ में दीक्षा, १७०१

में पडित पद, १७१० में उपाध्याय पद, १७१३- में भट्टारक पद, १७४६ में स्वर्गगमन हुआ, इनों के समय में मुहवंधे ढूढियों का पंथ निकला, तिस की उत्पत्ति ऐसे है:—

सुरत नगर में वोहरा वीर जी साहुकार दशाश्रीमाली वसता था। तिस की फूला नामे चालविधवा ढूढक मत की एक वेटी थी। तिस ने एक लव जी नामा उत्पत्ति लड़का गोदी लिया। तिस लव जी को लुंके के उपाश्रय में पढ़ने वास्ते भेजा। तहां यतियों की संगत से वैराग्य उत्पन्न हुआ, और लुंके के यति वजरग जी का शिष्य हुआ। तव दो वर्ष पीछे अपने गुरु को कहने लगा कि जैसा शास्त्रों में साधु का आचार है, वैसा तुम क्यों नहीं पालते हो ? तव गुरु ने कहा कि पंचमकाल में शस्त्रोक्त सर्व क्रिया नहीं हो सकती है। तव लव जी ने कहा कि तुम भ्रष्टाचारी मेरे गुरु नहीं, मैं तो आप ही फिर से संयम लूंगा। इस तरें का क्लेश करके ऋषि लव जी ने लुंके मत की गुरु शिक्षा छोड़ के अपने साथ दो यति और लिए। तिस में एक का नाम भूणा, दूसरे का नाम सुख जी था। इन तीनों ही ने अपने को आप ही दीक्षित करा, और मुंह के ऊपर कपडे की पट्टी बांधी। तब इन का नवीन वेप देख के गामों में किसी श्रावक ने इन के रहने को जगान दीनी। तब यह उजडे हुये मकानों में जा रहे। गुजरात देश

में फूटे टूटे मकान को 'टूटे' कहते हैं, इस वास्ते लोगों ने इन का नाम टूटिये रक्खा। इन तीनों को नवे मत चलाने में बड़े बड़े क्लेश भोगने पड़े, परन्तु इन के त्याग को देव के कितनेक लुकेमती इन को मानने भी लगे। क्योंकि यह भेड़ चाल जगत में प्रसिद्ध है, और भोले लोक तो ऊपर की लूँछाँ फूफा देव के रागी हो जाते हैं। और गुजरात के बहुत लोक ऐसे हठ ग्राही हैं कि जो यात पकड लें, उस यात को बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, इसी वास्ते जैनमत में कई फिरके गुजरात देश से निकले हैं।

पीछे तिस लवजी का शिष्य अहमदाबाद के कालुपुरे का वासी ओसवाल सोमजी हुआ, तिस ने सूर्य अनुयायी शिष्य की आतपना ग्रहण करी। तिस के चेलों के नाम—१ हरिदास जी, २ प्रेम जी, ३ गिरधर जी, ४ कानजी प्रमुख और लुकेमती पुरर जी के चेले भी इनके शिष्य बने। तिनके नाम—१ श्रीपाल, २ अमीपाल, ३ धर्मसी, ४ हरजी, ५ जीवाजी, ६ समरथ, ७ तोडुजी, ८ मोहन जी, ९ सदानंद जी, १० गोधा जी थे। एक गुजरात का वासी धमदास छोपी ने मुण्डमुण्डा के मुख ऊपर पट्टी बांध के अपने आप को टूटिया साधु मण्डर किया। तिनमें हरिदास का चेला धुदावन हुआ, और धुदावन का चेला भुवानीदास

हुआ, और भुवानीदास का चेला लाहौर का वांसी मल्लूक-चन्द हुआ, मल्लूकचंद का महासिंघ, और महासिंघ का कुशालराय और कुशालराय का छजमल, और छजमल का रामलाल, और रामलाल के शिष्य रामरत्न और अमरसिंह, ये दोनों मैंने देखे हैं। अब इन दोनों के चेले वसंतराय, और रामवखरा वगैरे जीते हैं। ये पंजाब देश में आज फल फिरते हैं।

और जीवाजी का चेला लालचंद हुआ, लालचंद का अमरसिंह हुआ, सो मारवाड़ देश में आया। तिस के परिवार में नानक जी, जिनों के चेले अब अजमेर अरु कृष्णगढ़ के जिले में बहुत रहते हैं। और श्यामिदास जिनों के परिवार के कन्हीराम, लेखराज, तखतमल प्रमुख अब मारवाड़ में रहते हैं। और जो कोटेचूंदी में तथा मालवे में लालचंद, गणेश जी, गोविन्दराम जी हुये। तथा अमीचंद, हुकमचंद, उदयचंद, फतेचंद ज्ञान जी छगन, मगन, देवकरण अरु पन्ना-लाल प्रमुख फिरते हैं, ये भी हरिदास के ही चेले हैं। तथा अमरसिंह का चेला दीपचंद, दीपचंद का चेला धर्मदास, धर्मदास का जोगराज, जोगराज का हजारीमल्ल, हजारीमल्ल का लालजीराम, लालजीराम का गंगाराम, गंगाराम का जीव-नमल्ल, जो इस वक्त दिल्ली के आसपास के गामों में फिरते हैं। तथा अमरसिंह के परिवार में धनजी, मनजी, नाथुराम

अरु ताराचंदादि हुये हैं । जिनों के चेले रतीराम, नदलाल, हुये । नदलाल का चेला रूपचद, रूपचद का विहारी, जो कि पजाय में कोट, जगरावादि गामों में रहते हैं । तथा कान जी और धर्मदास छौपी के चेले में से दीपचद, गुपाल जी प्रमुख ये लौमडी, उद्गान, मोरवी, गोंडल, जैतपुर, राजकोट, अमरेली, धागधरा प्रमुख भाला घाड़, काठियावाड़, मछुकाठा प्रमुख देशों के गामों में फिरते रहते हैं । और धर्मदास छौपी का चेला धनाजी, धनाजी का भूदर जी, भूदर जी का रघुनाथ जी, जमल जी, गुमानचद, दुगादास, कन्हीराम, रत्नचद, हमीरमल्ल, कचौडी मल्ल प्रमुख जो अज मारवाड़ देश में रहते हैं सो प्रसिद्ध हैं ।

और रघुनाथ जी का चेला भीखम जी सवत् १८१८ में हुआ, जिस ने तेराहपथ निकाला । तिस के चेले भारमल, हमजी, रायचद, जीतमल्ल । जीतमल्ल की गद्दी ऊपर अज मेघ जी हैं । ये पट्टीवध जितने साधु हैं, इन का पन्थ सवत् १७०६ के साल से चला है । और इन का मत जय से निकला है, तय से लेकर आजपर्यंत इन क मत में कोई विद्वान् नहा हुआ है । क्योंकि य लोक कहते हैं कि व्याकरण, कोश, काव्य, छद्, अलकार, पढ़ने से तथा तर्कशास्त्र पढ़ने से बुद्धि मारी जाती है । इस वे इल्मी के ही समय से

अनेक अर्द्धन विद्वों की प्रतिष्ठा करी, और अनेक ग्राम नगरों में धर्म की वृद्धि करी, बड़े प्रभावक हुए। गणिकर्पूरविजय जी के दो शिष्य हुए—१. पण्डित वृद्धिविजय गणि, और २. पण्डित क्षमाविजयगणि।

पण्डित क्षमाविजयगणि के शिष्य पण्डित जिनविजय गणि, तिन का शिष्य पण्डित उत्तमविजय श्रीक्षमाविजयगणि गणि, तिन का शिष्य पण्डित पद्मविजयगणि, श्रीशिष्यपरम्परा तिन का शिष्य पण्डित रूपविजयगणि, तिनका शिष्य पण्डित कीर्तिविजयगणि, तिन का शिष्य पण्डित कस्तूर विजय गणि, तिनका शिष्य मुनिमणि विजय गणि, तिनका शिष्य मुनि बुद्धिविजय गणि, तिन का शिष्य पण्डित मुक्तिविजय गणि, तिनों के हाथ का दीक्षित लघु गुरु भ्राता इस जैनतत्त्वादर्श ग्रन्थ के लिखने वाला मुनि आत्माराम—आनन्दविजय नामक है।

अब इस ग्रन्थ के लिखने वाले के समय में इतने नवीन-पंथ निकले हैं, सो लिखते हैं—गुजरात देश लेखककालीन मत में स्वामीनारायण का पंथ, और बंगाल देश में ब्रह्मसमाजजियों का पंथ। और पंजाब देश में लुधियाने से दश कोस के अन्तरे एक भयणी नामा गाम है, तिस में रहने वाला जाति का तरखान सिक्ख, तिस

के उपदेश से कृका नामक पथ, और कोइल में मौलवी अहमदशाह का नवीन फिरका, तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निकाला आर्यसमाज का पथ, इत्यादि अनेक मत पुराने मतों को छोड़ के निकाले हैं । क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि समान प्राचीनों के करे पुस्तक तथा वेदायों को नहीं समझा । जेकर इसी तरे नवीन नवीन मत निकलते रहें तो कुछ एक दिन में ब्राह्मणादि मताधिकारियों की रोजी मारी जायगी, और धर्म अथ नियम किसी किसी का कायम रहेगा ।

इति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि

आनंदविजय—आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादशे

द्वादश परिच्छेद सपूर्ण





शब्दकोष

कठिन, प्रान्तीय और पारिभाषिक शब्दों का अर्थ

अ

अगलूहना पा० जिनप्रतिमा का
पूजन का यन्त्र

अजगी या उ कर दाघ जाड़ का
अर्थ पा० आम

अगुया-अगाड़ी करे आम कर

अचित्त पा० जासहित

अटकाव रकाव

अटिगपने निदरमता ।

अदहा रमी जिगे अति जला
नहीं मकती

अनविन्या जिग का पहिउ रिबर
न बिग हो

अनिप्रमणीय अण्डन क अयोग्य

अनापीये त्यागन योग्य

अनेउर गहन

अपत्किमित गृहा अदि ग रति

अप्यून अशाम

अयधि यान रति

अमारी दढेरा दिमा न करन का
पायणा करना

अत्सुपत्सु जग पीम

अयक्यपरिहार जिगे दुग नहीं
का मकन

आ

आइशर कता गुनना (गति हो०)

आगर बन

आगर ए

आपीण अदर करन योग्य

आरात्रिक भागी

आलेगा गना, बनाना

आलोये-आगेये पधल्ल-अय
पित ४४

आयना अर बन, अदी

इ

इजारे टैका, किराया

ई

ईष्टपत्रावा आवा

ईपत्र थोडा

उ

उवराणी गु० उगाही

उघाड़ा गु० सुला

उच्चार पा० विशा

उतावल गु० जल्दी

उलांभा प० उपालम्भ

ऊ

ऊंडा गु० गहरा

ऊंवियां गेहूं के भुने हुए मिठे

ए

एक वारगी एक ही वार

ओ

ओसामण गु० दाल का गर्म

किया हुआ पानी ।

क

कंगवा पा० आकाचा

कंडे प० वाटे

कमोचरा कमती बढती, थोडा

बहुत

कर्णिका कमल का मध्य भाग

कर हाथ

करार नियत किया हुआ समय

करावने कगने

कल्पना उचित—योग्य होना

काजा गु० कूडा कचरा

कार्मण मन्त्र, जादू

कूड़ी झठी

कौल प्रतिज्ञा

ख

खरची भाता आदि

खाड़ा गु० गढा

खेल खंखार धूक आदि

खोटी बुरी

ग

गंभारा पा० जिस कमरे में जिन-

ज्ञाता सूत्र	न्यायकुमुदचन्द्र
तत्त्वगीता	न्यायकुसुमांजली
तत्त्वार्थभाष्य	न्यायसार
तत्त्वार्थमहाभाष्य	न्यायसूत्र
तौरेत	न्यायभाष्य
त्रैसदशलाकापुरुष चरित्र	न्यायवार्तिक
दर्शनशुद्धि	न्यायतात्पर्यटीका
दशवेकालिक	न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि
द्वादशारनयचक्र	न्यायालंकार
धनंजयकोश	न्यायावतार
धर्मसंग्रहणी	पद्मचरित्र
धर्मरत्नप्रकरण	पद्मवणा (प्रज्ञापना) वृत्ति
ध्यानशतक	पंचकल्पचूर्णि
नवतत्त्व	पंचलिंगी
नवतत्त्वप्रकरण-टीका	पंचवस्तुक
नवतत्त्वप्रकरणभाष्य	पंचाशक
नंदी सूत्र	परिशिष्टपर्व
निशीथ	पाश्वर्षपुराण
निशीथभाष्यचूर्णि	पाराशरस्मृति
निरयाचली	पिंडनिर्युक्ति
न्यायकलिका	पिंडविशुद्धि
	पूजाप्रकरण

पूजाविधि	महानिशीयसूत्र
पूजापीडश	महाभाष्य
प्रतिष्ठा मूल्य	महावीरचरित्र
प्रतिष्ठाकल्पपद्धति	मिथ्यात्यसत्तरी
प्रबन्धवितामणि	मूलायदयक
प्रभावकचरित्र	यजुषद्
प्रमाणपरीक्षा	योगशास्त्र
प्रमाणमीमांसा	योनिप्राभृत
प्रमथकमलमातण्ड	राजप्रदर्शय
प्रथमनमारोचार्	रामायण ('त्रय)
प्रशस्तकरभाष्य	ललितविस्तरा
प्रज्ञापना सूत्र	लागवती टीका
शुद्धस्वभाष्यवृत्ति	पद्मपुराणद्विती
शुद्धतुष्टानिस्तोत्र	शङ्खमहालय
शामरुद्रोत्र	शिवशिविलास
श्रद्धादुसहिना	शिवरत्नपदी
शिवतीर्थसूत्र वृत्ति	शिवोपायपद्क
शिवश्रीता	शिष्टुतानि चन्द्रोदय
शुभाहस्तनामचक्र	शारदाचरित्र
स पुष्पवृत्ति	शङ्करिकसूत्र
महाशक्तिसूत्र	शिवशक्तिसूत्रभाष्य

भा प्रनिवृत्त है ।

फ

फनीना अरमान

फट उर्ही अलग न हो

फरमान आग

फराना फलाने प० अमुक

घ

उगडीकार घगल बनान वाला

घडेरा उव पुरुष

घधिया मन्गी

घलद प० बल

घहान कायम

घहमोली बहुत मूय वाला

घिडालनेत्री बिग का तरह आंग

बालो

धीड दाता क समुदाय

ब हन्मी मूयता

वेग पा० दा प्रव

भ

भंडी निदा

भनार स्वामी, पति

भयाभिनदी ममार को बदान वाला

भाग्या दुआ तोन पाग आ

भाड बहन

भागना भापन करना करना

भाजन पात्र बान

भित्पहरी भाला का गोद

म

मजी प० राग्पाइ

मदा क मदा रा

मण्डाण ममागाह

मथन घाली नट करन वाला

मथप मदिग पान वाला शराबी,

मनरा इटा

मनमूरा इरादा

माणम गु० मनुय आदमा

मादा गु० रोगा

मापे मे पारिमाण म

माहण माहण

मुकरना प० नवाना, अस्वीकार

करना

मुपरता बानालता अधिक बोलना

मूजव अनुसार

र

रजा गु० छुट्टी
रसवती रसोई, भोजन सामग्री
राजी प्रमन्न
रीते रिक्त, खाली
रुडहाते हो गिराते हो
रैयत प्रजा
रौला शोर

ल

लंघा कर विता कर
लांच घूम, रिश्वत
लूहे पूछे
लेखे हिसाब
ले लीजो गु० ले लेना
लौल्य लालच

व

वधना वढना
वहना वहना, चलना, धारण करना
वांकी टेढी

वाचना पढना
वाजवी उचित,
वाम, वामा वाया
वासन वर्तन, पात्र
व्यामोह सन्देह
विचली प० बीच को
विछड़ के विछुड़ कर
विरति पा० समय
विसरना भूलना
विसवा भाग विशेष
विसारना भुलाना
व्रीहि चावल
वेला समय

स

संक्रमण हो जाता है भ्रष्ट हो
जाता है
संभ्रम संयुक्त उत्साह युक्त
संसार जलधि संसार समुद्र
सचित्त जीव सहित
सबव कारण
समराना संवारना, साफ करना

समारो ठीक करो
 सरता नहीं चलता नहीं
 सरणा पा० शरण
 सरसाई सरमता, नमो
 साय साची, गवाही
 साढ़पोरसी डेढ प्रहर का प्रत्या
 रयान
 सार्थगाह सा थि, रथ पलानेवाला
 साय्य पापयुक्त
 सिंघाण नाक का मल
 सीद्धते नष्ट होते, पतित होते
 सुपाली आसन, सुविधाजनक
 सुरती बुद्धि

मेकना भेकना, गम करना
 मेती मे
 सौवन सौतिन पति की दुमरी स्त्री
 ह
 हरकत नुस्खान, बाधा
 हाथ के आवत मे हाथ पर गिनने
 से
 हाट दुकान
 हाड हठी
 हाले चाले हिले जुड़े
 हिकमत चतुरता
 हेडले निचले
 हेय त्याज्य, छोड़ने योग्य



जैन पारिभाषिक शब्द

अ

- अगलूहणा (-ना) ११६, २०४
अतिचार १८, ५३, १३६
अतिथिसंविभाग व्रत १५३
अदत्तादानविमरण ६०
अनर्थदण्डवि० १२८
अनुमोदना १५६
अनुयोग ३५
अवसर्पिणी ३६०
अष्टापद ४१०

आ

- आंगीरचना २००
आकांक्षा अतिचार ३६
आगार १७, ४१
आचाम्ल १४८
आचार्य ५
आरंभ (हिंसा) ४८
आरे १६, ३६०
आर्तध्यान १२६
आशातना १७, २३९

इ

- इंगाल कर्म १२१

उ

- उत्सर्पिणी ३६०
उपकरण १४८
उपाध्याय ६

क

- कर्मादान १२१
कायोत्सर्ग २, २१०
कालचक्र ३६०

- कुलकर ३६२
कुवाणिलय १२२, १२३, १२४
केवलज्ञान ३७६

ख

- खादिम १७५

ग

- गच्छ २२२
गीतार्थ ३२७

पारिभाषिक शब्द

गुणव्रत ७६ ।

गुणस्थान १३

गुरु २०८

गृहली ३१८

ग्रन्थि १८३

च

चउप्रिहार ११४

चतुर्विधसद्य ८

चरवला १८१

चारित्र ४५

चतुर्वन्दन २०५

चौधीसी २०४

छ

छ छडी ४३

छन्नस्थ २१०-२७७

ज

जघन्य १०८, १५६, २०७

जयणा ४८, ७४

जिनविम्ब २

जीतकटप ३६६

त

तिचिहार ११४

त्रिकरण ४८

तीर्थकर नामकर्म ८

तीन तत्त्व १

थ

थावर ४८

द

दिक्परिमाण व्रत ७७

दिवसचरिम २०८

दिशावकाशिक व्रत १४३

दुविहार १८, ११४

दुपमकाल ११०

देवकुलिक १२९

देहरा, देहरामर २१९

न

नय १३

नजतत्त्व १६

निकाचित ८

निक्षेप १

निगोद २२
निर्माल्य १९९
निर्युक्ति १३
निवीता ११७
निश्चाकृत २२२
निन्हव ४७०

प

पंचतीर्था २०४
परिग्रहपरिमाण व्रत ७०
पर्याप्ति १४
पल्योपम ३६१
पूर्व २२, ३६६
पौषध १४
प्रतिक्रमण-पडिक्रमण २०८
प्रत्याख्यान १८, १८२, १८३
प्रशंसा ४०
प्राणातिपातविरमण ४५
प्राशुक १७७

फ

फोडी कर्म १२१

व

वादर ४८

भ

भवपरिणति ६६
भाडी कर्म १२१
भोगोपभोग व्रत ७८

म

महाविगय ११७
मांडली ३१८
महाख्य २०५
मिथ्यादृष्टि ४१
मृषावादविरमण ५५
मैथुन वि० ६५
रौद्रध्यान १३२

ल

लेश्या ५५

व

वनकर्म १२१
विगय ११७, ३१९

विचिकित्सा ३७
 विसवा ४७
 वैक्रियलब्धि ४३६

श

शका १८
 शिञ्जावन १३८

स

सयारा ३७६
 समवसरण ३७६
 सम्यक्त्य १

सम्यग्दर्शन १
 सागरोपम १६८, ३६०
 साडी कर्म १२१
 साता १४
 साधु ६
 सामाय कर्म १२४, १२५
 सामायिक व्रत १३८
 सारूपी ३२८
 स्यादिम १७५
 सिद्ध ६
 सीमधर ८

परिशिष्ट नं० २-घ

[पृ० ३०]

वेद के कल्पित अर्थ

वर्तमान आर्यसमाज के जन्मदाता स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने वेदमंत्रों के अर्थ करने में जो खैचातानी की है, और मंत्रों के क्रम तथा पूर्वोत्तर संबन्ध की अवहेलना करते हुए उन के साथ जो अन्याय किया है, उस का उदाहरण अन्यत्र मिलता बहुत कठिन है । एवं कहीं कहीं पर तो वेदमन्त्रों के अर्थ का अनर्थ करते हुए आपने मनुष्यत्व का भी बड़ी निर्दयता के साथ घात किया है । उदाहरणार्थ इस समय सिर्फ दो मंत्र उद्धृत किये जाते हैं ।

नियोग के सिद्धान्त को वैदिक सिद्ध करने के लिये आप ने ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकार में कई एक वेदमन्त्रों का उल्लेख किया है. उन में से इस समय केवल—

(१) इमां त्वमिन्द्रमीदृः सुपुत्रां सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥

[ऋ० मं० १०. सू० ८५, मं० ४५]

(२) अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ।

[ऋ० मं० १० सू० १० मं० १०]

इन दो मंत्रों के अर्थ पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

१—(इमा) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इन्द्र ! पने । ऐश्वर्ययुक्त । तू इस स्त्री को वीर्यदान देने के सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर । हे वीर्यप्रद ! (दशास्या पुत्रा नाधेहि) पुरुष के प्रति वेद की आज्ञा है कि इस विवाहित या नियोजित स्त्री में दश सप्ताह पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं । (पतिमेकादश वृषि) तथा हे स्त्री ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर । अर्थात् एक तो उन में प्रथम विवाहित और दश पय १ नियोग के पति कर अधिक नहीं* ।

इस की यह समस्या है कि विवाहित पति के मरण या रोगी होने में दूसरे पुरुष के साथ मतानों के अभाव में नियोग पर, तथा दूसरे के भी मरण या रोगी होने के अनन्तर तीसरे के साथ कर ले, इसी प्रकार न्यून तक करने की आज्ञा है ।

[ऋ० भा० भू० पृ० २३२, स० १९८५]

१ ह (मातु इन्द्र) वीर्य नयन में ममर्ष ऐश्वर्ययुक्त पुत्र, तू इस विवाहित स्त्री का विधवा स्थिती का अष्ट पुत्र और सौभाग्य युक्त कर । विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न का और ग्यास्या स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष का नियुक्त पुरुष में दश मतान उत्पन्न कर, ग्यासे पति तो ममत्त ।

[ग्या० ग० ४, पृ० ६६-७०, ग० १६६०]

२—जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यमे) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर । क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी ।

इन दोनों मंत्रों का स्वामी जी ने जो अर्थ किया है, तथा उसी अर्थ के आधार पर ऊपर दी हुई जो स्वतंत्र व्याख्या की है, उस से संसार भर का शायद ही कोई तटस्थ विद्वान् सहमत हो सके। अस्तु अब हम स्वयं इन मन्त्रों के वास्तविक-यथार्थ अर्थ के विषय में कुछ भी न कहते हुए आर्य समाज के ही एक प्रतिष्ठित विद्वान् के द्वारा किये गये उक्त दोनों मन्त्रों का अर्थ यहां पर उद्धृत किये देते हैं, जिस से कि पाठकों को सत्यासत्य के निर्णय करने में अधिक सुविधा हो ।

(१) [इन्द्रमीद्वः] हे परमेश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर्यदाता परमात्मन् ! हे अनन्त सम्पत्तियों को प्रजाओं में सींचने वाले परम पिता जगदीश ! [त्वं इमां सुपुत्रां सुभगां कृणु] तू इस बधु को सुपुत्रवती और सौभाग्यवती बना [अस्यां दश पुत्रान् आधेहि] इस के गर्भ में दश पुत्र स्थापित कर, [पतिमेकादशं कृधि] पति को ग्यारवे कर अर्थात् इस स्त्री के दश उत्कृष्ट सन्तान और ग्यारवां पति जैसे होय, वैसा उपाय कर ।

[वैदिक इतिहासार्थनिर्णय पृ० ४१२]

ज्ञाता सूत्र
 तत्त्वगीता
 तत्त्वार्थभाष्य
 तत्त्वार्थमहाभाष्य
 तौरेत
 त्रेसठशलाकापुरुष चरित्र
 दर्शनशुद्धि
 दशवैकालिक
 द्वादशारनयचक्र
 धनंजयकोश
 धर्मसंग्रहणी
 धर्मरत्नप्रकरण
 ध्यानशतक
 नवतत्त्व
 नवतत्त्वप्रकरण-टीका
 नवतत्त्वप्रकरणभाष्य
 नंदी सूत्र
 निशीथ
 निशीथभाष्यचूर्णि.
 निरयावली
 न्यायकलिका

न्यायकुमुदचन्द्र
 न्यायकुसुमांजली
 न्यायसार
 न्यायसूत्र
 न्यायभाष्य
 न्यायवार्तिक
 न्यायतात्पर्यटीका
 न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि
 न्यायालंकार
 न्यायावतार
 पद्मचरित्र
 पद्मवणा (प्रज्ञापना) वृत्ति
 पंचकल्पचूर्णि
 पंचलिंगी
 पंचवस्तुक
 पंचाशक
 परिशिष्टपर्व
 पार्श्वपुराण
 पाराशरस्मृति
 पिंडनिर्युक्ति
 पिंडविशुद्धि
 पूजाप्रकरण

व्योममनीटीका

शंकरदिग्विजय

शत्रुञ्जयमाहात्म्य

शावरभाष्य

शास्त्रवार्तासमुच्चय

शीलतरङ्गिणी

श्राद्धजीतकल्पसूत्र

श्राद्धदिनकृत्य

श्राद्धविधि

श्रावककौमुदी

श्रावकदिनकृत्य

श्रावकप्रज्ञप्ति

श्रावकविधि

षड्दर्शनसमुच्चय

षड्दर्शन की बड़ी टीका

याष्टितन्त्र

पोडशक

संघयण

संघाचारवृत्ति

सम्यक्त्वप्रकरण

सम्यक्त्वपच्चीसी

समरादिन्यत्ररित्र

समवायाद्ग

सम्मतिनर्क

सांख्यसप्तति

सामवेद

सिद्धपंचाशिका

सिद्धप्राभृत

सिद्धहैमव्याकरण

सूत्रकृताद्ग सिद्धान्त

सूर्यप्रज्ञप्ति

सोमनीति

स्कंदपुराण

स्थानांग सूत्र

स्याद्वादकल्पलता

स्याद्वादमञ्जरी

स्याद्वादरत्नाकर

स्याद्वादरत्नाकरावतारिका

स्वप्नचिन्तामणि



शुद्धिपत्रक

— ० —

प्रष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	१५	भत्केरी	अहेशी
२०	१०	सापेक	सापेक्ष
२४	१	तब ता	तब तो
४८	८	दया पतली	दया पलनी
५८	७	चुठ	झूठ
६०	८	स्वरूप	स्वरूप
६१	१७	सपूर्ण से रीति	संपूर्ण रीति से
६६	१४	तीर्यचनी	तिर्यचनी
६६	२०	त्याग	त्याग
६०	२	जनता	जानता
१०४	३	शलो०	श्लो०
१०५	१७	ावबु	विदु
११६	२२	टत्त्व्यार	द्रव्यान्तर
१२०	०	अदमियों	आदमियों
१२६	१	धायक	धायक
१३०	१०	दुआ	दुआ
१४५	१२	भाग	अग्र
१७४	१६	तदा लन	तदा लग
१७५	८	घम्ने	घाम्ने

घृष्ट	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७५	२०	स्वतु	वस्तु
१८५	१७	गृहथ	गृहस्थ
१८२	१२	तव	तव
२०२	७	विंवस्स	विंवस्स
२३३	१८	जिन गन्दि	जिनमन्दिर
२४०	५	सत्सूत्र	उत्सूत्र
२६२	२०	धर्मारभे	धर्मारभे
२६३	२२	णया-	पुण्या-
२८५	७	व्यवहार	व्यवहार
२८८	२	स्त्रि	स्त्री
३०४	३	संत्सरीकृत्य	संवत्सरीकृत्य
३१७	१८	अतिथिसविभाग	अतिथिसंविभाग
३२२	६	सप्रति	संप्रति
३२९	१०	मालोद्धट्टन	मालोद्धट्टन
३२५	१६	पुष्पगृह	पुष्पगृह
३२६	५	पंचपरनेष्टी	पंचपरमेष्टी
३२८	१०	आचार्यादि	आचार्यादि
३३१	१४	धमशील	धर्मशील
३३२	७	ऋपभपुर	ऋपभपुर
३३२	१७	कुकर्मी	कुकर्मी
३३३	८	स्पर्श	स्पर्श

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३४२	७	फूल से सी	फूल से भी
३४७	१७	पृथ्व	पृथ्वी
३५२	२०	हाव	होवे
३५३	२२	अस्यडित	अग्रण्डित
३५५	१	घत्त	वत्त
"	२	दा	दो
३६५	२२	अर्थात्	अर्थात्
३६८	१३	भानाप्रानादि	ज्ञानवानादि
३७१	१	स्निग्ध	स्निग्ध
३७५	७	सागप्री	सामप्री
३६०	५	उपनिद्	उपनिपद्
३६१	१	घाला	घाली
३६६	१	मारे के	मार क
४०६	१०	पुरूगा	फरूगा
४३३	०२	सयराज	सयराज
४४१	४	यठ	घैठ
४४३	४	गणधरादि	गणधरादि
४६८	१०	घड़ा	घड़ा
४६८	००	शि ॥	शिया
४५१	१४	पिंजरे म	पिंजरे में
४५०	१०	सिंहमनादि	सिंहामनादि

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४५८	१५	प्रसिद्ध हू	प्रसिद्ध हूं
४६०	७	महीं	नहीं
४७७	२२	।जन प्रतिमा	जिनप्रतिमा
४९०	२	मार्गणोधः	मार्गणौघः
"	१६	वार वार	बार बार
४६१	११	व र्	वर्ष
४६२	१२	व र्	वर्ष
४६४	१३	ते र्	तेतीस
५०४	१८	मणिरत्नमूरि	मणिरत्नसूरि
५०६	११	रहत था	रहता था
"	१६	तव । मन्त्री	। तव मंत्री
५०७	२२	विद्यानंद सुरि	विद्यानंद सूरि
५०८	१६	भी देवेंद्र	श्री देवेंद्र
५२४	१	पंचमी दिन के	पंचमी के दिन
५२६	३	में	में
५३१	२	श्वेतांबर	श्वेतांबर
५३४	२	जो अच्छा	जो अच्छी
५४१	९	भंडा	झंडा
५४२	१	विबों	विबों
५४२	१८	ब्रह्मसमाजजियों	ब्रह्मसमाजियों

आचार्य श्री के ग्रंथों की सूची



न०	नाम पुस्तक	आरम्भसंवत् और स्थान	समाप्तिसंवत् और स्थान
१	नयतत्त्व	१९२४ विनौली	१९२५ वडौत
२	जैनतत्त्वादर्श	१९३७ गुजरावाला	१९५८ होशियारपुर
३	अज्ञानतिमिरभास्कर	१९३६ अम्बाला	१९४२ खभात
४	सम्यक्त्वशाल्योद्धार	१९४१ अहमदाबाद	१९४१ अहमदाबाद
५	जैनमतवृक्ष	१९४२ सूरत	१९४२ सूरत
६	चतुर्थस्तुतिनिणय भाग प्रथम	१९४४ राधनपुर	१९४४ राधनपुर
७	प्रश्नोत्तरावली	१९४५ पालनपुर	१९४५ पालनपुर
८	चतुर्थस्तुतिनिणय भाग दूसरा	१९४८ पट्टी	१९४८ पट्टी
९	त्रिकागोप्रश्नोत्तर	१९४९ अमृतसर	१९४९ अमृतसर
१०	तत्त्वनिणयप्रासाद	१९५१ जीरा	१९५१ गुजराव
११	ईसाईमतसमीक्षा		
१२	जैनधर्म का स्वरूप		

पूजायें तथा भजन *

१३	आत्मभावनी	१६२७	विनौली	१६२७	विनौली
१४	स्नवनावली	१६३०	अम्बाला	१६३०	अम्बाला
१५	सतराभेदी पूजा	१६३६	अम्बाला	१६३६	अम्बाला
१६	शीखस्थानक पूजा	१६४०	वीकानेर	१६४०	वीकानेर
१७	अष्टप्रकारी पूजा	१६४३	पालीताना	१६४३	पालीताना
१८	नवपद पूजा	१६४८	पट्टी	१६४८	पट्टी
१९	नाथ पूजा	१६५०	जंडियालागुरु	१६५०	जंडियालागुरु

पूजायें व भजन "पूजायें" * आत्मस्नवनावली" आदि के नाम ग छप चुकी हैं ।

